

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

७१५

क्रम संख्या

काल नं०

खण्ड

२८४

कोशिल



मखादेव जातक (६)

जातक

[प्रथम खण्ड]

भदन्त आनन्द कौसल्यायन

प्रकाशक

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

प्रकाशक
हिन्दी साहित्य सम्मेलन
प्रयाग

सर्वाधिकार सुरक्षित
मूल्य ५)

मुद्रक—जे० के० शर्मा
इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस
इलाहाबाद

प्रथम परिचय के दिन से ही
मेरे
परम श्रद्धाभाजन
वर्तमान
सरकार द्वारा नजरबन्द
राहुल सांकृत्यायन
को

वस्तु कथा

पालि वाङ्मय में तिपिटक (त्रिपिटक) का विस्तार इस प्रकार है^१—

१. सुत्तपिटक, निम्नलिखित पाँच निकायों में विभक्त है—

(१) दीघनिकाय, (२) मज्झिमनिकाय, (३) संयुत्तनिकाय, (४) अंगुत्तरनिकाय, (५) खुद्कनिकाय ।

खुद्कनिकाय के १५ ग्रन्थ हैं—

(१) खुद्कपाठ, (२) धम्मपद, (३) उदान, (४) इतिवृत्तक, (५) सुत्तनिपात, (६) विमानवत्थु, (७) पेतवत्थु, (८) धेरगाथा, (९) धेरी गाथा, (१०) जातक, (११) निद्देस, (१२) पटिसम्भिमदामग्ग, (१३) अपदान, (१४) बुद्धवंस, (१५) चरियापिटक ।

२. विनयपिटक निम्नलिखित भागों में विभक्त है—

(१) महावग्ग, (२) चुल्लवग्ग, (३) पाराजिका, (४) पाचिस्सि-यादि, (५) परिवार पाठ ।

३. अभिधम्मपिटक में सात ग्रन्थ हैं—

(१) धम्मसंगणि, (२) विभंग, (३) धातुकथा, (४) पुग्गल पञ्जत्ति, (५) कथावत्थु, (६) यमक, (७) पट्टान ।

आचार्य्य बुद्धघोष के समय तक अर्थात् चौथी पाँचवी शताब्दी ई० में इन सब ग्रन्थों अथवा इन ग्रन्थों में से लिए गए उद्धरणों के लिए 'पालि' शब्द व्यवहृत होता था । आचार्य्य बुद्धघोष ने इन ग्रन्थों में से जहाँ कहीं कोई उद्धरण लिया है वहाँ 'अयमेत्थ पालि' (यहाँ यह पालि है) वा 'पालियं वुत्त' (पालि में कहा गया है) का प्रयोग किया है । जिस प्रकार पाणिनि ने 'छन्दसि' शब्द

^१ सुमङ्गल विलासिनी (दीघनिकाय अट्टकथा) की निदान कथा ।

से वेदों का तथा 'भाषायाम्' से तत्कालीन प्रचलित संस्कृत का उल्लेख किया है, उसी प्रकार आचार्य्य बुद्धघोष ने 'पालियं' से तिपिटक वा मूलवचन को तथा 'अट्टकथायं' से उनके समय में सिंहल द्वीप में विद्यमान सिंहल अट्टकथाओं को याद किया है ।

अट्टकथा वा अर्थकथा का मतलब है अर्थ सहित कथा । तिपिटक को समझने के लिए भाष्य की आवश्यकता पड़ती थी । कहा जाता है कि महेन्द्र स्थविर जब बुद्ध शासन की स्थापना करने के लिए सिंहल गए, तब वे तिपिटक के साथ उसकी अर्थकथाएँ भी ले गए थे ।^१ हो सकता है कि अट्टकथाओं की रचना तो सिंहल में ही हुई हो; लेकिन उनको अधिक प्राचीन बनाने के लिए महेन्द्र से उनका सम्बन्ध जोड़ दिया गया हो । आरम्भ में तिपिटक के सूत्रों को समझाने के लिए उनके अर्थों को अधिक स्पष्ट करने के लिए उनके साथ कथाएँ कहने की भी परिपाटी रही होगी; जिन्हें पीछे लेख-बद्ध कर लिया गया ।

सिंहल अर्थकथाओं का पीछे आचार्य्य बुद्धघोष द्वारा पालि रूपान्तर हुआ । सिंहल में वे केवल सिंहल वासियों के काम की थीं; पालि में होने से वह अन्य देशवासियों के लिए भी उपयोगी हुईं । वे रूपान्तर इतने सुन्दर बने कि उनका आदर तिपिटक के समान होने लगा ।^२

'पालि' असल में किसी भाषा का नाम नहीं रहा है । भाषा का नाम तो रहा है मागधी । पालि तो केवल मूल-वचन का पर्यायवाची शब्द रहा है ।

जो अर्थकथाएँ इस समय उपलब्ध हैं, वे इस प्रकार हैं—

- | | |
|--------------------|------------------|
| १. समन्त पासादिका | विनय अट्टकथा । |
| २. सुमङ्गलविलासिनी | दीघनिकाय अट्टकथा |

^१ बुद्ध घोष कुत चारों निकायों की अट्टकथाओं में आरम्भ में ही इस प्रकार आता है—

सीहलदीपं पन आभता वसिना महामहिन्देन,
ठपिता सीहलभासाय वीपवासीनमत्थाय ।

^२ पालि विद्य तम्मागुं (महावंस) ।

- | | |
|--|------------------------|
| ३. पपंच सूदिनी | मज्झिम निकाय अट्टकथा |
| ४. सारत्थ पकासिनी | संयुत्त निकाय अट्टकथा |
| ५. मनोरथ पूरिणी | अंगुत्तर निकाय अट्टकथा |
| ६. खुट्टकनिकाय के ग्रन्थों पर भिन्न भिन्न नामों से अट्टकथाएँ | |
| ७. अट्ट सालिनी | धम्मसंगणि पर अट्टकथा |
| ८. सम्मोह विनोदनी | विभंग अट्टकथा |
| ९. पञ्चप्यकरण अट्टकथा जिसमें निम्नलिखित पाँच अट्टकथाएँ हैं— | |

- (१) धातुकथाप्यकरण अट्टकथा
- (२) पुगल पञ्जत्तिप्यकरण अट्टकथा
- (३) कथावत्थु अट्टकथा
- (४) यमकप्यकरण अट्टकथा
- (५) पट्टानप्यकरण अट्टकथा ।

ऊपर जो तिपिटक का वर्गीकरण दिया है, अट्टकथाचार्य्यों का मत है कि वह राजगृह में हुई प्रथम संगीति के अनुसार है । उनका कहना है कि भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद सुभद्र भिक्षु ने भिक्षुओं को सान्त्वना देते हुए कहा कि “आवुसो ! मत शोक करो । मत रोओ ! हम मुक्त हो गए । उस महाश्रमण से पीड़ित रहा करते थे कि यह करो और यह न करो । अब हम जो चाहेंगे करेंगे, जो नहीं चाहेंगे उसे नहीं करेंगे ।”^१ तब महाकश्यप स्थविर को भय हुआ कि कहीं सद्धर्म का अन्तर्धान न हो जाय । उसके रक्षार्थ उन्होंने पाँच सौ अर्हंत भिक्षुओं की एक संगीति बुलाई । उस संगीति में पहले उपालि महास्थविर से पृथक्कर विनय का संगायन हुआ और बाद में आनन्द महास्थविर से सुत्त और अभिधम्म पिटक पूछा गया । एक मत है कि जातक, महानिद्देस, चुल्ल निद्देस, पटिसम्भिदाम्मग, सुत्तनिपात, धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, विमानवत्थु, पेतवत्थु, धेरगाथा तथा धेरीगाथा अभिधम्मपिटक के अन्तर्गत संगृहीत हुए । दूसरा मत है ये ग्रन्थ तथा चरिया-पिटक, अपदान और बुद्धवंस मिलकर खुट्टक-

^१ देखो चुल्लवग्ग वंशशतिका स्कन्धक (राहुल सांकृत्यायन द्वारः हिन्दी में अनूदित) ।

निकाय के नाम से सुत्तन्त पिटक के अन्तर्गत गिने गए ।^१

लेकिन प्रथम संगीति का जो वर्णन चुल्लवग्ग में आया है, उस वर्णन में कही तिपिटक का जिक्र नहीं। और तो क्या पिटक शब्द ही नहीं। उस समय 'धम्म और विनय' का संगायन हुआ था। 'धम्म और विनय' के अन्तर्गत टीक कितना वाङ्मय रहा, कहना कठिन है। तो भी जब चुल्लवग्ग में द्वितीय संगीति का विस्तृत वर्णन मिलता है तो इतना तो कह ही सकते हैं कि प्रथम संगीति में सारे चुल्लवग्ग का संगायन (=पाठ) नहीं हुआ।

ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक काल पर्यन्त बुद्धवचन के दो ही विभाग रहे—धम्म और विनय तथा उस समय तक तिपिटक के ग्रन्थों की रचना होती रही। अभिधम्मपिटक के एक ग्रन्थ—कथावत्थु—के रचयिता स्पष्ट ही अशोकगुरु मोग्गलिपुत्त तिस्स स्थविर थे ।^२

बुद्धवचन का एक प्राचीन वर्गीकरण स्वयं तिपिटक में है। उसके अनुसार बुद्धवचन इन नौ भागों में विभक्त है—

(१) सुत्त, यह शब्द सूत्र तथा सूक्त दोनों संस्कृत शब्दों का रूपान्तर समझा जाता है। कुछ लोगों ने पालि सुत्त को सूत्र कहा है। दूसरों ने आपत्ति की है—क्योंकि यह पाणिनि के व्याकरण सूत्रों की तरह छोटे आकार के नहीं हैं, इसलिए इन्हें सूत्र न कह कर सूक्त कहना चाहिए, जैसे वेद के सूक्त।

संस्कृत बौद्ध साहित्य में सुत्तों को सूत्र ही कहा गया है। इतर संस्कृत साहित्य में भी आश्वलायन सूत्र आदि गृह्य सूत्रों से अपेक्षाकृत समान होने के कारण सुत्तों को सूत्र कहना ही ठीक होगा। अंगुत्तर निकाय के एकक निपात आदि में जो छोटे छोटे बुद्ध-वचन हैं, वे ही वास्तव में प्राचीन सूत्र हैं। और जिन सूत्रों को सूक्त कहने की अधिक प्रवृत्ति होती है, वह इन सूत्रों पर लिखे गए वेध्याकरण (=व्याख्याएँ) हैं।

यहाँ तो इतना ही अभिप्रेत है कि अशोक के समय से बुद्ध वचन के एक अंश के लिए सुत्त शब्द व्यवहृत होता था।

^१ सुमङ्गल विलासिनी तथा समन्त पासादिका की निदान कथा।

^२ अट्टसालिनि, कथावत्थु अट्टकथा।

(२) **गेय्य**—अलगदूपम सुत्त (मज्झिम निकाय २२वाँ सूत्र) की अट्टकथा में लिखा है कि सुत्तों में जो गाथाओं का हिस्सा है वह गेय्य है, उदाहरण के लिए संयुक्त निकाय का आरम्भिक हिस्सा। सभी प्रकार की गाथाओं को यदि गेय्य माना गया होता तो, उन गाथाओं का कोई पृथक वर्गीकरण रहा होता। प्रतीत होता है कि किसी खास तरह की गाथाओं की ही संज्ञा गेय्य रही होगी।

(३) **वेय्याकरण**—अर्थ है व्याख्या। किसी सूत्र का विस्तारपूर्वक अर्थ करने को वेय्याकरण कहते हैं। भविष्यद्वाणी के अर्थ में जातक में व्याकरण शब्द आया है। किन्तु इस शब्द का न तो उस व्याकरण से कुछ सम्बन्ध है और न संस्कृत वा पालि के व्याकरण साहित्य से।

(४) **गाथा**—बुद्धघोषाचार्य ने धम्मपद, थेरगाथा और थेरीगाथा की गिनती गाथा में की है। इनमें से थेरगाथा में अशोक के भाई **वीतसोक** की गाथाएँ उपलब्ध हैं।^१ इस से तथा इसकी रचना शैली से सिद्ध है कि इस ग्रन्थ का वर्तमान रूप भगवान के परिनिर्वाण के तीन चार सौ वर्ष बाद का है।

(५) **उदान**—मूल अर्थ है उल्लास-वाक्य। खुद्कनिकाय में जो उदान नामक ग्रन्थ है उसके अतिरिक्त **सुत्तपिटक** में जहाँ तहाँ और भी अनेक उदान आए हैं। यह कहना कठिन है कि इनमें से कितने उदान अशोक से पूर्व के हैं।

(६) **इतिवुत्तक**—खुद्क निकाय का इतिवुत्तक १२४ इतिवुत्तकों का संग्रह है। इनमें से कुछ अशोक के समय के और पहले के भी हो सकते हैं।

(७) **जातक**—यह कथा-साहित्य सर्व प्रसिद्ध है। अनेक दृश्य साँची^२, भरहुत^३ आदि के स्तूपों की वेष्टनी (रेलिंग) पर खुदे मिलते हैं जो कि १५० ई० पू० के आसपास के हैं। इस पर विस्तृत विचार आगे किया ही गया है।

^१ इर्मात्म बुद्धप्यादे अट्टारस वस्साधिकानं द्विजं वस्स सतानं मत्थके धम्मासोक रञ्जो कण्ठिभाता हुत्वा निब्बत्ति । तस्स वीतसोकोति नामं अहोसि (वीतसोक थेरस्स गाथा वर्णना) ।

^२ साँची—भेलसा (प्राचीन विदिशा) के पड़ोस में।

^३ भरहुत—इलाहाबाद से १२० मील दक्षिण-पश्चिम एक गाँव।

(द) अद्भुतधम्म—अर्थ है असाधारण-धर्म । हो सकता है कि भगवान् बुद्ध और उनके शिष्यों में जो असाधारण बातें रही उनका वर्णन करने वाला कोई ग्रन्थ रहा हो; किन्तु इस प्रकार का कोई ग्रन्थ न अब प्राप्य है न आचार्य्य बुद्धघोष के ही समय में रहा है । उन्होंने लिखा है “भिक्षुओ, ये चार आश्चर्य्य अद्भुतधर्म आनन्द में हैं’ इस क्रम से (अर्थात् बुद्ध के इस वाक्य के अनुसार) जितने भी आश्चर्य्य अद्भुतधर्मों से युक्त सूत्र हैं, वे सभी अद्भुत धम्म जानने चाहिए।”^१

(९) वेदल्ल—महावेदल्ल और चुल्लवेदल्ल दो सुक्त हैं।^२ इन दोनों सूत्रों में (१) महाकोट्टित तथा सारिपुत्र के, (२) भिक्षुणी धम्मदिन्ना तथा उसके पूर्व आश्रम के पति के प्रश्नोत्तर हैं । इनसे वेदल्ल नाम के ग्रंथ में किस प्रकार के सूत्र रहे होंगे, इसका कुछ अनुमान लग सकता है । प्रतीत होता है कि भगवान् बुद्ध के साथ श्रमण-ब्राह्मणों के जो प्रश्नोत्तर होते थे, वे वेदल्ल कहलाते थे ।

सारे तिपिटक में वा नौ अंगों वाले बुद्ध वचन में, कितना वास्तव में बुद्ध तथा उनके शिष्यों का उपदेश है और कितना पीछे की भर्ती, कहना कठिन है ।

अशोक के भाइ शिलालेख^३ में सात बुद्धोपदेशों का नाम आया है, जिनको-अशोक चाहता था कि भिक्षु भिक्षुणियाँ, उपासक उपासिकाएँ सुने तथा धारण करें । वे बुद्धोपदेश यह हैं—

^१ चत्तारो मे भिक्खवे, अच्छरिया अद्भुता धम्मा आनन्देति आदिनय-पवत्ता सब्बेपि अच्छरियद्भुतधम्मपटि-संयुत्ता सुत्तन्ता अद्भुतधम्मति वेदि-तब्बा ।

^२ मज्झिम निकाय, (४३, ४४) ।

^३ . . . भगवता बुधेन भासिते सब्बे से सुभासिते वा ए च्चु खो भंते हम्मियाये विसैया हेवं स धंमे च्चलठितिके होसतीति अलहामि हकं तं वतवे [.] इमानि भन्ते धंम पालियायानि विनयसमुक्से अलियवसानि अनागत भयानि मुनिगाथा मोनेयसूते उपतिसपसिने ए चा लाघुलोवादे भुसावावं अधिगिच्च भगवता बुधेन भासिते एतान भंते धंमपालियायानि इच्छामि किं ति (?) बहुके भिखु-

(१) विनयसमुक्ते, (२) अलियवसानि, (३) अनागतभयानि, (४) मुनिगाथा, (५) मोनेयसूते, (६) उपतिसपसिने, (७) लाघुलोवाद मुसावादं अधिगिच्च भगवता बुद्धेन भासिते ।

वे बुद्धोपदेश वर्तमान त्रिपिटक में कौन कौन से हैं; इनका अनेक विद्वानों ने विचार किया है । श्री धम्मानन्द जी कोसम्बी को वे इस क्रम से स्वीकृत हैं—

- (१) विनयसमुक्ते=धम्मचक्कपवत्तन सुत्त
- (२) अलियवसानि=अरियवंसा (अंगुत्तर, चतुक्क निपात)
- (३) अनागत भयानि=अनागतभयानि (अंगुत्तर, पञ्चक निपात)
- (४) मुनिगाथा=मुनि सुत्त (सुत्तनिपात)
- (५) मोनेयसूते=नाळकसुत्त (सुत्तनिपात)
- (६) उपतिस पसिने=सारिपुत्तसुत्त (सुत्तनिपात)
- (७) लाघुलोवाद=राहुलोवाद (मज्झिम नि० सुत्त ६१)

इन सात सुत्तों में से चार सुत्त सुत्तनिपात से लिए गए हैं । इससे सुत्त-निपात का महत्त्व तथा प्राचीनता स्वयं-सिद्ध है । सुत्तनिपात खुदक निकाय का एक ग्रन्थ है; और निहत्त, नाम से सुत्तनिपात के ही कुछ सुत्तों की एक टीका भी

पाये च भिखुनिये चा अभिखिनं मुनयु चा उपघालेयेयु चा हेवं हेवा उपासका चा उपासिका चा [.] एतेनि भंते इमं लिखापयामि अभिहेतं न जानंतति (अशोक के धर्म लेख—जनावर्न भट्ट, एम० ए०) ।

हिन्दी—... जो कुछ भगवान् बुद्ध ने कहा है सब सुभाषित है । पर जैसे मुझे दिखाई देता है कि इस प्रकार सद्धर्म चिरकाल तक स्थित रहेगा, वह कहना उचित समझता हूँ । मैं इन धर्मपर्यायों को—विनय समुक्ते... और मूषावाद के बारे में भगवान् द्वारा उपदिष्ट राहुलोवाद को चाहता हूँ । क्या चाहता हूँ ? यही कि बहुत से भिक्षु और भिक्षुणियाँ सुनें तथा धारण करें । इसी प्रकार उपासक उपासिकायें भी । भन्ते, मैं यह लेख लिख-वाता हूँ कि लोग मेरा अभिप्राय जानें ।

^१ भगवान् बुद्ध (मराठी); इण्डियन आण्टीक्वेरी १९१२, फरवरी ।

खुद्कनिकाय के अन्तर्गत है। इससे अनुमान होता है कि सुतनिपात खुद्कनिकाय के निद्देश सदृश ग्रन्थों की अपेक्षा एक या दो शताब्दी प्राचीन है।

बुद्धवचन का नी अंगों के रूप में जो प्राचीनतर वर्गीकरण है, उसमें भी जातक का समावेश होने से उसकी प्राचीनता तथा महत्त्व स्पष्ट ही है। जब हम देखते हैं कि साँची, भरहुत आदि स्थानों में अनेक जातक कथाओं के चित्र उत्कीर्ण हैं,^१ तब उनकी प्राचीनता तथा महत्त्व और भी बढ़ जाता है।

जातक शब्द का अर्थ है जन्म सम्बन्धी। विकासवाद के अनुसार एक फूल को विकसित होने के लिए, उस पुष्प की जाति विशेष के अस्तित्व में आने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तब क्या कोई भी प्राणी साठ या सत्तर, अधिक से अधिक सौ वर्ष के जीवन में बुद्ध बन सकता है? उसे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक जन्म धारण करने ही होंगे। गौतम बुद्ध को भी धारण करने पड़े। बुद्ध होने से पूर्व अपने सब पिछले जन्मों तथा अन्तिम जन्म में उनकी संज्ञा बोधिसत्त्व रही। बोधि का अर्थ बुद्धत्व और सत्त्व का अर्थ प्राणी—बुद्धत्व के लिए प्रयत्नशील प्राणी। जातक में बोधिसत्त्व के पाँच सौ सैतालिस जन्मों का उल्लेख है।

लेकिन बौद्ध तो आत्मा को ही नहीं मानते। फिर यह जन्मान्तरवाद कैसा? जब आत्मा ही नहीं, तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? प्रश्न समुचित है। सामान्यतया सभी अबौद्ध दर्शन आत्मवाद के विना जन्मान्तरवाद की कल्पना कर ही नहीं सकते। भगवद्गीता ने जिस जन्मान्तरवाद को स्वीकृत किया है, वह आत्मवाद की ही भित्ति पर है।

बुद्धधर्म किसी आत्मा को जो शाश्वत तथा नित्य समझा जाता है नहीं स्वीकार करता। आचार्य्य दसुवन्धु^२ कृत अभिधर्मकोष की एक कारिका है—

नात्मास्ति; स्कन्धमात्रं तु कर्मक्लेशाभिसंस्कृतम्।

अन्तराभव-सन्तत्या कुक्षिमेति प्रदीपवत् ॥३-१८॥

^१ भरहुत शिलालेख—श्री बरुआ तथा सिनहा—कलकत्ता यूनिवर्सिटी (१९२६)।

^२ आचार्य्य दसुवन्धु का समय चौथी-पाँचवीं शताब्दी है।

आत्मा नाम का कोई नित्य ध्रुव, अविपरिणाम स्वभाव वाला पदार्थ नहीं है। कर्म से तथा (अविद्या आदि) क्लेशों से अभिसंस्कृत पञ्चस्कन्ध^१ मात्र ही पूर्व-भव संतति क्रम से एक प्रदीप से दूसरे प्रदीप के जलने की तरह गर्भ में प्रवेश पाता है।

इसी प्रकार राजा मिलिन्द^२ ने महास्थविर नागसेन से प्रश्न किया—
यदि संक्रमण^३ नहीं होता तो पुनर्जन्म कैसे होता है ?

हाँ महाराज, बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है।

१. भन्ते, सो कैसे होता है ? कृपया उपमा देकर समझावे।

महाराज ! यदि कोई एक बत्ती से दूसरी बत्ती जला ले तो क्या यहाँ एक बत्ती दूसरी में संक्रमण करती है ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है।

२. कृपया फिर भी उपमा दे कर समझावें ?

महाराज ! क्या आपको कोई श्लोक याद है जो आपने अपने गुरु के मुख से सीखा था ?

हाँ, याद है।

महाराज ! क्या वह श्लोक आचार्य के मुख से निकल कर आपके मुख में घुस गया ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है।

भन्ते ! आपने अच्छा समझाया।

फिर राजा बोला—भन्ते ! ऐसा कोई जीव है जो इस शरीर से निकल कर दूसरे में प्रवेश करता है ?

नहीं, महाराज।

^१ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, तथा विज्ञान।

^२ राजा मिलिन्द का समय ई० पू० १५० है।

^३ आत्मा का एक शरीर को छोड़ कर दूसरे को धारण करना।

भन्ते ! यदि इस शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में जाने वाला नहीं है, तब तो वह अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गया ।

हाँ, महाराज ! यदि उसका फिर जन्म नहीं हो तो अलबत्ता वह अपने पापकर्मों से मुक्त हो गया और यदि वह फिर जन्म ग्रहण करे तो मुक्त नहीं हुआ ।

कृपया उपमा देकर समझावें ।

महाराज ! यदि कोई आदमी किसी दूसरे का आम चुरा ले तो दण्ड का भागी होगा या नहीं ?

हाँ भन्ते ! होगा ।

महाराज ! उस आम को तो उसने रोपा नहीं था जिसे इसने लिया, फिर दण्ड का भागी कैसे होगा ?

भन्ते ! उसके रोपे हुए आम से ही यह भी पैदा हुआ, इसलिए वह दण्ड का भागी होगा ।

महाराज ! इसी तरह, एक पुरुष इस नामरूप से अच्छे बुरे कर्म करता है । उन कर्मों के प्रभाव से दूसरा नामरूप जन्म लेता है । इसलिए वह अपने पाप कर्मों से मुक्त नहीं हुआ ।

भन्ते ! आपने ठीक समझाया ।^१

जब तक मनुष्य की अविद्या-तृष्णा का नाश नहीं होता, तब तक उसका अच्छा बुरा कर्म ही उसका सब कुछ है । भगवान् का उपदेश है—“भिक्षुओ, सभी को इस बात पर सदा मनन करना चाहिए कि मेरा जो कुछ भी है कर्म ही है, कर्म ही दायद है, कर्म ही से उत्पत्ति है, कर्म ही बन्धु है, कर्म ही शरण-स्थान है, जो मैं अच्छा बुरा कर्म करूँगा उसका मैं उत्तराधिकारी होऊँगा ।”^२

^१ भिक्षु जगदीश काश्यप कृत मिलिन्द-प्रश्न का हिन्दी अनुवाद (३-२-१३, ३-२-१६) ।

^२ कम्मस्सकोम्भि, कम्मदायादो, कम्मयोनि, कम्मबन्धु, कम्मपटिसरणो यं कम्मं करिस्सामि कल्याणं वा पापकं वा तस्स दायदो भविस्सामीति अभिण्हं पच्चवेक्खितब्बं गहट्ठेन वा पब्बजितेन वा (अंगुत्तर निकाय, पंचक निपात, द्वितीय पण्णासक, प्रथम वर्ग, सातवाँ सूत्र) ।

तृष्णा के क्षय हो जाने पर कर्म का भी क्षय हो जाता है और पुनर्जन्म का भी; लेकिन जब तक तृष्णा का क्षय नहीं होता तब तक तो प्राणी को जन्म जन्मान्तर तक जन्मों के चक्कर में रहना ही पड़ता है। बुद्ध ने जब बुद्धगया में बोधि-वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, उस समय उन्होंने सर्वप्रथम यही कहा—

“दुःखदायी जन्म बार बार लेना पड़ा। मैं संसार में (शरीर रूपी गृह को बनाने वाले) गृहकारक को पाने की खोज में निष्फल भटकता रहा। लेकिन गृहकारक ! अब मैंने तुम्हें देख लिया। (अब) तू फिर गृह निर्माण न कर सकेगा। तेरी सब कड़ियाँ टूट गईं। गृह-शिखर बिखर गया। चित्त निर्वाण प्राप्त हो गया; तृष्णा का क्षय हो गया।”^१

बुद्ध की शिक्षा के अनुसार रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान इन पाँच स्कन्धों का ही यह व्यक्ति वा संसार बना है; इन पाँच स्कन्धों की धारा अच्छे बुरे कर्मानुसार बहती रहती है, बहती रही है और तब तक बहती रहेगी जब तक कोई व्यक्ति तृष्णा का सम्पूर्ण क्षय नहीं कर लेता।

पुनर्जन्म प्रायः सभी भारतीय दर्शन सम्मत है। बुद्ध की शिक्षा की विशेषता यही है कि अनात्मवाद के साथ पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। जन्म मरण के बन्धन से मुक्त होना तो आज दिन भारतीय दार्शनिकों का सामान्य आदर्श है।

तिपिटक में जिस जातक (ग्रन्थ) का समावेश है वह केवल गाथाओं का संग्रह है। जिस प्रकार धम्मपद एक चीज है और धम्मपद अट्ठकथा दूसरी, उसी प्रकार जातक एक चीज है और जातक अट्ठकथा दूसरी। अन्तर यह है

^१ धम्मपद (जरावग्ग १५३, १५४) की यह दो गाथाएँ प्रथम संबुद्ध गाथाएँ कही जाती हैं—

अनेक जाति संसारं सन्धाविस्सं अनिब्बिस्सं
गृहकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं,
गृहकारक ! दिट्ठोसि पुन गेहं न काहसि,
सब्बा ते फासुका भग्गा गृहकूटं विसंखितं,
विसंसारगतं चित्तं तण्हानं खयमज्झगा ॥

कि धम्मपद का अर्थ बिना धम्मपद अट्टकथा के समझ में आ सकता है। जातक यद्यपि धम्मपद ही की तरह गाथाएँ मात्र हैं तो भी उन गाथाओं से, यदि पहले से कथा मालूम हो तो, पाठक को वह कथा याद आ सकती है। यदि कथा मालूम न हो तो अकेली गाथाओं से उद्देश्य पूरा नहीं होता। बिना जातकट्ट कथा के जातक अधूरा है।

फिर जातक में केवल भगवान् बुद्ध के पूर्व जन्मों से सम्बन्ध रखने वाली गाथाएँ भर हैं। जातकट्टकथा में अट्टकथा सहित असल जातक कथाएँ आरम्भ होने से पहले निदान कथा नाम का एक लम्बा उपोद्घात है। इस निदान-कथा में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के साथ उनके पूर्व के २७ बुद्धों का भी जीवन चरित्र है। यह सारा का सारा बुद्धवंस^१ से लिया प्रतीत होता है।

जातकट्टकथा के बगला अनुवादक श्री० ईशान् चन्द्र घोष ने अपने अनुवाद में केवल जातक कथाओं वाले अंश का अनुवाद दिया है। प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद निदान-कथा सहित सारी जातकट्टकथा का अविकल अनुवाद है।

जातक की अट्टकथा तीन भागों में विभक्त है—(१) दूरे निदान, (२) अविदूरे निदान, (३) सन्तिके निदान।

बोधिसत्त्व ने जब सुमेध तपस्वी का जन्म ग्रहण कर भगवान् दीपङ्कर के चरणों में जीवन समर्पित किया, उस समय से लेकर वेस्सन्तर^२ का शरीर छोड़ तुषित स्वर्ग लोग में उत्पन्न होने तक की कथा दूरे-निदान कही जाती

^१ बुद्धवंस के २७ बुद्ध इस प्रकार हैं—(१) तण्हङ्करो, (२) मेधङ्करो, (३) सरणङ्करो, (४) दीपङ्करो, (५) कोण्डञ्ज, (६) मङ्गलो, (७) सुमनो, (८) रेवतो, (९) सोभितो, (१०) अनोमदस्सी, (११) पडुमो, (१२) नारदो, (१३) पडुमुत्तरो, (१४) सुमेधो, (१५) सुजातो, (१६) पियवस्सी, (१७) अत्थवस्सी, (१८) धम्मवस्सी, (१९) सिद्धत्थ, (२०) तिसस, (२१) फुत्स, (२२) विपस्सी, (२३) सिखी, (२४) वेत्सभू, (२५) ककुसन्ध, (२६) कोणागमनो, (२७) कस्सप। अन्तिम छ या सात बुद्धों के नाम भरहुत में अंकित हैं—भरहुत शिलालेख (पृ० ४३)।

^२ देखो वेस्सन्तर जातक (५४७)।

है। तुषित-श्लोक से च्युत होकर महामाया देवी के गर्भ से उत्पन्न हो
बोधगया में बुद्धत्व प्राप्त करने तक की कथा अविदूरे-निदान कही जाती है।
जहाँ जहाँ भगवान् बुद्ध ने विहार करते समय कोई जातक कही, उन स्थानों
का जो उल्लेख है, वह सन्तिके-निदान है।

जितनी जातक कथाएँ हैं, वे दूरे-निदान के ही अन्तर्गत आती हैं। हर
जातक कथा चार विभागों में विभक्त हैं—(१) पञ्चुपन्नवत्थु, (२) अतीत
वत्थु, (३) अत्थवण्णना, (४) समोधान। पञ्चुपन्नवत्थु से मतलब है वर्त-
मान-कथा अर्थात् भगवान् बुद्ध के समय की कोई घटना; उदाहरण के लिए
पहली अपण्णक जातक में ही अनाथपिण्डक के साथ पाँच सौ तैथिकों (बुद्ध-
मत से भिन्न मतों के अनुयाइयों) के बुद्ध की शरण में आने जाने की कथा।
अतीत-वत्थु का मतलब है किसी भी ऐसे अवसर पर भगवान् द्वारा कही गई
पूर्व जन्म की कथा; जैसे पहली जातक में ही कान्तार में जाने वाले बंजारों
की कथा। प्रत्येक कथा में एक या अनेक गाथाएँ हैं। अत्थवण्णना का
मतलब है इन गाथाओं की व्याख्या; जिसमें गाथाओं का शब्दार्थ और विस्तु-
तार्थ रहता है। समोधान सदैव अन्त में आता है जिसमें बुद्ध बताते हैं कि उन्होंने
जो अतीत-वत्थु सुनाई उस अतीत-वत्थु के प्रधान पात्रों में कौन कौन था ?
वे स्वयं उस समय किस योनि में उत्पन्न हुए थे।

इस अनुवाद में हम ने पञ्चुपन्नवत्थु को वर्तमान कथा कहा है; अतीत-
वत्थु को अतीत कथा। ऐसे पाठकों के लिए जिनका अधिक ध्यान कथामात्र
की ओर हो प्रत्येक गाथा के नीचे अपना स्वतन्त्र अनुवाद दे दिया है। उसके
आगे की अत्थवण्णना (व्याख्या) के आरम्भ और अन्त में दो लकीरें खींच दी
हैं।

आखिर में जो समोधान आए हैं उन्हें हमने गलती से कथाओं का सारांश
कह दिया है। वह ठीक नहीं। समोधान का अर्थ केवल पूर्वपात्रों का मेल
बैठाना मात्र है।

कुल जातक कितने हैं ? अर्थात् बोधिसत्त्व ने बुद्ध होने से पूर्व ठीक ठीक
कितनी बार जन्म ग्रहण किया है ? कहना कठिन ही नहीं असम्भव है।
खुद्दक निकाय के चरिया-पिटक में ३५ चरिया वा चरित्र हैं। वे ३५ चरियाएँ
जातकद्वय कथा में इस प्रकार हैं—

चरियापिटक	जातक
१. अकित्ति चरियं	१. अकित्ति जातक (४८०)
२. सङ्ख चरियं	२. सङ्खपाल जातक (५२४)
३. कुरुधम्म चरियं	३. कुरुधम्म जातक
४. महासुदस्सन चरियं	४. महासुदस्सन जातक
५. महागोविन्द चरियं	५. (देखे महागोविन्द सूत्र दीर्घ निकाय)
६. निमि राज चरियं	६. निमि जातक (५४१)
७. चन्दकुमार चरियं	७. खण्डहाल जातक (५४२)
८. सिविराज चरियं	८. सिवि जातक (४९९)
९. वेस्सन्तर चरियं	९. वेस्सन्तर जातक (५४७)
१०. ससपण्डित चरियं	१०. सस जातक (३१६)
११. सीलवनाग चरियं	११. सीलवनाग जातक (७२)
१२. भूरिदत्त चरियं	१२. भूरिदत्त जातक (५४३)
१३. चम्पेय्यनाग चरियं	१३. चम्पेय्य जातक (५०६)
१४. चुल्लबोधि चरियं	१४. चुल्लबोधि जातक (४४३)
१५. महिसराज चरियं	१५. महिस जातक (२७८)
१६. रुहराज चरियं	१६. रुह जातक (४८२)
१७. मातङ्ग चरियं	१७. मातङ्ग जातक (४९७)
१८. धम्माघम्मदेवपुत्त चरियं	१८. धम्म जातक (४५७)
१९. जयदिस्स चरियं	१९. जयदिस जातक (५१३)
२०. सङ्खपाल चरियं	२०. सङ्खपाल जातक (५२४)
२१. युवञ्जय चरियं	२१. युवञ्जय जातक (४६०)
२२. सोमनस्स चरियं	२२. सोमनस्स जातक (५०५)
२३. अयोधर चरियं	२३. अयोधर जातक (५१०)
२४. भीस चरियं	२४. भिस जातक (४८८)
२५. सोणपण्डित चरियं	२५. सोण नन्द जातक (५३२)
२६. तेमिय चरियं	२६. तेमिय जातक (५३८)
२७. कपिराज चरियं	२७. कपि जातक (२५०)

२८. सच्चसग्न्य पण्डित चरियं	२८. सच्चरंकिर जातक (७३)
२९. वट्टपोतक चरियं	२९. वट्ट जातक (३५)
३०. मच्छराज चरियं	३०. मच्छर जातक (३४)
३१. कण्हदीपायन चरियं	३१. कण्हदीपायन जातक (४४४)
३२. सुतसोम चरियं	३२.
३३. सुवण्णमास चरियं	३३. साम जातक (५४०)
३४. एकराज चरियं	३४. एकराज जातक (३०३)
३५. महालोमहंस चरियं	३५. लोमहंस जातक (६४)

संस्कृत बौद्ध साहित्य में जातक माला नाम का एक ग्रन्थ है; जिसके रचयिता आर्यशूर हैं। तारानाथ ने आर्यशूर और प्रसिद्ध महाकवि अश्वघोष को एक ही कहा है। लेकिन यह ठीक नहीं। आर्यशूर की जातकमाला में कुल ३४ जातक हैं।

इसी प्रकार श्री० ईशानचन्द्र के अनुसार महावस्तु नामक ग्रन्थ में लगभग ८० कथाएँ हैं।

थेरवादियों वा सिंहल, स्याम, बर्मा, हिन्दचीन आदि देशों के बौद्धों की परम्परा है कि जातकों की संख्या ५५० है। यह ५५० संख्या याद रखने की सुविधा के लिए प्रचलित हो गई प्रतीत होती है; नहीं तो जातकट्टकथा में जातकों की ठीक संख्या ५४७ है।^१ ये कथाएँ २२ निपातों या परिच्छेदों में बँटी हैं। पहले परिच्छेद में १५० ऐसी कथाएँ हैं जिनमें एक ही एक गाथा या श्लोक पाया जाता है; दूसरे में भी १५० ही कथाएँ हैं; लेकिन उनमें प्रत्येक में दो दो गाथाएँ हैं। तीसरे और चौथे में पचास पचास कथा। गाथाओं की संख्या क्रमशः तीन तीन और चार चार। पाँचवें निपात से तेरस निपात तक यह क्रम मोटे रूप से जारी रहता है। इन नौ निपातों में जातक-कथाओं की कुल संख्या केवल १३३ है। प्रत्येक निपात में कहीं कहीं जातकों की गाथाओं की संख्या उस निपात की संख्या से अधिक है; लेकिन सामान्यतः ऊपर का

^१ 'बुल निट्टेस में एक जगह 'पञ्च जातक सत्तानि' अर्थात् पाँच सौ जातक आया है।

ही क्रम है। चौदहवें निपात का नाम पकिण्णक निपात है; शायद इसलिए कि इसके जातकों में गाथाओं की संख्या बहुत ही अस्थिर है। निपात क्रम से प्रत्येक कथा में १४ गाथाएँ होनी चाहिए। लेकिन इस निपात के जातकों में गाथाओं की संख्या साधारणतः १० के आसपास है और एक में तो ४७ है। इसके आगे के सात निपातों के नाम (१) बीसति निपात, (२) तिस, निपात, (३) चत्तालिस निपात, (४) पण्णास निपात, (५) छट्ठी निपात, (६) सत्तति निपात, (७) असीति निपात है। इन सभी निपातों के जातकों की गाथाओं में की संख्या अधिकांश की ओर ही झुकी हुई है। अन्त के दो निपातों में तो ६० और १०० से भी ऊपर है। बाइसवें निपात का नाम महा-निपात उसके आकार को देखते ठीक ही है। उसमें केवल दस जातक कथाएँ हैं; लेकिन प्रत्येक जातक में सैकड़ों गाथाएँ हैं और अन्तिम जातक—वेस्सन्तर जातक—में तो गाथाओं की संख्या सात सौ से भी ऊपर है।

इस प्रकार स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो जातको की संख्या ५४७ है और कम से कम थेरवादियों के लिए निश्चित है। लेकिन जातकद्वय वण्णना की ही निदान-कथा में ही एक महागोविन्द जातक का उल्लेख है; जो इन ५४७ जातकों में कही नहीं है। सूत्र-पिटक में भी महागोविन्द की जन्म-कथा है; जो इस संग्रह से बाहर ही है, इससे अनुमान होता है कि जातकों की संख्या ५४७ से अधिक रही है।

मगर इन ५४७ जातकों में कई ऐसे हैं जिनकी स्वतन्त्र रूप से पृथक गिनती भी हुई है; लेकिन वे केवल किसी दूसरे बड़े जातक के अन्तर्गत हैं। उदाहरण के लिए पञ्चपण्डित जातक (५०८) और दकरक्खस जातक (५१७) दोनों महाउम्मग जातक (५४६) में हैं। एक ही जातक एक से अधिक जगह दो भिन्न भिन्न नामों से भी गिने गये हैं जैसे प्रथम खण्ड का मुनिक जातक (३०) और दूसरे खण्ड का सालूक जातक (२८६) एक ही जातक दो जगह एक ही नाम से भी आए हैं; प्रथम खण्ड में भी मत्स्य-जातक है और द्वितीय खण्ड में भी मत्स्य-जातक है; किन्तु कथा भिन्न भिन्न है। एक ही खण्ड में जातकों की पुनरवित है; कहीं कहीं सारे जातक एक हैं केवल बहुत ही थोड़ा नाम मात्र का भेद है। इससे मानना होगा कि जातकों की ठीक संख्या ५४७ न होकर, काफी कम है। हम “जातको” की बात कह रहे हैं; साधारण कथाओं

की नहीं। यदि “जातकों” की गिनती न करके उन कथाओं तथा उपाख्यानों का हिसाब लगाया जाए तो जातकट्टकथा के अन्तर्गत कुछ हजार कथाएँ होंगी।^१

जातक-कथा संसार के कथा-साहित्य में प्राचीन संग्रह ही नहीं, सर्वापेक्षा बड़ा भी है।

५० जातकों के अन्त में “पठमपण्णासको” और फिर १०० के अन्त में जो “मज्झिम पण्णासको” आया है, उससे श्री ईशानचन्द्र घोष ने अनुमान लगाया है कि जातक संग्रहकार के मन में ५०, ५० के परिच्छेदों का ध्यान रहा होगा। लेकिन त्रिपिटक के अन्य निकायों में भी तो पचास, पचास के क्रम से ही गिनती है। इस पचास पचास के क्रम मात्र से जातकों की अन्तिम संख्या के सम्बन्ध में किसी अनुमान की गुञ्जाइश नहीं।

मूल “जातक” में केवल गाथाएँ होने के कारण स्वभावतः जातकट्टकथा में भी जातक-कथाओं का वर्गीकरण गाथाओं के अनुसार हुआ है। यह गाथाओं की संख्या के अनुसार न होकर उनके विषय के अनुसार होता तो कदाचित् अधिक अच्छा था। जातकों में विषय-क्रम से कोई वर्गीकरण नहीं।

एक से नौ-निपात तक के निपात वर्गों में विभक्त हैं। इन वर्गों में किसी किसी का नाम उस वर्ग के पहले जातक के अनुसार है, जैसे अपण्णक वर्ग, किसी किसी का उस वर्ग में आए जातकों के विषय का ध्यान रखकर जैसे स्त्रीवर्ग; लेकिन उसी स्त्रीवर्ग में कुदाल पण्डित की कथा^२ है जिसका स्त्रीवर्ग से कोई सम्बन्ध नहीं।

जातकों के नामकरण में कुछ का नामकरण तो उस जातक में आई गाथा के पहले शब्दों का ध्यान रखकर किया गया है जैसे अपण्णक जातक (१), किसी का प्रधान पात्र के अनुसार जैसे बक जातक (३८), किसी का मुख्य विषय के अनुसार जैसे वण्णुपथ जातक (२), किसी का बोधिसत्त्व ने जो जन्म-ग्रहण किए, जिस मछली, हाथी या बन्दर की योनि में पैदा हुए उनके अनुसार।

बोधिसत्त्व प्रायः तपस्वी, राजा, वृक्षदेवता, ब्राह्मण आदि होकर पैदा हुए

^१ श्री ईशान चन्द्र घोष का अनुमान है कि लगभग तीन हजार होंगी।

^२ कुदाल जातक (७०)।

और कभी कभी सिंह, हाथी, घोड़ा, गीदड़, कुत्ता आदि भी। कम से कम तीन बार चाण्डाल योनि से पैदा हुए। हाँ, एक बार जुआरी भी।

इस जातकट्टकथा का रचयिता, संग्रहकर्ता वा अनुवादक कौन है? महावंस^१ में लिखा है कि आचार्य बुद्धघोष अभिषम्म पिटक के प्रथम ग्रन्थ धम्मसंगणि पर अथसालिनि टीका लिख चुकने के बाद भारत से सिंहल गए। सिंहल जाने का उनका एकमात्र उद्देश्य था सिंहल-भाषा में सुरक्षित अट्टकथाओं का पाली में अनुवाद करना। ये अट्टकथाएँ कहते हैं महेन्द्र के साथ भारत से सिंहल पहुँचीं, इन्ही का बुद्धघोष ने महास्थविर संघपाल की अधीनता में महादिहार, अनुराधपुर में रहकर अध्ययन किया। जब वह विसुद्धिमग्ग नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखकर अपनी उन अट्टकथाओं को पालि स्वरूप देने की अपनी योग्यता प्रमाणित कर चुके, तभी सिंहल के भिक्षुसंघ ने उन्हें उन सिंहल अट्टकथाओं को पालि में अनुवाद करने की आज्ञा दी। महावंस का कहना है कि उसने “सारी अट्टकथाओं” का पालि अनुवाद किया। पता नहीं इन “सारी अट्टकथाओं” में कौन कौन अट्टकथाएँ सम्मिलित हैं। आज हमें जो अट्टकथाएँ प्राप्य हैं, वे सब तो स्पष्ट रूप से आचार्य बुद्धघोष रचित नहीं हैं। खुद्दकनिकाय के कई ग्रन्थों—थेरगाथा, थेरीगाथा, उदान, विमान, पेत-वत्थु, इतिवृत्तक, चरियापिटक—पर महास्थविर धम्मपाल रचित अट्टकथाएँ हैं। जिनका समय तो निश्चित नहीं, लेकिन वे बुद्धघोष के बाद ही हुए हैं। विनय-पिटक के ग्रन्थों तथा मुत्तपिटक के अन्तर्गत चारों निकायों पर अट्टकथाएँ लिखने से भी आचार्य बुद्धघोष “सारी अट्टकथाओं” के रचयिता वा अनुवादक माने जा सकते हैं। परम्परा तो उन्हें ही जातकट्टकथा का भी अनुवादक मानती है; लेकिन अधिक सम्भावना यही है कि यह श्रेय किसी अन्य आचार्य को प्राप्त है।

जातकट्टकथा के रचयिता ग्रन्थ के आरम्भ में कहते हैं कि “बुद्धधर्म की चिरस्थिति चाहने वाले अर्थदर्शी स्थविर सहवासी तथा एकान्तप्रेमी शान्तचित्त पण्डित बुद्धभित्त, और महिंसासक वंश में उत्पन्न, शास्त्रज्ञ शुद्धबुद्धि

^१ महावंस परिच्छेद ३८, गाथा संख्या २१५-२४६

भिक्षु बुद्धदेव के कहने से महापुरुषों के चरित्र के अनन्त प्रभाव को प्रकट करने वाली जातक अर्थवर्णना की महाविहार बालों के मत के अनुसार व्याख्या कल्लंगा ।^१ यहाँ इस आत्म-परिचयात्मक लेख में जो महिशासक सम्प्रदाय के बुद्धदेव का नाम है, वह कुछ बहुत अनोखा है, खटकने वाला है। महिशासक सम्प्रदाय स्थविरवाद से बाहर निकला हुआ एक सम्प्रदाय था। महाविहार परम्परा शुद्ध स्थविरवाद को ही मानने वाली परम्परा रही है। आचार्य्य बुद्धघोष ने अपनी सब अट्टकथाओं में इसी परम्परा को अपनाया है। यदि जातकट्टकथा बुद्धघोष रचित मानी जाए, तो उसमें महिशासक सम्प्रदायी बुद्धदेव की याचना का क्या अर्थ ?

इन कारणों से आचार्य्य बुद्धघोष को जिन्हें अनेक दूसरी अट्टकथाएँ लिखने का श्रेय प्राप्त है, इस अट्टकथा का भी श्रेय देने की प्रवृत्ति नहीं होती।

इन कथाओं का अन्तिम संग्रह वा सम्पादन किसी के भी हाथों हुआ हो किन्तु इनकी रचना में तथा इनके जातकट्टकथा का वर्तमान रूप धारण करने में कई शताब्दियाँ अवश्य लगी होंगी। कुछ न कुछ जातकों का उल्लेख तो स्थविरवाद तथा महायान के प्राचीनतम साहित्य में है। उनकी यथार्थ संख्या कह सकना कठिन है। सम्भव है कि इन कथाओं में से अनेक कथाएँ भगवान् बुद्ध से पूर्व की हैं। बुद्ध ने अपने उपदेशों में उनका उपयोग भर किया है।

कुछ ऐसा अबौद्ध साहित्य है जो यद्यपि भगवान् बुद्ध से पूर्व का समझा जाता है, लेकिन उसकी परम्परा भले ही पुरानी रही हो, उसका सम्पादन पीछे ही हुआ है। उस साहित्य में और बौद्ध कथा-साहित्य में जो साम्य है वह जहाँ एक दूसरे की लेन देन हो सकता है, वहाँ यही अधिक सम्भव है कि एक ही मूलकथा ने दोनों जगह भिन्न भिन्न रूप धारण किया है।

जहाँ तक पालि वाङ्मय का अपना सम्बन्ध है, इन कथाओं में से कुछ तिपिटक में स्वतन्त्र रूप से आई है। सारे तिपिटक का वर्तमान स्वरूप फ़ब स्थिर हुआ, इसके बारे में कोई निश्चित बात कह सकना बहुत कठिन है। महावंस का तो मत है कि ईस्वी सन् की प्रथम शताब्दी में सिंहल में राजा

^१ जातकट्टकथा, उपोद्घात (पृ० १) ।

वट्टगामणी के समय अट्टकथाओं सहित सारा तिपिटक लेख बद्ध हो गया था ।^१ प्रतीत होता है कि तिपिटक तो वट्टगामणी के समय प्रथम शताब्दी में ही अन्तिम रूप से स्थिर हो गया था; लेकिन अट्टकथाओं ने तो बुद्धघोष के समय अर्थात् पाँचवी सदी के आरम्भ में जाकर अन्तिम रूप ग्रहण किया होगा। यदि बुद्ध-घोष जातकट्टकथाओं के अनुवादक वा सम्पादक न भी रहे हों, तो भी यह कार्य उनके बहुत पीछे नहीं हुआ।

इससे बहुत पहले (ई० पू० द्वितीय शताब्दी में) इस संग्रह की अनेक कथाओं को हम भरहुत के स्तूपों पर उनके नाम के साथ अङ्कित पाते हैं।^२ यद्यपि हम सारी कथाओं के लिए कोई भी एक समय निर्धारित करने में असमर्थ हैं तो भी इतना कह सकते हैं कि इस संग्रह की कहानियाँ ईसा पूर्व पाँचवी शताब्दी के भी पहले से लेकर ईसा के बाद की प्रथम या द्वितीय शताब्दी तक ही रची गई होंगी। यह जातक-संग्रह अपने वर्तमान स्वरूप में कम से कम लगभग दो हजार वर्ष पुराना है।

जातक कथा-संग्रह शुद्ध भारतीय साहित्य होने से अबौद्ध साहित्य की कथाओं में भी इनसे साम्य वा इनका प्रभाव दिखाई देना स्वाभाविक है। तिपिटक में न महाभारत का कही उल्लेख है, न रामायण का। बुद्ध के आस-पास के किसी और साहित्य में भी नहीं। सिविजातक सदृश अनेक कथाओं ने महाभारत में स्थान पाया है। रामायण में बुद्ध का नाम आया है।^३ इतना

१ पिटकत्तय पालि च तस्सा अट्टकथंपि च
मुखपाठेन आनेसु पुब्बे भिक्खू महामति ;
हानिं दिस्वान सत्तानं तदा भिक्खू समागता
चिरद्वित्थं धम्मस्स पोत्थकेसु लिखापयं ॥

महावसं ॥ (३३, १००-१०२)

^२ तीस से अधिक जातक दृश्यों का निश्चय हो गया है—भरहुत शिलालेख।

^३ इलोक प्रक्षिप्त माना जाता है; कहते हैं प्राचीन प्रतियों में अप्राप्य है—
यथा हि चोरः स तथाहि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि ॥

तस्माद्धि यः शङ्क्यतमः प्रजानां न नास्तिकेनाभिमुखो बुधः स्यात् ॥

अयोध्याकाण्डम् ॥ २:१६।३४

ही नहीं सारा रामायण दसरथ जातक,^१ देवघम्म जातक आदि कुछ जातक लेकर रचा प्रतीत होता है। यह साम्य कैसे हुआ ?

सामान्य लोगों का कहना है कि महाभारत और रामायण इतने अधिक प्राचीन ग्रन्थ हैं कि उनमें यदि कोई परवर्ती उल्लेख पाया जाए तो उसे प्रक्षिप्त ही मानना चाहिए। दूसरे पक्ष का कहना है कि चाहे महाभारत रामायण के कुछ अंश की परम्परा प्राचीन भी रही हो तो भी उनके सम्पादकों ने उनका सम्पादन करते समय अनेक बार इनमें बहुत कुछ मिला दिया। इसलिए महाभारत-रामायण तथा जातकों में यदि कुछ साम्य दिखाई देता है तो वह जातक-कथाओं की ही देन है।

हमारा अनुमान है कि किसी अंश में तो अबौद्ध और बौद्ध साहित्य दोनों एक ही परम्परा के ऋणी हैं। प्राचीन काल का कथा साहित्य आज की तरह

^१ दसरथ जातक में है—

फलानं इव पक्कानं निच्चं पपतना भयं ।

एवं जातानं गच्चानं निच्चं मरणतो भयं ॥५॥

रामायण में है—

यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनाद् भयं ।

एवं नराणां जातानं नान्यत्र मरणाद् भयं ॥

दसरथ जातक में है—

एको घ मच्चो अच्चेति, एकोव जायते कुले ॥१०॥

रामायण में है—

यद् एको जायते जन्तुरेकेव विनश्यति ।

दसरथ जातक में है—

दसवस्स सहस्सानि सट्ठि वस्स सतानि च

कम्बुगीवो महाबाहु रामो रज्जं अकारयि ॥१३॥

रामायण में है—

दश वर्ष सहस्राणि दश वर्ष शतानि च

बीत शोक भय क्रोधो रामो रात्र्यं अकारयत् ॥

स्पष्ट रूप से बौद्ध और अबौद्ध विभाग में विभक्त नहीं था। उस समय एक ही कथा ने बौद्धों के हाथों वौद्ध रूप और अबौद्ध कलाकारों के हाथों पड़कर अबौद्ध रूप धारण किया होगा।

तो भी इतना तो कहना ही होगा कि शक काल तक महाभारत और रामायण का अपने वर्तमान रूप में तो अस्तित्व दिखाई देता है न प्रचार। सारे देश में महाभारत और रामायण की कथा घर घर होती रही हो और समकालीन साहित्य में उसके बारे में कही कुछ न हो, यह ही नहीं सकता। डा० भण्डारकर का कहना है कि पतञ्जलि के महाभाष्य तक में राम का नाम नहीं, और न किसी प्राचीन शिला लेख में।^१ साधारणतया रामायण महाभारत से प्राचीन समझी जाती है। लेकिन बात उल्टी है। श्री० धम्मनन्द जी कोसम्बी का कहना है कि रामायण के रामचन्द्र और उनकी अयोध्या नगरी दोनों के भारतीय होने में शंका है। रामायण को छोड़कर पतञ्जलि के समय तक भी किसी प्राचीन संस्कृत-ग्रन्थ में अयोध्या का नाम नहीं आता। इसलिए चाहे रामायण की कथा में कुछ ऐतिहासिकता हो चाहे न हो महाभारत और रामायण में महाभारत ही अपेक्षाकृत प्राचीन है।

हाँ, पाँचवीं शताब्दी में आचार्य्य बुद्धधोष महाभारत और रामायण से परिचित प्रतीत होते हैं। वे लिखते हैं—“आख्यान का मतलब है भारत-रामायण आदि। वह कथा जहाँ हो रही हो, वहाँ जाना योग्य नहीं।”^२ फिर दूसरी जगह भारत-युद्ध सीता-हरण आदि को निरर्थक कहा है।^३ जयदिस जातक (५१३) में राम के दण्डकारण्य जाने का उल्लेख है। अपने

^१ There is no mention of his (Rama's) name in such a work as that of patanjali, nor is there any old inscription in which it occurs.

Vaishnavism Saivism etc. by R.G. Bhandarkar P.66.

^२ अक्षयानं ति भारत रामायणादि । तं यस्मिं ठाने कथयति, तस्य गन्तुं न वदति । (दी० नि० अ० १।८४) ।

^३ भारतयुद्ध सीता हरणादि निरत्यक कथा (दी० नि० अ० १।८६)

जिस अविकसित रूप में जातक-कथा की कहानियों ने महाभारत और रामायण में आकर विकास पाया, उससे यही पक्ष ठीक मालूम होता है कि इन कथाओं के आरम्भिक रूप का लेखा जातक-कथाओं में विद्यमान है और पीछे के सँवरे-मँजे रूप का महाभारत और रामायण में।

घट जातक, एक प्रकार से छोटा मोटा भागवत ही है। उसमें कृष्ण-जन्म से लेकर कंस की हत्या करने और फिर द्वारिका जा बसने तक की सारी कथा आई है। उसमें चानूर और मुष्टिक पहलवानों की हत्या करने जैसी छोटी छोटी बातें भी हैं। लेकिन श्रीमद्भागवत स्पष्ट रूप से पीछे की चीज़ होने से इसमें सन्देह नहीं कि कृष्ण-जन्म की कथा अपने प्राचीन रूप में जातक में ही विद्यमान है।

कुछ भी हो महाभारत रामायण की कथाओं से मिलती जुलती जातक में जो कथाएँ हैं, उनका अपना महत्त्व है और वह कम नहीं।

ईसा की प्रथम शताब्दी में आन्ध्र राजाओं के समय गुणादय नाम के किसी पण्डित ने पैशाची भाषा में “बृहत्कथा” नाम का एक ग्रन्थ लिखा था। पैशाची भाषा या तो आधुनिक दरदी की पूर्वज भाषा थी या उज्जैन के पास की एक बोली।^१ यह गुणादय कौन थे, कहना कठिन है। इनकी “बृहत्कथा” एकदम अप्राप्य है। अब तक किसी के देखने में नहीं आई। इससे नहीं कहा जा सकता कि वह “बृहत्कथा” कितनी बृहत् थी और उसमें क्या क्या था। बाण के हर्षचरित में, दण्डी के काव्यादर्श में, क्षेमेन्द्र की बृहत्कथा मञ्जरी में और सोमदेव के कथा सरितसागर में उसका प्रमाण है। सोमदेव ने, जो कि एक बौद्ध था, अपना कथा सरितसागर “बृहत्कथा” से ही सामग्री लेकर लिखा और सोमदेव के कथा सरितसागर में अनेक जातक-कथाएँ विद्यमान हैं। इससे अनुमान होता है कि “बृहत्कथा” का आदि श्रोत जातक-कथाएँ ही रही होंगी।

प्रसिद्ध पञ्चतन्त्र की अधिकांश कथाओं का मूल जातकों में ही है।^२

^१ भारत भूमि और उसके निवासी (पृ० २४६) जयचन्द्र विद्यालंकार ।

^२ एक जातक (३८) । २ वानरिन्द जातक (५८) । ३ कूट वाणिज्य जातक (६८) । ४ मिति चिन्ति जातक (११४) आदि ।

उसका कर्ता ब्राह्मण था। बौद्ध कथाएँ जहाँ जन-साहित्य है और उनका उद्देश्य जनसाधारण का शिक्षण रहा है, वहाँ पञ्चतन्त्र के ब्राह्मण रचयिता ने उन कथाओं का उपयोग केवल राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए किया है।

हितोपदेश में श्लोकों की अधिकता है। वे सचमुच हितोपदेश हैं। उसमें पञ्चतन्त्र से सहायता ली गई है और अनेक जातक-कथाएँ विद्यमान हैं।

आख्यायिका-साहित्य में वैताल पञ्चविंशति का भी स्थान है। उसमें पता नहीं कोई जातक-कथा है वा नहीं? सिंहासन द्वात्रिंशिका शुकसप्तति आदि और भी कई ग्रन्थ हैं। जैन वाङ्मय में भी आख्यायिका साहित्य है ही। इस सारे साहित्य में और बौद्ध जातक कथाओं में कही न कही साम्य अवश्य है, जो अधिकांश में जातक-कथाओं के ही प्रभाव का परिणाम है।

जातक-कथाओं में कई कथाएँ ऐसी हैं जो पृथ्वी के प्रायः हर कोने में पहुँच गई हैं। पञ्चतन्त्र ही इन कथाओं को फैलाने का मुख्य साधन बना प्रतीत होता है। छठी सदी में पञ्चतन्त्र का एक अनुवाद पहलवी अथवा प्राचीन फारसी में हुआ। यह अनुवाद खुसरो नौशेरवाँ के राजवैद्य की कृति था। इसी अनुवाद से पञ्चतन्त्र का एक अनुवाद सीरिया की भाषा में हुआ, जो जर्मन अनुवाद के साथ १८७६ में लीपजिग से छपा। पञ्चतन्त्र ही का एक अरबी अनुवाद लगभग ७५० ई० में अलमीकाफ के पुत्र अब्दुल्ला ने किया; जिसका नाम था कलेला दमना।^१ यह कथा-संग्रह अरबों को बहुत प्रिय हुआ। आगे चलकर जब अरब योरोप के दक्षिण देशों में फैले तो उन्हे इन कथाओं को यूरोप में फैलाने का श्रेय मिला।

१८१६ में पञ्चतन्त्र के अरबी अनुवाद कलेला दमना (كليلة دمننا) का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। १४८३ में अरबी अनुवाद से ही पञ्चतन्त्र जर्मन में अनूदित हुआ। १०८० में इस अरबी अनुवाद का ग्रीक भाषा में एक अनुवाद हो चुका था। १८६६ में इस ग्रीक अनुवाद से लातीनी भाषा में अनुवाद हुआ। इसी प्रकार १५वीं सदी के अन्त में पञ्चतन्त्र के अरबी अनुवाद का फारसी अनुवाद हुआ जिसका नाम है अनवार सहेली। १६४४ में उस अनवार सहेली से

^१ दोनों नाम पञ्चतन्त्र के कर्कट और दमनक के विकृत रूप हैं।

लिव्रे दे ल्यूमिरे (Livre des Lumieres), नाम से फ्रेंच अनुवाद हुआ। १८७२ में ग्रीक अनुवाद से इटली की भाषा में अनुवाद हुआ। १२५० में अरबी अनुवाद से ही हीब्रू में अनुवाद हुआ; और इसी सदी के अन्त में हीब्रू से लातीनी में भी। फिर आगे चलकर १८५४ में सीधा अरबी से भी एक अनुवाद हुआ।

ईसप् की कथाओं के नाम से जिन कथाओं का यूरोप में प्रचार है और जिनके कुछ अनुवाद हमारी भारतीय भाषाओं में, यहाँ तक कि संस्कृत में भी छप चुके हैं,^१ उनका मूल उद्गम-स्थान कहाँ है? श्री० रीजडेविड्स उन कथाओं के बारे में विस्तृत अन्वेषण करने के बाद इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि उनमें से किसी कथा का किसी ईसप से सम्बन्ध नहीं है।^२ 'ईसप-कथाओं' का प्रथम संग्रह मध्यम-युग में हुआ। उनमें से अधिकांश का मूल-स्थान हमारी जातक-कथाएँ ही हैं, और बहुत सम्भव है कि लगभग सभी का मूल-स्थान भारतवर्ष है।^३

पञ्चतन्त्र के जिस अरबी अनुवाद का हमने ऊपर उल्लेख किया है वह ८वीं शताब्दी में बगदाद के खलीफ़ा अलमंसूर के दरबार में लिखा गया था। इसी खलीफ़ा के दरबार में एक ईसाई पदाधिकारी था, जो बाद में सन्यासी हो गया। उसका नाम है डमसकस का सन्त जान (St. John of Damascus)। उसने ग्रीक भाषा में अनेक किताबें लिखीं। उन्हीं में एक किताब बरलाम एण्ड जोसफ (Barlaam and Joasaph) है। इस कथा के जोसफ कौन है? स्वयं बुद्ध। ऊपर कह आए है कि बुद्धत्व प्राप्ति से पूर्व अपने पिछले और अन्तिम जन्म में बुद्ध बोधिसत्त्व कहलाए। यह बोधिसत्त्व ही बोसत और फिर जोसफ बना। सन्त जान की इस किताब में बुद्ध का आशिक चरित्र और अनेक जातक कथाएँ हैं।

^१ अहमद नगर के श्री० बालकृष्ण गोड़बोले ने संस्कृत में अनुवाद किया था।

^२ श्री० मैकडानल के अनुसार बन्नियू ने २०० ई० में ईसप् कथाओं को लिखा। (इण्डियाज्ज पास्ट पृष्ठ १२५)।

^३ बुद्धिस्ट वर्थ स्टोरीज पृ० ३२

अरबी के कलैला दमना की तरह यह ग्रन्थ लोगों को बहुत प्रिय हुआ और इसका प्रचार भी बहुत हुआ। अनेक यूरोपिय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। यह ग्रन्थ लातीनी, फ्रेंच, इटालियन, स्पैनिश, जर्मन, अंग्रेजी, स्वेडिश और डच में प्राप्य है। १२०४ में आइसलैण्ड की भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ; और फिलिपाइन द्वीप में जो स्पेन-बोली बोली जाती है, उस तक में यह प्रकाशित हो चुका है।

कितने ही आश्चर्य की बात प्रतीत होने पर भी यह सत्य है कि सन्त जोसफत के रूप में भगवान् बुद्ध आज सारे रोमन कैथालिक ईसाइयो द्वारा स्वीकृत^१ हैं, आदृत हैं और पूजे जा रहे हैं।

इन जातक कथाओं के प्रसार और प्रभाव की कथा अनन्त प्रतीत होती है। एक इटालियन विद्वान ने सिद्ध किया है कि किताब उल् सिन्दबाद की अनेक कथाओं का और अलिफलैला (Arabian Nights) की अनेक कथाओं का भी मूल-स्थान जातक-कथाएँ ही हैं।

जिस समय हूण पूर्वी यूरोप में गए तो वे भी अपने साथ जातक कथाओं में से कुछ ले गए। बहुत सी ऐसी कथाएँ जिनका मूल जातक कथाओं में है सलाव लोगों में मिली हैं।

बौद्ध देशों में जातक कथाओं का प्रचार है ही।

इस प्रकार जातक वाङ्मय चाहे उसे प्राचीनता की दृष्टि से देखे, चाहे विस्तार की, और चाहे उपदेशपरक तथा मनोरञ्जक होने की दृष्टि से, वह संसार में अपना सानी नहीं रखता।

अट्टकथानुसार इन कथाओं में से तीन चौथाई कहानियाँ जेतवन विहार में कही गईं। शेष राजगृह तथा अन्य कोसम्बी, वैशाली आदि स्थानों में।

जातक कथाओं में जो वर्तमान कथाएँ हैं, ऊपरी दृष्टि से देखने से, उनका ऐतिहासिक मूल्य अधिक प्रतीत होता है। वे कथाएँ उतनी ऐतिहासिक नहीं

^१ देखो पोप सिक्सटस् (१५८५-९०) की २७ नवम्बर की डिक्री जिसमें भारत के बरलाम और जोसफत को कैथालिक ईसाइयों के सन्तों के रूप में स्वीकृत किया है।

हैं जितनी काल्पनिक। वर्तमान-कथाओं की अपेक्षा अतीत-कथाओं का ऐतिहासिक मूल्य कहीं अधिक है ?

प्रायः सभी जातकों के आरम्भ में “पूर्व काल में बाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय” आता है। पता नहीं यह ब्रह्मदत्त कोई राजा हुआ है वा नहीं ? कुछ लोगों का ख्याल है कि ‘जनक’ की तरह यह ब्रह्मदत्त भी अनेक राजाओं की पदवी रही होगी। हमारा तो ख्याल है कि कथाओं में ब्रह्मदत्त का मूल्य कथा आरम्भ करने के लिए एक निश्चित शब्द-समूह से अधिक कुछ नहीं; जैसे उर्दू की प्रायः हर कहानी ‘एक दफा का जिक्र है’ से आरम्भ होती है, और अंग्रेजी की वन्स अपान ए टाइम (Once upon a time) से, वैसे ही हमारी अनेक जातक कथाओं के लिए ‘पूर्व काल में बाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय’ है।

जातक कथाओं के विषयों के बारे में थोड़े में कुछ भी कह सकना कठिन है। मानवजीवन का कोई भी पहलू इन कथाओं से अछूता बचा प्रतीत नहीं होता। यही वजह है कि पिछले दो सहस्र वर्ष के इतिहास में यह जातक कथाएँ मनुष्य समाज पर अनेक रूप से अपनी छाप छोड़ने में समर्थ हुई हैं।

जब कभी कहा जाता है कि भारतवर्ष का सारा साहित्य परलोक चिन्ता-मय है, उसको इहलोक की चिन्ता ही नहीं, तो हम उसे अपनी और अपने वाङ्मय की प्रशंसा समझते हैं। किसी भी जाति का काम केवल परलोक-परक होने से नहीं चल सकता। भगवान् बुद्ध ने इहलोक तथा परलोक चिन्ता में समत्व स्थापित किया। यही कारण है कि जातक कथाओं को बौद्ध वाङ्मय में महत्त्वपूर्ण स्थान मिला और उनका विकास हुआ। जातक साहित्य जन-साहित्य के सच्चे अर्थों में जनता का साहित्य है। इसमें हमारे उठने बैठने खाने पीने, ओढ़ने बिछाने की साधारण बातों से लेकर हमारी शिल्पकला, हमारी कारीगरी, हमारे व्यापार की चर्चा के साथ हमारी अर्थनीति, राजनीति तथा हमारे समाज के सगठन का विस्तृत इतिहास भरा पड़ा है। उस युग के भू-वृत्त की भी पर्याप्त सामग्री है, विशेष रूप से उस युग के जल-मार्गों तथा स्थल-मार्गों की।

भारतीय जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसका लेखा इन कथाओं में न मिलता हो। यदि भविष्य में हमारा इतिहास राजाओं की जन्म-मरण

तिथियों का लेखा मात्र न रह कर जनता के जन्म-मरण के इतिहास के रूप में यथार्थ ढंग से लिखे जाने को है, तो प्राचीन काल के वैसे इतिहास के लिए इन कथाओं का मूल्य बहुत ही अधिक है।

यदि मनोरञ्जन के साथ साथ उपदेश ग्रहण करना हो, यदि हृदय को उदार तथा शुद्ध बनाने वाली कथाओं के साथ साथ बुद्धि को प्रखर करने वाली कथाएँ पढ़नी हों; यदि अपने देश की प्राचीन आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था से परिचित होना हो, तो हम जातक कथाओं से बढ़ कर किसी दूसरे साहित्य की सिफारिश नहीं कर सकते।

× × ×

१९३३ में मैं इंग्लैण्ड में था। श्रद्धेय राहुल जी का पत्र आया कि बौद्ध ग्रन्थों को हिन्दी में लाने की एक पञ्चवर्षीय योजना बनी है, तुम्हारे हिस्से में केवल जातक-कथाओं का हिन्दी अनुवाद आया है, इसे तुम्हें ही कर डालना होगा। १९३४ में जब मैं इंग्लैण्ड से सिहल लौटा और वहाँ से पीनाङ्ग आया तो उस वर्ष पीनाङ्ग-निवास के दिनों में मेरा मुख्य कार्य जातक कथाओं का अनुवाद ही रहा। वहाँ मैं जानोदय बौद्धसभा का अतिथि था और सौभाग्य-वश मुझे आदरणीय स्थविर गुणरत्न जी का सान्निध्य प्राप्त हुआ। परिश्रम अधिक करना पड़ा किन्तु राहुल जी की इच्छा के अनुसार निदान-कथा और प्रथम परिच्छेद की सौ जातक कथाओं का अनुवाद उसी वर्ष-वास के अन्त में समाप्त हो गया। भाई गुणरत्न जी ने अपनी बहुज्ञता से अनुवाद कार्य में और उसे मूल पालि से मिलाने में बड़ी सहायता की।

१९३५ में मैं स्याम के रास्ते भारत चला आया। जानोदय बौद्ध सभा वाले चाहते थे कि जातक कथा के प्रकाशित करने का पुण्य वे ही प्राप्त करें। किन्तु इससे पहले पञ्जाब विश्वविद्यालय के संस्कृत डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डा० लक्ष्मण स्वरूप जी इन कथाओं को छपाने के लिए राहुल जी को लिख चुके थे; और राहुल जी ने भी उन्हें लिख दिया था। इसलिए मैंने पीनाङ्ग वालों से कहा कि भारत की कथाएँ भारत के ही पैसे से छपें तो ही ठीक होगा।

१९३५ में मैंने जो कुछ पीनाङ्ग में लिखा था, वह राहुल जी को लाकर दे दिया। उन्होंने उसे डाक्टर लक्ष्मण स्वरूप के पास लाहौर भेज दिया। छपाई आरम्भ हुई। अनुवादक सारनाथ में, छपाई लाहौर में; प्रूफ के आने

जाने में देर लग जाएगी; इस ख्याल से प्रूफ लाहौर में ही देखे जाने लगे। निदान-कथा और बारह-कथाएँ छपीं। किन्तु यह प्रबन्ध सन्तोषजनक सिद्ध न हुआ। जितना अंश छप चुका था, उतना ही 'प्रथम-भाग' बनकर प्रकाशित हुआ।

इस प्रकार जातक कथाओं के आरम्भिक भाग को हिन्दी में प्रकाशित करने का प्रथम श्रेय डाक्टर साहब को है; जिनका मैं कृतज्ञ हूँ।

लगभग ढाई तीन वर्ष पाण्डुलिपि मेरे पास रही। हिन्दी के कई प्रकाशकों ने उसे प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की। किन्तु यह कार्य्य ज़रा बड़ा था। कई प्रकाशकों ने चुनी हुई कहानियाँ माँगी। मेरा कहना था कि मैं कहानी-लेखक नहीं हूँ, मैं तो अनुवादक का धर्म पूरा करना चाहता हूँ।

पिछले वर्ष आदरणीय श्री० पुरुषोत्तमदास जी टण्डन की प्रेरणा से जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन की साहित्य समिति ने जातक कथाओं के हिन्दी अनुवाद को प्रकाशित करने का संकल्प किया, तो मुझे लगा कि अब यह कार्य्य सम्पन्न होकर रहेगा। उस सन्ध्या को जब श्री० टण्डन जी ने मेरा सारनाथ लौटना रोक कर श्री० उदयनारायण त्रिपाठी के साथ "आज ही और अभी प्रेस जाकर सब निश्चय कर आने के लिए" कहा तो मैंने समझा कि टण्डन जी के सोचने और कार्य्य करने में कितना कम अन्तर है। टण्डन जी और साहित्य सम्मेलन अविभाज्य है। टण्डन जी साहित्य सम्मेलन हैं; और साहित्य सम्मेलन टण्डन जी। तो भी मैं इस अवसर पर टण्डन जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से अपनी कृतज्ञता प्रकट किए बिना नहीं रह सकता।

सम्मेलन के साहित्यमन्त्री श्री० ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मल जी तथा सहायक मन्त्री श्री० नारायणदत्त जी पाण्डेय ने जातक की छपाई को बिल्कुल अपना काम समझा।

मेरे भाग्य से जिस समय जातक लॉ जर्नल प्रेस में छप रहा था, उसी समय श्री० कोसम्बी जी बम्बई से सारनाथ आए और यही रहने लगे। उन्होंने मेरे सारे अनुवाद को सुनने की कृपा की; और अनेक ऐसी भूलों का जो मेरे अज्ञान वा असावधानी के कारण रह गई थीं, मार्जन कर दिया। मुझे सन्तोष है कि अब यह अनुवाद एक प्रकार से शायद निर्दोष कहा जा सकता है। यह कोसम्बी जी की ही कृपा का फल है।

पूज्य महास्थविर बोधानन्द जी का आशीर्वाद मिलता रहा है। भाई जगदीश काश्यप जी आदि सभी सारनाथ-वासी समय समय पर इस कार्य में अनेक प्रकार से सहायक होते रहे। अर्पणों को क्या धन्यवाद दिया जाए ?

प्रथम-खण्ड में जातकटुकथा की निदान-कथा और एक सौ कथाएँ हैं। दूसरे खण्ड में (जो प्रेस में है) दो सौ कथाएँ रहेंगी। इस प्रकार प्रथम दो खण्डों में तीन सौ कथाओं का समावेश हो जाएगा। शेष दो सौ सैतालीस कथाएँ उत्तरोत्तर लम्बी होती जाती हैं। आशा है, पाठक किसी दिन सभी को हिन्दी में अनूदित पढ़ सकेंगे।

श्रद्धेय श्री० जयचन्द्र जी तथा कुछ मित्रों का आग्रह रहा है कि भूमिका में जातकों के आधार पर तत्कालीन अवस्था का विस्तृत दिग्दर्शन रहना चाहिए और रहना चाहिए जातकों में उपलब्ध सामग्री का ऐतिहासिक विश्लेषण। इसके लिए जातकों के जिस मन्थन की आवश्यकता है वह सभी जातकों का अनुवाद छप चुकने पर ही सम्भव प्रतीत हुआ। तत्काल अनुवादक की सीमा के अन्दर रहने में ही सन्तोष मानना पड़ा।

भाई अमृत पाल जी की सहायता से पुस्तक के लिए जो नकशा बनाया गया है, हो सकता है कि जातकों का अनुवाद समाप्त होने पर उसमें कहीं कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़े। तब तक के लिए आशा है पाठक इसे स्वीकार करेंगे।

मैंने यह अनुवाद सिंहल अक्षरों में हेवावितारण ट्रस्ट की ओर से छपी पालि अट्टकथा से किया है। कहीं कहीं सन्दिग्ध स्थल होने पर श्री० फोसबोल द्वारा रोमन अक्षरों में सम्पादित पालि टेक्स्ट को भी देख लेता रहा हूँ। मैं दोनों का ऋणी हूँ।

अनुवाद में पालि जातकों का सिंहल अनुवाद और विशेष रूप से पालि गाथाओं का सिंहल अनुवाद सहायक हुआ है। सन्देह होने पर कभी कभी बँगला अनुवाद तथा अंग्रेजी अनुवाद को भी देख लिया है।

बँगला और अंग्रेजी अनुवादों में पालि गाथाओं का पद्य-बद्ध अनुवाद है। मैं कवि न होने से वँसा नहीं कर सका। मुझे पालि में मूल गाथाएँ देकर, उनके नीचे अपना हिन्दी अनुवाद दे देना ही अधिक अच्छा जँचा।

पुस्तक में केवल दो ही तरह के टाइपों का प्रयोग है—काला और सफेद । काले टाइप में जो है वह पालि है, अथवा पालि गाथाओं का अनुवाद; और जहाँ कहीं सफेद टाइप में काला टाइप है वह पालि शब्दों के लिए है या पारि-भाषिक तथा महत्त्व-पूर्ण शब्दों के लिए ।

पुस्तक की सुन्दर छपाई का श्रेय ला जर्नल प्रेस को है । उसके स्टाफ ने इसकी छपाई में हर तरह से सहयोग दिया है ।

अपनी ओर से पूरी सावधानी रखने पर भी भूल हो जाना मानव स्वभाव है; मुझसे भी कुछ अवश्य हुई होगी । आशा है विज्ञान सूचित करने की दया दिखावेगे ।

मूलगन्धकृटी विहार
सारनाथ
२३-८-४१

आनन्द कौसल्यायन

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
उपोद्घात	१
क. दूरेनिदान	२
१. सुमेध (बाल्य, वैराग्य)	२
२. संन्यास	७
३. आश्रम	८
४. दीपङ्कर का दर्शन	१५
५. बुद्ध बनने का संकल्प	१६
६. दीपङ्कर की भविष्यद्वाणी	२१
७. सुमेध का दृढ़ संकल्प	२४
८. दस पारमिताएँ	२७
९. पहले के बुद्ध	३६
१०. धर्मों का आचरण	५७
ख. अविदूरेनिदान	६२
१. गौतम का बाल्य चरित	६२
१. देवलोक से मनुष्यलोक की ओर	६२
२. बोधिसत्त्व का जन्म, कुल, देश आदि	६३
३. माया देवी के गर्भ में	६५
४. सिद्धार्थ का जन्म	६८
५. कालदेवल की भविष्यद्वाणी	७१
६. ज्योतिषी की भविष्यद्वाणी	७३
७. शैशव का एक चमत्कार	७५

विषय	पृष्ठ
२. गौतम का चरित	७६
१. यौवनप्रवेश	७६
२. जरा, व्याधि, मृत्यु और सन्यासी दर्शन	७६
३. पुत्र-जन्म	७८
४. गृह-त्याग	८०
३. गौतम का संन्यास	८४
१. भिक्षुवेश में	८४
२. राजगृह में भिक्षाटन	८६
३. तपस्या	८७
४. सुजाता की खीर	८९
५. मार विजय	९३
६. बुद्ध पद का लाभ	९७
ग. सन्तिके निदान	९८
१. बोधिवृक्ष के आसपास	९८
२. अजपाल बर्गद के नीचे	१००
३. मुचलिन्द वृक्ष के नीचे	१०२
४. धर्म-प्रचार	१०३
५. बनारस (सारनाथ)	१०४
६. प्रथम उपदेश; धर्मचक्र प्रवर्तन	१०५
७. उरुवेला की ओर	१०६
८. राजा बिम्बिसार का बौद्ध होना	१०६
९. सारिपुत्र और मौद्गल्यायन की प्रब्रज्या	१०९
१०. शूद्धोदन का संदेश	११०
११. कपिलवस्तु गमन	११२
१२. सम्बन्धियों से मिलन	११५
१३. पुत्र को दाय-भाग	११८
१४. अनाथपिण्डिक का दान	११९

विषय	पृष्ठ
पहला परिच्छेद	१२३
१. अपरणाक वर्ग	१२३
१. अपरणाक जातक	१२३
<p>[दो बनजारे व्यापार के लिए जाते हैं। एक मूर्खता के कारण दैत्य के हाथों मारा जाता है। दूसरा बुद्धिमान होने के कारण दैत्य के चंगुल में नहीं फँसता और धन लाभ कर अपने पाँच सौ साथियों सहित सकुशल वापिस आता है।]</p>	
२. वण्णुपथ जातक	१३६
<p>[कान्तार में पानी के न मिलने से पाँच सौ व्यापारियों की जान जानेवाली है। बोधिसत्त्व के उत्साह दिलाने से बिना अंत तक निराश हुए एक तरुण जमीन खोद कर पानी निकाल कर ही छोड़ता है।]</p>	
३. सेरिवाणिज जातक	१४२
<p>[लालची व्यापारी सोने की थाली मुफ्त में ही लेना चाहता है। बोधिसत्त्व उसका यथार्थ मूल्य कहकर ले जाते हैं। लोभी व्यापारी का हृदय फट जाता है।]</p>	
४. चुल्लसेट्ठि जातक	१४६
<p>[एक तरुण को एक मरा हुआ चूहा मिलता है। उसी से वह शनैः शनैः उन्नति करता हुआ महाधनवान हो नगर के श्रेष्ठी का पद प्राप्त करता है।]</p>	

- | विषय | पृष्ठ |
|--|-------|
| ५. तण्डुलनालि जातक | १५६ |
| [लोभवश राजा एक मूर्ख आदमी को अपना अर्घ्य कारक बनाता है। वह पाँच सौ घोड़ों का मूल्य एक तण्डुल-नालि बताता है; फिर उस तण्डुल-नालि का मूल्य बताता है भीतर-बाहर बाराणसी।] | |
| ६. देवघम्म जातक | १६३ |
| [महिंसास कुमार एक उदक राक्षस के देवघर्म सम्बन्धी प्रश्न का यथार्थ उत्तर दे अपने दोनों भाइयों सूर्यकुमार तथा चन्द्रकुमार की जान बचाता है।] | |
| ७. कट्टुहारि जातक | १७३ |
| [राजा ब्रह्मदत्त बन में गा गाकर लकड़ी चुनने वाली एक लड़की पर आसक्त हो जाता है। उसे गर्भ रहता है। राजा लड़की को एक अँगूठी दे जाता है। जब लड़की पुत्र सहित राजा के पास जाती है, तो राजा उसे पहचान नहीं सकता। पीछे उसे पुत्र को अपनाना पड़ता है।] | |
| ८. गामणी जातक | १७६ |
| ९. मखादेव जातक | १७८ |
| [राजा को सिर का सफेद बाल दिखाई दिया। उसने इसे मृत्यु की पूर्व-सूचना समझ राजासिंहासन त्याग प्रव्रजित हो योगाभ्यास किया।] | |
| १०. सुखविहारी जातक | १८२ |
| [राजा संन्यासी होकर संन्यास-सुख के आनन्द में उल्लास-वाक्य कहता है।] | |

विषय	पृष्ठ
२. सील वर्ग	१८६
११. लक्षण जातक	१८६
[दो मृगों में से मूर्ख मृग के सभी अनुयायी मारे जाते हैं। बुद्धिमान अपने अनुयाइयों सहित सकुशल लौटता है।]	
१२. निग्रोधमृग जातक	१९०
[दो मृगों के दलों ने निश्चय किया कि बनारस के राजा के रसोई घर के लिए बारी बारी से एक एक दल का एक एक मृग रोज जाय। एक गर्भिणी मृगी अपनी बारी के दिन न जाकर दूसरे दिन जाना चाहती थी। उसने अपने दल के सरदार से कहा। नेता बोला—जिसकी बारी वह ही जाने। दूसरे दल का नेता उस मृगी के बदले स्वयं चला गया। राजा ने उसके आत्म-त्याग से प्रभावित होकर प्राणियों की हिंसा करना ही छोड़ दिया।]	
१३. कण्डिन जातक	२००
[कामुकता के वशीभूत हो एक मृग शिकारी के हाथों मारा गया।]	
१४. वातमिग जातक	२०३
[रस-तृष्णा के वशीभूत हो एक मृग पकड़ा गया।]	
१५. खरादिय जातक	२०७
[एक बात न मानने वाला मृग शिक्षाकामी न होने के कारण पकड़ा गया।]	
१६. तिपल्लत्थमिग जातक	२०९
[एक बात मानने वाला मृग शिक्षाकामी होने से जाल में फँसकर भी सकुशल बचकर चला आया।]	

- | विषय | पृष्ठ |
|---|------------|
| १७. मारुत जातक | २१४ |
| [शीत के बारे में विवाद । शीत न कृष्णपक्ष में होता है न शुक्लपक्ष में । जब हवा चलती है, तभी शीत होता है ।] | |
| १८. मतकभक्त जातक | २१६ |
| [एक ब्राह्मण श्राद्ध के हेतु भेड़े को मारने जा रहा था । भेड़ा हँसा और रोया । ब्राह्मण के पूछने पर कारण कहा ।] | |
| १९. आयाचितभक्त जातक | २१९ |
| [एक कुटुम्बी को वृक्षदेवता का उपदेश ।] | |
| २०. नलपाण जातक | २२१ |
| [तालाब का राक्षस तालाब में उतर कर पानी पीने वालों को पकड़ लेता था । बन्दरों ने बोधिसत्त्व का कहना मान सरकारण्डों की सहायता से किनारे पर बैठे ही बैठे पानी पिया । राक्षस उनका कुछ न बिगाड़ सका ।] | |
| ३. कुरुंग वर्ग | २२५ |
| २१. कुरुंगमिग जातक | २२५ |
| [वृक्ष पर बैठे हुए शिकारी ने मृग को लुभाने के लिए उसकी ओर बढ़ाकर फल गिराए । मृग समझ गया, बोला—हे वृक्ष, पहले तू फलो को सीधा जमीन पर गिराता था । अब अपने धर्म को छोड़कर आगे बढ़ाकर गिरा रहा है । इसलिए मैं भी अब दूसरी जगह जा रहा हूँ ।] | |
| २२. कुक्कुर जातक | २२७ |
| [कुत्तों ने राजा के रथ के चमड़े और रस्सी को खा लिया । राजा ने महल के कुत्तों के अतिरिक्त शेष | |

विषय

पृष्ठ

सभी कुत्तों को मरवाना आरम्भ किया । वास्तविक अपराधी महल के कुत्ते ही थे । बोधिसत्त्व ने कुत्तों की जान बचाई ।]

२३. भोजाजानीय जातक २३२

[किसी दूसरे घोड़े से युद्ध न जीता जा सकता था । भोजाजानीय अश्व ने जखमी होने पर भी युद्ध किया और विजय पाई ।]

२४. आजञ्ज जातक २३५

[पूर्व जातक के सदृश ही आजञ्ज घोड़े ने अपना पराक्रम दिखाया ।]

२५. तित्थ जातक २३७

[राजा का माङ्गलिक घोड़ा अभ्यस्त तीर्थ पर नहाना नहीं चाहता था । बोधिसत्त्व ने उसका आशय जान, उसे नये तीर्थ पर स्नान करवाया ।]

२६. महिलामुख जातक २४२

[चोरो की बातचीत सुन महिलामुख हाथी उद्वण्ड हो गया । फिर साधुजनों की बातचीत सुनकर शान्त हुआ ।]

२७. अभिण्ह जातक २४६

[कुत्ते और हाथी का परस्पर इतना स्नेह था कि कुत्ते का साथ छूटने पर हाथी ने खाना त्याग दिया ।]

२८. नन्दिबिसाल जातक २४९

[एक आदमी ने अपने बैल के भरोसे दूसरे से शर्त लगाई । गाड़ी खींचने के समय बैल को अपशब्द कह दिया । बैल ने गाड़ी न खींची । आदमी बाजी हार गया । फिर दुबारा अपशब्द न कहने की प्रतिज्ञा करा बैल ने उसे दोहरी बाजी जिताई ।]

- | विषय | पृष्ठ |
|--|-------|
| २९. कण्ह जातक | २५२ |
| [एक बैल ने अपनी बुढ़िया माँ को जिसने उसे पाला था मजदूरी कमाकर एक हजार कार्षापण लाकर दिए ।] | |
| ३०. मुनिक जातक | २५६ |
| [एक सुअर को खूब खिला पिलाकर मोटा किया जा रहा था । एक बैल ने ईर्ष्या की । दूसरे ने कहा— ईर्ष्या मत कर । यह केवल इसका मरण-भोजन है ।] | |
| ४. कुलावक वर्ग | २५६ |
| ३१. कुलावक जातक | २५६ |
| [मघ माणवक ने ग्रामसुधार के उपायों द्वारा ग्राम-वासियों को सदाचारी बनाया । ग्राम-भोजक को बुरा लगा । उसने राजा से झूठी शिकायत की । राजा ने मघ माणवक पर हाथी छुड़वाया । मघ माणवक के मैत्री-बल के कारण हाथी ने उसे कुछ न कहा । राजा ने प्रसन्न हो बोधिसत्त्व को मुक्त किया । उस समय से वह यथेच्छ पुण्य करने लगे ।] | |
| ३२. नच्च जातक | २६८ |
| [हंस बच्ची ने मोर के सौंदर्य पर मुग्ध हो उसे अपना पति चुना । मोर प्रसन्नता के मारे नाचने लगा । हंस ने उसे लाज शरम छोड़ नाचते देख लड़की देने से इनकार कर दिया ।] | |
| ३३. सम्मोदमान जातक | २७१ |
| [जब तक बटेरों का एक मत रहा चिड़ीमार उनका कुछ न बिगाड़ सका । जब मतभेद हुआ, तो सभी चिड़ी-मार के जाल में फँस गए ।] | |

- | विषय | पृष्ठ |
|---|-------|
| ३४. मच्छ जातक | २७४ |
| [एक मत्स्य अपनी मछली के साथ रति-क्रीड़ा करता हुआ पकड़ा गया ।] | |
| ३५. बटुक जातक | २७६ |
| [जंगल में आग लगने पर बटेर-पोतक के माता पिता उसे घोंसले में छोड़ चले गए । बटेर-पोतक ने सत्य-क्रिया की । आग बुझ गई ।] | |
| ३६. सकृण जातक | २८१ |
| [वृक्ष पर पक्षीगण रहते थे । शाखाओं के परस्पर रगड़ खाने से वृक्ष में आग लग गई । बोधिसत्त्व ने सब पक्षियों को अन्यत्र जाने को कहा ।] | |
| ३७. तित्तिर जातक | २८३ |
| [बन्दर, हाथी और तित्तिर ने आपस में विचार कर निश्चय किया कि जो ज्येष्ठ हो उसका आदर सत्कार होना चाहिए ।] | |
| ३८. बक जातक | २८७ |
| [बगुले ने मछलियों को धोखा दे दे एक एक को ले जाकर मार कर खाया । अंत में वह एक केकड़े के हाथ से मारा गया ।] | |
| ३९. नन्द जातक | २९२ |
| [एक गृहपति मरते समय गड़ा धन छोड़ गया । नौकर जब उसके लड़के को वह स्थान बताने जाता, तो वहाँ पहुँचते ही धन की गर्मी के कारण गालियाँ बकने लगता ।] | |

- | विषय | पृष्ठ |
|---|-------|
| ४०. खदिरंगार जातक | २६५ |
| [मार ने बहुत कोशिश की कि प्रत्येक-बुद्ध को भिक्षा न मिले। बोधिसत्त्व ने दहकते हुए अङ्गारों में जल मरने की भी परवाह न कर दान दिया ।] | |
| ५. अत्यकाम वर्ग | ३०६ |
| ४१. लोसक जातक | ३०६ |
| [विहारवासी भिक्षु ने आगन्तुक भिक्षु के प्रति ईर्ष्यालु हो एक गृहस्थ से भूठी निन्दा की। गृहस्थ ने उसके लिए जो भोजन दिया, वह भी उसे नहीं दिया। इस दुष्कर्म के फलस्वरूप उसे नरक भोगना पड़ा ।] | |
| ४२. कपोत जातक | ३१५ |
| [एक कौआ रस तृष्णा के वशीभूत हो कबूतर के साथ रहने लगा। रोज साथ चुगने जाता था। एक दिन बहाना बना कर नहीं गया। घर पर उसने रसोइए की अनुपस्थिति में चोरी से मांस खाना चाहा। रसोइए ने उसके पर नोच उनमें निमक मसाला लगा उसे छीके में फेंक दिया ।] | |
| ४३. वेळुक जातक | ३१६ |
| [तपस्वी ने साँप के बच्चे को पाला, जिसने उसे डस कर मार डाला ।] | |
| ४४. मकस जातक | ३२१ |
| [बड़ई ने अपने लड़के को सिर पर बैठे मच्छर को हटाने के लिए कहा। लड़के ने मच्छर को मारने जाकर कुल्हाड़े से पिता को ही मार डाला ।] | |

- | विषय | पृष्ठ |
|--|-------|
| ४५. रोहिणी जातक | ३२३ |
| [रोहिणी नाम की दासी ने अपने माता के सिर की मक्खियाँ हटाने जाकर माता को मार डाला ।] | |
| ४६. आरामदूसक जातक | ३२५ |
| [माली बानरों को उद्यान सौंप कर गया कि उसकी अनुपस्थिति में पानी सींचते रहें । बानरों ने पौदों को उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ों की लम्बाई के अनुसार कम या अधिक पानी सींचा ।] | |
| ४७. वारुणी जातक | ३२८ |
| [शराब का व्यापारी अपने शिष्य को शराब बेचने के लिए कह गया । उसने शराब में नमक मिलाकर उसे खराब कर दिया ।] | |
| ४८. वेदवभ जातक | ३३० |
| [ब्राह्मण ने चोरो के लिए मन्त्र-बल से धन की वर्षा कर अपनी जान गँवाई । बाद में वह चोर भी आपस में कटकर मर गए ।] | |
| ४९. नक्षत्र जातक | ३३४ |
| [नक्षत्र विश्वास के कारण लड़के वाले को विवाह पक्का हुआ रहने पर भी लड़की न मिल सकी ।] | |
| ५०. दुग्धेध जातक | ३३७ |
| [ब्रह्मदत्त कुमार ने राज्य पाने पर घोषणा की कि वह एक यज्ञ करेगा, जिसमें केवल दुराचारी लोगों की बलि दी जाएगी । लोगों ने कुकर्म छोड़ दिए ।] | |

विषय	पृष्ठ
६. आसिंस वर्ग	३४१
५१. महासीलव जातक	३४१
[काशी राज्य से निकले हुए एक अमात्य ने कोशल पहुँच वहाँ के राज्य को भड़का काष्ठी पर आक्रमण कराया । काशी नरेश ने विरोध न कर सत्याग्रही ढंग से काम लिया । अंत में कोशल नरेश को काशी नरेश के मामने भुक्ना पड़ा ।]	
५२. चूलजनक जातक	३४८
५३. पुष्पपाति जातक	३४९
[धूर्ती ने शराब में विष मिला एक सेठ को लूटना चाहा । सेठ उनकी चालाकी समझ गया ।]	
५४. फल जातक	३५१
[आम के वृक्ष की तरह का एक विष-वृक्ष था । बोधि- सत्त्व ने अपने साथी काफिले को उस वृक्ष के फल न खाने दिए ।]	
५५. पंचावुध जातक	३५४
[एक कुमार तक्षशिला से शस्त्र-विद्या सीख कर आया । उसे मार्ग में श्लेषलीम यक्ष मिला । कुमार ने शस्त्रों से आक्र- मण किया । उसके शस्त्र एक एक करके यक्ष के वालों में ही चिपक गए । तब भी कुमार ने हिम्मत न हारी । हाथ पैरों से प्रहार किया । वह भी चिपक गए । सिर से प्रहार किया । वह भी चिपक गया । कुमार ने तब भी हिम्मत न हारी । यक्ष ने उसे पुरुष-सिंह जान छोड़ दिया ।]	
५६. कंचनकखन्ध जातक	३५८
[एक सेठ के गड़े हुए धन से बोधिसत्त्व का हल टकरा गया । वह उसे एक साथ उठाकर घर न ला सका । बाँटकर ले आया ।]	

- | विषय | पृष्ठ |
|--|-------|
| ५७. बानरिन्द जातक | ३६१ |
| [मगरमच्छ अपनी स्त्री के कहने से बानर का हृदय-मांस चाहता था । बानर अपनी हुशियारी से बच निकला ।] | |
| ५८. तयोधम्म जातक | ३६४ |
| [एक बानर अपने बच्चों को भी दाँत से काटकर खस्सी कर डालता था कि कही बड़े होकर उसे अधिकार-च्युत न कर दे । बोधिसत्त्व ने अपनी योग्यता सिद्ध की । बानर ने जान दे दी ।] | |
| ५९. भेरिवाद जातक | ३६७ |
| [कान्तार में गुजरते हुए लड़के ने पिता का कहना न मान अत्यधिक भेरी बजाई । चोरों ने आकर घन लूट लिया ।] | |
| ६०. संखधमन जातक | ३६९ |
| [अत्यधिक शंख बजाने से चोरों द्वारा लूटे गए ।] | |
| ७. इत्थि वर्ग | ३७० |
| ६१. असातमन्त जातक | ३७० |
| [माँ के कहने से ब्राह्मण कुमार तक्षशिला जा असात-मन्त्र अर्थात् स्त्रियों के दुर्गुण सीख कर आया । स्त्रियाँ अत्यन्त निन्दित होती हैं; समझ प्रव्रजित हो गया ।] | |
| ६२. अंडभूत जातक | ३७६ |
| [राजा और पुरोहित जुआ खेलते थे । पहले राजा की जीत होती थी; फिर पुरोहित की होने लगी । राजा को कारण पता लगा—पुरोहित के घर में एक क्वारी लड़की थी जिसका सतीत्व रक्षित था । राजा ने धूर्त के हाथों उस बालिका का सतीत्व नष्ट करवाया । अंत में पुरोहित ने स्त्रियों को अर्घामिणी जान, उन्हें निकलवा दिया ।] | |

- | विषय | पृष्ठ |
|--|-------|
| ६३. तक्क जातक | ३८३ |
| [गंगा मे बहा दी गई एक स्त्री को बोधिसत्त्व ने बचाया।
उसने बोधिसत्त्व का शील नष्ट कर फिर उसे चोरों के हाथ से
मरवाना चाहा। चोरों के सरदार ने उस स्त्री को मार डाला।] | |
| ६४. दुराजान जातक | ३८७ |
| [स्त्रियों का स्वभाव दुर्ज्ञेय है।] | |
| ६५. अनभिरत जातक | ३९० |
| [शिष्य ने स्त्रियों के दुराचार की शिकायत की।
आचार्य ने कहा—उन पर क्रोध करना बेकार है। वह
सब के सामूहिक उपयोग की चीज होती ही है।] | |
| ६६. म्हुलक्षण जातक | ३९२ |
| [एक तपस्वी को जो राजा की म्हुलक्षणा नामक
रानी पर आसक्त हो गया था रानी अपने बुद्धिबल से रास्ते
पर ले आई।] | |
| ६७. उच्छ्रंग जातक | ३९८ |
| [एक स्त्री के भाई, पति और पुत्र को राजा ने पकड़
लिया। स्त्री ने उन्हें छुड़ाना चाहा। राजा तीनों में से एक
को छोड़ने पर राजी हुआ। स्त्री ने भाई को ही छोड़ने के लिए
कहा, क्योंकि भाई ही दुर्लभ है। पति और पुत्र तो दोनों
सुलभ हैं।] | |
| ६८. साकेत जातक | ४०० |
| [बिना पूर्व देखे आदमी में भी विश्वास होता है।] | |
| ६९. विसवन्त जातक | ४०२ |
| [एक बार छोड़े हुए विष को सर्प ने निकालने से इन-
कार किया; अग्नि में प्रवेश करने के लिए भी तैयार हो गया।] | |

- | विषय | पृष्ठ |
|--|-------|
| ७०. कुदाल जातक | ४०५ |
| [कुदाल-पंडित कुदाल के मोह में पड़ छः बार गृहस्थ और प्रव्रजित हुआ । अंत में कुदाल को पानी में फेंक उसके मोह से मुक्त हुआ ।] | |
| ८. वरण वर्ग | ४११ |
| ७१. वरण जातक | ४११ |
| [आलसी लड़का जंगल से गीली लकड़ी ले आया । जिसके कारण आग न जल सकी । विद्यार्थियों को यवागु खाकर गाँव जाना था, वे न जा सके । आचार्य्य सहित सबकी हानि हुई ।] | |
| ७२. सीलबनागराज जातक | ४१५ |
| [एक आदमी जंगल में रास्ता भूल गया था । हाथी ने उसकी जान बचाई । अकृतज्ञ मनुष्य उसके दाँत माँगने गया । हाथी ने प्रसन्नता पूर्वक एक एक करके अपने सब दाँत और अंत में दाढ़े तक कटवा दी ।] | |
| ७३. सच्चंकिर जातक | ४१६ |
| [दुष्ट कुमार को उसकी दुष्टता के कारण अमात्य-जन नदी में डुबा आए । वह एक बहते लकड़ पर सवार हो गया । उसी लकड़ पर एक सर्प, चूहा और तोता भी थे । तपस्वी ने उनकी जान बचाई । सर्प, चूहा तथा तोता कृत उपकार को नहीं भूले । दुष्ट कुमार ने राजा होने पर तपस्वी की भलाई का बदला बुराई से दिया । उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा ।] | |
| ७४. हक्खधम्म जातक | ४१५ |
| [एक दूसरे के आश्रय से खड़े वृक्षों का आँधी कुछ न बिगाड़ सकी । अकेले खड़े वृक्ष उखड़ कर गिर गए ।] | |

विषय	पृष्ठ
७५. मच्छ जातक	४२८
[मच्छली ने पर्जन्य-देवता को अपने शील-बल से वर्षा बरसाने पर मजबूर किया ।]	
७६. असंकिय जातक	४३२
[एक काफल के साथ के सन्यासी को चोरों से डर नहीं लगा । कारण चोरों से धनियों को ही डर होता है ।]	
७७. महासुपिन जातक	४३५
[राजा ब्रह्मदत्त ने १६ स्वप्न देखे । ब्राह्मणों ने उसे डरा उसके हाथ से महान् यज्ञ कराने चाहे; जिसमें पशुओं का घात होता । बोधिसत्त्व ने स्वप्नों की यथार्थ व्याख्या कर राजा को निर्भय किया ।]	
७८. इल्लीस जातक	४४६
[कंजूस सेठ न किसी को दान देता था, न स्वयं खाता था । उसके पिता ने जो इन्द्र होकर पैदा हुआ था इल्लीस की शकल बना इल्लीस को सीधा किया ।]	
७९. खरस्सर जातक	४६०
[गाँव का मुखिया चोरो से मिलकर गाँव लुटवाता था ।]	
८०. भीमसेन जातक	४६२
[सारे जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध एक धनुर्धारी कद के छोटे पन के कारण भीमसेन नाम के आदमी को आगे करके रहता था । भीमसेन को अभिमान हो गया । उसे मुँह की खानी पड़ी ।]	
६. अपायिम्ह वर्ग	४६८
८१. सुरापान जातक	४६८
[प्रब्रजित शराब पीकर अपने आप को भूल गए ।]	

विषय	पृष्ठ
८२. मित्ताचिन्व जातक	४७२
८३. कालकण्ठि जातक	४७३
[अनाथपिण्डक ने अपने कुरूप दरिद्र किन्तु पूर्व के मित्र के साथ मैत्री धर्म निवाहा । लोगों के बहुत कहने पर भी मैत्री में अन्तर नहीं पड़ने दिया ।]	
८४. अत्यस्सद्वार जातक	४७६
[पिता ने अपने सात वर्ष के पुत्र के प्रश्न के उत्तर में अर्थ (=उन्नति) के छः द्वार बताए ।]	
८५. किम्पक्क जातक	४७९
[आम के सदृश प्रतीत होनेवाले विष-फल को बोधिसत्त्व का कहना न मान खाने वाले मनुष्यों में से कुछ मर गए, कुछ कठिनाई से बचे । न खाने वाले सकुशल रहे ।]	
८६. सीलबीमंस जातक	४८१
[एक ब्राह्मण ने केवल यह परीक्षा करने के लिए कि उसका आदर गुण के कारण होता है वा जाति आदि के कारण चोरी करके देखा ।]	
८७. मंगल जातक	४८५
[शकुन-विश्वासी ब्राह्मण के चूहे द्वारा खाए कपड़े तपस्वी ने ले लिए । तपस्वी के उपदेश से ब्राह्मण का मिथ्या-विश्वास दूर हुआ ।]	
८८. सारभ जातक	४८९
[नन्दि विशाल जातक (२८) के सदृश ।]	
८९. कुहक जातक	४९०
[तपस्वी के पास गृहस्थ ने सोना रक्खा था । लालची तपस्वी ने सोना उड़ा लिया । व्यापारी ने तपस्वी की ढोंग भरी बात सुन उस पर चोरी का शक कर सोना निकलवाया ।]	

विषय	पृष्ठ
६०. अकृतञ्जु जातक	४६३
[अकृतज्ञ सेठ ने अनाथ पिण्डक के भेजे व्यापारियों के साथ अकृतज्ञता का बरताव किया और फल पाया ।]	
१०. लिप्त वर्ग	४६६
६१. लिप्त जातक	४६६
[दो जुआरी जुआ खेलते । एक हारने के समय गोटियों को मुँह में डाल लेता । दूसरे ने गोटियों को विष से रंगा । जुआरी विषैली गोटियाँ निगलने से मूर्छित हो गया । पहले ने मरते मरते उसकी जान बचाई ।]	
६२. महासार जातक	४६८
[एक बन्दरी रानी का मुक्ताहार चुरा ले गई । चोर का पता न लगता था । अमात्य ने अपनी अकल से चोर का पता लगा हार निकलवा लिया ।]	
६३. विस्वासभोजन जातक	५०७
[मृगी के स्नेही सिंह को ग्वाल ने मृगी के शरीर में हला-हल विष पोत कर मार डाला ।]	
६४. लोमहंस जातक	५०६
[बोधिसत्त्व की काय-क्लेश-चर्या का वर्णन ।]	
६५. महासुदस्सन जातक	५१२
[महासुदर्शन राजा के मरने के समय अनित्यता का उपदेश ।]	
६६. तेलपत्त जातक	५१५
[यक्षिणियों ने तरह तरह से कुमार को फँसाना चाहा । उसके सारे साथी यक्षिणियों के जाल में फँस गए । किन्तु	

विषय

पृष्ठ

कुमार को न रूप ने, न शब्द ने, न रस ने, न गन्ध ने, और न स्पर्श ने ही आकर्षित किया। गान्धार देश के तक्षशिला नगर-वासियों ने उसे अपना राजा चुना।]

६७. नामसिद्धि जातक ५२६

[एक विद्यार्थी का नाम था 'पापक'। वह अच्छे नाम की तलाश में बहुत घूमा। अंत में यह समझ कि नाम बुलाने मात्र के लिए होता है, नाम से कुछ आता जाता नहीं; वह लौट आया।]

६८. कूटवाणिज जातक ५२६

[पण्डित और अति-पण्डित नाम के दो व्यापारियों ने साभा व्यापार किया। हिस्सा बाँटने के समय अति-पण्डित ने दो हिस्से लेने चाहे। उसकी चालाकी के फल स्वरूप उसका पिता जलते जलते बचा।]



६९. परोसहस्र जातक ५३२

[आचार्य ने मरते समय कहा—कुछ नहीं। प्रधान शिष्य को छोड़ आचार्य के इस कथन को कोई नहीं समझ सका।]

१००. असातरूप जातक ५३४

[कोशल नरेश बाराणसी नरेश को मार उसकी रानी को पकड़ ले गया। लड़के ने बड़े होकर कोशल पर चढ़ाई की और माता की सलाह से बिना आक्रमण किए नगर जीत लिया।]

जातक कालीन जम्बुद्वीप



अ र क म न प स म द

६२ ७० ७५ ८० ८५ ९० ९५ १००

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुदस्स

जातक अट्टकथा

उपोद्घात

लाखों जन्मों में जिन महर्षि लोकनाथ ने संसार का अनन्त हित किया, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ; धर्म को हाथ जोड़ता हूँ; तथा सब से आदरणीय (भिक्षु-) संघ की पूजा करता हूँ। इन तीनों रत्नों^१ के नमस्कारादि (से प्राप्त) इस पुण्य के प्रताप से सब उपद्रवों का नाश हो। प्रकाश-स्वरूप महर्षि (=बुद्ध) ने अप्रपणक^२ आदि जातकों को पहले कहा, जिन्हें कि लोक के उद्धार की इच्छा से, नायक, शास्ता (=बुद्ध) ने बुद्ध होने के लिए आवश्यक अनन्त सामग्री की प्राप्ति के लिए पूरा किया। उन सब पूर्व जन्म की कथाओं के संग्रह को धर्म (-ग्रन्थ) संग्रह करने वालों^३ ने जातक नाम से संगायन किया। बुद्ध-धर्म की चिर-स्थिति चाहने वाले अर्थवर्षी स्थविर, सहवासी तथा एकान्तप्रेमी शान्त चित्त, पण्डित बुद्धिमत् और महिशासक^४ वंश में उत्पन्न, शास्त्रज्ञ, शुद्ध-बुद्धि भिक्षु बुद्धदेव के कहने से महापुरुषों के चरित्र के अनन्त प्रभाव को प्रकट करने वाली जातक अर्थवर्णना की महाविहार^५ वालों के मत के

^१ बुद्ध, धर्म तथा संघ—यह तीन रत्न हैं।

^२ अप्रपणक (जातक), प्रथम जातक।

^३ बुद्ध-निर्वाण के बाद उनके उपदेशों को संग्रह करने वाले।

^४ प्राचीन अठारह बौद्ध सम्प्रदायों में से एक।

^५ पुराने बौद्ध-सम्प्रदायों में से, प्राचीन स्थविर-सम्प्रदाय का सिंहल में एक भेद।

अनुसार व्याख्या करूँगा। मेरी इस व्याख्या को सब सज्जन अच्छी तरह ग्रहण करें।

जातक की यह व्याख्या 'दूरेनिदान', 'अविदूरे-निदान', 'सन्तिके-निदान'—इन तीनों निदानों में वर्णित है, और जो इसे इस तरह से सुनते हैं, वे आरम्भ से भली प्रकार समझने के कारण ठीक समझते हैं। इस लिए हम इसे इन तीनों निदानों में विभक्त कर के कहेंगे। पहले इन तीनों निदानों के वर्गीकरण को ही समझ लेना चाहिए। भगवान् दीपङ्कर^१ के चरणों में जीवन अर्पण करने के समय से ले कर वेस्सन्तर^२ का शरीर छोड़ तुषित-स्वर्ग लोक में उत्पन्न होने तक की (जीवन-) कथा 'दूरेनिदान' कही जाती है। तुषित-लोक से च्युत हो कर बोध गया (बोधिमण्ड) में बुद्ध होने तक की कथा 'अविदूरे-निदान' कही जाती है। (उपरान्त) 'सन्तिके-निदान' तो भिन्न भिन्न स्थानों में विचरते हुए उन उन स्थानों पर जो जीवन-कथा मिलती है वह (ही है)।

क. दूरेनिदान

१. सुमेध (बाल्य, वैराग्य)

'दूरे निदान' इस प्रकार है :—

चार असंख्येय्य एक लाख कल्प पहले अमरवती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में सुमेध नामक ब्राह्मण रहता था। वह माता-पिता दोनों के कुल से सुजात, शुद्ध-जन्मा, सात पीढ़ी तक कुल दोष से रहित, सुन्दर, दर्शनीय, मनोहर, उत्तम रंग के सौन्दर्य से युक्त था। उसने और कोई काम न कर ब्राह्मणों ही की विद्या सीखी थी। बचपन में ही उसके माता-पिता मर गये। तब खजानची (=राशि-वर्धक अमात्य)^३ बही-खाता

^१ सब से पहले बुद्ध।

^२ देखो वेस्सन्तर जातक (५३८)।

^३ बही-खाता रखने वाला राशि-वर्धक नामक मन्त्री।

(=आय-मुस्तक) ले कर आया और सोना, चाँदी, मोती आदि से भरी कोठरियों को खोल खोल कर कहने लगा—‘इतना मातृ-धन है । इतना पितृ-धन है । इतना दादा-परदादा का धन है . . . । इस प्रकार सात पीढ़ी तक के धन को कह कर बोला, “कुमार लो इसे सँभालो !”

सुमेध पण्डित ने सोचा:—“इस धन को संग्रह कर मेरे पिता पितामह आदि परलोक जाते हुए एक पैसा (=कार्षापण) भी साथ नहीं ले गये, लेकिन मुझे इसे साथ ले कर ही जाना चाहिए ।”

उसने राजा को कह नगर में ढंढोरा पिटवाया; और जन-समूह को दान दे तापसों के संप्रदाय में साधु हो गया । इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ सुमेध की कथा का कहा जाना जरूरी है । सुमेध की कथा कुछ न कुछ बुद्ध-वंस^१ में आई है, लेकिन उस कथा के पद्यमय (=गाथा-सम्बन्ध में आई) होने से, (उसका) अर्थ ठीक स्पष्ट नहीं होता । इस लिए हम उस कथा को बीच बीच में उन गाथाओं के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए कहेंगे ।

चार असंख्य एक लाख कल्प पूर्व दस प्रकार के शब्दों से युक्त अमरवती अथवा अमर नामक एक नगर था, जिसके बारे में बुद्ध-वंस में कहा है :—

“चार असंख्य एक लाख कल्प पूर्व एक मनोरम, दर्शनीय, दस शब्दों से युक्त, अन्नपान से संयुक्त ‘अ म र’ नामक नगर था ।”

वहाँ ‘दस शब्दों से युक्त’ का अर्थ है—हाथी-शब्द, अश्व-शब्द, रथ-शब्द, भेरि-शब्द, मृद-ङ्ग-शब्द, वीणा-शब्द, गीत-शब्द, शङ्ख-शब्द, ताल-शब्द, खाने पीने का शब्द—इन दस शब्दों से युक्त । इन दसों शब्दों को एकत्र ग्रहण करने से :—

हस्ति-शब्द, अश्व-शब्द और भेरि, शङ्ख, रथ आदि शब्द, खाने पीने का शब्द और अन्नपान का घोष ।

‘बुद्ध-वंस’ में इस गाथा को कह कर :—

^१ सुत्तपिटक के खुद्दक-निकाय का एक ग्रन्थ ।

“सर्वाङ्ग सम्पूर्ण, सब भोगों से युक्त, सात रत्नों से सम्पन्न, नाना जन समाकुल, देव नगर की तरह वैभवशाली, पुण्यात्माओं के निवास, अमरवती नाम नगर में, करोड़ों का मालिक बहुत से धन धान्य वाला, वेद-पाठी (=अध्यायक) मन्त्रधर, तीनों बेटों में पारङ्गत, लक्षण, इतिहास और सद्बर्षम में पूर्णता-प्राप्त सुमेध नामक ब्राह्मण रहता था।”

एक दिन महल के ऊपर के सुन्दर कोठे पर आसन मार कर एकान्त में बैठा हुआ सुमेध पण्डित सोचने लगा—‘पण्डित ! जन्म ग्रहण करना दुःख है। प्रत्येक जन्म में मृत्यु दुःख है। उत्पन्न होना, बूढ़ा होना, रोगी होना (तथा) मरना; मेरे लिये अनिवार्य है। अतः मुझे चाहिए कि मैं उस अमृत महा-निर्वाण को खोजूँ जो उत्पत्ति, जरा, व्याधि, दुःख तथा सुख से रहित है और शीतल तथा अमृत स्वरूप है। आवागमन से मुक्त होने का एक निर्वाण-मार्ग अवश्य होगा। इसी लिए कहा है :—

“तब मैं ने एकान्त में बैठ कर सोचा कि आवागमन तथा शरीर-त्याग—दोनों दुःख हैं। अतः उत्पत्ति, जरा और व्याधि से युक्त में, अजर, अमर (और) क्षेम(—स्वरूप) निर्वाण को खोजूँ। अवश्य ही मुझे इस नाना प्रकार के गन्दगी से भरे, अपवित्र शरीर को छोड़ कर माया ममता रहित हो (चला) जाना होगा।

“जो मार्ग है, वह होगा (=रहेगा) ही। वह न हो (ऐसा) नहीं हो सकता। संसार से मुक्ति के पाने के लिए मैं उसी मार्ग को खोजूँगा।”

वह आगे भी ऐसा सोचने लगा :—

“जिस प्रकार लोक में दुःख का प्रतिपक्षी सुख है, उसी प्रकार आवागमन (=भव) का प्रतिपक्षी आवागमन का अभाव (=विभव) भी अवश्य होना चाहिए। जिस प्रकार गर्मी के रहने पर, उसको शान्त करने वाली ठंडक भी रहती है, इसी प्रकार राग आदि अग्नियों का शमन करने वाला निर्वाण भी अवश्य होगा। जिस प्रकार पाप का प्रतिपक्षी पुण्य तथा निर्दोषता है, उसी प्रकार इस पापी (=दुःखमय) जन्म के रहते सारे जन्मों के क्षय होने से जन्म रहित निर्वाण भी अवश्य होगा। इसी लिए कहा है :—

“जैसे यदि दुःख है, तो सुख भी है; वैसे ही आवागमन है तो आवागमन का अभाव भी है। जैसे गर्मी के रहने पर, उसके विपरीत शीतलता भी है, इसी प्रकार त्रिविध अग्नि के रहते निर्वाण भी होना चाहिए। जिस प्रकार पाप

के रहने पर पुण्य भी है; उसी प्रकार जन्म के रहने पर आवागमन से मुक्ति भी होनी चाहिए।”

और भी सोचने लगा :—

जिस प्रकार मल के ढेर में डूबे मनुष्य को दूर से भी पाँच रंगों के कमलों से आच्छादित तालाब को देख कर ‘मुझे किस मार्ग से तालाब तक पहुँचना चाहिए’ सोच तालाब को खोजना चाहिए। यदि वह न खोजे, तो उसमें तालाब का दोष नहीं। इसी प्रकार सब मलों को धोने में समर्थ अमृत रूपी निर्वाण के महान् तालाब के रहते (यदि मनुष्य) उसे न खोजे, तो उसमें अमृत रूपी निर्वाण के महान् तालाब का दोष नहीं। जिस प्रकार डाकुओं से घिरा हुआ मनुष्य भागने का रास्ता रहने पर भी, यदि न भागे तो वह रास्ते का दोष नहीं, उस आदमी का ही दोष है। इसी प्रकार यदि मलों से लिप्त मनुष्य निर्वाण की ओर ले जाने वाले कल्याण-मार्ग के रहते भी, उस मार्ग को न खोजे, तो वह मार्ग का दोष नहीं, उस आदमी का ही दोष है। जैसे रोग-ग्रस्त मनुष्य रोग चिकित्सक वैद्य के रहते भी, यदि उस वैद्य को ढूँढ कर रोग की चिकित्सा न कराये, तो वह वैद्य का दोष नहीं। इसी प्रकार जो (चित्त-) मल के रोग से पीड़ित मनुष्य, मल के दूर करने के उपाय के जानकार आचार्य के विद्यमान रहते भी (उन्हें) नहीं खोजता, तो यह उसीका दोष है, मल-निवारक आचार्य का दोष नहीं। इसी लिए कहा है :—

“जैसे गन्दगी में फँसा हुआ मनुष्य, पानी से भरे तालाब को (दूर से) देख कर भी, यदि उसे नहीं खोजता; तो वह तालाब का दोष नहीं। इसी प्रकार मल धो देने वाले अमृत-सरोवर के रहते भी, यदि मनुष्य उस सरोवर को नहीं खोजता, तो वह उस अमृत-सरोवर का दोष नहीं। जैसे शत्रुओं से घिरा हुआ (मनुष्य) यदि भागने का मार्ग रहते भी नहीं भागता है, तो उसमें मार्ग का दोष नहीं। इसी प्रकार मलों से घिरा हुआ (मनुष्य) यदि कल्याणकारी मार्ग के रहते भी उस मार्ग को नहीं ढूँढता है, तो वह उस मार्ग का दोष नहीं। जिस प्रकार रोग से पीड़ित पुरुष, यदि चिकित्सक के विद्यमान रहते भी, उस रोग की चिकित्सा नहीं करता, तो वह चिकित्सक का दोष नहीं; इसी प्रकार मल के रोग से दुखी, पीड़ित पुरुष भी, यदि मल-निवारक आचार्य को नहीं खोजता, तो वह आचार्य का दोष नहीं।”

और भी सोचने लगा :—

“जैसे शौकीन आदमी गले में लगे हुए मल को उतार कर सुख-पूर्वक जाता है, इसी प्रकार मुझे भी इस मलिन काय को छोड़ ममता रहित हो निर्वाण-नगर में प्रवेश करना चाहिए। जिस प्रकार स्त्री-पुरुष मल-मूत्र करने के स्थान पर मल-मूत्र करके न तो उसे अपने अङ्ग (—उच्छृंग) में ले कर जाते हैं, न उसे अपने पल्ले में ही बाँध कर ले जाते हैं बल्कि उसके प्रति घृणा कर अनिच्छुक हो, उस (मल-मूत्र) को वही छोड़ जाते हैं, इसी प्रकार मुझे भी इस मलिन-काय को अनिच्छुक हो छोड़ अविनाशी (—अमृत) निर्वाण नगर में प्रविष्ट होना चाहिए। जैसे मल्लाह लोग पुरानी नाव को बेपरवाह हो छोड़ जाते हैं, इसी प्रकार मैं भी इस नौ छिद्रों से चूने वाले शरीर को छोड़ बे-परवाह हो निर्वाण-नगर में प्रवेश करूँगा। जैसे अनेक रत्नों को ले कर चोरों के साथ जाने वाला मनुष्य, अपने रत्नों के नाश होने के डर से, उन चोरो को छोड़ कर कल्याणकारी मार्ग ग्रहण करता है; इसी प्रकार यह जो शरीर है, सो यह भी रत्न लूटने वाले डाकुओं की तरह है। यदि मैं इस शरीर के प्रति लोभ रखूँगा, तो मेरा आर्य-मार्ग रूपी पुण्य (—रत्न) नष्ट हो जायगा। इस लिए मुझे इस डाकू के समान शरीर को छोड़ कर निर्वाण-नगर में प्रवेश करना चाहिए। इसी लिए कहा है :—

“जिस प्रकार मनुष्य मुँह को गले में बाँधने से घृणा कर उसे स्वेच्छापूर्वक अपने आप खुशी से छोड़ जाये, उसी प्रकार मैं इस नाना प्रकार की गन्दगी से भरी अपवित्र काया को बे-परवाह तथा आकांक्षा (—अर्थ) रहित हो छोड़ जाऊँ। जैसे स्त्री-पुरुष मल-मूत्र करने के स्थान पर मल को बिना किसी चाह अथवा आकांक्षा के छोड़ कर चले जाते हैं, इसी प्रकार मैं इस नाना प्रकार की गन्दगी से भरी काया को पाखाने (—बच्चकुटि) में मल के समान छोड़ कर चलूँगा। जैसे मल्लाह पुरानी, टूटी फूटी, पानी भर जाने वाली नाव को बिना किसी चाह या आकांक्षा के छोड़ कर चले जाते हैं, वैसेही मैं इस नौ छिद्रों से सदा गन्दगी बहाने वाले शरीर को, मल्लाह की नाव की तरह, छोड़ कर चलूँगा। जैसे सामान लेकर जाता हुआ पुरुष चोरों के सामान लूट लेने के डर से (रास्ता) छोड़ कर जाता है; इसी प्रकार यह शरीर महा-चोर के समान है। इसलिए मैं इसे कुशल (—कर्म) के नाश के डर से छोड़ कर जाऊँगा।”

२. संन्यास

इस प्रकार सुमेष पण्डित नाना प्रकार के दृष्टान्तों से इस अनासक्ति के भाव का चिन्तन कर, पूर्वोक्त विधि से अपने घर पर पड़ी अनन्त भोग की वस्तुओं को याचकों और पथिकों को प्रदान कर, महादान दे, चीजों और कामुकता के लोभ को छोड़, अमर (नामक) नगर से निकल कर अकेले ही हिमालय में धम्मक नाम पर्वत के पास आश्रम, पर्ण-कुटी और टहलने का चबूतरा (==चक्रमण भूमि)^१ बना कर पाँच नीबरणों^२ से रहित 'इस प्रकार एकाग्र चित्तता' आदि क्रम से कहे गये आठ कारण-गुणों^३ से युक्त अभिज्ञा (==ज्ञान) नामक बल की प्राप्ति के लिए, उस आश्रम में नी दोषों वाले वस्त्रों को छोड़ कर, बारह गुणों से युक्त छाल (==वलकल) को धारण कर ऋषियों के नियमानुसार साधु बन गये। इस तरह साधु बन आठ दोषों से युक्त उस पर्ण-कुटी को छोड़, दस गुणों से युक्त 'वृक्ष की छाया' के नीचे जा कर, अनाज के बने सभी भोजनों को छोड़, वृक्ष से गिरे फलों को ही खाने लगे। बैठे, खड़े रहते तथा चलते हुए ही (==अर्थात् कभी न लेट कर) योग्याभ्यास (==प्रयत्न) करते हुए सात दिनों के अन्दर ही अन्दर आठ समापत्तियों^४ और पाँच अभिञ्जाओं^५ को पा लिया। इसी प्रकार उसने इच्छित अभिञ्जा-बल प्राप्त किया।

^१ टहलते हुए योगाभ्यास करने की जगह।

^२ चित्त की शुद्ध वृत्तियों को ढाँकने वाले—१ काम-छन्द, २ व्यापाद (==क्रोध), ३ स्त्यानमृद (==आलस्य), ४ औदत्य-कौकृत्य (==उद्धता), ५ विचिकित्सा (==सन्देह)।

^३ १ समाहित (==एकाग्र-चित्त), २ परिशुद्ध, ३ परियोदात, ४ अङ्गण-रहित, ५ उपपत्तेश-रहित, ६ मृदु, ७ कम्पनीय, ८ स्थिरता-प्राप्त (==अभिञ्जा-प्राप्त)।

^४ चार रूप तथा चार अरूप समापत्तियाँ।

^५ दिव्य-चक्षु, दिव्य-श्रोत्र, पूर्व जन्म की स्मृति, ऋद्धि-बल, पर-चित्त का ज्ञान।

इसी लिए कहा गया है :—

“इस प्रकार विचार कर मैं घरबों धन याचकों और अनाथों को दे हि मा ल य में चला आया। हिमालय के पास ही धम्मक नामक पर्वत है। वहाँ मैंने आश्रम, पर्ण-कुटी तथा पाँच दोषों से रहित टहलने का चबूतरा (=चक्रमण-भूमि) बनाया, और आठ गुणों से युक्त अभिञ्जा-बल प्राप्त किया। नौ दोषों से युक्त वस्त्र को छोड़ कर बारह गुणों से युक्त छाल (वल्कल) का चीवर धारण किया। आठ दोषों से युक्त पर्ण-कुटी को छोड़, दस गुणों वाली ‘बृक्षों की छाया’ का आश्रय लिया। बो, जोत कर तैयार किए अनाजों को बिल्कुल त्याग दिया; और अनेक गुणों से युक्त ‘बृक्षों से गिरे फलों’ को ग्रहण किया। वहाँ बैठे, खड़े और टहलते हुए ही योग का अभ्यास कर, सप्ताह के अन्दर अभिञ्जा-बल प्राप्त किया।”

इस पाली^१ में सुमेघ पण्डित ने, आश्रम और टहलने के चबूतरे, अपने हाथ से बनाये—ऐसा कहा है। लेकिन इसका (वास्तविक) अर्थ यह है—महापुरुष ने सोचा कि आज मैं हिमालय में जा, धम्मक पर्वत में प्रवेश करूँगा? इस विचार से उन्होंने गृह-त्याग किया।

३. आश्रम

देवताओं के राजा शक्र (=इन्द्र) ने सुमेघ के गृह-त्याग को देख विश्व-कर्मा देव-पुत्र को सम्बोधित किया—“तात! इस सुमेघ पण्डित ने साधु होने के विचार से घर छोड़ा है; जा इसके लिए निवास स्थान का निर्माण कर।”

विश्वकर्मा ने उसके वचन को स्वीकार कर, रमणीय आश्रम, सुरक्षित पर्ण-कुटी और मनोरम टहलने के चबूतरे का निर्माण किया। भगवान् ने अपने प्रज्ञाबल से उस आश्रम के बारे में कहा था :—“सारिपुत्र! उस धम्मक पर्वत में ‘भिरे लिए आश्रम किया’ और ‘पर्णशाला बनाई गई’ तथा पाँच दोषों से रहित चक्रमण-भूमि बनाई गई।” सो वहाँ “भिरे लिए किया” का अर्थ

^१ पाली; तुलसीदास जी की पार्लि की तरह; बुद्ध-वचन का पर्यायवाची।

हैं मेरे द्वारा की गई, और 'पर्णशाला बनाई गई' का अर्थ है "पत्तों से ढकी हुई शाला भी मेरे लिए बनी हुई थी।" "पाँच दोषों से रहित"; चबूतरे के यह पाँच दोष हैं—कड़ा होना समतल न होना, बीच में वृक्षों का होना, घनी छाया होना, बहुत संकीर्ण होना तथा लम्बा चौड़ा होना।

कड़ी तथा ऊबड़ खाबड़ भूमि में टहलते हुए टहलने वाले के पैर दुखने लग जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, चित्त एकाग्र नहीं होता, योग-क्रिया (—कर्म-स्थान)^१ सिद्ध नहीं होती। कोमल और समतल पर टहलने से योग-क्रिया सिद्ध होती है। इस लिए भूमि की कठोरता और ऊबड़-खाबड़-पन को एक दोष समझना चाहिए। चबूतरे के किनारे पर बीच में अथवा सिरे पर वृक्ष रहने से बे-परवाही के कारण (कभी कभी) उनमें माथा या सिर टकरा जाता है, इस लिए 'बीच बीच में वृक्षों का होना' दूसरा दोष है। तृण-लता आदि से आच्छादित घनी छाया वाले स्थान में टहलते हुए अन्धकार के समय या तो सर्प आदि जीवों को (अपने पैर से) कुचल कर मार देता है, अथवा उनके द्वारा डसे जाने से (स्वयं) दुःख को प्राप्त होता है। इस लिए 'घनी छाया वाला होना' तीसरा दोष है। चौड़ाई में केवल हाथ (रत्न)^२ वा आधे हाथ भर चौड़े, बहुत ही तंग चबूतरे पर टहलने से टहलने वाले (पुरुष) की अगल-बगल में फिसल जाने के कारण नाखून और उँगलियाँ तक टूट जाती हैं। इस लिए 'बहुत तंग होना' चौथा दोष है। बहुत चौड़े स्थान में टहलने से (आदमी) का चित्त (इधर उधर) भागता है, एकाग्र नहीं होता इस लिए 'बहुत लम्बा चौड़ा होना' पाँचवाँ दोष है। चौड़ाई डेढ़ हाथ, दोनों तरफ एक एक हाथ चौड़ी बगली (—अनुचक्रमण), लम्बाई साठ हाथ और उस पर समतल बालू बिखरा हुआ—चबूतरा ऐसा होना चाहिए। (सिंहल-)^३ द्वीप को श्रद्धावान् बनाने वाले महेंद्र स्थविर का चबूतरा चेतिय गिरि^३ (विहार)

^१ योगाभ्यास का साधन, योग-युक्ति ।

^२ रत्न=एक हाथ भर ।

^३ लंका में जिस मिश्रक-पर्वत (—मिहित्तले) पर महामहेंद्र उतरे थे, उसी पर्वत पर निर्मित विहार ।

में वैसा ही था। इसी लिए कहा है 'पाँच दोषो से रहित चबूतरा बनाया'। 'आठ गुणों से युक्त' का मतलब है "साधुओं के आठ सुखों से युक्त"। साधुओं के आठ सुख यह हैं:—धन धान्य के संग्रह (की चिन्ता) का न होना, निर्दोष भिक्षा की प्राप्ति का प्रयत्न करना, तैयार भिक्षा का भोजन करना, राज्य अधिकारियों के देश को सता कर धन दौलत या सौस-कहापण^१ आदि ग्रहण करते हुए (स्वयं) देश को पीड़ित न करना, वस्तुओं में वैराग्य, चोरों द्वारा (धन आदि) लूटे जाने से निर्भयता, राजाओं और राज्यामात्यों से बहुत लगाव न होना, और चारों दिशाओं में बेरोक-टोक पहुँच। चूँकि इस आश्रम में रहते हुए, इन आठ सुखों का आनन्द लिया जा सकता था, इस लिए कहा गया है कि "आठ गुणों से युक्त उस आश्रम को बनाया"। "अभिज्ञा-बल को प्राप्त किया" का मतलब है कि आगे चल कर उस आश्रम में रहते हुए कृत्स्न (=कसिण)^२ परिकर्म का आरम्भ करके अभिज्ञाओं तथा समापत्तियों की प्राप्ति के लिए, अनित्यता और दुःख के भाव की बि ब र्श ना^३ का अभ्यास कर प्रयत्न से प्राप्य विदर्शना-बल को प्राप्त किया। चूँकि 'इस आश्रम में रहते हुए इस बल को प्राप्त किया जा सकता है' यह विचार था, इस लिए उस आश्रम को, अभिज्ञा की प्राप्ति के लिए विदर्शना बल (की प्राप्ति) के अनुकूल बनाया—यह अर्थ है।

"नौ दोषों से युक्त वस्त्र को छोड़ देने" के सम्बन्ध की यह क्रमानुकूल कथा है। उस समय कुटी, गुफा, टहलने के चबूतरे आदि से युक्त, फल फूल वाले वृक्षों से आच्छादित, रमणीय, मधुर जलाशयों सहित, बाघ आदि हिंसक पशु तथा भयानक पक्षियों से शून्य, शान्त आश्रम बना कर, सुन्दर चबूतरे के दोनों ओर सहारे के लिए बाही लगा कर, और चबूतरे के बीच में बैठने के

^१ तत्कालीन सिक्कों का व्यक्तिगत कर।

^२ योगाभ्यास के चालीसों साधनों में से किसी भी एक को साधारणतया 'कर्म-स्थान' कहते हैं। उनमें से प्रथम दस में से किसी को भी कसिन (=कृत्स्न) कहते हैं।

^३ विपश्यना (=प्रज्ञा)।

लिए मूंगे के रंग की समतल शिला बना कर, पर्ण-कुटी के अन्दर जटा-मण्डल, बल्कल-चीर, त्रिदण्ड, कुण्डी आदि तापसों के सामान, मण्डप में पानी का बरतन, पानी (-भरा) शङ्ख, पानी (पीने के) कसोरे, अग्निशाला में अंगीठी तथा जलावन इत्यादि—इस प्रकार साधुओं की जो जो आवश्यकतायें हैं, उन का प्रबन्ध करके, पर्ण-कुटी की दीवार पर 'जो कोई साधु होना चाहें, इन चीजों को ले कर प्रव्रजित हों'—इन अक्षरों को खोद कर विश्वकर्मा देव-पुत्र के देव-लोक चले जाने पर सुमेध पण्डित ने हिमालय की तराई में गिरि-कन्दराओं के साथ साथ, अपने लिए सुख से रहने योग्य स्थान को ढूँढते हुए नदी के मोड़ पर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित, इन्द्र का दिया हुआ, रमणीक आश्रम देखा। टहलने के चबूतरे के छोर पर जा और वहाँ पद-चिह्न को न देख, सोचा—अवश्य साधु लोग समीप के गाँव में भिक्षा माँग आ कर थके हुए लौट कर, पर्ण-कुटी में प्रवेश कर, अन्दर बैठे होंगे। कुछ देर प्रतीक्षा कर वह सोचने लगा—'वे बहुत देर कर रहे हैं' जरा देखूँ। (फिर) पर्ण-कुटी के द्वार को खोल अन्दर प्रवेश कर, इधर उधर देखते हुए बड़ी दीवार पर (लिखे) अक्षरों को बाँच कर (सोचा)—यह वस्तुएँ मेरे योग्य हैं, इन्हें ग्रहण कर साधु बनूँगा। यह सोच अपने पहने भोती चादर को छोड़ दिया। इस लिए कहा है—'वहाँ वस्त्र को छोड़ दिया'। सारिपुत्र। इस प्रकार प्रविष्ट हो, मेने इस पर्ण-कुटी में धोती को छोड़ा"। "नौ दोषों से युक्त" कह कर दिखाया गया है कि नौ दोषों को देख कर छोड़ा।

तापस साधुओं के तापस साधु बनने पर (उनके) पहनने के वस्त्र में नौ दोष होते हैं—'अति मूल्यवान् होना' एक दोष है। 'दूसरे पर निर्भर रह कर मिलना' एक दोष। 'पहनने पर जल्दी से मलिन होना' एक दोष। 'मलिन होने पर वस्त्र को धोना तथा रंगना होता है।' 'पहनने से फट जाना' एक। 'फटने से सीना' या पेवन्द लगाना होता है। 'फिर ढूँढने पर कठिनाई से मिलना' एक। 'साधु-जीवन से मेल न खाना' एक। 'चोरों के लिए चोरी करने योग्य होना' एक। जैसे उसे चोर न चुरावे, वैसे छिपाना होता है। 'उपयोग करने से सजावट का कारण होना' एक। 'ले कर चलते समय कन्धे के लिए भार और लोभ होना' एक। "बल्कल चीर को धारण किया" का अर्थ है, "सारि-पुत्र ! तब मैं ने इन नौ दोषों को देख, वस्त्र को छोड़ छाल (=बल्कल) का

वस्त्र धारण किया—अर्थात् मूञ्ज-तृण को चीर, गाँठ बाँध बाँध कर बनाये वल्कल चीवर को धारण करने और पहनने के लिए ग्रहण किया।”

‘बारह गुणों से युक्त’ का अर्थ है कि बारह कल्याणकारी बातों से संयुक्त’। वल्कल चीवर में बारह गुण हैं—सस्ता, सुन्दर तथा विहित होना यह पहला गुण है। अपने हाथ से बनाया जा सकता है, यह दूसरा। जल्दी मैला नहीं होता है और धोने में भी कठिनाई नहीं, यह तीसरा। उपयोग करते करते फटने पर सीने की आवश्यकता न रहना, यह चौथा। नया ढूँढने पर आसानी से मिल सकना, यह पाँचवाँ। तापस साधुओं के अनुकूल होना, यह छठा। चोरों के काम का न होना, यह सातवाँ। पहनने वाले के लिए शौक का कारण नहीं होना, यह आठवाँ। पहनने में हलका रहता है, यह नौवाँ। चीवर रूपी सामान (—प्रत्यय) के विषय में संतोष, यह दसवाँ। छाल (—वल्कल) से उत्पन्न होने के कारण धर्म की दृष्टि से निर्दोष होना, ग्यारहवाँ। छाल के चीवर के नष्ट होने पर, उसके लिए परवाह न होना, यह बारहवाँ गुण है।

“आठ दोषों से युक्त पर्ण-शाला को छोड़ा”, सो उसे कैसे छोड़ा ? (अपनी) उस सुन्दर धोती चादर को छोड़ कर, चीवर रखने के बाँस पर टँगे हुए अनोज-फूल की माला जैसे लाल रंग के छाल के चीवर को ले पहना। उसके ऊपर दूसरा सुनहरी रंग का छाल का चीवर पहना। फिर पुन्नाग-फूल की शय्या के समान और खुर सहित मृग-चर्म को एक कन्धे पर बाँधा। जटाओं को खोल, जूड़ा बाँध, (उनके) स्थिर करने के लिए (बालों में) सलाई डाली। मोतियों के जाल के सदृश छोके में मूँगे के रंग की कुण्डी को रक्खा। तीन स्थानों (—दोनों सिरों और बीच में) से भुकी बँहगी को ले कर, बँहगी के एक सिरे पर कुण्डी और दूसरे सिरे पर अंकुश की पिटारी तथा त्रिदण्ड आदि लटका कर, खरिया के भार को कन्धे पर रख, दक्षिण हाथ में वंशाखी (—टेक कर चलने की लकड़ी) ले, पर्ण-कुटी से निकले; और साठ हाथ लम्बे टहलने के चबूतरे (—महाचक्रमण-भूमि) पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहलते हुए अपने वेष को देख कर सोचने लगे—“मेरा विचार सफल हुआ। प्रब्रज्या मुझे शोभती है। बुद्ध आदि सभी वीर पुरुषों ने इस प्रब्रज्या की प्रशंसा की है। मेरा गृह-बन्धन छूट गया। मैं अनासक्ति (—नैष्कर्म्य) के लिए

निकल पड़ा। मुझे उत्तम प्रब्रज्या मिल गई। मैं संन्यास (=श्रमण-धर्म) के अनुसार आचरण कर मार्ग-फल^१ के सुख को प्राप्त करूँगा।”

(यह सोच) उत्साह से बहगी को उतार चबूतरे के बीच में मूँगे के रंग के शिला-मट्ट पर सोने की मूर्ति की तरह बैठे। (फिर) दिन बीत जाने पर, सन्ध्या के समय पर्णशाला के भीतर जा, बाँस की चारपाई के पास के लकड़ी के फट्टों पर लेट विश्राम किया।

(दूसरे दिन) बहुत प्रातःकाल उठ, अपने आने (के उद्देश्य) पर विचार किया—“मैं गृहस्थ जीवन के दोषों को देख, अपार भोग-राशि तथा अनन्त यश को छोड़ जंगल में आ, अनासक्ति की चाह से साधु हुआ। इस लिए अब आगे से मुझे आलस्य नहीं करना चाहिए। एकान्त(-चिन्तन) को छोड़, बेकार घूमने वाले (पुरुष) को झूठे वितर्क रूपी मक्खियाँ खा जाती हैं। इस लिए अब मुझे एकान्त-चिन्तन की वृद्धि करनी चाहिए। मैं गृहस्थ जीवन को संताप समझ (घर छोड़ बाहर) निकला हूँ। यह (मेरी) मनोहर कुटिया— (जिसकी कि) पक्के बेल के रंग जैसी लिपि भूमि है; चाँदी सी सफेद दीवारें हैं; कबूतर के पैर के रंग सी पत्तों की छत है; चित्र-विचित्र कालीन के रंग का सा बाँस का पलंग है—सुखदायक निवास स्थान है; मेरे घर की सम्पत्ति और इसमें कोई विशेष अन्तर दिखाई नहीं देता। यह (सोच) पर्ण-कुटी के दोषों पर विचार करते हुए (उसमें) आठ दोषों को देखा।

कुटिया के सेवन में आठ दोष हैं—(१) बड़े प्रयत्न से आवश्यक चीजों को जुटा, उनको खोजना-बनाना; (२) (उसके) पत्ते, तृण और मिट्टी के गिर पड़ने पर, उन्हें फिर फिर लगाने के कारण निरन्तर मरम्मत करना; (३) आसन-वासन (=शयनासन)पर बड़े बूढ़ों का अधिकार है, सोच उन के आने पर बे वक्त उठने पर चित्त एकाग्र नहीं होता। इसके लिए वैसी चिन्ता; (४) सरदी गर्मी से शरीर का सुकुमार हो जाना; (५) छिप कर घर में सभी पाप-कर्म करके पाप छिपाने की गुञ्जाइश होना; (६) ‘यह मेरी है’ ऐसी ममता होना; (७) घर होने का मतलब ही है ‘अकेला न होना’, इसके लिए

^१ अर्हत्व-प्राप्ति का मार्ग तथा अर्हत्व-प्राप्ति।

‘साथी चाहना’; (८) जूँ, पिस्तू, छिपकली आदि का आम तौर से बहुत बढ़ जाना आठवाँ दोष है। इन आठ प्रकार के दोषों को देख कर महात्मा ने कुटिया त्याग दी। इस लिए कहा है—“आठ दोषों से युक्त पर्ण-शाला को छोड़ा।”

“दस गुणों से युक्त वृक्ष के नीचे आ गया” कहने का अभिप्राय यह है कि कुटिया को छोड़, दस गुणों से युक्त वृक्ष की छाया के नीचे आ गया हूँ। वे दस गुण यह हैं—(१) चीजों के जुटाने की चिन्ता न होना पहला गुण; क्योंकि वहाँ (वृक्ष) तक केवल जाने भर का ही (परिश्रम) होता है। (२) ठीक-ठाक करने का बहुत परिश्रम न होना दूसरा; (क्योंकि) चाहे भाड़ू लगायें या न लगायें—दोनों अवस्थाओं में उसे सेवन किया जा सकता है; (३) ‘उठने (की चिन्ता) न होना’ तीसरा; (४) वह पाप कर्म को छिपा नहीं सकता। वहाँ पाप-कर्म करते लज्जा आती है; इसके लिए पाप-कर्म को न छिपा सकना चौथा; (५) खुले आकाश के नीचे रहने से शरीर जैसा रूखा हो जाता है, वृक्ष की छाया में वैसा नहीं होता; इस लिए शरीर का स्वाई से बचना पाँचवाँ; (६) जोड़ने बटोरने की गुञ्जाइश न होना छठा (७) घर के प्रति होने वाली आसक्ति का अभाव सातवाँ; (८) सार्वजनिक शालाओं में से जैसे सफाई या मरम्मत के लिए निकल जाना होता है; वैसे यहाँ से न निकलना पड़ना आठवाँ; (९) प्रसन्नता के साथ रहना नौवाँ; (१०) वृक्ष के नीचे सभी जगह आसन-वासन आसानी से मिल जाने के कारण उसके लिए ‘चाह न होना’ दसवाँ। इन दस गुणों को देख मैं वृक्ष के नीचे आया हूँ—यह भावार्थ (=कथन) है।

इन (सब) बातों का ह्याल कर अगले दिन महात्मा ने भिक्षा के लिए (गाँव में) प्रवेश किया। गाँव में लोगों ने बड़े उत्साह-पूर्वक भिक्षा दी। भोजन समाप्त कर, आश्रम को लौटे और बैठ कर सोचने लगे:—“मैं समझता था कि आहार नहीं मिलेगा; यही सोच मैं प्रब्रजित हुआ। यह चिकना चुपड़ा आहार अभिमान और पौरुष के मर्दों को बढ़ाने वाला है। (इस प्रकार के) आहार से उत्पन्न दुःख का अन्त नहीं है। इस लिए मैं बोये जोते अनाज से बने भोजन को त्याग, सिर्फ (वृक्षों से) गिरे फल को खाऊँगा।” तब से उसने उसी तरह का भोजन ग्रहण कर, योगाभ्यास में लगे रह, एक सप्ताह के अन्दर ही आठ समापतियों और पाँच अभिञ्जाओं को प्राप्त किया। इसी लिए कहा है:—

“बोये जोते अनाजों को बिल्कुल त्याग दिया। और अनेक गुणों से युक्त ‘बूकों से गिरे फल’ को ग्रहण किया। वहाँ बैठे, खड़े, और टहलते योगाभ्यास में लगे रह सप्ताह के अन्दर अभिञ्जा-बल को प्राप्त किया।”

५. दीपंकर का दर्शन

इस प्रकार अभिञ्जा-बल को प्राप्त कर तपस्वी सुमेध के दिन समाधि सुख में बीत रहे थे। उसी समय दीपङ्कर नामक बुद्ध संसार में उत्पन्न हुए। उनके गर्भ-प्रवेश (==पटिसन्धि ग्रहण), जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति तथा धर्म चक्र प्रवर्तन के समय सारे दस हजार ब्रह्माण्ड (==दस सहस्र लोक-धातु) कम्पित== प्रकम्पित हुए; और महानाद हुआ। बत्तीस पूर्व-निमित्त^१ दिखाई पड़े। लेकिन समाधि के सुख में दिन बिताते तपस्वी सुमेध ने न तो उन शब्दों (==महानाद) को सुना न उन शकुनों (==निमित्तों) को देखा। इसी लिए कहा है:—

“इस प्रकार मेरे सिद्धि-प्राप्त तथा धर्म में रत रहते समय, संसार के नेता दीपङ्कर नामक बुद्ध (==जिन) उत्पन्न हुए। समाधि में होने से मैंने उनके गर्भ-प्रवेश, उत्पत्ति, बुद्धत्व-प्राप्ति तथा धर्मोपदेश के समय हुए चारों शकुनों (==निमित्तों) को नहीं देखा।”

उस समय चार लाख अर्हत्तों के साथ दसबलों^२ वाले दीपङ्कर क्रमशः चारिका करते, रम्मक नामक नगर में पहुँच (वहाँ के) सुदर्शन महाविहार में रहते थे। रम्मक नगर-वासियों ने सुना कि साधु-सम्राट दीपङ्कर बुद्धत्व के उत्तम पद को प्राप्त कर क्रमशः चारिका करते (हमारे) रम्मक नगर में आ, सुदर्शन महाविहार में रहते हैं। यह सुन मक्खन, घी आदि भैवज और वस्त्र-बिछौने लिवा कर, गन्धमाला हाथ में ले बुद्ध, धर्म तथा संघ के प्रति श्रद्धा से नम्र हो बुद्ध (==शास्ता) के पास गये। और गन्ध आदि से उन की पूजा कर हाथ जोड़ एक ओर बैठे। बुद्ध का धर्म-उपदेश सुन दूसरे दिन के (भोजन के) लिए निमन्त्रण दे, आसन से उठ कर चले गये। अगले दिन भोजन

^१ देखो जातक (पृ० ६७)

^२ देखिए अंगुत्तर-निकाय, इसमो निपातो।

(=महादान) तैयार कराया। दीपङ्कर बुद्ध के आगमन (के उपलक्ष) में (सारा) नगर सजाया गया। पानी बहने से टूटे फूटे स्थानों में रेत डाली गई, भूमि को समतल बनाया गया। चाँदी की पत्री जैसे सफेद बालू को फैलाया गया। खीलों और फूलों की वर्षा की गई। नाना रंग के वस्त्रों की ध्वजा पताकाये उड़ रही थी। केलों और जल से भरे घटों की पंक्तियाँ लगी हुई थीं। उस समय तपस्वी सुमेध ने अपने आश्रम से ऊपर उठ (कर) लोगों के सिर पर से आकाश मार्ग से जाते हुए उन सन्तुष्ट मनुष्यों को देख सोचा “इसका क्या कारण है ?” फिर आकाश से उतर कर एक ओर खड़े हो, उनसे पूछा :— “ओ ! तुम इस मार्ग को किस के लिए अलङ्कृत कर रहे हो ?” इसी लिए कहा गया है :—

सीमान्त (=प्रत्यन्त) प्रदेश में बुद्ध को निमन्त्रित कर, सन्तुष्ट चित्त हो लोग, उनके आगमन-मार्ग को ठीक कर रहे थे। मैं उस समय अपने आश्रम से निकल (अपने) कपित बल्कल वस्त्र के साथ आकाश-मार्ग से जा रहा था। लोगों को प्रमुदित, प्रसन्न चित्त, सन्तुष्ट देख, उसी समय आकाश से उतर लोगों से पूछा :— “यह जन-समूह प्रमुदित, प्रसन्न, सन्तुष्ट हो किस के आने के लिए मार्ग ठीक कर रहा है ?”

लोगों ने कहा :— “भन्ते ! सुमेध ! क्या तुम नहीं जानते ? दीपङ्कर दस-(दिव्य) बल-वाले बुद्ध हो, (अपने) श्रेष्ठ धर्म का प्रचार आरम्भ कर, विचरते हुए हमारे नगर में पहुँच सुदर्शन महाविहार में वास करते हैं। हमने उन भगवान् को निमन्त्रित किया है। (इस लिए) उन भगवान् बुद्ध के आने के मार्ग को अलङ्कृत कर रहे हैं।”

तपस्वी सुमेध सोचने लगा :— “बुद्ध” शब्द का सुनना भी लोक में दुर्लभ है; बुद्ध के जन्म लेने की तो बात ही क्या ? मुझे भी इन मनुष्यों के साथ (मिल कर) बुद्ध (=दशबल) का मार्ग अलङ्कृत करना चाहिए।” (यह सोच) उसने उन मनुष्यों को कहा— “ओ ! यदि तुम इस मार्ग को बुद्ध के लिए अलङ्कृत कर रहे हो, तो मुझे भी (इसका) एक भाग दो। मैं भी तुम्हारे साथ (मिल कर) मार्ग को अलङ्कृत करूँगा। उन्होंने ‘अच्छा’ कह कर स्वीकार कर, ‘तपस्वी सुमेध दिव्य शक्तिधारी है—यह जान आप इस स्थान को अलङ्कृत करें’ कह पानी से ऊबड़-खाबड़ हुआ एक स्थान दिया।

सुमेघ ने बुद्ध के ध्यान से उत्पन्न आनन्द से संतुष्ट हो सोचा—“मैं इस स्थान को अपने योग-बल से अलंकृत कर सकता हूँ। लेकिन इस प्रकार अलंकृत करने से मेरा मन संतुष्ट न होगा। इस लिए आज मुझे देह से परिश्रम करना चाहिए।” वह बालू रेत ला कर उस स्थान पर फैलाने लगा। अभी उसने उस स्थान को पूरा अलंकृत न कर पाया था कि दीपङ्कर-बुद्ध छः अभिज्ञाओं^१ से युक्त, चार लाख महा प्रतापी अर्हत्तों (=क्षीणाश्रवों) के साथ उसी अलंकृत मार्ग से आ निकले। उस समय देवता लोग दिव्य माला गन्ध आदि से उनकी पूजा कर रहे थे। देवता दिव्य संगीत गा रहे थे और मनुष्य गन्धों तथा मालाओं से पूजा कर रहे थे। (उस समय) वह अनन्त बुद्ध की लीलाओं के साथ मनः शिला पर अँगड़ाई लेते सिंह की तरह उस अलंकृत मार्ग पर चल रहे थे। तपस्वी सुमेघ ने आँखों से देखा—अलंकृत मार्ग से आते हुए बत्तीस महापुरुष लक्षणों^२ तथा अस्सी अनुव्यञ्जनों^३ से युक्त बुद्ध उसी अलंकृत मार्ग से आ रहे हैं। उनका मुख मण्डल (फैलाये हुए) दोनों हाथ (=व्याममात्र) के प्रभा-मण्डल से घिरा था, जिससे मणियों के रंग की प्रभा निकल कर, आकाश तल में नाना प्रकार के विद्युत प्रकाशों की भाँति इकट्ठी हो दो दो की जोड़ी करके छः रंग^४ की घनी बुद्ध किरणें प्रस्तारित कर रही थी। उनके अत्युत्तम सुन्दर शरीर को देख कर (सुमेघ ने) सोचा—“आज मुझे बुद्ध के लिए जीवन अर्पण करना चाहिए। भगवान् को कीचड़ में नहीं चलने देना चाहिए! यदि चार लाख अर्हत्तों (=क्षीणाश्रवों) के साथ (भगवान्) मणि फलकों से निर्मित पुल पर चलने के समान, मेरी पीठ को मर्दित करते चलें; (तो) वह दीर्घ काल तक मेरे हित और सुख के लिए होगा। वह केशों को खोल मृगछाला (=अजिन चर्म), जटा और छाल (=वल्कल) के वस्त्रों को काले रंग की कीच पर फैला, नगों की पट्टी (=मणि फलक)

^१ दिव्य-चक्षु, दिव्य-श्रोत्र, पूर्व जन्म की स्मृति, ऋद्धि बल, परचित्त का ज्ञान तथा आश्रवक्षय ज्ञान ।

^२ देखो, लक्षण-सूक्त (बीर्घ-निकाय) ।

^३ महापुरिस-लक्षण (विनय १. ६५) ।

^४ नीला, पीला, सफेद, मंजीठा, लाल तथा प्रभास्वर ।

के बने पुल की तरह (उस) कीचड़ में लेट गया। इसी लिये कहा है :—

“उन्होंने ने मेरे पूछने पर बताया कि अनुपम लोकनायक दीपङ्कर नामक बुद्ध (—शास्ता) लोक में उत्पन्न हुए हैं। यह मार्ग उनके लिए साफ किया जा रहा है। ‘बुद्ध’—यह सुनते ही उस समय मेरे मन में आनन्द (—प्रीति) उत्पन्न हुआ। ‘बुद्ध’ ‘बुद्ध’ कहते हुए मैं गद्गद (—सौमनस्य को प्राप्त) हो गया। जोश और सन्तोष से मेरा दिल भर गया; और वहाँ खड़े खड़े मैंने सोचा—“मैं यहाँ (पुण्य का) बीज रोपूँगा। यह क्षण (कहीं हाथ से) चला न जाय” और लोगों से कहा—“यदि यह मार्ग बुद्ध के लिए साफ कर रहे हो, तो (इसका) एक हिस्सा मुझे भी दो, मैं भी (उसे) साफ करूँगा। उन्होंने ने साफ करने के लिए मुझे मार्ग दे दिया। तब मैं ‘बुद्ध’ ‘बुद्ध’—(यह) चिन्तन करते उसे साफ करने लगा। मेरे हिस्से के तैयार हो जाने के पहले ही छः अर्ध अञ्जाओं^१ से युक्त स्थित-प्रज्ञ, निर्मल (-चित्त) चार लाख अर्हंतों (—क्षीणाश्रवों) के साथ महामुनि दीपङ्कर उस मार्ग पर चले आये। अगवानी के लिए बहुत सी भेरियाँ बज रही थीं। आनन्दित हो देवता और मनुष्य ‘साधु’ ‘साधु’^२ कह रहे थे। उस समय देवता मनुष्यों को देखते थे और मनुष्य देवताओं को। (वे) दोनों हाथ जोड़े बुद्ध (—तथागत) के पीछे चल रहे थे। देवता दिव्य वाद्य (—तुर्य) को और मनुष्य मानुषिक वाद्य को बजाते तथागत का अनुगमन करते थे। आकाश-मण्डल में अवस्थित देवता मन्दार, पद्म, पारिजात (आदि के) दिव्य पुष्पों को चारों ओर (—विशा विविशा में) बरसा रहे थे। भूमितल पर अवस्थित मनुष्य चम्पक, सलल, नीप, नाग, पुलाग, केतक (के पुष्पों) को चारों ओर बिखेर रहे थे। मैं यहाँ वहाँ अपने केशों को खोल, बल्कल वस्त्र और (आसन-वाले) चर्म खण्ड को कीचड़ पर फँला, मुँह के बल लेट गया, जिसमें कि शिष्यों सहित बुद्ध बिना कीचड़ लगे मेरे ऊपर से चले जायें। वह मेरे हित के लिए होगा।”

^१ दिव्य-चक्र, दिव्य-धोत्र, पूर्व जन्मों का ज्ञान, ऋद्धि-बल, पर-चित्त का जानना, आश्रवों के क्षय होने का ज्ञान।

^२ ‘हुर्रा’ ‘Hurrah’ सद्श प्रसन्नता-सूचक नाद।

५. बुद्ध बनने का संकल्प

उसने कीचड़ में ही पड़े पड़े फिर झाँखें खोल दीपङ्कर बुद्ध (==दशबल) की बुद्ध-श्री को देखते हुए सोचा—यदि मेरी इच्छा हो, तो मैं सब चित्त-मलों (==क्लेशों) का नाश कर भिक्षु बन रम्य नगर (==निर्वाण) में प्रवेश कर सकता हूँ। लेकिन अप्रसिद्ध वेपभूषा के साथ चित्त-मलों का नाश कर, निर्वाण-प्राप्ति करना मेरा ध्येय (==कृत्य) नहीं। मेरे लिए (तो) यही उचित (==योग्य) है कि मैं (भी) दशबल दीपङ्कर बुद्ध की तरह उत्तम बुद्ध पद को प्राप्त कर मानव-समूह (==महाजन) को, धर्म रूपी नाव पर चढ़ा संसार-सागर से पार उतार लेने के बाद निर्वाण को प्राप्त होऊँ। (इस लिए) आठ धर्मों पर विचार करते हुए बुद्ध-पद के लिए कामना (==प्रार्थना) करता लेटा रहा।

इसी लिए कहा है :—

“पृथ्वी पर लेटे हुए मुझे ह्याल आया कि यदि मेरी इच्छा हो, तो मैं आज अपने क्लेशों का नाश कर सकता हूँ; लेकिन (इस) अप्रसिद्ध वेप से धर्म के साक्षात् करने से क्या? मैं बुद्धपद (==सर्वज्ञता) प्राप्त कर देवताओं सहित (सारे) लोक का बुद्ध होऊँगा। प्रयत्न-शील (==वीर्य-वर्शी) हो मेरे अकेले (संसार सागर से) पार होने से क्या? बुद्ध-पद (==सर्वज्ञता) प्राप्त कर मैं देवताओं सहित (सारे) लोक को पार उतार सकूँगा। नर-श्रेष्ठ (==दीपङ्कर) के लिए की गई इस (पूजा के) प्रताप (==अधिकार) से, मैं बुद्ध-पद (==सर्वज्ञता) प्राप्त कर बहुत जनता को पार उतार सकूँगा। मैं (अब) आवागमन की धारा (==संसार-स्रोत) को छेद तीनों भवों का नाश कर, देवताओं सहित (सारे) लोक को धर्म रूपी नाव पर चढ़ा कर पार उतारूँगा।”

लेकिन बुद्ध-पद की चाह रखने वाला यदि मनुष्य-योनि, लिङ्ग-प्राप्ति, हेतु (==भाग्य), बुद्ध (==शास्ता) का दर्शन, संन्यास (==प्रव्रज्या) और उसके गुण की प्राप्ति, योग्यता (==अधिकार), कामना (==छन्द)—(इन)

^१ काम-भव, रूप-भव तथा अरूप-भव ।

आठ धर्मों से युक्त हो, तभी (उस को) वह प्रबल इच्छा (=अभिनीहार) पूरी होती है ।

मनुष्य योनि में ही बुद्ध-पद की कामना करने वाले की इच्छा पूरी होती है । नाग, गरुड़ या देवता की योनियों में वह पूरी नहीं हो सकती । मनुष्य योनि में भी पुरुष-लिङ्ग में स्थित होने ही पर इच्छा पूरी होती है । स्त्री, षण्ड (=नपुंसक) अथवा (स्त्री-पुरुष) दोनों लिङ्गों वाले होने पर पूरी नहीं हो सकती । पुरुष होने पर भी यदि उसी जन्म में अर्हंत पद की प्राप्ति का हेतु^१ हो तो इच्छा पूरी होती है, नहीं तो नहीं । हेतु होने पर भी बुद्ध के जीते जी उनके पास प्रबल इच्छा (=प्रार्थना) रखने वाले की ही इच्छा पूरी होती है; बुद्ध के निर्वाण प्राप्त हो जाने पर (उनके) चैत्य (=मृतस्तूप) अथवा बोधिवृक्ष के पास प्रार्थना करके इच्छा पूरी नहीं होती । बुद्धों के पास से (अर्हंत पद की प्राप्ति) के लिए इच्छा करते हुए भी भिक्षु-आश्रमी की ही इच्छा पूरी होती है, गृहस्थ-आश्रमी की नहीं । भिक्षु आश्रमियों में भी जो पाँच अभिञ्जाधर्मों और आठ समापत्तियों को प्राप्त कर चुका हो, उसी की पूरी होती है । जिसे यह गुण (=गुण-सम्पत्ति) प्राप्त नहीं, उसकी नहीं । गुण के होने पर भी, जिसने अपना जीवन बुद्धों के लिए अर्पण कर दिया, इस (त्याग)-अधिकार से अधिकारी होने पर उसी की पूरी होती है, दूसरे की नहीं । अधिकारी होने पर बुद्ध-पद की प्राप्ति में सहायक धर्मों के प्रति जिसकी महती इच्छा, महान् उत्साह और प्रयत्न तथा खोज का भाव (पर्येषण) होता है, उसी की पूरी होती है; दूसरे की नहीं ।

इच्छा-बल (=छन्द)के विषय में एक उपमा है—जो कोई सारे ब्रह्माण्डों (=चक्रवालों) के (गल कर) जलमय हुए (समुद्र के) गर्भ को, अपने बाहु-बल से तैर कर, पार जा सके, वही (पुरुष) बुद्ध-पद प्राप्त कर सकता है; अथवा जो कोई सारे ब्रह्माण्डों (=चक्रवालों) के बाँसों की झाड़ी से ढके हुए गर्भ को हटा कर, मर्दन कर, पाँव से चल कर, पार कर सके, वह बुद्धपद को प्राप्त कर सकता है; अथवा जो कोई छुरियाँ गड़े हुए सारे ब्रह्माण्ड पर नंगे पाँव से चलकर

^१ पूर्व कर्म का पुण्य फल ।

उसे पार कर सके, वह बुद्ध-पद को प्राप्त कर सकता है; अथवा जो कोई अंगारों से भरे हुए सारे ब्रह्माण्ड के गर्भ को पाँव से मर्दन करता हुआ, उस पार जा सके, वह बुद्ध-पद को प्राप्त कर सकता है। जो इनमें से किसी एक बात को भी अपने लिए दुष्कर न समझे; 'मैं इसे भी तैर कर, वा चल कर पार करूँगा,' जिसकी कि इस प्रकार की महान् इच्छा, उत्साह, प्रयत्न तथा पर्येषण हो; उसी की प्रार्थना पूरी होती है; दूसरे की नहीं।

तपस्वी सुमेध इन आठ बातों (—धर्मों) का ख्याल कर बुद्ध-पद (की प्राप्ति) के लिए बलवती इच्छा (—अभिनीहार) कर लेट गया।

६. दीपङ्कर की भविष्यद्वाणी

भगवान् बीपङ्कर आ, तपस्वी सुमेध के सिर की ओर खड़े हुए। मणि (—निर्मित) खिड़की को खोलते हुए की तरह, पाँच प्रकार के रगिन चक्षु-प्रासाद से युक्त आँखों को खोल कर कीचड़ पर पड़े तपस्वी सुमेध को देखा। फिर—यह तपस्वी 'बुद्धपद' के लिए दृढ़ संकल्प (—अभिनीहार) कर के पड़ा है; इसकी इच्छा पूरी होगी अथवा नहीं?—इस प्रकार भविष्य सोचते हुए जाना कि अब से चार असंख्येय एक लाख कल्प बीतने पर गौतम नाम के बुद्ध होंगे। (तब) मण्डली के बीच में खड़े हो कहा—“देखते हो न तुम कीचड़ में पड़े उग्र तपस्या करने वाले इस तपस्वी को?”

“भन्ते! हाँ!”

“यह तपस्वी बुद्ध-पद के लिए दृढ़-संकल्प कर के पड़ा है। इसकी कामना पूरी होगी। अब से चार असंख्येय एक लाख कल्प के बीतने पर यह गौतम नामक 'बुद्ध' होगा। उस जन्म में इसका निवास कपिलवस्तु^१ नामक नगर होगा; माया नामक देवी इसकी माता होगी, शुद्धोदन नामक राजा पिता होगा। उपतिष्य^२ नामक स्थविर प्रधान-शिष्य (—अग्र-श्रावक) होगा। कौलित^३ नामक (स्थविर) द्वितीय शिष्य (—श्रावक) होगा। आनन्द (स्थविर)

^१ तिलौराकोट, तौलिहवा (नेपाल-तराई) से दो मील उत्तर।

^२ सारिपुत्र तथा मौद्गल्यायन।

परिचारक (= उपस्थायक) होगा । खेमा नामक स्थविरा प्रधान शिष्या (= अग्र श्राविका) होगी ; उत्पलवर्णा नामक स्थविरा द्वितीय शिष्या (= श्राविका) होगी । ज्ञान के परिपक्व हो जाने पर वह गृह त्याग (महाभि-निष्क्रमण) करेगा ; और महान् तपस्या करने के बाद न्यग्रोध (-वृक्ष) के नीचे खीर ग्रहण कर, नेरञ्जरा^१ नदी के किनारे उसे भोजन कर, बोधि मण्ड पर चढ़ अश्वत्थ^२ वृक्ष के नीचे बुद्ध-पद प्राप्त करेगा ।

इसी लिए कहा है :—

“सत्कार (= आहुति) -भाजन, लोक के ज्ञाता, धी पङ्क र मेरे शिर के पास खड़े हो कर यह बोले—“इस उग्र तपस्या करने वाले जटिल तपस्वी को देखते हो ? अब से चार असंख्येय एक लाख कल्प के बीतने पर यह बुद्ध होगा । तथागत क पि ल (वस्तु) नामक रम्य नगर से निकल कर, महान् उद्योग और दुष्कर तपस्या करेंगे । फिर अजपाल वृक्ष के नीचे बैठ खीर ग्रहण कर, नेरञ्जरा नदी के तट पर जायेंगे । वहाँ नेरञ्जरा नदी के किनारे वह खीर को खा सुसज्जित मार्ग से बोधि-वृक्ष के नीचे जायेंगे । वह अनुपम महायशस्वी (पुरुष) बोधिमण्ड की प्रवक्षिणा कर, अश्वत्थ पीपल-वृक्ष के नीचे बुद्ध (पद को प्राप्त) होगा । इसको जननी, माता माया (देवी) होगी ; पिता शुद्धोदन और यह गौतम होगा । इस जिन (= शास्ता) के कोलित और उपतिष्य नाम के वीतरागी, शान्त-चित्त, समाधि-प्राप्त (दो) अर्हंत अग्र-श्रावक होंगे ; और आनन्द नामक परिचारक (= उपस्थायक) परिचर्या (= उपस्थान) करेंगे । खेमा तथा उत्पलवर्णा आश्व-रहित, वीतराग, शान्त-चित्त, समाधि-प्राप्त (दो) अर्हंत प्रधान शिष्यायें (= अग्र-श्राविकायें) होंगी और उन भगवान् के बुद्ध (-पद) प्राप्ति करने का वृक्ष (= बोधि) पीपल (= अश्वत्थ - बोधि) कहलाएगा ।”

तपस्वी सुमेध 'मेरी' कामना सम्पूर्ण होगी' सोच संतुष्ट हुआ । जनता (= महाजन) ने बुद्ध (= दशबल) दीपङ्कर के वचन को सुना ; और 'यह

^१ नोलाजन नदी (जि० गया) ।

^२ बोध गया का प्रसिद्ध पीपल-वृक्ष ।

तपस्वी सुमेध बुद्ध-बीज है, बुद्ध-अङ्कुर है—सोच कामना की—“जैसे सामने के घाट (—तीर्थ) से नदी को पार न कर सकने पर मनुष्य नीचे के घाट से नदी पार करता है। इसी प्रकार हम बुद्ध दीपङ्कुर के शासन-काल में यदि मार्ग-फल को न पा सकें, तो जब तू बुद्ध होगा, तब तेरे सन्मुख मार्ग-फल प्राप्त करने में समर्थ हों।”

दीपङ्कुर बुद्ध भी बोधिसत्त्व (सुमेध) की प्रशंसा कर, आठ मुट्ठी फूल से पूज, प्रदक्षिणा कर चल दिये और वे चार लाख अर्हत भी गन्ध तथा माला से बोधिसत्त्व की पूजा कर, प्रदक्षिणा कर आगे बढ़े। देवता और मनुष्य भी उसी प्रकार पूजा तथा वन्दना कर चल दिये। सब के चले जाने पर बोधिसत्त्व उठ कर पारमिताओं पर चिन्तन करने की इच्छा से, पुष्पों के ढेर पर पालथी मार बैठ गये। बोधिसत्त्व के इस प्रकार बैठने पर, सारे दस हजार ब्रह्माण्डों (—चक्र वालों) के देवताओं ने एकत्र हो, साधुकार दे—“(साधु!) आर्य! तपस्वी सुमेध! (साधु)! पुराने बोधिसत्त्वों की (भौति) आसन मार पारमिताओं पर चिन्तन करने की इच्छा से बैठने के समय जो जो शकुन (—पूर्व निमित्त) पहले प्रकट होते रहे; वह सब आज भी प्रकट हो रहे हैं, इस लिए हम यह जानते हैं कि तू निस्सन्देह बुद्ध होगा। जिनके लिए यह चिन्ह प्रकट होते हैं, वह निश्चय बुद्ध होता है। इस लिए तू अपने उद्योग को दृढ़ करके प्रयत्न कर।” (इस प्रकार देवताओं ने) नाना प्रकार की स्तुतियों से बोधिसत्त्व की प्रशंसा की। इस लिए कहा है :—

“अनुपम महर्षि (दीपङ्कुर) के इस वचन को सुन कर, कि यह (तपस्वी सुमेध) बुद्ध-अङ्कुर हैं देवता और मनुष्य प्रसन्न हुए। (उस समय) देवताओं सहित सारे दस हजार ब्रह्माण्ड घोषणा करते, ताली बजाते, हँसते तथा हाथ जोड़ कर प्रणाम करते थे और (लोग सोच रहे थे) कि यदि इस (दीपङ्कुर) बुद्ध (—लोक नाथ) के काल में हम चूक गये, तो भविष्य में इस (तपस्वी सुमेध के बुद्ध होने) के समय (कृतकार्य) होंगे। जिस प्रकार नदी पार करने वाले पुत्र सामने के घाट के छट जाने पर, नीचे के घाट से महा नदी को पार करते हैं, इसी प्रकार यदि हम सब से यह बुद्ध छूट जायेंगे, तो हम भविष्य काल में इन बुद्ध के समकालीन (उत्पन्न) होंगे।”

१. सुमेध का बुद्ध संकल्प

“पूजा के भाजन, लोक के जानकार, दीपङ्कर ने मेरे कार्य की प्रशंसा करके बक्षिण पैर उठाया। वहाँ जितने बुद्ध के शिष्य (=जिन-पुत्र) थे, उन सब ने मेरी परिक्रमा की। नर, नाग, (तथा) गन्धर्व, सभी अभिवादन करके गये। जब संघ-सहित बुद्ध (=लोक नायक) आँखों से ओझल हो गये, तब मैं प्रसन्न चित्त हो उठ बैठा। सुख से सुखित, प्रमोद से प्रमुदित, आनन्द (=प्रीति) से शान्त हो, मैंने आसन लगाया। आसन लगा मैं सोचने लगा—मैं ध्यान-प्राप्त हूँ। अभिञ्जाएँ मुझे मिल चुकी हैं। सहस्रों लोकों में भी मेरे समान (बूसरा) ऋषि नहीं। मैं अद्वितीय (=असदृश्य) हूँ। मैंने दिव्य-शक्ति (=ऋद्धि-धर्मों) में ऐसा सुख प्राप्त किया है।

“मेरे पालथी मार बैठने पर, इन सहस्र ब्रह्माण्डों के निवासियों ने महानाद किया—“तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“पूर्व (काल) में बोधिसत्त्वों के आसन लगा कर बैठने पर, जो शकुन दिखाई देते रहते हैं, वे आज (भी) दिखाई देते हैं। शीत का चला जाना, उष्णता का शान्त हो जाना—ये शकुन आज भी दिखाई देते हैं। (इसलिए) तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“दस सहस्र ब्रह्माण्डों का निशब्द और निर्वन्द होना—ये शकुन आज भी दिखाई देते हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“न आँधी (=महा वायु), न नदियाँ (प्रचण्डता से) बहती हैं। ये शकुन आज भी दिखाई देते हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“उस समय जल तथा स्थल (दोनों) पर फूलने वाले सभी फूल फूल जाते हैं। सो सभी आज भी फूले हुए हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“उस समय सभी लतारों तथा वृक्ष फलों से लदे होते हैं। वे सभी आज फलों से लदे हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“उस समय आकाश और पृथ्वी (दोनों) में बिद्यमान रत्न चमकने लगते हैं। वे सभी रत्न आज चमक रहे हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“उस समय दिव्य और मानुष (सभी) बाजे (तूर्ण) बजते हैं, वे दोनों भी आज बज रहे हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“उस समय आकाश से चित्र विचित्र फूलों की वर्षा होती है। वह वर्षा आज भी हो रही है। तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“(उस समय) महासमुद्र संकुचित होता है, और दस सहस्र ब्रह्माण्ड कांपने लगते हैं। वे भी दोनों आज कांपन का शब्द कर रहे हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“उस समय दस सहस्र ब्रह्माण्डों के नरकों की भी अग्नियाँ बुझ जाती हैं, वे अग्नियाँ भी आज बुझ गई हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“उस समय सूर्य्य निर्मल होता है, सभी तारे दिखाई देने लगते हैं, वे भी आज दिखाई दे रहे हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“उस समय बिना वर्षा के ही पृथ्वी से पानी निकलता है, वह भी आज पृथ्वी से निकल रहा है। तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“उस समय आकाश मण्डल में तारे और नक्षत्र चमकने लगते हैं। चन्द्रमा वि शा खा नक्षत्र में होता है। . . . तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“(उस समय) बिलों में तथा पर्वतों पर रहने वाले सब (प्राणी) अपने अपने घरों से निकल आते हैं। वे भी आज (अपने अपने) बसेरों से बाहर आ गये हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“उस समय प्राणियों को असन्तोष नहीं होता, सभी जीव संतुष्ट होते हैं। वे भी सब आज सन्तुष्ट हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“(उस समय) रोग शान्त हो जाते हैं, भूख नष्ट हो जाती है। वे (लक्षण) भी आज दिखाई देते हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“उस समय राग कम हो जाता है, द्वेष और मोह भी नष्ट हो जाते हैं। वे भी आज सब नष्ट हो गये हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“उस समय (किसी को) भय नहीं होता। आज भी ऐसा ही दिखाई देता है। इस चिन्ह से हम जानते हैं, कि तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“(उस समय) धूलि ऊपर की उड़ती है, आज भी वह दिखाई देती है। इस चिन्ह से हम जानते हैं, तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“(उस समय हवा से) बुरी गन्ध हट जाती है, विषय गन्ध बहती है। वह गन्ध भी आज बह रही है, तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“आकार रहित (—अरूपी) देवताओं के अतिरिक्त बाकी सब देवता

दिखाई देने लगते हैं। वे भी आज सब दिखाई दे रहे हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“उस समय जितने नरक (होते) हैं, वे सब दिखाई देते हैं। वे भी सब आज दिखाई दे रहे हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“उस समय दीवार, दरवाजे तथा पर्वत ढाँकने की शक्ति खोये हुए (=निरावरण) होते हैं। वे भी आज आकाश से हो गये हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“उस क्षण में जन्म और मृत्यु का होना बन्द हो जाता है। वह लक्षण भी आज दिखाई देते हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

“उद्योग को बूढ़ कर। एक मत, आगे बढ़। हम यह जानते हैं, तू निश्चय से बुद्ध होगा।”

दीपङ्कर बुद्ध तथा उन सहस्र ब्रह्माण्डों के देवताओं के वचन को सुन कर, (और भी) अधिक आनन्द (=सौमनस्य) से उत्साहित हो बोधिसत्त्व ने सोचा—बुद्धों का वचन भूठा नहीं होता? बुद्धों का कथन उलट नहीं सकता। जैसे आकाश में फेंके ढेले का गिरना, जन्मने वाले का मरना, उषा (=अरुण के उदगमन) के बाद सूर्योदय, गुफा से निकलते समय सिंह का गर्जन, भारी गर्भवती स्त्री का जनन—(यह सब) अनिवार्य (=ध्रुव) और अवश्यम्भावी है, इसी प्रकार बुद्धों का वचन निष्फल नहीं जाता “मैं निश्चय से बुद्ध होऊँगा।” इसी लिए कहा है :—

“तब बुद्ध तथा दस हजार ब्रह्माण्डों के देवताओं के वचन को सुन कर सन्तुष्ट, प्रसन्न हो मैंने सोचा—“बुद्ध एक बात कहने वाले होते हैं। उनका वचन निष्फल नहीं जाता। बुद्धों का कथन असत्य नहीं होता। मैं जरूर बुद्ध होऊँगा। जिस प्रकार आकाश में फेंका हुआ ढेला, पृथ्वी पर अवश्य गिरता है, इसी प्रकार श्रेष्ठ बुद्धों का वचन अनिवार्य (=ध्रुव=शाश्वत) है। जिस प्रकार सब प्राणियों का मरना अनिवार्य है, उसी प्रकार श्रेष्ठ बुद्धों का वचन अनिवार्य है। जिस प्रकार रात्रि के बीतने पर सूर्योदय निश्चित है, इसी प्रकार श्रेष्ठ-बुद्धों के वचन (को पूर्ति) निश्चित है। जिस प्रकार बसेरे से निकलते सिंह का गर्जन करना निश्चित है, उसी प्रकार श्रेष्ठ-बुद्धों के वचन (को पूर्ति) निश्चित है। जिस प्रकार गर्भ में आये प्राणियों का प्रसव निश्चित है, उसी प्रकार श्रेष्ठ-बुद्धों के वचन (को पूर्ति) निश्चित है।”

८. दस पारमिताएँ और दृढ़ संकल्प की पूजा

(१) दान पारमिता

“मैं बुद्ध अवश्य होऊँगा”, (इस प्रकार का) निश्चय कर, बुद्ध बनाने वाले धर्मों का निश्चय करने के लिए सोचा—बुद्ध बनाने वाले धर्म कहाँ हैं? ऊपर हैं, नीचे हैं, (वा) दस दिशाओं में हैं? इस प्रकार क्रम से सभी धर्मों (=धर्म धातुओं) पर विचार करने लगा। फिर प्राचीन काल के बोधिसत्त्वों द्वारा सेवित किये प्रथम-पारमिता **दान-पारमिता**^१ को देख, उसने अपने को सम-भाया—‘पण्डित सुमेध ! अब से तुझे पहले दान-पारमिता पूरी करनी होगी। जिस प्रकार पानी का घड़ा उलटने पर अपने को बिलकुल खाली कर, पानी गिरा देता है, और फिर वापिस ग्रहण नहीं करता, इसी प्रकार धन, यश, पुत्र, दारा अथवा (शरीर का) अङ्ग प्रत्यङ्ग (किसी) का (भी कुछ) ख्याल न कर, जो कोई भी याचक आवे, उसकी सभी इच्छित (वस्तुओं) को ठीक से प्रदान करते हुए, बोधि-वृक्ष के नीचे बैठ कर तू बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। इस लिए पहले तू दान पारमिता (की पूर्ति) के लिए दृढ़ संकल्प (=अधिष्ठान) कर। इसी लिए कहा है—

‘अहो ! बुद्ध बनाने वाले धर्मों को यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे वसों विशाओं में, जितनी भी धर्म-धातुएँ हैं, (उन सब में) ढूँढ़ते हुए, मैंने पूर्व-महर्षियों द्वारा सेवित महान् मार्ग (=महापथ, महायान) दान-पारमिता को देखा। (और समभाया) पहले तू दृढ़ता पूर्वक इस दान-पारमिता को ग्रहण कर। यदि बुद्ध-पद के पाने की इच्छा है, तो दान की परम सीमा तक चला जा। जिस प्रकार पानी का भरा घड़ा उलटा करने पर अपने सारे पानी को गिरा देता है, कुछ भी बचा नहीं रखता, उसी प्रकार तू उत्तम, मध्यम, अधम (सभी तरह के) याचकों को पा, औंधे घड़े की तरह अपने सरवस्व का दान कर।’

(२) शील पारमिता

‘बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते’ (विचार) और भी सोचते

^१ दान की पराकाष्ठा।

हुए उसने द्वितीय (पारमिता) शील-पारमिता को देख कर सोचा—‘पण्डित सुमेध’ अब से तुम्हें शील-पारमिता भी पूरी करनी होगी। जिस प्रकार चमरी (—चमरी-मृग) अपने जीवन की भी परवाह न कर, अपनी पूँछ की रक्षा करता है, इसी प्रकार तू भी अब से जीवन की भी परवाह न कर शील रक्षा करते हुए बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। “(इस लिए) तू द्वितीय शील-पारमिता (की पूर्ति) का दृढ़ संकल्प कर।” इसी से कहा है :—

“यह बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे। और भी जो जो धर्म बुद्ध-पद की प्राप्ति में सहायक हैं; उन्हें भी ढूँढ़ना चाहिए, यह सोचते हुए उसने पूर्व महर्षियों से सेवित द्वितीय पारमिता शील-पारमिता को देखा। (और) अपने मन को समझाया—तू इस दूसरी शील-पारमिता को बढ़ता पूर्वक ग्रहण कर। यदि बुद्ध-पद की इच्छा है, तो शील की (चरम) सीमा तक पहुँच जा। जिस प्रकार चमरी चाहे मर जावे; लेकिन किसी चीज में फँसी अपनी पूँछ को हानि पहुँचने नहीं देती। उसी प्रकार चारों भूमि में शील की पूर्ति करते हुए चमरी की पूँछ की भाँति (अपने) शील की रक्षा कर।

(३) नैष्कर्म्य पारमिता

फिर विचार हुआ—‘बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते’ और भी सोचते हुए तृतीय नैष्कर्म्य पारमिता को देख विचारा—“पण्डित सुमेध ! अब से तुम्हें नैष्कर्म्य पारमिता भी पूरी करनी होगी। जिस प्रकार जेल (—बन्धनागार) में चिरकाल तक रहने वाला मनुष्य भी जेल के प्रति स्नेह नहीं रखता, वहाँ न रहने के लिए ही उत्कण्ठित है, इसी प्रकार तू सब योनियों (—भवों) को जेल (सदृश) ही समझ, सब योनियों से ऊब कर उन्हें छोड़ने की इच्छा कर, नैष्कर्म्य की ओर भुक्त। इस प्रकार तू बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। (इस लिए) तू तृतीय नैष्कर्म्य-पारमिता (की पूर्ति) का दृढ़ संकल्प (—अधिष्ठान) कर। इसीलिए कहा है—

‘प्रतिमोक्ष संवर-शील (—यम नियमों की पूर्ति), इंद्रिय संवर-शील (—इन्द्रिय संयम), आजीव परिशुद्धि (—जीविका की शुद्धि), प्रत्यय परि-
बोधन (—शारीरिक आवश्यकताओं की खोज)।

‘बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे। जो जो भी बुद्ध-पद की प्राप्ति में सहायक धर्म हैं, उन्हें भी ढूँढ़ना चाहिए। यह सोचते हुए पूर्व ऋषियों से सेवित तृतीय नैऋत्म्य पारमिता को बेला। तू इस तीसरी नैऋत्म्य पारमिता को बृद्धता पूर्वक ग्रहण कर। यदि बुद्ध-पद की प्राप्ति की इच्छा है, तो नैऋत्म्यता की भी सीमा को पार कर जा। जिस प्रकार चिरकाल तक जेल में रह (उसके) दुःखों को भेले मनुष्य को उस जेल के प्रति राग उत्पन्न नहीं होता (बल्कि उससे) छूटना ही चाहता है; इसी प्रकार तू सब योनियों को जेल की तरह समझ, और उन (योनियों) से छूटने के लिए नैऋत्म्य की ओर चल।

(४) प्रज्ञा पारमिता

तब ‘इतने ही बुद्ध बनाने वाले धर्म नहीं हो सकते, और भी (होंगे)’ सोचते हुए चौथी प्रज्ञा-पारमिता को देखा और मन में सोचा—“पण्डित सुमेध ! अब से तुझे प्रज्ञा-पारमिता भी पूरी करनी होगी। उत्तम, मध्यम, अधम, किसी को भी बिना छोड़े सभी पण्डितों के पास जा कर प्रश्न पूछने होंगे। जिस प्रकार भिक्षा माँगने वाला भिक्षु (उत्तम, मध्यम) हीन (सभी) कुलों में किसी को भी न छोड़ कर एक ओर से भिक्षाटन करते हुए शीघ्र ही (आवश्यक) भोजन (=यापन) प्राप्त कर लेता है, इसी प्रकार तू भी सभी पण्डितों के पास जा कर प्रश्न पूछते पूछते बुद्ध-पद को प्राप्त कर लेगा।” इस लिए तू चतुर्थ प्रज्ञा पारमिता (की पूर्ति) का दृढ़ संकल्प कर। इसी से कहा है—

‘बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे। और भी जो बुद्ध-पद की प्राप्ति में सहायक धर्म हैं उन्हें भी खोजना चाहिए। यह ढूँढ़ने की इच्छा से पूर्व ऋषियों से सेवित चौथी प्रज्ञा पारमिता को बेला।” चौथे तू इस प्रज्ञा-पारमिता को बृद्धता पूर्वक ग्रहण कर। यदि बुद्धत्व-प्राप्ति की इच्छा है, तो प्रज्ञा की सीमा के पार जा। जिस प्रकार भिक्षु उत्तम, मध्यम (तथा) अधम कुलों में से (किसी एक कुल को भी) बिना छोड़े, भिक्षा माँगते हुए अपना निर्वाह (=यापन) करता है, उसी प्रकार तू पण्डित जनों से सर्वदा (प्रश्न) पूछता हुआ, प्रज्ञा की सीमा के अंत पर जा कर बुद्ध-पद को प्राप्त करेगा।”

(५) वीर्य पारमिता

‘बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते, और भी’ सोचते हुए पाँचवीं

वीर्य-पारमिता को देख यह (विचार) हुआ। “पण्डित सुमेध ! अब से तुझे वीर्य-पारमिता भी पूरी करनी होगी। जिस प्रकार (मृग-)राज सिंह सब श्रवस्थाओं (—ईर्यापथों) में दृढ़ उद्योगी होता है, उसी प्रकार तू भी सब योनियों में, सब श्रवस्थाओं में दृढ़ उद्योगी, निरालस्य, और यत्नवान् हो बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। (इसलिए) तू पाँचवीं वीर्य-पारमिता (की पूर्ति) का दृढ़ संकल्प कर। इसीसे कहा है—

बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे। और भी जो जो बुद्ध-पद की प्राप्ति में सहायक धर्म हैं, उन्हें भी खोजना चाहिए। यह सोचते हुए पूर्व-ऋषियों से सेवित पाँचवीं वीर्य-पारमिता को देखा। पाँचवें तू इस वीर्य-पारमिता को बृहता-पूर्वक ग्रहण कर। यदि बुद्धत्व प्राप्ति की इच्छा है तो वीर्य की सीमा के पार जा। जिस प्रकार मृग-राज सिंह बैठते, खड़े होते, चलते (सदैव) निरालस, उद्योगी तथा दृढ़-मनस्क होता है, उसी प्रकार तू भी सब योनियों में दृढ़ उद्योग को ग्रहण कर। वीर्य की सीमा के अंत पर जा कर बुद्ध-पद को प्राप्त करेगा।

(६) क्षान्ति पारमिता

तब ‘बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते, और भी’ सोचते हुए, छठी क्षान्ति पारमिता को देखा। (उसके मन में) यह विचार हुआ। ‘पण्डित सुमेध ! अब से तुझे क्षान्ति पारमिता भी पूरी करनी होगी। सम्मान और अपमान, दोनों को सहना होगा। जिस प्रकार पृथ्वी पर (लोग) शुद्ध चीज भी फेंकते हैं, अशुद्ध चीज भी फेंकते हैं। पृथ्वी सहन करती है। न तो (अच्छी चीज फेंकने से) खुश होती है, न (बुरी चीज फेंकने से) नाराज। इसी प्रकार तू भी सम्मान तथा अपमान, दोनों को सहने वाला हो कर ही बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। (इसलिए) तू छठी क्षान्ति-पारमिता (की पूर्ति) का दृढ़ संकल्प कर। इसी से कहा है—

बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे और भी जो बुद्ध-पद की प्राप्ति में सहायक धर्म हैं उन्हें भी ढूँढ़ना चाहिए। यह सोचते हुए, पूर्व-ऋषियों से सेवित छठी क्षान्ति-पारमिता को देखा और (मन में) विचार हुआ—छठे तू इस क्षान्ति-पारमिता को बृहता-पूर्वक ग्रहण कर। इसमें स्थिर चित्त हो लगने पर तू बुद्ध-पद को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार पृथ्वी (अपने पर) शुद्ध, अशुद्ध सब ही

(बीजों) के फेंकने को सहन करती है, न क्रोध ही करती है, न खुदा ही होती है। उसी प्रकार तू भी सब (प्रकार) के मान, अपमान सहता क्षान्ति की सीमा के अंत पर जा बुद्ध-पद को प्राप्त करेगा।

(७) सत्य पारमिता

बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते, और भी सोचते हुए, सातवीं सत्य पारमिता को देखा और मन में यह विचार हुआ। 'पण्डित सुमेध ! अब से तुम्हें सत्य पारमिता भी पूरी करनी होगी। चाहे सिर पर बिजली गिरे, धन आदि का अत्यधिक लोभ ही तो भी जान बूझ कर भूठ न बोलना चाहिए। जिस प्रकार शुक का तारा (श्रीषधि) चाहे कोई ऋतु हो अपने गमन-मार्ग को छोड़ कर, दूसरे मार्ग से नहीं जाता, अपने ही मार्ग से जाता है। इसी प्रकार तू भी सिवाय सत्य को छोड़, मृषावाद न करके ही बुद्धत्व को प्राप्त होगा। (इसलिए) तू सातवीं सत्य-पारमिता (की पूर्ति) का दृढ़ अधिष्ठान कर। इसी से कहा है—

बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे और भी जो जो बुद्ध-पदवी-प्राप्ति में सहायक धर्म हैं उन्हें भी दृढ़ना चाहिए। यह सोचते हुए, पूर्व ऋषियों से सेवित सातवीं सत्य-पारमिता को देखा। (और) मन में कहा—सातवें तू इस सत्य-पारमिता को बृद्धता पूर्वक ग्रहण कर। एक बात बोलने वाला होने पर तू बुद्धपद को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार शुक (तारा) सबैव (लोक) में एक समान हो, वर्षा-ऋतु अथवा (दूसरे) समय में अपने मार्ग का अतिक्रमण नहीं करता। उसी प्रकार तू भी सत्य (के विषय) में अपने मार्ग का अतिक्रमण न करने वाला बन। सत्य की सीमा के अंत पर जा, तू बुद्धपद को प्राप्त करेगा।

(८) अधिष्ठान-पारमिता

बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते, और भी सोचते हुए आठवीं अधिष्ठान (=दृढ़ संकल्प) (पारमिता) को देखा, और (उसके मन में) विचार हुआ। 'पण्डित सुमेध ! अब से तुम्हें अधिष्ठान पारमिता भी पूरी करनी होगी। जो अधिष्ठान (=दृढ़ निश्चय) करना होगा, उस अधिष्ठान पर निश्चल रहना होगा। जिस प्रकार पर्वत सब दिशाओं में (प्रचण्ड) हवा के झोंके के लगने पर भी, न काँपता है, न हिलता है, और अपने स्थान पर स्थिर रहता है, इसी प्रकार तू भी अपने अधिष्ठान में निश्चल रहते हुए ही बुद्ध-पद

को प्राप्त होगा। (इसलिए) तू आठवीं अधिष्ठान-पारमिता (की पूर्ति) का दृढ़ संकल्प कर। इसीसे कहा :—

‘बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे। और भी जो जो बुद्ध-पद की प्राप्ति में सहायक धर्म हैं; उन्हें भी ढूँढ़ना चाहिए, यह सोचते हुए, पूर्व ऋषियों से सेवित आठवीं अधिष्ठान-पारमिता को देखा। (और मन में कहा—) आठवें तू अधिष्ठान-पारमिता को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण कर इसमें अचल होने से तू बुद्ध-पद को प्राप्त कर। जिस प्रकार अचल, सुप्रतिष्ठित, शैल पर्वत तेज वायु से (भी) नहीं काँपता, अपने स्थान पर ही स्थिर रहता है, इसी प्रकार तू भी अपने अधिष्ठान में सदैव निदचल हो। अधिष्ठान की सीमा के अंत पर जाने से तू बुद्ध-पद को प्राप्त करेगा।

(९) मैत्री-पारमिता

तब बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते, और भी सोचते हुए नौवीं मैत्री पारमिता को देखा। और (उसके) मन में यह विचार हुआ। ‘पण्डित सुमेध ! अब से तुझे मैत्री-पारमिता भी पूरी करनी होगी। हित, अनहित सब के प्रति समानभाव रखना होगा। जिस प्रकार पानी, पापी और पुण्यात्मा दोनों के लिए एक जैसी शीतलता रखता है, उसी प्रकार तू भी सब प्राणियों के प्रति एक जैसी मैत्री रखते हुए बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। (इसलिए) तू मैत्री-पारमिता (की पूर्ति) का दृढ़ निश्चय कर। इसीसे कहा :—

‘बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे, और भी जो बुद्ध-पद की प्राप्ति में सहायक धर्म हैं उन्हें भी ढूँढ़ना चाहिए। यह सोचते हुए, पूर्व ऋषियों से सेवित नौवीं मैत्री-पारमिता को देखा। (मन से कहा—) तू इस मैत्री-पारमिता को दृढ़ता-पूर्वक ग्रहण कर। यदि बुद्ध-पद की प्राप्ति की इच्छा है तो मैत्री-भावना में बेजोड़ बन। जिस प्रकार पानी, पापी और पुण्यात्मा दोनों को ही समान रूप से शीतलता पहुँचाता है और (दोनों के) मेल को धो देता है। उसी प्रकार तू भी हित, अनहित दोनों के प्रति समान भाव से मैत्री-भावना कर। मैत्री-भावना की सीमा के अंत पर जाने से बुद्ध-पद को प्राप्त होगा।

(१०) उपेक्षा पारमिता

‘बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते, और भी सोचते हुए दसवीं

उपेक्षा-पारमिता को देखा। (मन में) यह विचार हुआ—“पण्डित सुमेष ! अब से तुझे उपेक्षा-पारमिता भी पूरी करनी होगी। सुख और दुःख में मध्यस्थ ही रहना होगा। जिस प्रकार पृथ्वी, शुचि और अशुचि, दोनों को (उसपर) फेंकने पर भी मध्यस्थ ही रहती है, इस प्रकार तू भी सुख, दुःख दोनों में मध्यस्थ रहते हुए बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। (इसलिए) तू दसवीं उपेक्षा-पारमिता (की पूर्ति) का दृढ़ निश्चय कर। इसीसे कहा है :—

‘बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे’, और भी जो जो बोधि-सहायक धर्म हैं, उन्हें भी ढूंढना चाहिए। यह सोचते हुए पूर्व ऋषियों से सेवित दसवीं उपेक्षा-पारमिता को देखा। (मन से कहा—) दसवें तू इस उपेक्षा-पारमिता को बृद्ध करके ग्रहण कर। दृढ़ता-पूर्वक तुला (सदृश) बन, बुद्ध-पद को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार पृथ्वी खुशी और नाराजी छोड़ (अपने ऊपर) शुचि और अशुचि, दोनों के फेंकने को उपेक्षा करती है, इसी प्रकार तू भी सदैव सुख दुःख के प्रति तुल्य हो। उपेक्षा की (चरम-)सीमा के अंत पर जाने से बुद्ध-पद को प्राप्त होगा।

इसके बाद सोचा—इस लोक में बोधिसत्त्वों द्वारा पूरे किये जाने वाले, परम ज्ञान (=बोधि)परिपक्व करने वाले, तथा बुद्ध बनानेवाले धर्म इतने ही हैं; (इन) दस पारमिताओं को छोड़ कर अन्य नहीं। यह दस पारमिताएँ भी न तो ऊपर आकाश में हैं, न पूर्व आदि दिशाओं में हैं; किन्तु मेरे हृदय के भीतर ही प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार उनके हृदय ही में प्रतिष्ठित होने (की बात) जान, सब के लिए दृढ़ निश्चय कर, फिर फिर उनपर सीधे-उल्टे (=अनुलोम प्रतिलोम) क्रम से विचार करने लगा। अन्त से शुरू करके आदि तक पहुँचाता, आदि से शुरू करके अन्त तक पहुँचाता, बीच से ग्रहण करके दोनों ओर खतम करता, (तथा) दोनों सिरों से आरम्भ करके बीच में खतम करता। (अपने) अंग का परित्याग पारमिताएँ, बाहरी वस्तुओं का त्याग उपपारमिताएँ और प्राणों का परित्याग परमार्थ-पारमिताएँ, (कहलाती) हैं। दस पारमिताएँ, दस उपपारमिताएँ और दस परमार्थ-पारमिताएँ—(इन तीसों पर) दो तेलों को मिलाने की तरह, तथा सुमेरु पर्वत की मथनी बना चक्रवाल महा समुद्र को मथने की तरह विचारने लगा।

उन दस पारमिताओं पर विचार करते समय धर्म-तेज से चार नियुक्त

दो लाख योजन घनी यह पृथ्वी भारी शब्द कर वैसे ही काँप उठी जैसे हाथी द्वारा आक्रान्त नर्कट, अथवा पेरा जाता ऊख-यंत्र; और कुम्हार के चक्र (तथा) तेली के कोलू की तरह घूमी। इसीसे कहा है :—

‘लोक में परमज्ञान (की प्राप्ति में) सहायक धर्म इतने ही हैं। इनसे अधिक अन्य नहीं हैं। उनमें दृढ़ता पूर्वक स्थित हो, स्वभाव, रस तथा लक्षणों सहित इन धर्मों पर विचार करने लगा। उस समय धर्म तेज के प्रवाह से दस सहस्र ब्रह्माण्डों वाली पृथ्वी काँप उठी। पेरते ऊख के कोलू की तरह और तेल के कोलू के चक्र की तरह पृथ्वी हिली और नाद किया।’

रम्य-नगर-वासी, काँपती हुई महा पृथ्वी पर नहीं खड़े रह सके; और प्रलय-वायु से प्रताड़ित महान् शाल वृक्षों की तरह, मूर्च्छित हो गिर पड़े। कुम्हार के बनते हुए घड़े आदि बर्तन एक दूसरे से भिड़ कर चूर्ण विचूर्ण हो गये। भयभीत त्रसित जनता ने बुद्ध के पास जाकर पूछा :—“भगवान् ! क्या यह नागों का विप्लव (=आवर्त्त) है, अथवा भूत, यक्ष, देवताओं के विप्लवों में से (कोई) एक है ? हम इसे नहीं जानते। सारी जनता भयभीत है। क्या इससे लोक का कुछ अनिष्ट होगा अथवा भला ? हमें यह बात बतलाइए।”

शास्ता ने उनका कथन सुनकर कहा :—मत डरो, चिन्ता मत करो, यह भय का कारण नहीं। आज जो मैंने पण्डित-सुमेध के भविष्य में गौतम नामक बुद्ध होने की भविष्यत् वाणी (=व्याकरण) की, सो वह (पण्डित सुमेध) अब पारमिताओं पर विचार कर रहा है। उसके पारमिताओं पर विचार करते, तथा उन्हें मन्थन करते समय, धर्म-तेज से सारे दस सहस्र ब्रह्माण्ड एक ऋटके से काँप उठे और नाद करने लगे। इसीसे कहा है :—

“बुद्ध के भोजन-स्थान पर जितनी भी मण्डली थी, वह वहाँ कम्पित और मूर्च्छित हो पृथ्वी पर लेट गई। हज़ारों घड़े, संकड़ों मटके एक दूसरे से भिड़ कर चूर्ण हो गये। विह्वल, त्रसित, भयभीत, शकित, और उत्पीड़ित मनवाला जन समूह इकट्ठा हो, बोपङ्कर के पास आया (और बोला) :—हे आँखों वाले ! इस दुनिया का क्या (कुछ) भला होने वाला है या बुरा ? सारी दुनिया भय से मरी जाती है। इस (के कष्ट) को दूर करो।”

तब महामुनि बोपङ्कर ने उन (लोगों) को कहा—धैर्य रखो। इस भूमि कम्पन से मत डरो। जिसके लिए आज मैंने लोक में बुद्ध होने की भविष्यत्-

वाणी की, वह पुराने बुद्धों के सेवन के धर्म का विचार कर रहा है। उसके बुद्ध विषयक (बुद्ध भूमि) धर्मों का पूर्णरूप से विचार करने से, यह देवताओं सहित दस हजार (लोकों वाली) पृथ्वी काँपी है।”

(११) दृढ़ संकल्प की पूजा

तथागत के वचन को सुन कर लोगों को संतोष हुआ; और वह माला-गंध-लेप ले, रम्य नगर से निकल बोधिसत्त्व के पास गये। माला आदि से पूजन बन्दना तथा प्रदक्षिणा कर, रम्यनगर में लौट आये। बोधिसत्त्व भी दस पारमिताओं पर विचार कर उत्साह पूर्वक दृढ़ संकल्प कर आसन से उठे। इसीसे कहा है:—

“बुद्ध वचन को सुनने के समय ही (लोगों का) मन शान्त हो गया। सब ने मेरे समीप आकर प्रणाम किया। तब मैं बुद्ध के गुणों का ध्यान कर (तथा) चित्त को बुद्ध बना, दीपङ्कर को नमस्कार कर, आसन से उठा।”

तब सारे दस हजार ब्रह्माण्डों के देवताओं ने इकट्ठे हो, आसन से उठते हुए बोधिसत्त्व की दिव्यमाला-गंधों से पूजा कर इस प्रकार स्तुति-मंगल (पाठ) किया—“आर्य ! तपस्वी सुमेध ! तू ने आज बुद्ध दीपङ्कर के चरणों में बड़ी प्रार्थना की। वह तेरी (प्रार्थना) निर्विघ्न पूरी हो। तुझे भय-रोमाञ्च न हो। (तेरे) शरीर को कुछ भी रोग न हो। (तू) शीघ्र ही पारमिताओं को पूरा कर उत्तम बुद्धपद को प्राप्त करे। जिस प्रकार फल फूल वाले वृक्ष समय आने पर फलते फूलते हैं; इसी प्रकार तुम भी समय का अतिक्रमण किये बिना शीघ्र ही बुद्ध-पद पर पहुँचो।” (स्तुति) पाठ के बाद (देवता) अपने अपने लोक को गये। देवताओं से प्रशंसित बोधिसत्त्व भी, “मे दस पारमिताओं को पूरा कर, चार लाख असंख्य एक लाख कल्प बीतने पर बुद्धपद को प्राप्त होऊँगा।” बड़े उत्साह के साथ दृढ़ संकल्प कर, आकाश-मार्ग से हिमालय को चला गया। इसीसे कहा है:—

“आसन से उठते वक्त (तपस्वी सुमेध) पर देवता और मनुष्य दिव्य तथा मानुषिक—दोनों प्रकार के फूलों की वर्षा कर रहे थे। देवता तथा मनुष्य दोनों (तपस्वी सुमेध के लिए) मंगल कामना प्रकट कर रहे थे—“तेरी कामना महान् है। तेरी इच्छा पूरी हो। सब भय दूर हों; रोग शोक का विनाश हो। तुझे कोई विघ्न न हो। तू शीघ्र ही श्रेष्ठ बुद्ध-पद पर पहुँच जा।”

“जिस प्रकार फल वाला वृक्ष समय आने पर फलता है। उसी प्रकार महावीर ! तेरे में बुद्ध-ज्ञान फले। जिस प्रकार दूसरे सभी बुद्धों ने दस पारमिताओं को पूरा किया; उसी प्रकार महावीर ! तू दस पारमिताओं को पूरा कर। जिस प्रकार दूसरे बुद्ध बोधि-मण्ड में बुद्ध-पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार महावीर ! तू बुद्ध के परम ज्ञान का जानने वाला हो। जिस प्रकार दूसरे बुद्धों ने धर्म-चक्र चलाया, उसी प्रकार महावीर ! तू धर्म का चक्र चला। जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन निर्मल चन्द्र चमकता है, उसी प्रकार तू भी पूर्ण-मन हो बस हज़ार ब्रह्माण्डों में प्रकाशित हो। जिस प्रकार राहु से मुक्त हुआ सूर्य्य (अपने) तेज से अत्यन्त प्रकाशित होता है, उसी प्रकार तू भी लोक से मुक्त हो (अपनी) श्री से प्रकाशित हो। जिस प्रकार सभी नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं; उसी प्रकार देवताओं सहित (सारा) लोक तेरे पास आवे।”

इस तरह उन (देवताओं) ने सुमेध की स्तुति-प्रशंसा की। तब वह उन दस धर्मों को ग्रहण कर, उनका पालन करते हुए बन में प्रविष्ट हुआ।

सुमेध कथा समाप्त

९. पहले के बुद्ध

(१) दीपंकर बुद्ध

रम्य नगर निवासियों ने भी नगर में प्रविष्ट हो बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को भोजन (= महादान) दिया। भगवान् (= शास्ता) उनको धर्मोपदेश दे, जन समूह को (त्रि०) शरण आदि में स्थापित कर, रम्य नगर से निकले। तब से आगे भी, आयु भर सभी बुद्धों के कर्तव्य करते हुए क्रमानुसार उपाधिरहित परिनिर्वाण^१ को प्राप्त हुए। इस विषय में श्रीर सब बात, बुद्ध-वंस में कहे अनुसार ही समझना चाहिए। वहाँ कहा है :—

^१ परिनिर्वाण दो प्रकार का है :—(१) उपाधि-शेष परिनिर्वाण (= पाँच स्कंधों के शेष रहते निर्वाण; जैसे जीवन्मुक्त) (२) अनुपाधि-शेष परिनिर्वाण।

“तब वे संघ सहित बुद्ध (=लोक नामक) को भोजन करा दीपङ्कर बुद्ध (=शास्ता) की शरण गये। तथागत ने कुछ को शरणागमन^१ में, कुछ को पाँच शील^२ में, तथा दूसरों को दस शील^३ की दीक्षा दी। किसी को चार उत्तम-फलो^४ को प्राप्त साधु बनाया। किसी को असमान-धर्म^५ का पटिसम्भिदा (-ज्ञान) दिया। उस नर-श्रेष्ठ ने किसी को आठ समापत्तियाँ दीं। किसी को तीन विद्याएँ^६ किसी को छः अभिज्ञाएँ दीं। वह महामुनि इस प्रकार से जन-समूह को उपदेश करते थे, इसीसे उन (=लोकनाथ) का धर्म (=शासन) फैला। बड़ी ठुड़ी (=महाहनु), ऊँचे कन्धे वाले दीपङ्कर नामक (बुद्ध) ने बहुत से जनों को (ससार सागर से) पार उतार दुर्गति से मुक्त किया। महामुनि यदि एक लाख योजन पर भी ज्ञान के पात्र (=समझदार मनुष्य) को देखते, तो एक क्षण में वहाँ पहुँच, उसे बोध कराते थे।

प्रथम सम्मेलन (=अभिसमय) में बुद्ध ने एक अरब को बोध कराया। दूसरे सम्मेलन में नाथ ने दस खरब को बोध कराया। तृतीय-सम्मेलन के वक्त जब बुद्ध ने देव-लोक में धर्मापदेश दिया, उस समय नौ खरब को बोध हुआ। दीपङ्कर बुद्ध (=शास्ता) के तीन सम्मेलन (=सन्निपात) हुए थे। पहला सम्मेलन दस खरब का हुआ था। फिर शास्ता के नारद-कूट (पर्वत) में एकान्त-वास करते वक्त एक अरब पुरुष मल-हीन शान्त अर्हत्-मद को प्राप्त हुए। जिस समय महावीर (=बुद्ध) सुदर्शन (नामक) ऊँचे पर्वत पर रहते थे, उस समय

^१ बुद्ध, धर्म तथा संघ की शरण में।

^२ अहिंसा, चोरी न करना, काम भोग में मिथ्याचार न करना (=पर स्त्री-गमन से दूर रहना), झूठ न बोलना तथा मद्य-पान न करना।

^३ ऊपर के पाँच शील (तीसरे शील में सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य), ६ असमय (=विकाल) भोजन न करना, ७ नृत्य-गीत आदि का त्यागना, ८ माला गन्ध आदि का न धारण करना, ९ ऊँचे तथा महार्थ पलंगों का सेवन न करना।

१० चाँदी-सोने का ग्रहण न करना।

^४ श्रोतापत्ति, सकृदागामी, अन्यागामी तथा अर्हत्।

^५ अर्थ, धर्म, निरुक्ति तथा प्रतिभान।

^६ दिव्य-चक्षु, पूर्व-जन्म-स्मृति तथा आश्रय-क्षय ज्ञान।

मुनि की नौ खरब की सभा थी। उस समय मैं जटाधारी घोर तपस्वी था। आकाश में विचरण करता था, और पाँच अभिज्ञायें मुझे प्राप्त थी। (एक एक बार) दस-बीस हज़ारों को धर्म का साक्षात्कार हुआ। एक दो (करके) धर्म साक्षात्कार करने वालों की तो गणना असंख्य है।

तब भगवान् दीपङ्कर का अत्यन्त शुद्ध धर्म (=शासन), बहुत प्रसिद्ध, विस्तार, उन्नति और वैभव को प्राप्त हुआ। चार लाख छः अभिज्ञाओं वाले बड़े बड़े योग बलों से युक्त चार लाख अनुयायी, लोक-वेत्ता दीपङ्कर को सदैव घेरे रहते थे। उस समय यदि कोई (रूप) मानुषिक भव को छोड़, अप्राप्त-मन, शैक्ष रहते मनुष्य शरीर को छोड़ता, तो वह निन्दा का भाजन होता। भगवान् दीपङ्कर का प्रवचन देव-लोक सहित इस लोक में स्थिर-चित्त, क्षीणाश्रव, स्थित-प्रज्ञ, विमल अर्हतों से सुशोभित था।

दीपङ्कर बुद्ध (की जन्म-भूमि) थी रम्मवती नाम की नगरी। पिता था सुदेव नाम का क्षत्रिय। माता का नाम सुमेधा था। दीपङ्कर बुद्ध के सुमङ्गल और तिष्य नाम के दो प्रधान शिष्य (=अग्रश्रावक) तथा सागत नाम का हजुरी (=उपस्थायक) था। उन भगवान् की नन्दा तथा सुनन्दा नाम की दो प्रधान शिष्यायें (=अग्रश्राविकाएँ) थी, और उनका बोधि-वृक्ष पीपल का वृक्ष था। महामुनि दीपङ्कर का शरीर, दीप-वृक्ष की तरह अस्ती हाथ ऊँचा था (और) प्रथित महान् शाल-वृक्ष की तरह शोभा देता था। उस महर्षि की आयु एक लाख वर्ष की (थी) उतने समय जीवित रह (=ठहर) कर उन्होंने बहुत से जनो को (संसार सागर से पार) उतारा। सद्धर्म को प्रकाशित कर, तथा जन-समूह को पार उतार वह अपने शिष्यों सहित, अग्नि-राशि की तरह प्रज्वलित हो निर्वाण को प्राप्त हुए। वह ऋद्धि, वह यश, और चरणों में वह चक्र-रत्न—वे सब अन्तर्धान हो गये। सच है सभी बनी चीजे (=संस्कार) खाली (=शून्य) हैं।

(२) कौण्डिन्य बुद्ध

भगवान् दीपङ्कर के बाद, एक असंख्य (कल्प) बीतने पर, कौण्डिन्य नामक बुद्ध (=शास्ता) उत्पन्न हुए। उनके भी तीन सम्मेलन (=सन्निपात) हुए। पहले सम्मेलन में दस खरब, दूसरे में दस अरब, तीसरे में नब्बे करोड़।

उस समय बोधिसत्त्व, विजितावी नामक चक्रवर्ती (के रूप में) पैदा हुए थे। उन्होंने बुद्ध प्रमुख दस खरब भिक्षुओं के संघ को भोजन दान (= महादान) दिया। भगवान् (शास्ता) ने 'बुद्ध होगा', प्रकाशित कर धर्मोपदेश दिया। (विजितावी राजा) बुद्ध की धर्म-कथा सुन राज्य त्याग कर साधु हो गया। उसने तीनों पिटक^१ पढ़े, आठों समापत्तियाँ तथा पाँचों अभिज्ञाएँ प्राप्त कीं; और (मरकर) बिना ध्यान नष्ट हुए ही ब्रह्म-लोक में उत्पन्न हुआ।

कौण्डिन्य बुद्ध की (जन्म-भूमि) रम्मवती नाम नगर था। सुनन्द नामक क्षत्रिय पिता, सुजाता नामक देवी माता, भद्र तथा सुभद्र दो प्रधान-शिष्य, अनुरुद्ध नामक उपस्थायक, तिष्या तथा उपतिष्या दो प्रधान शिष्याएँ शाल का मङ्गलमय बोधि (वृक्ष), अठासी हाथ ऊँचा शरीर, तथा लाख वर्ष की आयु थी।

दोपङ्कर के बाद, अनन्ततेज, अमितयश और अप्रमेय तथा अनाक्रमणीय कोण्डञ्ज नामक शास्ता हुए।

(३) मंगल बुद्ध

उसके बाद एक असंख्य (कल्प) बीत जाने पर, एक ही कल्प में चार बुद्ध उत्पन्न हुए। मङ्गल, सुमन, रेवत, सोभित। भगवान् मङ्गल के तीन शिष्य सम्मेलन (= श्रावक सन्निपात) हुए। उनमें से पहले सम्मेलन में दस खरब भिक्षु हुए, दूसरे में दस अरब, तीसरे में नब्बे करोड़। इनका आनन्द-कुमार नामक मौतेला भाई, नब्बे करोड़ की मण्डली के साथ धर्म सुनने के लिए बुद्ध (= शास्ता) के पास गया। बुद्ध ने उसको क्रमशः (धर्म) कथा कही। वह मण्डली के साथ पटिसम्भिदा-ज्ञान (सहित) अर्हत पद को प्राप्त हो गया। शास्ता उन कुल पुत्रों का पूर्व-चरित्र तथा योग-बल से मिलने वाले पात्र-चीवरों को जानते थे। उन्होंने दाहिना हाथ पसार कर, "आओ भिक्षुओं" कहा। वे सभी उसी क्षण योग-बल से प्राप्त पात्रचीवर धारण किये साठ वर्ष के वृद्ध साधुओं (= स्थविरो) की तरह के हो गये; और बुद्ध को प्रणाम कर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यह इनका तीसरा शिष्य-सम्मेलन हुआ।

जिस प्रकार दूसरे बुद्धों का शरीर-प्रकाश चारों ओर अस्सी अस्सी हाथ

^१सुत्त-पिटक, विनय-पिटक तथा अभिधम्म-पिटक।

भर का था, इस प्रकार उन (मङ्गल) का नहीं था। उन भगवान् का शरीर-प्रकाश सदैव दस हजार ब्रह्माण्ड में व्याप्त रहता था। (उनके शरीर-प्रकाश से) वृक्ष, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि ही नहीं ऊखल इत्यादि तक भी सुवर्ण-वस्त्र से आच्छादित से जान पड़ते थे। इनकी आयु नब्बे हजार वर्ष की हुई। इतने काल तक चाँद सूर्य आदि (संसार को) अपने प्रकाश से प्रकाशित न करते थे। रात दिन का भेद (—परिच्छेद) मालूम नहीं होता था। (आज कल) जैसे सूर्य प्रकाश से पूर्ण दिन में प्राणी विचरते हैं, वैसे ही (उस समय) वह सदा बुद्ध प्रकाश में विचरते थे। (उस समय) लोग सायंकाल के फूलने वाले कुसुमों तथा प्रातःकाल के बोलने वाले पक्षी आदि से दिन रात का भेद समझते थे। (सवाल होगा—) क्या दूसरे बुद्धों में ऐसा प्रताप नहीं था? नहीं था (ऐसा) नहीं; वे भी यदि चाहते तो दस हजार ब्रह्माण्ड अथवा उससे भी अधिक को, (अपने) प्रकाश से व्याप्त कर सकते। लेकिन पूर्व-प्रार्थना अनुसार, भगवान् मङ्गल की शरीर-प्रभा दूसरे (बुद्धों) की व्याप्त-प्रभा की तरह सदैव दस सहस्र लोक धातु को स्पर्श करती थी।

वह (भगवान् मङ्गल) बोधिसत्त्व (अवस्था) के समय, बेस्सन्तर^१ जैसे जन्म में उत्पन्न हो, पुत्र तथा स्त्री सहित वङ्क पर्वत जैसे पर्वत में रहते थे। तब खरदाठिक नाम का एक यक्ष, महापुरुष का दान (देने) का विचार सुन, ब्राह्मण वेष में निकट आया, और उसने महात्मा से दोनों बच्चे माँगे। महासत्त्व ने 'ब्राह्मण को दोनों बच्चे देने का संकल्प किया, और सन्तुष्ट चित्त हो जल-स्थल सहित सारी पृथ्वी को कम्पित कर दोनों बच्चे प्रदान किये। यक्ष ने टहलने की भूमि के छोर पर (लगी) बाँही के तख्ते के सहारे खड़े हो, महात्मा की आँखों ही के सामने, दोनों बच्चों को मूली के ढेर की तरह खा लिया। यक्ष के मुँह खोलने पर अग्नि-ज्वाला की तरह (उसके) मुँह से रक्तधारा निकलते देख कर भी, महापुरुष का चित्त राई भर (—केशाग्रमात्र) खिन्न नहीं हुआ। बल्कि 'मेरा दान सुदान है' सोच, उसके शरीर में महान् आनन्द पैदा हुआ।

^१ भगवान् गौतमबुद्ध का मनुष्य-लोक में सिद्धार्थ से पहले का जन्म (देखो बेस्सन्तर जातक)।

उसने 'भविष्य काल में इसके फल स्वरूप इसी प्रभाव (=नीहार) से किरणें निकलें' ऐसी कामना की। उसकी इस कामना के कारण ही बुद्ध होने पर उसके शरीर से किरणें निकल कर इतनी दूर तक पहुँचीं।

इनके और भी पूर्व चरित्र हैं। बोधिसत्त्व रहने की अवस्था में, एक बुद्ध के चैत्य को देख कर, 'इस बुद्ध के लिए मुझे जीवन दान करना चाहिए' सोचा, और मशाल (दण्डदीपक) लपेटने की तरह सारे शरीर को लिपटवाया, और लाख मूल्य की, रत्न-जड़ित सोने की थाली में घी भरवा, उसमें हजारों बत्तियाँ जलवा, उसे सिर पर ले, सारे शरीर में आग लगावा, चैत्य की प्रदक्षिणा करते सारी रात बिता दी। इस प्रकार सूर्योदय तक प्रयत्न करते हुए, उनका लोम-छिद्र मात्र भी गर्म न हो, पद्म-गर्भ में प्रविष्ट जैसा रहा। धर्म अपनी रक्षा करने वालों की रक्षा करता है। इसीसे भगवान ने कहा है—

धर्मानुकूल आचरण करने वाले की, धर्म निश्चय से रक्षा करता है। ठीक से आचरण किया हुआ धर्म मुख की ओर ले जाता है। धर्म के ठीक आचरण करने का यह फल है कि धर्मचारी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता।

इस कर्म के फलस्वरूप भी, उन भगवान् (मङ्गल) के शरीर की किरण दस हजार ब्रह्माण्डों तक पहुँचा करती थी।

उस समय हमारे बोधिसत्त्व सुराचि नामक ब्राह्मण थे। बुद्ध को निमन्त्रित करने की इच्छा से उन्होंने समीप जा, मधुर-धर्म कथा सुन, प्रार्थना की—

“भन्ते ! कल मेरी भिक्षा ग्रहण करें।”

“ब्राह्मण ! तुझे कितने भिक्षु चाहिए।”

“भन्ते ! (आपके) अनुयायी भिक्षु कितने हैं ?”

उस समय शास्ता का केवल प्रथम-सम्मेलन ही हुआ था, इस लिए “दस अरब” कहा।

“भन्ते ! सभी को साथ ले, मेरे घर पर भिक्षा ग्रहण करो।”

बुद्ध (=शास्ता) ने स्वीकार किया। दूसरे दिन के लिए निमन्त्रित कर, घर लौटते हुए ब्राह्मण सोचने लगा—“मैं इतने भिक्षुओं को खिचड़ी, भात, वस्त्र आदि तो दे सकता हूँ, लेकिन (इतनों के लिए) बैठने का स्थान कैसे होगा ?”

उसकी इस चिन्ता से, चौरासी हजार योजन की दूरी पर (स्वर्ग की) पण्डुकम्बल शिला पर बैठे देव-राज (इन्द्र) का आसन गर्म हो गया। शक्र

(देव) ने सोचा—कौन है जो मुझे इस स्थान से गिराना चाहता है ? (तब) दिव्य चक्षु से देखते हुए, महापुरुष को देखा, और 'सुरुचि-ब्राह्मण बुद्ध-सहित भिक्षु संघ को निमन्त्रित कर, (उसे) बिठाने के स्थान की फ़िक्र में है, मुझे भी वहाँ पहुँच कर पुण्य में सहभागी होना चाहिए' (सोच) बढ़ई का भेष बना, बसूली-कुल्हाड़ा हाथ में ले, महात्मा के सम्मुख प्रकट हुआ। और पूछा "कि क्या किसी को मजदूरी से काम है ?"

महापुरुष ने देख कर पूछा, "क्या काम कर सकोगे ?"

"ऐसा कोई हुनर नहीं जो मुझे मालूम न हो। घर हो, अथवा मण्डप, जो कुछ कोई बनवाना चाहे, उसके लिए मैं वही बना देना जानता हूँ।"

"तो, मेरे पास काम है।"

"आयं ! क्या काम है ?"

"मैंने कल के लिए दस अरब भिक्षुओं को निमन्त्रित किया है। उनके बैठने के लिए मण्डप बनाओगे ?"

"मैं बना दूँगा, यदि मुझे मेरी मजदूरी दे सकोगे।" "तात ! दे सकूँगा।"

"अच्छा ! तो बनाऊँगा।"

(यह कह उसने) जा कर एक स्थान को देखा। **कसिण-मण्डल**^१ की तरह समतल, बारह तेरह योजन का एक प्रदेश था। उसने 'इतने स्थान में सप्त रत्नमय मण्डप बने' ऐसा दृढ़ संकल्प कर देखा, तो उसी समय (एक) मण्डप पृथ्वी भेद कर उठ आया। उसके सोने के खम्भों पर चाँदी के, रूपे के खम्भों पर सोने के, मणिस्तम्भों पर मणिमय, सप्त-रत्न-मय स्तम्भों पर सप्त-रत्न-मय घटक थे। तब (सोचा—) मण्डप में बीच बीच में घटियों की भालर लटक जावे। उसके देखते ही देखते एक ऐसी भालर लटक गई, जिससे मन्द वायु से हिलने पर पाँचों प्रकार के बाजों (=तूरिय-नाद) का मधुर शब्द निकलता था, और दिव्य सङ्गीत बजने का सा समा होता था। सोचा—'बीच बीच में सुगन्धित माला दाम आदि लटकें।' मालाएँ लटक गईं। 'पृथ्वी भेद कर दस खरब भिक्षुओं के लिए आसन और (सामने पात्र रखने के लिए) आधार बन

^१ योगाभ्यास के लिए मिट्टी आदि का बना हुआ समतल पहिये सदृश चक्र।

जावें।' उसी समय बन गये। 'एक एक कोने में एक एक पानी की चाटी निकल आये।' पानी की चाटियाँ निकल आईं। इतना हो जाने पर ब्राह्मण के पास जा कर कहा—'आर्य! आवें, अपना मण्डप देख कर मुझे मञ्जुद्वरी दें।' महापुरुष ने जा कर मण्डप देखा। देखने के साथ ही उसका सारा शरीर पाँच प्रकार के आनन्द (=प्रीति)^१ से भर गया।

तब मण्डप को देख कर उसे यह (विचार) हुआ। 'यह मण्डप मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। मेरे विचार और मेरे गुण के कारण निस्सन्देह इन्द्र-लोक गर्म हुआ होगा। उसके बाद देव-राज शक्र ने यह मण्डप बनवाया होगा। मेरे लिए यह उचित नहीं है कि ऐसे मण्डप में, केवल एक ही दिन दान दूँ। मैं एक सप्ताह तक (दान) दूँगा।'

कितना भी बाहरी दान हो, उससे बोधिसत्त्वों का सन्तोष नहीं होता। अलङ्कृत शिर को काट कर, अञ्जित आँखों को निकाल कर, अथवा हृदय-मांस को नोच कर (=उब्वत्तेत्त्वा) देने से ही बोधिसत्त्वों को त्याग के सम्बन्ध में सन्तोष होता है। सिद्धि जातक^२ में हमारे बोधिसत्त्व को भी प्रतिदिन पाँच अम्मण^३ कार्पापण दे, नगर में चारों द्वारों के बीच में दान करते हुए, उस दान से त्याग विषयक सन्तोष नहीं हो सका। लेकिन जब देव-राज इन्द्र ने ब्राह्मण वेष धर, आ, आँखें माँगी; तब, उखाड़ कर देते हुए उन्हें प्रसन्नता हुई। (ऐसा करते हुए) चित्त में बाल की नोक के बराबर भी विकार नहीं हुआ। इस प्रकार (बाहरी) दान से बोधिसत्त्वों की तृप्ति नहीं होती।

इसलिए उस महापुरुष ने भी, 'मुझे दस खरब भिक्षुओं को सप्ताह भर (भोजन) दान देना चाहिए', सोच, उन्हें मण्डप में बिठा सप्ताह भर 'गोपान' (=गवपान) का दान दिया। बड़े बड़े कड़ाहों को दूध से भर, चूल्हे पर चढ़ा, दूध के गाढ़े हो जाने पर, उसमें थोड़े से चावल डाल कर, पकने पर, मधुर शक्कर और घी से पकाये हुए भोजन को गोपान (=गवपान) कहते हैं। अकेले

^१ क्षुद्र, क्षणिक, ऊर्ध्वगामी, तरंग-सदृश तथा प्रसरणशील। (दे० विशुद्धिमार्ग)

^२ देखो सिद्धि जातक (१५. ३)

^३ ११ द्रोण=१ अम्मण।

मनुष्य उसे नहीं परोस सकते थे। देवताओं ने भी इकट्ठे हो कर परोसा। बारह तेरह योजन का लम्बा-चौड़ा स्थान भी भिक्षुओं को (बैठ कर) खाने के लिए काफी न था, लेकिन वह अपने अपने योगबल के प्रभाव से बैठ गये। अन्तिम दिन सब भिक्षुओं के पात्र धुलवा कर, (उन्हें), घी, मक्खन, मधु, ख़ाँड (=फाणित) आदि भेषज्य से भर कर, तीन तीन चीवरों के साथ दिया। नये साधु बने भिक्षुओं को मिले चीवर के कपड़े (=शाटक) ही लाख के मूल्य के थे। बुद्ध ने (पुण्य का) अनुमोदन करते हुए 'इस पुरुष ने इस प्रकार का महादान दिया है, भविष्य में यह क्या होगा?' सोच, 'लक्षाधिक दो असंख्येय कल्पों के बीत जाने पर, यह गौतम नामक बुद्ध होगा', देख, महापुरुष को सम्बोधन कर, कहा—“तू इतना समय बीत जाने पर गौतम नामक बुद्ध होगा।” महापुरुष इस कथन (=व्याकरण) को सुन, “मैं बुद्ध होऊँगा, मुझे घर-वास से क्या मतलब? मैं साधु होता हूँ” सोच, उतनी सम्पत्ति को धूक के समान त्याग, बुद्ध (=शास्ता) के पास प्रब्रजित हो, बुद्ध-वचन सीख, अभिञ्जा तथा समापत्तियाँ प्राप्त कर, आयु के बीत जाने पर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ।

भगवान् मङ्गल के नगर का नाम उत्तर था। उनका पिता भी उत्तर नामक क्षत्रिय था। माता का नाम भी उत्तरा था। सुदेव तथा धर्मसेन दो उनके प्रधान शिष्य थे। पालित नामक परिचारक (=उपस्थायक) था। सीवली और असोका—दो प्रधान शिष्यायें थी। नाग-वृक्ष बोधि था। अठासी हाथ ऊँचा उनका शरीर था। नब्बे हजार वर्ष जीवित रह कर, जब वह निर्वाण को प्राप्त हुए तो दस हजार ब्रह्माण्डों में एक दम अन्धकार छा गया। सभी ब्रह्माण्डों में लोग रोने पीटने लगे!

'कौडिन्य (=कोण्डञ्ज) के बाद मङ्गल नामक नायक ने लोक के अन्धकार का नाश कर धर्म रूपी मशाल (=उल्का) को धारण किया।'

(४) सुमन बुद्ध

इस प्रकार दस हजार ब्रह्माण्डों को अन्धकार-मय बना जब भगवान् (मङ्गल) निर्वाण को प्राप्त हुए तो सुमन नामक बुद्ध (=शास्ता) उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य-सम्मेलन (=श्रावक-सन्निपात) हुए। प्रथम

सम्मेलन में दस खरब भिक्षु (जमा) हुए। दूसरे (सम्मेलन में) कञ्चन पर्वत पर नौ खरब, तीसरे में आठ खरब।

उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व अतुल नाम के बड़े ऋद्धि वाले महानुभाव सम्पन्न नाग-राज थे। बुद्ध की उत्पत्ति को सुन, अपने जाति-भाइयों के साथ, नाग लोक से निकल कर, दस खरब भिक्षुओं से घिरे उन भगवान् का दिव्य वाद्य (=तुरीय-नाद) से सत्कार किया, और भोजन कर प्रत्येक (भिक्षु) को दुशाले का जोड़ा दे तीनों (रत्नों) की शरण ग्रहण की। सुमन बुद्ध ने भी भविष्यद्वाणी की—‘तू भविष्य में बुद्ध होगा।’ भगवान् सुमन के नगर का नाम खेम था। सुदत्त नामक राजा उनका पिता था। सिरिमा नामक माता थी। शरण और भावितात्मा, दो प्रधान शिष्य थे। उदेन नामक परिचारक था। सोणा और उपसोणा दो प्रधान शिष्यायें थीं। नाग-वृक्ष बोधि था। नब्बे हाथ ऊँचा शरीर, और नब्बे हजार वर्ष ही आयु का प्रमाण था।

“(भगवान्) मङ्गल के बाद सब बातों (=धर्म) में अनुपम तथा सब प्राणियों में श्रेष्ठ सुमन नामक बुद्ध (=नायक) हुए।”

(५) रेवत बुद्ध

उनके बाद रेवत नामक बुद्ध (=शास्ता) उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य-सम्मेलन हुए। प्रथम सम्मेलन की तो गणना नहीं। दूसरे में दस खरब भिक्षु (जमा) हुए। तीसरे में भी उतने ही। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व अतिदेव, नामक ब्राह्मण थे। उन्होंने बुद्ध (=शास्ता) का वह धर्मोपदेश सुन, तीनों रत्नों की शरण ले सिर पर हाथ की अञ्जली जोड़ी, और चित्त-मल के नाश के बारे में उन बुद्ध की स्तुति कर, वस्त्र को एक कन्धे पर रख पूजा की। उनमें भी कहा—“तू बुद्ध होगा।”

(रेवत बुद्ध) के नगर का नाम धान्यवती (धञ्जवती) था। पिता विपुल नामक क्षत्रिय थे। माता का नाम विपुला था। वरुण और ब्रह्मदेव (दो) प्रधान शिष्य थे। सम्भव नामक परिचारक था। भद्रा और सुभद्रा प्रधान शिष्याएँ थीं। नाग-वृक्ष ही बोधि था। शरीर अस्सी हाथ ऊँचा और आयु साठ हजार वर्ष की थी।

(भगवान्) सुमन के बाद रेवत नामक बुद्ध (=नायक) हुए। (वह) अनुपम, अद्वितीय अतुल, उत्तम बुद्ध (=जिन) थे।

(६) सोभित बुद्ध

उनके बाद सोभित नामक (=शास्ता) उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में एक अरब भिक्षु थे। दूसरे में नब्बे करोड़। तीसरे में अस्सी करोड़। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व अजित नामक ब्राह्मण थे। उन्होंने बुद्ध का धर्मोपदेश सुन, (तीन रत्नों की) शरण ग्रहण की, और बुद्ध सहित भिक्षु संघ को भोजन दिया। उनसे भी कहा— “तू बुद्ध होगा।” उन भगवान् का नगर सुधम्मं नामक था। पिता सुधम्मं नामक राजा था। माता का भी नाम सुधर्मा था। असम और सुनेत्र (दो) प्रधान शिष्य थे। अनोम नामक परिचारक था। नकुला और सुजाता प्रधान शिष्यायें थी। नाग-वृक्ष (की) ही बोधि थी। अट्टावन हाथ ऊँचा शरीर और नब्बे हजार वर्ष की आयु थी।

“(भगवान्) रेवत के बाद सोभित नामक बुद्ध (=नायक) (हुए)। (वह) एकाग्र-चित्त, शान्त-चित्त, असम = अद्वितीय पुरुष थे।”

(७) अनोमदर्शी बुद्ध

उसके बाद, एक असंख्य (कल्प) बीत जाने पर एक कल्प में अनोमदर्शी, पद्म, तथा नारद, तीन बुद्ध हुए। भगवान् अनोमदर्शी के तीन शिष्य सम्मेलन हुए। पहले में आठ लाख भिक्षु, दूसरे में सात लाख, तीसरे में छः लाख (एक-त्रित हुए)। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व, बड़े ऋद्धि वाले, महाप्रतापी, अनेक लाख-करोड़ यक्षों के स्वामी, एक यक्ष-सेनापति थे। उन्होंने बुद्ध के उत्पन्न होने की बात सुन, आ कर बुद्ध सहित भिक्षु संघ को भोजन (=महादान) दिया। बुद्ध ने भी कहा—“तू भविष्य में बुद्ध होगा।” भगवान् अनोमदर्शी के नगर का नाम चन्द्रावती था। पिता यशवान् नामक राजा था। माता का नाम यशोधरा था। निसभ और अनोम दो प्रधान शिष्य थे। वरुण नामक परिचारक था। सुन्दरी तथा सुमना दो प्रधान शिष्याएँ थी। अर्जुन-वृक्ष (की) बोधि थी। अट्टावन हाथ ऊँचा शरीर और लाख वर्ष की उनकी आयु थी।

(भगवान्) सोभित के बाद नर-श्रेष्ठ, अमितयश, तेजस्वी, वुरतिक्रम अनोमदर्शी बुद्ध हुए।

(८) पद्म बुद्ध

उनके बाद पद्म नामक बुद्ध उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में दस खरब भिक्षु थे। दूसरे में तीन लाख। ग्राम से दूर जंगल में होने वाले तीसरे सम्मेलन में महावन-खण्ड-निवासी दो लाख भिक्षु थे। तब तथागत के उस बन-खण्ड में रहते समय (हमारे) बोधिसत्व सिंह के रूप में जन्मे थे। सिंह ने बुद्ध को निरोध समाधि लगाए देख, प्रसन्न चित्त हो बन्दना तथा प्रदक्षिणा की, और (अन्यत्र) प्रीति तथा हर्ष से युक्त हो, तीन बार सिंह-नाद किया। सप्ताह भर तक उन्होंने बुद्ध की और ध्यान करने से उत्पन्न उस प्रीति को न छोड़ा, और उस प्रीति-सुख में निमग्न हो, शिकार के लिए न जा अपना जीवन-मोहत्याग उपासना की। बुद्ध (शास्ता) ने सप्ताह के बीतने पर निरोध समाधि से उठ, सिंह को देख, सोचा—“यह सिंह भिक्षु-संघ के प्रति चित्त में भक्ति कर, संघ को भी प्रणाम करेगा, और संकल्प किया कि भिक्षु-संघ आवे।” उस समय भिक्षु आ गये। सिंह के चित्त में संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। बुद्ध ने उसका मन देख कर कहा—“तू भविष्य में बुद्ध होगा।” भगवान् पद्म का चम्पक नामक नगर था। असम नामक राजा पिता था। माता भी असमा नामक थी। साल और उपसाल (दो) प्रधान शिष्य थे। वरुण नामक परिचारक था। रामा तथा सुरामा प्रधान शिष्याएँ थी। सोण-वृक्ष की बोधि थी। अट्टावन हाथ ऊँचा शरीर और लाख वर्ष की आयु थी।

अनोमदशी के बाद नर-श्लेष्ठ, असम—अद्वितीय-पुरुष पद्म नामक बुद्ध हुए।

(९) नारद बुद्ध

उनके बाद नारद नामक बुद्ध उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। पहले में दस खरब। दूसरे में नौ खरब। तीसरे में आठ खरब भिक्षु (जमा) हुए। उस समय बोधिसत्व ने ऋषियों के नियमानुसार साधु बन पाँच अभिञ्जायें (=दिव्य-शक्तियाँ) और आठ समापत्तियाँ प्राप्त कर, बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को भोजन दान दे, चन्दन से पूजा की। उन्होंने भी कहा—“तू भविष्य में बुद्ध होगा।” उन भगवान् का धान्यवती नामक नगर था।

सुदेव नामक क्षत्रिय पिता था। अनोमा नामक माता थी। भद्रशाल तथा जितमित्र (दो) प्रधान शिष्य थे। वशिष्ठ नामक परिचारक (=उपस्थायक) था। उत्तरा तथा फाल्गुणी, (दो) प्रधान शिष्याएँ थीं। महासोण-वृक्ष (की) बोधि थी। अट्टासी हाथ ऊँचा शरीर; और नब्बे हजार वर्ष की आयु थी।

(भगवान्) पद्म के बाद नर-श्रेष्ठ, असम=अद्वितीय नारद नामक बुद्ध हुए।

(१०) पद्मोत्तर बुद्ध

नारद बुद्ध के बाद, एक लाख कल्प बीत जाने पर, एक कल्प में एक पद्मोत्तर नामक बुद्ध ही उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। प्रथम सम्मेलन मे दस खरब भिक्षु (जमा) हुए। वैभार पर्वत^१ के दूसरे सम्मेलनमें नौ खरब। तीसरे मे आठ खरब। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व जटिञ्ज नामक महानागरिक (=महाराष्ट्रीय) थे। उन्होंने बुद्ध सहित भिक्षु संघ को तीनों भिक्षु-वस्त्र (=चीवर) दान दिये। उन बुद्ध ने भी कहा—“तू भविष्य में बुद्ध होगा।” भगवान् पद्मोत्तर के समय (दूसरे) पन्थाई (=तीर्थिक) नहीं थे। सब देवता और मनुष्य उन (बुद्ध) की शरण गये। उनका (जन्म) हंसवती नाम के नगर (में हुआ)। आनन्द नाम का क्षत्रिय पिता था। सुजाता नामक देवी माता थी। देवल तथा सुजात दो प्रधान शिष्य थे। सुमन नामक परिचारक था। अमिता तथा असमा दो प्रधान शिष्याएँ थीं। शाल-वृक्ष की बोधि थी। शरीर अट्टासी हाथ ऊँचा था, और शरीर की प्रभा चारों ओर बारह योजन तक फैलती थी। (उनकी) आयु लाख वर्ष (की) थी।

(भगवान्) नारद के बाद नर-श्रेष्ठ, सागर की तरह से निश्चल पद्मोत्तर नामक जिन बुद्ध हुए।

● (११) सुमेध बुद्ध

उसके बाद तीस लाख कल्प बीत जाने पर, एक कल्प में सुमेध और

^१ वैभार-गिरि (राजगृह में, जिसके पास काल-शिला है)।

सुजात दो बुद्ध पैदा हुए। सुमेघ के भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। सुदर्शन नगर में प्रथम सम्मेलन में एक अरब अर्हत् जमा थे। दूसरे में नब्बे करोड़, तीसरे में अस्सी करोड़। (उस समय) बोधिसत्त्व उत्तर नामक ब्राह्मणयुवक (माणवक) थे। (उन्होंने) पृथ्वी में गाड़ कर रखे हुए अस्सी करोड़ घन को त्याग, बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को महादान दे, धर्म को सुन, तीनों (रत्नों) की शरण ग्रहण की, और (घर से) निकल कर साधु हो गये। उन (बुद्ध) ने भी कहा—“तू भविष्य में बुद्ध होगा।”

भगवान् सुमेघ का सुदर्शन नाम का नगर था। सुदत्त नाम का राजा पिता था। माता भी सुदत्ता नाम की थी। सरण और सर्वकाम दो प्रधान शिष्य थे। सागर नामक परिचारक था। रामा और सुरामा दो प्रधान शिष्यायें थी। महा-कदम्ब-वृक्ष (की) बोधि थी। अट्टासी हाथ ऊँचा शरीर था। नब्बे हजार वर्ष की आयु थी।

(भगवान्) पद्मोत्तर के बाद सुमेघ नामक नायक हुए। वह दुराक्रमणीय उग्रतेज, लोक-श्रेष्ठ मुनि थे।

(१२) सुजात बुद्ध

उनके बाद सुजात नामक बुद्ध (—शास्ता) उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में साठ हजार भिक्षु थे। दूसरे में पचास हजार। तीसरे में चालीस हजार। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व चक्रवर्ती राजा थे। वे ‘बुद्ध उत्पन्न होने की बात’ सुन, पास जा, धर्म सुन, बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को सप्त रत्नों के साथ चारों महाद्वीपों का राज्य दान दे, बुद्ध के पास साधु हुए। सभी देश-वासी (उस समय) देश की उपज ले, विहार (—आराम) के काम को पूरा करते हुए, बुद्ध सहित संघ को महादान देते थे। उनमें भी उसे ‘बुद्ध’ (होगा) कहा। उन भगवान् का नगर सुमङ्गल था। उम्गत नाम राजा पिता था। प्रभावती नाम की माता थी। सुदर्शन और वेच (दो) प्रधान शिष्य थे। नारद नामक परिचारक (—उपस्थापक) था। नागा और नागसन्माला (दो) प्रधान शिष्यायें थी। महावेणु (की) बोधि थी। कम छिद्र घनी शाखा वाले (बोधि) की ऊपर वाली शाखाएँ मोर-पुच्छ-समूह की तरह चमकती थीं। उन भगवान् का शरीर पचास हाथ ऊँचा था। आयु नब्बे हजार वर्ष की (हुई)।

“वहाँ उस मण्ड-कल्प में, सिंह की सी ठोड़ी (=हनु)वाले, वृषभ-स्कन्ध अग्रमेय, दुराक्रमणीय सुजात नामक बुद्ध (=नायक) हुए।”

(१३) प्रियदर्शी बुद्ध

उसके बाद अठारह सौ कल्प बीत जाने पर, एक ही कल्प में प्रिय-दर्शी, अर्थ-दर्शी, धर्म-दर्शी—तीन बुद्ध उत्पन्न हुए। प्रिय-दर्शी के भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए थे। पहले सम्मेलन में दस खरब भिक्षु, दूसरे में नौ खरब, तीसरे में आठ खरब थे। उस समय बोधिसत्त्व काश्यप नामक ब्राह्मण (के कुल में पैदा हुए) थे। उन्होंने जवानी में तीनों वेदों में पारङ्गत हो, बुद्ध के उपदेश को सुन दस खरब धन के व्यय से विहार (=सधाराम) बनवा कर, (त्रि-) शरण तथा (च-) शील को ग्रहण किया। तब बुद्ध ने कहा—“अठारह सौ कल्पों के बीत जाने पर तू बुद्ध होगा।”

उन भगवान् का अनौम नाम का नगर था। सुदिन नामक राजा पिता था। चन्दा नामक माता थी। पालित तथा सर्वदर्शी (दो) प्रधान शिष्य थे। सोभित नामक उपस्थायक था। सुजाता तथा धम्मदिन्ना (दो) प्रधान शिष्याये थी। पियंगु (वृक्ष) की बोधि थी। अस्सी हाथ ऊँचा शरीर और नव्वे हजार वर्ष की आयु थी।

“(भगवान्) सुजात के बाद, दुराक्रमणीय, असदृश, महा-यशस्वी, स्वयम्भू (नायक) लोक-नायक हुए।”

(१४) अर्थ-दर्शी बुद्ध

उनके बाद अर्थ-दर्शी नामक बुद्ध उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य-सम्मेलन हुए। पहले में अट्ठानवे लाख भिक्षु (एकत्रित) हुए। दूसरे में अट्ठासी लाख, (और) तीसरे में भी उतने ही। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व सुसीम नामक महा ऋद्धिवान् तापस के रूप में पैदा हुए थे; उन्होंने देव-लोक से मन्दार पुष्प का छत्र ला बुद्ध की पूजा की। उन्होंने भी कहा—“तू बुद्ध होगा।”

उन भगवान् का सोभित नाम का नगर था। सागर नामक राजा पिता था। सुदर्शना नाम की माता थी। शान्त तथा उपशान्त (दो) प्रधान शिष्य थे। अभय नामक परिचारक (=उपस्थायक) था। धम्मा और सुधम्मा प्रधान शिष्यायें थी। चम्पक-वृक्ष (की) बोधि थी। उनका शरीर अस्सी हाथ

ऊँचा था । शरीर की प्रमा सदैव, चारों ओर एक योजन तक फैली रहती थी । उनकी आयु लाख वर्ष की (हुई) ।

“वहीं उस मण्ड-कल्प में नर-श्रेष्ठ (=नरऋषभ) अर्थदर्शी ने महान् अन्धकार को नाश कर उत्तम बुद्ध-पद को प्राप्त किया ।”

(१५) धर्मदर्शी बुद्ध

उनके बाद धर्मदर्शी नामक बुद्ध उत्पन्न हुए । उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए । पहले सम्मेलन में एक अरब भिक्षु थे । दूसरे में सत्तर करोड़, तीसरे में अस्सी करोड़ । उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व देवराज शक्र के रूप में पैदा हुए थे । उन्होंने दिव्य गन्ध-पुष्प तथा दिव्य-वाद्य से (बुद्ध की) पूजा की । बुद्ध ने भी कहा—“(तू बुद्ध होगा) ।”

उन भगवान् का सरण नाम का नगर था । सरण नाम का राजा पिता था । सुनन्दा नाम की माता थी । पद्म तथा फुस्तदेव (दो) प्रधान शिष्य थे । सुनेत्र नामक परिचारक (=उपस्थायक) था । क्षेमा तथा सर्वनामा दो प्रधान शिष्याएँ थीं । रक्त-कुरबक (नामक) वृक्ष की बोधि थी । यह (वृक्ष) बिम्बि-जाल भी कहा जाता है । अस्सी हाथ ऊँचा (उसका) शरीर था और आयु भी लाख वर्ष की ।

उसी मण्ड-कल्प में महा यशस्वी धम्मदर्शी (बुद्ध) उस अन्धकार का नाश कर देवताओं सहित (सारे) लोक में प्रकाशित हुए ।

(१६) सिद्धार्थ बुद्ध

इस कल्प से चौरानवे कल्प पहले एक कल्प में सिद्धार्थ नाम के एक ही बुद्ध उत्पन्न हुए । उनके भी तीन शिष्य-सम्मेलन (हुए) थे । पहले सम्मेलन में दस खरब, दूसरे में नौ खरब, तीसरे में आठ खरब भिक्षु थे । वह (हमारे) बोधिसत्त्व उन्न-तेजा, सिद्धि (=अभिञ्जा)-प्राप्त, मङ्गल नामक तापस के रूप में पैदा हुए थे । उन्होंने महा जम्बु (=जामुन) वृक्ष के फल को ला कर तथागत को प्रदान किया । बुद्ध (=शास्ता) ने उस फल को सेवन कर बोधि-सत्त्व से कहा—“चौरानवे कल्प बीत जाने पर तू बुद्ध होगा ।”

उन भगवान् (सिद्धार्थ) के नगर का नाम बेभार था । जयसेन नामक राजा पिता था । सुफस्ता नाम की माता थी । सन्बहुल तथा सुमित्र दो प्रधान

शिष्य थे। रेवत नामक उपस्थायक था। सीवली और सुरामा प्रधान शिष्याएँ थी। कर्णिकार-वृक्ष (की) बोधि थी। साठ हाथ ऊँचा (उनका) शरीर था और आयु लाख वर्ष की।

(भगवान्) धर्म-दर्शी के बाद सिद्धार्थ नामक नायक का, सारे अन्धकार को नाश कर, सूर्य की भाँति उदय हुआ।

(१७) तिष्य बुद्ध

इस कल्प से ब्यानवे कल्प पहले एक कल्प में तिस्स तथा फुस्स—दो बुद्ध उत्पन्न हुए। भगवान् तिष्य के तीन शिष्य-सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में एक अरब, दूसरे में नब्बे करोड़, तीसरे में अस्सी करोड़ भिक्षु थे। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व महाऐश्वर्य-शाली, महायशस्वी मुजात क्षत्रिय के रूप में पैदा हुए थे। उन्होंने ऋषियों के नियम के अनुसार प्रव्रज्या ग्रहण की, और ऋद्धि को प्राप्त हो, बुद्ध के उत्पन्न होने की बात सुन, दिव्य मन्दार-पदुम तथा पारिजात पुष्प ले, चारों प्रकार की परिषद् के बीच चलते हुए तथागत की पूजा की, (और) आकाश में फूलों का चँदवा लगवा दिया। उन शास्ता ने भी कहा—“ब्यानवे कल्प बीत जाने पर तू बुद्ध होगा।

उन भगवान् का क्षेम नामक नगर था। जन-सन्ध नामक क्षत्रिय पिता था। पद्मा (=पदुमा) नामक माता थी। ब्रह्मादेव और उदय दो प्रधान शिष्य थे। सम्भव नाम का परिचारक (=उपस्थायक) था। फुस्सा तथा सुदत्ता दो प्रधान शिष्याएँ थी। असन-वृक्ष (की) बोधि थी। साठ हाथ ऊँचा उनका शरीर था। लाख वर्ष की आयु थी।

(भगवान्) सिद्धार्थ के बाद, अनुपम, अद्वितीय, अनन्त शीलों से युक्त तथा अनन्त यशों के भागी तिष्य (नामक) लोक के श्रेष्ठ नायक (=बुद्ध) हुए।

● (१८) पुष्य बुद्ध

उनके बाद फुस्स नामक बुद्ध (=शास्ता) उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य-सम्मेलन हुए। प्रथम सम्मेलन में साठ लाख भिक्षु (जमा) हुए। दूसरे में पचास (लाख), तीसरे में बत्तीस (लाख)। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व विजिताबी नामक क्षत्रिय थे। वह (अपने) महान् राज्य को छोड़,

बुद्ध (—शास्ता) के पास संन्यासी हो, तीनों पिटक पढ़, जन-समूह को धर्म-उपदेश करते तथा सदाचार (—शील-पारमिता) को पूरा करते थे। (फुस्स) बुद्ध ने भी उसके बारे में वैसी ही भविष्यद्वाणी की। उन भगवान् का काशी नामक नगर था। जयसेन नामक राजा पिता था। सिरिमा नामक माता थी। सुरक्खित और धम्मसेन (दो) प्रधान शिष्य थे। सभिय नामक उपस्थायक था। चाला और उपचाला (दो) प्रधान शिष्याएँ थी। आँवले के वृक्ष (की) बोधि थी। अट्टावन हाथ ऊँचा शरीर था, और नव्वे हजार वर्ष की आयु थी।

“उस मण्ड-कल्प में अनुत्तर—अनुपम—असदृश, लोक में सर्वश्रेष्ठ फुस्स नामक बुद्ध हुए।”

(१९) विपश्यी बुद्ध

इस कल्प से इकानवे कल्प पहले भगवान् विपस्सी उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य-सम्मेलन थे। पहले सम्मेलन में अड़सठ लाख, दूसरे में एक लाख, तीसरे में अस्सी हजार। उस समय बोधिसत्त्व बड़े ऋद्धिमान्, महाप्रतापी, अतुल नामक नाग-राजा थे। (अतुल ने) सप्त रत्न जड़ित, सोने का सिंहासन भगवान् (विपश्यी) को प्रदान किया। उन (भगवान्) ने भी भविष्यद्वाणी की—“अब से इकानवे कल्प बीत जाने पर तू बुद्ध होगा।”

उन (भगवान्) का बन्धुमती नाम का नगर था। बन्धुमान् नाम का राजा पिता था। बन्धुमती नाम की माता थी। खण्ड और तिष्य प्रधान शिष्य थे। अशोक नामक परिचारक था। चन्द्रा और चन्द्रमित्रा प्रधान शिष्याएँ थीं। पाटलि-वृक्ष (की) बोधि थी। शरीर अस्सी हाथ ऊँचा था और शरीर की प्रभा सदैव सात योजन तक फैली रहती थी। उनकी आयु अस्सी हजार वर्ष की थी।

“(भगवान्) फुस्स के बाद विपस्सी नामक नर-श्रेष्ठ, द्रष्टा, बुद्ध लोक में उत्पन्न हुए।”

(२०) सिखी बुद्ध

इस कल्प से इकत्तीस कल्प पहले सिखी (शिखी) और वेस्सभू (विश्वभू) दो बुद्ध उत्पन्न हुए। सिखी के भी तीन शिष्य-सम्मेलन हुए।

पहले सम्मेलन में एक लाख भिक्षु थे। दूसरे में अस्सी हजार, तीसरे में सत्तर (हजार)। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व अरिन्दम नामक राजा थे। उन्होंने बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को चीवर और भोजन (महादान) दे, सप्त रत्नों से सजा गज-रत्न दे, फिर (गज-रत्न के बदले में), उसके समान मूल्य की विहित (=कल्पिय) वस्तुएँ दी। उनमें भी कहा—‘अब से इकत्तीस कल्प बीत जाने पर, तू बुद्ध होगा।’

उन भगवान् का अरुणवती नाम का नगर था। अरुण नाम का क्षत्रिय पिता था। प्रभावती नाम की माता थी। अभिभू और सम्भव प्रधान शिष्य थे। क्षेमङ्कर नामक परिचारक था। मखिला और पद्मना प्रधान शिष्याएँ थी। पुण्डरीक वृक्ष (की) बोधि थी। सैतीस हाथ ऊँचा शरीर था और शरीर की प्रभा तीन योजन तक फैली होती थी। सैतीस हजार वर्ष की उनकी आयु थी। (भगवान्) विपस्सी के बाद, अनुत्तरीय, अद्वितीय, नर-श्रेष्ठ तिखि नामक जिन बुद्ध हुए।

(२१) विश्वभू बुद्ध

उनके बाद बेस्सभू नामक शास्ता उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य-सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में अस्सी लाख भिक्षु थे, दूसरे में सत्तर (-लाख) तीसरे में साठ लाख। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व मुदर्शन नामक राजा थे। वे बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को चीवर और भोजन दे, उनके पास प्रव्रजित हुए। वह सद् (आचार) तथा (सद्) गुणों से युक्त थे। बुद्ध रत्न में उनकी अपार श्रद्धा थी। उन भगवान् ने भी कहा—“अब से इकत्तीस कल्प बीत जाने पर तू बुद्ध होगा।”

उन भगवान् का अनुपम नाम का नगर था। सुप्पतीत (सुप्रतीत) नाम का राजा पिता था। यशोवती नामक माता थी। सोण और उत्तर प्रधान शिष्य थे। उपशान्त नामक परिचारक था। दामा और सुमाला प्रधान शिष्याएँ थी। शाल-वृक्ष (की) बोधि थी। साठ हाथ ऊँचा शरीर था। साठ हजार वर्ष की उनकी आयु थी।

१ ऐसी चीजें, जिनका ग्रहण, भिक्षु के लिए अनुचित न हो।

उसी मण्ड-कल्प में अतुलनीय, अद्वितीय, बेस्सभू नाम के बुद्ध लोकमें उत्पन्न हुए ।

(२२) ककुसन्ध बुद्ध

उसके बाद इस कल्प में ककुसन्ध, कोणागमन, काश्यप और हमारे भगवान्—यह चार बुद्ध उत्पन्न हुए । भगवान् ककुसन्ध का एक ही सम्मेलन हुआ । उसमें चालीस हजार भिक्षु एकत्र हुए । उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व खेम नामक राजा थे । उन्होंने बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को पात्र-चीवरों सहित भोजन तथा अंजन आदि दवाइयाँ प्रदान कीं और बुद्ध का धर्मोपदेश सुन प्रव्रज्या ग्रहण की । उनसे भी कहा—“तू बुद्ध होगा ।”

भगवान् ककुसन्ध का खेम नाम का नगर था । अग्निदत्त नामक ब्राह्मण पिता था । विशाखा नामक ब्राह्मणी माता थी । विधुर तथा सञ्जीव प्रधान शिष्य थे । बुद्धिज नामक परिचारक था । सामा तथा चम्पका प्रधान शिष्याएँ थी । महान् शरीर-वृक्ष (की) बोधि थी । चवालीस हाथ ऊँचा शरीर था । आयु उनकी चालीस हजार वर्ष की थी ।

भगवान् (बेस्सभू) के बाद नर-श्रेष्ठ, अप्रमेय, दुराक्रमणीय ककुसन्ध नाम के बुद्ध हुए ।

(२३) कोणागमन बुद्ध

उनके बाद कोणागमन बुद्ध उत्पन्न हुए । उनका भी एक ही शिष्य-सम्मेलन हुआ । उसमें तीस हजार भिक्षु (एकत्र) हुए । उस समय हमारे बोधिसत्त्व पर्वत नामक राजा थे । उन्होंने अमात्यों के साथ, बुद्ध के पास जा, धर्मोपदेश सुना, और बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को निमन्त्रित कर, प्रतूर्ण, चीनवस्त्र, रेशम (कोसेय्य), कम्बल, दुकूल और स्वर्ण-वस्त्र के साथ भोजन प्रदान कर शास्ता के पास प्रव्रज्या ग्रहण की । उनसे भी कहा—“तू बुद्ध होगा ।”

उन भगवान् का सोभवती नाम का नगर था । यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण पिता था । उत्तरा नामक ब्राह्मणी माता थी । भीयस और उत्तर (दो) प्रधान शिष्य थे । स्वस्तिज नाम का परिचारक था । सुमुद्रा और उत्तरा प्रधान शिष्याएँ थीं । उदुम्बर (गूलर) वृक्ष (की) बोधि थी । तीस हाथ ऊँचा शरीर था । तीस सहस्र वर्ष की उनकी आयु थी ।

“(भगवान्) ककुत्सन्ध के बाद नर-श्रेष्ठ, नर-युद्धव, लोक-ज्येष्ठ, कोणागमन नामक जिन सम्बुद्ध हुए।”

(२४) काश्यप बुद्ध

उनके बाद लोक में काश्यप नाम के बुद्ध शास्ता उत्पन्न हुए। उनका भी एक ही शिष्य-सम्मेलन हुआ। उसमें बीस हजार भिक्षु (एकत्र) हुए। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व तीनों वेदों में पारगत ज्योति-पाल नामक ब्राह्मण-युवक थे। भूमि-आकाश (सर्वत्र) प्रसिद्ध, घटिकार नाम का कुम्हार उनका मित्र था। वह अपने (मित्र) के साथ शास्ता के पास गये और उपदेश सुन, भिक्षु बन गये। प्रयत्नशील बन तीनों पिटकों^१ को सीखा और अपने शारीरिक कर्तव्यों^२ की पूर्ति से बुद्ध धर्म के लिए भूषण बने। काश्यप बुद्ध ने भी कहा— “तू बुद्ध होगा।”

उन भगवान् का जन्म-नगर बनारस (=वाराणसी) था। ब्रह्मवत्त नामक ब्राह्मण पिता था। धनवती नामक ब्राह्मणी माता थी। तिस्स और भारद्वाज—दो प्रधान शिष्य थे। सर्व-मित्र नाम का परिचारक था। अनुला तथा उरुवैला प्रधान शिष्याएँ थीं। न्यग्रोध-वृक्ष (की) बोधि थी। बीस हाथ ऊँचा शरीर था। बीस हजार वर्ष की उनकी आयु थी।

“(भगवान्) कोणागमन के बाद नर-श्रेष्ठ, धर्म-राज, प्रभङ्कर काश्यप नामक जिन बुद्ध हुए।”

जिस कल्प में दीपङ्कर बुद्ध उत्पन्न हुए, उस कल्प में अन्य भी तीन बुद्ध हुए। लेकिन उनके पास (हमारे) बोधिसत्त्व के बुद्ध होने की भविष्यद्वाणी (=व्याकरण) नहीं हुई, इस लिए वे (तीन बुद्ध) यहाँ नहीं दिखाये गये। लेकिन अर्थ-कथा^३ में उस कल्प से आरम्भ करके सभी बुद्धों को दिखाने (=वर्णित करने) के लिए यह कहा गया है :—

‘त ण्ह ङ्क र, मे ध ङ्क र, फिर श र ण ङ्क र, दी प ङ्क र बुद्ध, नर-श्रेष्ठ

^१ सूत्र-पिटक, विनय-पिटक तथा अभिधर्म-पिटक।

^२ बिहार में भ्नाडू देना आदि।

^३ बुद्धवंश की अट्ठकथा।

कोण्डञ्ज, मङ्गल, सुमन, रेवत, सोभित मुनि, अनोमवर्षी, पदुम, नारद, पदुमुत्तर, सुमेध, सुजात, महायशस्वी प्रियदर्शी, अर्थवर्षी, धर्मवर्षी, सिद्धार्थ लोकनायक, तिस्स, फुस्स बुद्ध, विपस्सी, सिखि, वेस्सभू, ककुत्स्थ, कोणागमन, नायक काश्यप—यह सब बीतराग, संयमी, बुद्ध महाअन्धकार को नाश करते हुए, सौररश्मियों की तरह उत्पन्न हुए, और अग्नि-भुंज की तरह जल कर, शिष्यों-सहित निर्वाण को प्राप्त हुए।'

धर्मों का आचरण

इस प्रकार हमारे बोधिसत्त्व, दीपङ्कर आदि चौबीस बुद्धों के पास से अधिकार प्राप्त करते हुए, लक्षाधिक चार असंख्येय-कल्पों (तक) आये। इस (भद्र कल्प-युग में) भगवान् काश्यप-बुद्ध के बाद इन सम्यक् सम्बुद्ध के अतिरिक्त दूसरे कोई बुद्ध नहीं (हुए)। इस प्रकार दीपङ्कर आदि चौबीस बुद्धों ने जिनके लिए भविष्यद्वाणी की, उन बोधिसत्त्व के बारे में (कहा है) :—

“मनुष्यत्व जाति, (पुरुष-)लिङ्ग, (उत्तम-)हेतु (=भाग्य), बुद्ध से भेंट, प्रव्रज्या, गुणों की प्राप्ति, अधिकार, सविच्छा; इन आठ बातों से युक्त होने पर, संकल्प (=अभिनीहार) पूरा होता है।”

इन आठ बातों पर भली भाँति विचार कर, (हमारे बोधिसत्त्व ने दीपकर (बुद्ध) के चरणों में अभिनीहार किया—“हन्त ! मैं जहाँ तहाँ से बुद्धत्व प्राप्ति के सहायक गुणों की खोज करूँगा।” फिर उत्साह पूर्वक खोजते हुए पहले पहल दान-पारमिता को देखा। (इस प्रकार) दान-पारमिता आदि बुद्ध बनाने वाली बातों की ओर ख्याल गया। उन (बुद्ध-कारक) बातों को पूरा करते हुए, वह वेस्सन्तर के जन्म तक आये। ऐसे (साधनों में लग्न हो) चले आते (बोधिसत्त्व की) तथा दूसरे बोधिसत्त्वों की सुफलता को (इस प्रकार) वर्णित किया गया है—

“इस प्रकार जो सर्वाङ्ग-पूर्ण पुरुष है, जिसका बुद्ध होना निश्चित है, वह एक अरब कल्प तक के लम्बे काल में आवागमन करते हुए भी, अवीचि, 1

1 आठ महान् नरकों में से, सबसे नीचे का नरक।

तथा लोकां न्त रों^१ में उत्पन्न नहीं होते, और न ही वह निज्जाम तृष्ण^२ क्षुधापिपासा, कालकञ्जक^३ जैसी योनियों में जाते हैं। दुर्गति^४ में जाने पर भी वह छोटे छोटे जीव के रूप में पैदा नहीं होते। मनुष्य-योनि में पैदा होने पर, वह जन्मान्ध पैदा नहीं होते। वह बहरे नहीं होते, और न ही गूंगे होते हैं। वह स्त्री-योनि में नहीं जाते, न ही दोनों लिङ्गों वाले तथा नपुंसक (होते हैं)। ऐसे पुरुष, जिनका बुद्ध होना निश्चित है, वह (उक्त योनियों की ओर) नहीं लौटते। वह सर्वत्र शुद्ध और आनन्दयं^५ कर्मों से मुक्त होते हैं। वह कर्म क्रियादर्शी^६ पुरुष भूठी धारणा नहीं ग्रहण करते। यदि वह स्वर्ग में पैदा होते हैं भी, तो असंज्ञी^७ (योनि) में उत्पन्न नहीं होते। शुद्धावास-लोक में (उनके लिए उत्पन्न होने का) कारण नहीं होता। नैष्कर्म्य के भुके हुए, भवाभाव वियुक्त सत्पुरुष सब पारमिताओं को पूरा करते, लोकोपकार के लिए विचरण करते हैं।

१०. जातकों में पारमिताओं का अभ्यास

(१) दान पारमिता

इन महात्म्यों को प्राप्त करते हुए ही (बोधिसत्त्व अन्तिम जन्म तक)

^१ तीन चक्रवाल के बीच के अत्यन्त शीत-नरक।

^२ प्रेत की योनि।

^३ असुर-योनि।

^४ तिरश्चीन-योनि।

^५ मातृ-हत्या, पितृ-हत्या, अर्हंत की हत्या, बुद्ध के शरीर में जलम करके उनका रक्त बहाना, संघ-भेद (—संघ में नाइतफाकी पैदा करना)। यह पाँच अनन्तर-कर्म हैं। इन कर्मों का फल तुरन्त और अवश्य भोगना पड़ता है।

^६ कर्म और उनका फल मानने वाले।

^७ रूप-लोक की योनियों में से एक।

^८ अनागामी-फल प्राप्त (व्यक्ति) फिर इस लोक में उत्पन्न नहीं होते। वे शुद्धावास-लोक में उत्पन्न हो, वहीं आवागमन से मुक्त हो जाते हैं।

पहुँचे। उन्होंने पारमिताओं को पूर्ण करते हुए, अकीर्ति ब्राह्मण, सङ्ख ब्राह्मण धनञ्जय राजा, महासुदर्शन, महागोविन्द, निमि महाराज, चन्द्रकुमार, विसृष्ट श्रेष्ठी, सिवि राजा तथा वेस्सन्तर के जन्मों में, दान-पारमिता पूरा करने में पराकाष्ठा कर दी। लेकिन शश-पण्डित जातक में तो निश्चयरूप से (समझो) —

याचक को देख कर, मैंने अपने शरीर तक को दे दिया। दान देने में मेरे समान (कोई) नहीं; यह मेरी दान-पारमिता है।

इस प्रकार शरीर प्रदान करते हुए उनकी दान-पारमिता परमार्थ-पारमिता हुई।

(२) शील-पारमिता

इसी प्रकार शीलव नाग-राज, चम्पेय्य नाग-राज, भूरिदत्त नाग-राज, छद्दत्त नाग-राज, जय-द्विश राजा के पुत्र अलीन शत्रु कुमार के जन्मों में शील-पारमिता की पूर्ति की चरम-सीमा नहीं, लेकिन शङ्खपाल के जन्म में तो निश्चयरूप से (सोचा) —

शूल से छेड़ने और शक्ति (-आयुध) से प्रहार करने पर भी सपेरा के प्रति मुझे क्रोध नहीं होता। यह मेरी शील-पारमिता है।

इस प्रकार आत्म-त्याग करते हुए (उन) की शील-पारमिता परमार्थ-पारमिता हुई।

(३) नैष्कर्म्य पारमिता

उसी प्रकार सीमनस्य कुमार, हस्तिपाल कुमार तथा अयोधर पण्डित के जन्मों में महान् राज्य को छोड़ नैष्कर्म्य पारमिता की पूर्ति की सीमा नहीं। चूल-सुतसोम जातक में तो निश्चयरूप से —

मैंने अपने हाथ के महान् राज्य को धूक की तरह त्याग दिया। और उसको छोड़ते हुए, आसक्ति (का अनुभव) नहीं हुआ। यह मेरी नैष्कर्म्य पारमिता है।

इस प्रकार निर्लिप्त हो राज्य छोड़ कर कामना रहित होने से (उन) की नैष्कर्म्य पारमिता परमार्थ-पारमिता हुई।

(४) प्रज्ञा पारमिता

इसी प्रकार विधुर पण्डित, महागोविन्द पण्डित, कुदाल पण्डित, अरक पण्डित, बोधि परिव्राजक, महौषध पण्डित के जन्मों में, प्रज्ञा पारमिता की पूर्ति की सीमा नहीं। लेकिन सेनक पण्डित के समय सत्तुभस्त जातक में तो निश्चय रूप से—

प्रज्ञा की खोज में, मैंने ब्राह्मण को दुख से मुक्त किया। प्रज्ञा में (कोई) मेरे समान नहीं है। यह मेरी प्रज्ञा पारमिता है।

थैली के भीतर वाले साँप को दिखाने में (उन) की प्रज्ञा पारमिता परमार्थ पारमिता हुई।

(५) वीर्य पारमिता

इसी प्रकार वीर्य पारमिता आदि (दूसरी) पारमिताओं की पूर्ति की भी (दूसरे जन्मों में चरम) सीमा नहीं।

हाँ, महाजनक जातक में तो निश्चय रूप से—

जल में किनारा न देख सकने वाले सभी मनुष्य मर गए, (किन्तु मेरे) चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। यह मेरी वीर्य पारमिता है।

इस प्रकार महा समुद्र को पार करते हुए (उन) की वीर्य पारमिता परमार्थ पारमिता हुई।

(६) क्षान्ति पारमिता

क्षान्तिवाद जातक में—

“तेज फरसे से जड़ वस्तु की तरह मुझे काट रहे थे, इसपर भी, काशीराज के प्रति मुझे क्रोध नहीं आया। यह मेरी क्षान्ति (क्षमा) पारमिता है।”

इस प्रकार जड़ वस्तु की भाँति भयकर पीड़ा को सहते हुए वह क्षान्ति पारमिता परमार्थ पारमिता हुई।

(७) सत्य पारमिता

महासुतसोम जातक में—

“सत्यवादिता की रक्षा करते हुए, अपने जीवन का परित्याग कर, मैंने एक सौ क्षत्रियों को मुक्त किया। (यह मेरी) परमार्थ सत्य-पारमिता है।”

इस प्रकार जीवन परित्याग कर सत्य की रक्षा कर वह सत्य-पारमिता परमार्थ पारमिता हुई ।

(८) अधिष्ठान पारमिता

मूग पक्ष (= मूक पक्ष) जातक में—

न तो मेरा माता-पिता से द्वेष है, न महाशय से ही द्वेष है । मुझे बुद्ध-पद (= सर्वज्ञता) प्रिय है । इसलिए मैंने इस व्रत का अधिष्ठान किया है ।

इस प्रकार जीवन परित्याग करके भी (अपने) व्रत का अधिष्ठान (= दृढ़ता से पालन) करना (यह उन)की अधिष्ठान पारमिता परमार्थ-पारमिता हुई ।

(९) मैत्री पारमिता

एकराज जातक में—

न मुझे कोई डराता है, न मैं किसी से डरता हूँ । मैं मैत्री-बल पर निर्भर हो सदैव बन में विचरता हूँ ।

इस प्रकार जीवन तक की परवाह न करके मैत्री करना (यह उन)की मैत्री-पारमिता परमार्थ-पारमिता हुई ।

(१०) उपेक्षा पारमिता

लोमहंस जातक में—

मुर्दों तथा हड्डियों का तकिया बनाकर श्मशान में सोता हूँ । ग्वाले मेरे पास आकर अनेक प्रकार के रूप दिखाते हैं ।

इस प्रकार ग्रामीण बालकों के थूक फेंकने आदि से पीड़ा देने तथा, माला गन्ध उपहार आदि द्वारा सुख देने से भी समभाव (= उपेक्षा) का उल्लंघन नहीं किया । इस प्रकार की (उनकी) उपेक्षा पारमिता परमार्थ-पारमिता हुई ।

यहाँ यह संक्षेप से कहा गया है, विस्तार के लिए 'चरियापिटक'^१ को देखना चाहिए ।

^१ खुदक निकाय का एक ग्रन्थ ।

इस प्रकार पारमिताओं को पूरा कर वह वेस्सन्तर के जन्म (=आत्म भाव) में आये ।

यह पृथिवी अचेतन है । सुख दुख से प्रभावित नहीं होती है; किन्तु वह भी मेरे दान के बल से सात बार काँपी ।

इस प्रकार महापृथ्वी को कँपाने वाले महापुण्य कर्मा, (हमारे बोधिसत्त्व) आयु को बिता कर, तुषित-देवलोक में उत्पन्न हुए ।

भगवान् 'दीपङ्कर के चरणों' से आरम्भ करके तुषित-लोक में जन्म लेने तक के इस भाग को 'दूरेनिदान' जानना चाहिए ।

ख. अविदूरेनिदान

१. गौतम का (बाल्य) चरित

(१) देव-लोक से मनुष्य-लोक की ओर

बोधिसत्त्व के तुषित लोक में रहते समय ही बुद्ध-कोलाहल (=घोष) पैदा हुआ । लोक में कल्प-कोलाहल, बुद्ध-कोलाहल तथा चक्रवर्ती-कोलाहल—तीन प्रकार के कोलाहल उत्पन्न होते हैं । (आज से) लाख वर्ष के बीत जाने पर कल्प-उत्थान होगा (सोच) काम-धातु के लोक-व्यूह नामक देवता, खुले सिर, बिखरे-केश, रोनी-शकल बना, हाथों से आँसू पोंछते हुए, लाल वस्त्र पहने अत्यन्त क्रूर वेश धारण किये मनुष्य-लोक में घूमते हुए इस प्रकार चिल्लाते हैं—“मित्रो ! लाख वर्ष व्यतीत होने पर कल्प-उत्थान होगा—यह लोक नष्ट हो जायगा । महा-समुद्र सूख जायगा । यह महापृथ्वी और पर्वत-राज सुमेरु उड़ जायेंगे, नष्ट हो जायेंगे । ब्रह्म-लोक तक (समस्त) ब्रह्माण्ड का नाश हो जायगा । मित्रो ! मैत्री-भावना की भावना करो । करुणा, मुदिता, उपेक्षा (भावना) की भावना करो । माता-पिता की सेवा करो । कुल में जो ज्येष्ठ हों उनकी सेवा करो ।” यह कल्प-कोलाहल हुआ ।

सहस्र वर्ष बीतने पर, लोक में सर्वज्ञ बुद्ध उत्पन्न होंगे (सोच) लोक-पाल देवता “मित्रो ! अब से सहस्र वर्ष बीतने पर लोक में बुद्ध उत्पन्न होंगे” उद्-घोषित करते हुए घूमते हैं । यह बुद्ध-कोलाहल हुआ ।

सौ वर्ष के बीतने पर चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होगा, (सोच) देवता “मित्रो ! अब से सौ वर्ष बीतने पर, लोक में चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होगा” उद्घोषित करते हुए घूमते हैं। यह चक्रवर्ती-कोलाहल हुआ।

यह तीनों कोलाहल महान्-कोलाहल होते हैं।

बुद्ध-कोलाहल के शब्द को सुन कर, सारे दस सहस्र चक्रवालों के देवता एक स्थान पर एकत्रित हो, ‘अमुक व्यक्ति बुद्ध होगा’ जान पूर्व लक्षणों को देख उसके पास जा प्रार्थना (=याचना) करते हैं।

जब वह पूर्व-लक्षण उदय हो गये, तो (इस) चक्रवाल के सभी देवताओं—चतुर्महाराजिक, शक्र, सुयाम, संतुषित, परनिर्मित-वशवर्ती—ने महाब्रह्माओं के साथ एक चक्रवाल में इकट्ठे हो (सलाह) की, (और फिर) तुषित-लोक में बोधिसत्त्व के पास जा कर, उन्होंने प्रार्थना की—“मित्र ! तुमने जो दस पारमिताओं की पूर्ति की, वह न तो इन्द्रासन पाने के लिए, न मार, ब्रह्मा अथवा चक्रवर्ती के पद की प्राप्ति के लिए। लोक-निस्तार के लिए, बुद्धत्व की इच्छा से ही उन्हे तुमने पूरा किया। सो मित्र ! अब यह बुद्ध होने का काल है। मित्र ! यह बुद्ध होने का समय है।”

(२) बोधिसत्त्व का जन्म कुल देश आदि

उस समय बोधिसत्त्व ने देवताओं को वचन दिए बिना ही (अपने जन्म सम्बन्धी) समय, द्वीप, देश, कुल, माता तथा आयु-परिमाण—इन पाँच ‘महा-विलोकनों’ पर विचार किया। (सर्व) प्रथम, ‘समय उचित है या नहीं’ (पर) समय का विचार किया। लाख वर्ष से ऊपर की आयु का समय (बुद्धों के जन्म के लिए) उचित समय नहीं होता। सो क्यों ? उस समय प्राणियों को जन्म, जरा, मरण का भान नहीं होता। बुद्धों का धर्मोपदेश तीन लक्षणों से रहित^१ नहीं होता। उस समय ‘अनित्य-दुःख तथा अनात्म’ सम्बन्धी उपदेश करने पर लोग “यह क्या कहते हैं ? (कह कर) उसे ध्यान से नहीं सुनते, न उसपर श्रद्धा करते हैं। इसी लिए उन्हें (धर्म का) बोध नहीं हो सकता। उसके न होने पर बुद्ध-धर्म (उनके लिए) सहायक (=नैयाँगिक) नहीं होता। इसीलिए

^१ अनित्य, दुःख तथा अनात्म-भाव ।

वह समय अनुकूल नहीं है ? सौ वर्ष से कम आयु का समय अनुकूल समय नहीं होता। क्यों ? सौ वर्ष से कम की आयु वाले प्राणियों में राग-द्वेष बहुत होते हैं। अधिक राग-द्वेष वाले प्राणियों को दिया गया उपदेश भी प्रभावोत्पादक नहीं होता। पानी पर, लकड़ी से खींची हुई लकीर की तरह वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए यह भी समय अनुकूल समय नहीं है।

महासत्त्व ने देखा कि लाख वर्ष से नीचे और सौ वर्ष से ऊपर का समय अनुकूल समय है और कि वह सौ वर्ष की आयु वाला समय है; इसलिए बुद्धों के उत्पन्न होने का समय है।

तब द्वीप का विचार करते हुए, उपद्वीपों सहित चारों द्वीपों को (देख) विचार किया—दूसरे तीनों द्वीपों^१ में बुद्ध उत्पन्न नहीं हुआ करते, जम्बू-द्वीप में ही वह जन्म लेते हैं; और (जम्बू-द्वीप में जन्मने का) निश्चय किया। फिर 'जम्बू-द्वीप तो दस हजार योजन बड़ा है' कौन से प्रदेश में बुद्ध जन्म लेते हैं ? इस तरह प्रदेश पर विचार करते हुए मध्य-प्रदेश को देखा। "मध्य देश की पूर्व दिशा में कज्जंगल^२ नामक कस्बा है, उसके बाद बड़े शाल (के बन) हैं, और फिर आगे सीमान्त (=प्रत्यन्त) देश। पूर्व-दक्षिण में सल्लवती^३ नामक नदी है, उसके आगे सीमान्त देश। दक्षिण दिशा में सेतकण्णिक^४ नामक कस्बा है, उसके बाद सीमान्त देश। पश्चिम दिशा में थून^५ नामक ब्राह्मण-ग्राम है, उसके बाद सीमान्त देश। उत्तर दिशा में उशीरध्वज^६ नामक पर्वत है, उसके बाद सीमान्त देश।"—इस प्रकार विनय (-पिटक) में (मध्य-) देश का वर्णन है।

यह (मध्य-देश) लम्बाई में तीन सौ योजन, चौड़ाई में ढाई सौ योजन, और घेरे में नी सौ योजन है। इसी प्रदेश में बुद्ध, प्रत्येक-बुद्ध, प्रधान अग्र-श्रावक

^१ अपर-गोयान, पूर्व-विदेह तथा उत्तर-कुरु में।

^२ वर्तमान कंकजोल, जिला संथाल पर्वता (बिहार)।

^३ वर्तमान सिलई नदी (हजारी बाग और सेवनीपुर जिला)।

^४ हजारी बाग जिले में कोई स्थान।

^५ थानेश्वर, जिला कर्नाल।

^६ हिमालय का कोई पर्वत-भाग।

(=प्रधान शिष्य), महाश्रावक, अस्सी महा-श्रावक, चक्रवर्ती राजा, तथा दूसरे महाप्रतापी, ऐश्वर्यशाली, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य पैदा होते हैं। और वही यह **कपिल वस्तु**^१ नामक नगर है, वही मुझे जन्म लेना है—यह निश्चय किया।

तब कुल का विचार करते हुए—“बुद्ध वैश्य या शूद्र कुल में उत्पन्न नहीं होते। लोकमान्य क्षत्रिय या ब्राह्मण, इन्ही दो कुलों में जन्म लेते हैं। आज कल क्षत्रिय कुल लोकमान्य है। (इसलिए) उसी (कुल) में जन्म लूंगा। शुद्धोदन नामक राजा मेरा पिता होगा (सोच) कुल का निश्चय किया।

फिर माता का विचार करते हुए—“बुद्धों की माता चञ्चल और शराबी तो होती नहीं। लाख कल्प से (दान आदि) पारमिताएँ पूरी करने वाली, और जन्म से ही अखण्ड पञ्च शील (=सदाचार) रखने वाली होती है। यह **महामाया** नामक देवी ऐसी (ही) हैं, यह मेरी माता होगी। लेकिन इसकी (बाकी) आयु कितनी होगी (विचारते हुए) दस महीने सात दिन की आयु देखी।

(३) मायादेवी के गर्भ में

इस प्रकार इन पाँच-‘विलोकनों’ को विलोकन कर, ‘हाँ मित्रो ! मेरे बुद्ध होने का समय है’—इस प्रकार वचन दे देवताओं को सन्तुष्ट किया; और “आप लोग जाइए” (कह) देवताओं को विदा कर, तुषित देवताओं के साथ, तुषित लोक के नन्दन वन में प्रवेश किया। सभी देवलोकों में नन्दन वन होते हैं। वहाँ (साथी) देवता (लोग),—‘यहाँ से च्युत हो कर (अमुक) सुगति को प्राप्त होते हैं’—इस प्रकार बोधिसत्त्व को पूर्व के किये पुण्य कर्मों (के बल) से मिलने वाले स्थानों का स्मरण दिलाते हुए घूम रहे थे। इस प्रकार पुण्य कर्मों की स्मृति कराते देवताओं के साथ वे वहाँ रहे। फिर वहाँ से च्युत हो कर, महामाया देवी की कुक्षि में प्रवेश किया।

उस (गर्भ) प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए क्रमानुसार कथा इस प्रकार है :- उस समय **कपिल वस्तु** नगर में **आषाढ़** का उत्सव उद्घोषित हुआ था। जनता उत्सव मना रही थी। पूर्णिमा के सात दिन पहले **महामाया** देवी बिना मद्य-पान

^१ देखो तिलौराकोट (नेपाल की तराई)।

के मालागन्ध से सुशोभित हो, उत्सव मना रही थीं। सातवें दिन प्रातः ही उठ, उसने सुगन्धित जल से स्नान कर, चार लाख का महादान दिया; और सब अलङ्कारों से विभूषित हो, सुन्दर भोजन ग्रहण कर, उपोसथ (=व्रत) के नियमों (=अङ्गो) को धारण किया। फिर सु-अलङ्कृत शयनागार में प्रविष्ट हो, सुन्दर शय्या पर लेटे, निद्रित अवस्था में यह स्वप्न देखा—

‘उसे चार-महाराज (दिक्पाल) शय्या सहित उठा कर, हिमवन्त (-प्रदेश) में ले जा कर, साठ योजन के मन-शिला (नामक शिला) के ऊपर, सात योजन (छाया) वाले महान् शाल-वृक्ष के नीचे रख कर खड़े हो गये।

तब उन (दिक्पालो) की देवियों ने आकर, (महामाया) देवी को अन्तो-तप्त-बह में ले जाकर, मनुष्य-मल दूर करने के लिए स्नान कराया; दिव्य-वस्त्र पहनाया, गन्धों से लेप किया, दिव्य फूलों से सजाया। वहाँ से समीप ही रजत-पर्वत है; जिसके अन्दर सुवर्ण-विमान है। वही पूर्व की ओर सिर करके दिव्य-शयन विछवा कर उन्होंने उसे लिटाया। बोधिसत्त्व श्वेत सुन्दर हाथी बन समीपवर्ती सुवर्ण-पर्वत पर विचर कर, वहाँ से उतर रजत-पर्वत पर चढ़े। फिर उत्तर दिशा से आ कर (उक्त स्थान पर पहुँचे)। उनकी रूपहली माला जैसी सूण्ड में श्वेत पद्म था। उन्होंने मधुर नाद कर, स्वर्ण-विमान में प्रवेश कर फिर तीन बार माता की शय्या की प्रदक्षिणा की। फिर दाहिनी बगल को चीर, कुक्षि में प्रविष्ट हुए से जान पड़े। इस प्रकार (बोधिसत्त्व ने) उत्तरापाङ्ग नक्षत्र में गर्भ में प्रवेश किया।

दूसरे दिन जाग कर देवी ने इस स्वप्न को राजा से कहा। राजा ने चौसठ प्रधान ब्राह्मणों को बुलवाया। गोबर-लीपी, खीलों (=लाजा) आदि से मङ्गलाचरण की गई भूमि पर महार्घ आसन बिछवाये। उन पर ब्राह्मणों को बैठा घी, मधु, शक्कर से प्रस्तुत की गई खीर से सोने-चाँदी की थालियाँ भर कर, उन्हें सोने-चाँदी की ही थालियों से ढक कर परोसा। और नवीन वस्त्र तथा कपिला गी आदि के दान से भी उन्हें संतुष्ट किया। उनकी सब इच्छाएँ पूरी कर उन्होंने ब्राह्मणों को स्वप्न की बात कह “स्वप्न का (फल) क्या होगा ?” पूछा।

ब्राह्मणों ने कहा—“महाराज ! चिन्ता न करें। आपकी देवी की कुक्षि में गर्भ प्रतिष्ठित हुआ है। वह स्त्री-गर्भ नहीं, पुरुष-गर्भ है। आपके पुत्र होगा।

वह यदि घर (=गृहस्थ) में रहेगा, तो चक्रवर्ती राजा होगा, यदि घर से निकल कर, प्रव्रजित होगा, तो लोक में कपाट खुला (=ज्ञानी) बुद्ध होगा ।”

बोधिसत्त्व के गर्भ में आने के समय, समस्त दस-सहस्र ब्रह्माण्ड एक प्रहार से काँपने की तरह काँपे । बत्तीस पूर्व-शकुन (=लक्षण) प्रकट हुए । दस सहस्र चक्रवालों में अनन्त प्रकाश हो उठा । मानो (प्रकाश) की उस कान्ति (=श्री) को देखने के लिए ही, अन्धों को आँखें मिल गईं । बहरे शब्द सुनने लगे । गूँगे बोलने लगे । कुबड़े सीधे हो गये । लँगड़े पाँव से चलने लगे । बन्धनों में पड़े हुए सभी प्राणी बेड़ी हथकड़ी से मुक्त हो गए । सारे नरकों की आग बुझ गई । प्रेतों की क्षुधा-पिपासा शान्त हो गई । पशुओं (=तिरस्वीनों) का भय जाता रहा । तमाम प्राणियों के रोग शान्त हो गये । सभी प्राणी प्रिय-भापी हो गये । घोड़े मधुर स्वर से हिनहिनाने लगे । हाथी चिंघाड़ने लगे । सारे वाद्य (=तुरिय) स्वयं बजने लगे । मनुष्यों के हाथों के आभरण, बिना आपस में टकराये ही, शब्द करने लगे । सब दिशाएँ शान्त हो गईं । प्राणियों को सुखी करती, मृदुल शीतल हवा चलने लगी । बे-भीसम के वर्षा बरसने लगी । पृथ्वी से भी पानी निकल कर बहने लगा । पक्षियों ने आकाश में उड़ना छोड़ दिया । नदियों ने बहना छोड़ दिया । महासमुद्र का पानी मीठा हो गया । सभी जगहे पाँच रंग के कमलों से ढक गईं । जल-थल में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के पुष्प खिल उठे । वृक्षों के स्कन्धों में, स्कन्ध-कमल, शाखाओं में शाखा-कमल, लताओं में लता-कमल पुष्पित हुए । स्थल पर शिला-तलों को फाड़ कर, ऊपर ऊपर से, सात सात हो, दण्ड-कमल निकले । आकाश में लटकने वाले कमल उत्पन्न हुए । चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हुई । आकाश में दिव्य वाद्य (=तुर्य) बजे । चारों ओर सारी दस-साहस्री लोक धातु (=ब्रह्माण्ड) माला-गुच्छ की तरह, दाबकर बँधे माला-समूह की तरह, सजे सजाये माला-आसन की तरह, एक माला-पंक्ति की तार, अथवा पुष्प धूप गन्ध से सुवासित खिली हुई चवँर की तरह परम शोभा को प्राप्त हुई ।

बोधिसत्त्व के गर्भ में आने के समय से ही बोधिसत्त्व और उनकी माता के संकट के निवारण करने के लिए चारों देव-पुत्र (महाराज) हाथ में खड्ग लिये हुए पहरा देते थे । (उसके बाद) बोधिसत्त्व की माता को पुरुष में राग नहीं हुआ । वह बड़े लाभ और यश को प्राप्त हो सुखी तथा अकलान्त-शरीर

रही। वह कुक्षिस्थ बोधिसत्त्व को सुन्दर मणि-रत्न में पिरोए हुए पीले धागे की तरह देख सकती थी। क्योंकि जिस कोख में बोधिसत्त्व वास करते हैं, वह चैत्य के गर्भ के समान (फिर) दूसरे प्राणी के रहने या उपभोग करने योग्य नहीं रहती; इसीलिए (बोधिसत्त्व की माता) बोधिसत्त्व के जन्म के (एक) सप्ताह बाद ही मर कर, युधित देव-लोक में जन्म ग्रहण करती है। जिस प्रकार दूसरों स्त्रियाँ दस मास से कम (या) अधिक में भी, बैठी या लेटी भी, प्रसव करती हैं; ऐसा बोधिसत्त्व-माता नहीं करती। वह (बोधिसत्त्व को) दस मास कुक्षि में रख, खड़ी ही प्रसव करती है। यह बोधिसत्त्व-माता की धर्मता (=विशेषता) है।

(४) सिद्धार्थ का जन्म

महामाया देवी भी पात्र में तेल की भाँति, बोधिसत्त्व को दस मास कोख में धारण कर, गर्भ के परिपूर्ण होने पर, नैहर (पीहर) जाने की इच्छा से शुद्धो-दन महाराज से बोली—‘देव, (अपने पिता के) कुल के देव-देव नगर को जाना चाहती हूँ। राजा ने ‘अच्छा’ कह, कपिलवस्तु से देवदह नगर तक के मार्ग को सम-तल करा और केला, पूर्ण-घट, ध्वजा, पताका आदि से अलंकृत करवा, देवी को सोने की पालकी में बिठा, एक हज़ार अफसर तथा बहुत भारी सेवक-मण्डली के साथ भेज दिया।

दोनों नगरों के बीच में, दोनों ही नगर वालों का लुम्बिनी^१ वन नामक एक मङ्गल शाल वन था। उस समय (वह वन) मूल से ले कर शिखर की शाखाओं तक एक दम फूला हुआ था। शाखाओं तथा पुष्पों के बीच में पाँच रङ्गों के भ्रमर गण, और नाना प्रकार के पक्षि-सघ मधुर-स्वर से कूजन करते विचर रहे थे। सारा लुम्बिनी-वन विचित्र लता-वन—जैसा, प्रतापी राजा के सुसज्जित वाज्जार जैसा (जान पड़ता) था। उसे देख देवी के मन में शाल वन में क्रीड़ा करने की इच्छा उत्पन्न हुई। आमात्य, देवी को ले शाल-वन में गये। देवी ने सुन्दर शाल के नीचे जा, शाल की डाली पकड़नी चाही।

^१ हम्मिन् वेद, नौतनबा स्टेशन (B.N.W.R.) से प्रायः ८ मील पश्चिम, नेपाल की तराई में।

शाल-शाखा अच्छी तरह सिद्ध किये बेंत की छड़ी की नोक की भाँति लटक कर देवी के हाथ के पास आ गई। उसने हाथ पसार कर शाखा पकड़ ली। उसी समय से प्रसववेदना (=कमर्ज-वायु) हुई। लोग (इर्द गिर्द) कनात घेर, स्वयं अलग हो गये। शाल-शाखा पकड़े, खड़े ही खड़े, उसे गर्भ-उत्थान हो गया। उस समय चारों शुद्ध-चित्त महाब्रह्मा ने सोने का जाल ले, पहुँच कर उस जाल में बोधिसत्त्व को ग्रहण किया, और माता के सम्मुख रख कर बोले— 'देवी सन्तुष्ट होओ। तुम्हें महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ है।'

जिस प्रकार अन्य प्राणी माता की कोख से निकलते समय, गन्दे, मल-विलिप्त निकलते हैं, वैसे बोधिसत्त्व नहीं निकलते। बोधिसत्त्व धर्मासन (=व्यास-गद्दी) से उतरे धर्म-कथिक (=धर्मोपदेशक) के समान, सीढ़ी से उतरे पुरुष की तरह, दोनों हाथ और दोनों पैर पसारे खड़े हुए (मनुष्य) के समान, माता की कोख के मल से बिलकुल अलिप्त, शुद्ध, विशुद्ध, काशी-देश के वस्त्र में रक्खे मणि-रत्न के समान, चमकते हुए, माता की कोख से निकले। ऐसा होने पर भी बोधिसत्त्व और बोधिसत्त्व की माता के सत्कारार्थ, आकाश से दो जल की धाराओं ने निकल, बोधिसत्त्व और उनकी माता के शरीर को ठंडा किया।

तब चारों महाराजाओं ने सोने के जाल में लेकर खड़े ब्रह्माओं के हाथ से, (बोधिसत्त्व) को माङ्गलिक समझे जाने वाले, कोमल मृग-चर्म में ग्रहण किया। उनके हाथ से मनुष्यों ने दुकूल की तह (चुम्बट) में ग्रहण किया। मनुष्यों के हाथ से निकल कर (बोधिसत्त्व ने) पृथ्वी पर खड़े हो, पूर्व दिशा की ओर देखा। अनेक सहस्र चक्रवाल एक-आँगन से हो गये। मनुष्य गन्ध माला आदि से पूजा करते हुए बोले—“महापुरुष ! यहाँ आप जैसा भी कोई नहीं है, बढ़ कर तो कहाँ होगा।” बोधिसत्त्व ने चारों दिशाएँ चारों अनुदिशाएँ नीचे-ऊपर—दसों ही दिशाओं का अवलोकन कर, अपने जैसा किसी को न देख, उत्तर दिशा की ओर (करके) क्रम से सात पग गमन किया। (उस समय) महाब्रह्मा श्वेत-छत्र सुयाम (देवता) ताल-व्यजन (=पंखा), और अन्य देवता शेष राजकीय ककुध-भाण्ड^१ हाथ में लिये अनुगमन

^१ खड्ग, छत्र, पगड़ी, पादुका तथा व्यजन (=पंखा)।

कर रहे थे। सातवें पग पर ठहर “मैं संसार में सर्व-श्रेष्ठ हूँ” नर-पुञ्जवों की इस प्रथम निर्भीक वाणी का उच्चारण करते हुए सिंहनाद किया।

बोधिसत्त्व ने इस प्रकार माता की कोख से निकलते ही तीन जन्मों में, वाणी का उच्चारण किया—महोसध-जन्म में, वेस्सन्तर-जन्म में और इस जन्म में। महोसध-जन्म में तो बोधिसत्त्व के कोख से निकलते ही, देवेन्द्र शक्र आया और चन्दन-सार हाथ में रख कर चला गया। बोधिसत्त्व उसे हाथ में लिये ही निकला। तब उसकी माता ने पूछा—“तात ! क्या लेकर आया है ?” “अम्मा ! औषध ?” औषध लेकर आया होने के कारण उसका नाम औषध दारक ही कर दिया गया। उस औषध को लेकर बरतन (=चाटी) में डाल दिया। वह औषध अन्धे, बहरे, इत्यादि सभी प्रकार के आने वाले रोगियों के रोग-उपशमन की दवाई हुई। तब “यह महौषध है, यह महौषध है,” इस प्रकार की ख्याति उत्पन्न होने के कारण, (=बोधिसत्त्व) का नाम भी महोषध ही पड़ गया। वेस्सन्तर के जन्म में तो बोधिसत्त्व माता की कोख से निकलते ही ‘माँ ! घर में कुछ है ? दान दूँगा’ पूछते हुए निकला। उसकी माता ने “तात तू धनवान् कुल में पैदा हुआ है” (कह) पुत्र की हथेली को अपनी हथेली पर रख, हज़ार की थैली रखवाई। इस जन्म में तो केवल यह सिंह-नाद ही किया। इस प्रकार बोधिसत्त्व ने तीन जन्मों में माता की कोख से निकलते ही, शब्द उच्चारण किया।

गर्भ धारण के समय की भाँति ही जन्म के समय भी वत्तीस शकुन, प्रकट हुए। जिस समय लुम्बिनी वन में हमारे बोधिसत्त्व उत्पन्न हुए, उसी समय राहुल-माता देवी, आमात्य छन्न (=छन्दक) आमात्य कालउदायी, हस्तिराज राजानोय,^१ अश्वराज कन्थक, महाबोधि-वृक्ष, और खज़ानों से भरे चार षड़े भी उत्पन्न हुए। उनमें (क्रम से) एक गव्यूति (= $\frac{1}{8}$ योजन = २ मील) भर, एक आधे योजन भर एक तीन गव्यूति भर और एक योजन भर था। यह सात एक ही समय पैदा हुए। दोनों नगरों के निवासी बोधिसत्त्व को लेकर कपिलवस्तु नगर का ही लौटे।

^१ उत्तम जाति का।

‘कपिलवस्तु नगर में शुद्धोदन महाराज को पुत्र हुआ है; यह कुमार बोधि-वृक्ष के नीचे बैठ कर बुद्ध होगा’ (सोच) उसी दिन त्रयस्त्रिंश (तैंतीस) भवन के सन्तुष्ट-चित्त देव-संघ वस्त्रों को उछाल उछाल कर क्रीड़ा करने लगे ।

(५) काल देवल की भविष्यद्वाणी

उस समय शुद्धोदन महाराज के कुलमान्य, आठ समाधि (=समापत्ति) वाले काल-देवल नामक तपस्वी, भोजन करके, दिन में मनोविनोद के लिए त्रयस्त्रिंश देवलोक में गये । वहाँ दिन के विश्राम के लिए बैठे हुए उन्होंने, उन देवताओं को देख कर पूछा—“किस कारण से तुम इस प्रकार सन्तुष्ट-चित्त हो क्रीड़ा कर रहे हो ? मुझे भी वह बात बताओ ।” देवताओं ने उत्तर दिया “मित्र ! शुद्धोदन राजा को पुत्र उत्पन्न हुआ है । वह बोधि-वृक्ष के नीचे बैठ, बुद्ध हो, धर्मचक्र प्रवर्तित करेगा । हम उसकी अनन्त बुद्ध-लीला देखनी, तथा (उसका) धर्म सुनने को मिलेगा—इस कारण से हम प्रसन्न-चित्त हैं ।”

उनकी बात सुन, तपस्वी ने शीघ्र ही देवलोक से उतर, राज-महल में प्रवेश कर, बिछे आसन पर बैठ, पूछा—“महाराज ! आपको पुत्र हुआ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ ।” राजा सु-अलकृत कुमार को मँगा, तापस की वन्दना कराने को ले गया । बोधिसत्त्व के चरण उठ कर तापस की जटा में जा लगे । बोधिसत्त्व के जन्म में, बोधिसत्त्व के लिए दूसरा कोई वन्दनीय नहीं । यदि अज्ञान में बोधिसत्त्व का शिर तापस के चरण पर रखा जाता, तो तापस का शिर सात टुकड़े हो जाता । तापस ने—‘मुझे अपने आपको नाश करना योग्य नहीं है’ (सोच) आसन से उठ हाथ जोड़ कर (प्रणाम किया) । राजा ने, इस आश्चर्य को देख, अपने पुत्र की वन्दना की । तपस्वी को अतीत के चालीस और भविष्य के चालीस—अस्सी कल्पों की (बात) याद आ सकती थी । उस ने बोधिसत्त्व के (शरीर के) लक्षणों को देख, ‘यह बुद्ध होगा या नहीं’ इस बात का विचार कर मालूम किया, कि ‘यह अवश्य बुद्ध होगा । यह अद्भुत पुरुष है’ जान मुस्कराया । फिर सोचने लगा “इसके बुद्ध होने पर, मैं इसे देख सकूँगा वा नहीं ?” सोचने से (मालूम हुआ) ‘नहीं देख पाऊँगा; (इसके बुद्ध होने से) पहले ही मर कर अरूप-लोक में—जहाँ सौ अथवा हजार बुद्धों के जाने पर भी ज्ञान-प्राप्ति (=अवबोध) नहीं हो सकती—उत्पन्न होऊँगा । तब

‘ऐसे अद्भुत पुरुष को बुद्ध होने पर नहीं देख पाऊँगा, मेरा दुर्भाग्य है’ सोच रो उठा। लोगों ने जब देखा—कि ‘हमारे आर्य (=अग्र्य=बाबा) अभी हैंसे और फिर रोने लग गये’ तो उन्होंने पूछा—“क्यो भन्ते ! क्या हमारे आर्य-पुत्र को कोई सकट होगा ?”

“इनको सकट नहीं है, यह निस्संशय बुद्ध होंगे।”

“तो (आप) किस लिए रोते है ?”

“इस प्रकार के पुरुष को बुद्ध हुए नहीं देख सकूँगा, मेरा बड़ा दुर्भाग्य (=हानि) है—यही सोच अपने लिए रो रहा हूँ।”

फिर ‘मेरे सम्बन्धियों में से कोई इसे बुद्ध-हुआ देखेगा, या नहीं’—विचार, अपने भाजे नाळक को इस योग्य जान, अपनी बहिन के घर जाकर (पूछा)।

‘तेरा पुत्र नाळक कहाँ है ?’

‘घर में है, आर्य।’

“उसे बुला।”

(भाजे के) पास आने पर बोला—“तात ! महाराज शुद्धोदन के घर में पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह बुद्ध-अकुर है। पैतीस वर्ष बाद वह बुद्ध होगा; और तू उसे देख पायेंगा। तू आज ही प्रब्रजित हो जा।”

वह—‘मैं सत्तासी करोड़ धनवाले कुल में उत्पन्न बालक हूँ; (तो भी) मामा मुझे अनर्थ में नहीं लगा रहा है’— सोच, उसी समय बाजार से काषाय (वस्त्र) तथा मट्टी का पात्र मँगवा, शिर-दाढ़ी मुँडा, काषाय वस्त्र पहिन, ‘लोक में जो उत्तम पुरुष है, उसीके नाम पर मेरी यह प्रब्रज्या है’, यह (कहते) बोधिसत्त्व की ओर अञ्जलि जोड़, पाँचों अंगों से वन्दना की; फिर पात्र को भोली में रख, उसे कंधे पर लटका, हिमालय में प्रवेश कर, श्रमण-धर्म का पालन करने लगा।

फिर तथागत के बुद्ध हो जाने पर, (उनके) पास आ, उनसे नाळक-ज्ञान सुन, हिमालय में चले गये; वहाँ अर्हंत पद को प्राप्त कर, सर्व-श्रेष्ठ मार्ग (=उत्कृष्ट प्रतिपदा) पर आरूढ़, सात मास तक ही जीवित रह, एक सुवर्ण पर्वत के पास निवास करते, खड़े ही खड़े उपाधि-रहित निर्वाण को प्राप्त हुए।

(६) ज्योतिषी की भविष्यद्वाणी

पाँचवें दिन बोधिसत्त्व को शिर से नहलाया गया, नामकरण संस्कार किया गया। राजभवन को चारों प्रकार के गन्धों से लिपवाया गया। खीलों सहित चार प्रकार के पुष्प बखरे गये। निर्जल खीर पकाई गई। राजा ने तीनों वेदों के पारंगत एक सौ आठ ब्राह्मणों को निमन्त्रित किया। उन्हें राजभवन में बैठा, सुभोजन करा, सत्कार पूर्वक (बोधिसत्त्व के) लक्षण के बारे में पूछा—“भविष्य क्या है ?” उनमें :—

उस समय रा म, ध्व ज, ल क्ष म ण, म न्त्री, कौ ड ञ्ज, भो ज, सु या म और सु द त्त—यह आठ षड्-अंग जानने वाले ब्राह्मण थे, जिन्होंने मन्त्रों की व्याख्या की।

यह आठ ही लक्षण जानने वाले (—दैवज्ञ) ब्राह्मण थे। गर्भ धारण के दिन ‘स्वप्न’ का भी विचार इन्होंने ही किया था। उनमें से सात जनों ने दो उँगलियाँ उठा कर, दो प्रकार से भविष्य कहा—‘ऐसे लक्षणों वाला यदि गृहस्थ रहे, तो चक्रवर्ती राजा होता है, और यदि प्रव्रजित हो, तो बुद्ध।’ और फिर चक्रवर्ती राजा की श्री सम्पत्ति का वर्णन किया। उनमें सब से कम उमर और कौण्डिन्य गोत्री तरुण ब्राह्मण ने बोधिसत्त्व के सुन्दर लक्षणों को देख एक ही उँगली उठा कर, एक ही प्रकार का भविष्य कहा—“इसके घर में रहने की सम्भावना (—कारण) नहीं है, यह महाज्ञानी (—विवृत-कपाट) बुद्ध होगा। उस अधिकारी, अन्तिम-जन्मधारी, प्रज्ञा में अन्य जनों से बड़े हुए, इन लक्षणों वाले पुरुष के घर में ठहरने की सम्भावना नहीं, यह निश्चय बुद्ध होगा—इस एक ही अवस्था (—गति) को देखा। इसीलिए एक ही उँगली उठा कर भविष्य कहा।

उन ब्राह्मणों ने अपने अपने घर जाकर, पुत्रों से कहा—“तात ! हम बूढ़े हो गये हैं। महाराज शुद्धोदन के पुत्र के बुद्ध होने तक (हम) रहेंगे वा नहीं, (लेकिन) उस कुमार के बुद्धपद प्राप्त करने पर तुम उसके धर्म में प्रव्रजित होना।”

वे सातों आयु पूर्ण होने पर, अपने कर्मानुसार (परलोक) सिधारे। अकेला कौण्डिन्य माणवक ही जीवित रहा। वह महासत्त्व (बोधिसत्त्व) की

और ध्यान रख, गृह को त्याग, क्रमशः उरुबेला^१ जा, 'यह भूमि-भाग बड़ा रमणीय है, योगार्थी कुल-पुत्र के योगाभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान है' सोच, वही रहने लगा। (फिर) "महापुरुष प्रब्रजित हो गये" सुन, (सात) ब्राह्मणों के पुत्रों के पास जाकर कहा—“सिद्धार्थ-कुमार प्रब्रजित हो गये, वह निःसंशय बुद्ध होंगे। यदि तुम्हारे पिता जीवित होते, तो वह आज घर छोड़ प्रब्रजित हुए होते। यदि तुम चाहते हो, तो (मेरे साथ) आओ हम उस पुरुष के पीछे प्रब्रजित होंगे।”

वे सब (लड़के) एक मत न हो सके। तीन प्रब्रजित नहीं हुए। शेष चारों कौण्डिन्य ब्राह्मण को मुखिया बना कर प्रब्रजित हुए। (आगे चल कर) वह पाँचों जने पचवर्गीय स्थविरों के नाम से प्रसिद्ध हुए।

तब राजा ने पूछा—“क्या देख कर, मेरा पुत्र प्रब्रजित होगा?” (उत्तर मिला) “चार पूर्व लक्षण।” “कौन कौन से चार लक्षण (=निमित्त)?” “बुद्ध, रोगी, मृत और प्रब्रजित।”

राजा ने (आज्ञा की)—“अब से इस प्रकार के किसी लक्षण (=बुद्ध आदि) को मेरे पुत्र के पास मत आने दो। मुझे, उसके बुद्ध बनने से मतलब नहीं। मैं उसे दो सहस्र द्वीपों से घिरे चारों महाद्वीपों का आधिपत्य करते हुए, छत्तीस योजन घेरे की परिषद् के बीच, आकाश के नीचे विचरते देखने की इच्छा रखता हूँ।” यह कह, राजा ने इन चार प्रकार के पुरुषों को कुमार के दृष्टि-गोचर होने से बचाने के लिए चारों दिशाओं में तीन तीन कोस की दूरी पर पहरा बैठा दिया। उसी दिन उस माङ्गलिक स्थान पर एकत्र हुए, अस्सी हजार जाति-सम्बन्धियों ने अपने एक एक पुत्र (को देने) की प्रतिज्ञा की। यह (कुमार) चाहे बुद्ध हो, अथवा राजा, हम (इसे) अपना एक एक पुत्र दे देंगे। यदि यह बुद्ध होगा तो क्षत्रिय साधुओं से पुरस्कृत तथा परिवारित हो विचरेगा। यदि राजा होगा तो क्षत्रिय-कुमारों से पुरस्कृत तथा परिवारित हो विचरेगा।

^१ बोध-गया, जि० गया (बिहार)।

(७) शैशव का एक चमत्कार

राजा ने बोधिसत्त्व के लिए उत्तम रूप वाली, सब दोषों से रहित धाइयाँ नियुक्त कीं। बोधिसत्त्व अनन्त परिवार, तथा महती शोभा और श्री के साथ बढ़ने लगे। एक दिन राजा के यहाँ (खेत) बोनो का उत्सव था। उस (उत्सव के) दिन लोग सारे नगर को देवताओं के विमान की भाँति अलंकृत करते थे। सभी दास (=गुलाम) और नौकर आदि नये वस्त्र पहिन, गंध माला आदि से विभूषित हो, राज-महल में इकट्ठे होते थे। राजा को एक हज़ार हलों की खेती थी। लेकिन उस दिन बैलों की रस्सी की जोत के साथ एक कम आठ सौ सभी रुपहले हल थे। राजा का हल रत्न-सुवर्ण-जटित था। बैलों के सींग, और रस्सी-कोड़े भी सुवर्ण-खचित ही थे। राजा बड़े दल-बल के साथ, पुत्र को भी ले, वहाँ पहुँचा। खेती के स्थान पर ही, बहुत पत्रों तथा घनी छाया वाला एक जामुन का वृक्ष था। उसके नीचे कुमार की शय्या बिछाई गई। ऊपर सुवर्ण-तार-खचित चँदवा तनवाया गया। उसे कनात से धिरवा, पहरा लगवा दिया गया। फिर सब अलङ्कारों से अलंकृत हो, अमात्य गण सहित राजा, हल जोतने के स्थान पर गया। वहाँ उसने सुनहले हल को पकड़ा, अमात्याँ ने (अन्य) एक-कम आठ सौ रुपहले हलों को और कृषकों ने शेष दूसरे हलों को। हलों को पकड़ कर, वे इधर उधर जोतने लगे। राजा इस पार से उस पार, और उस पार से इस पार आता था। वहाँ बड़ी भोड़ थी, बड़ा तमाशा था। बोधिसत्त्व को घेर कर बैठी धाइयाँ, राजकीय-तमाशा देखने के लिए कनात के भीतर से बाहर चली आईं। बोधिसत्त्व इधर उधर किसी को न देख, जल्दी से उठ, श्वास-प्रश्वास पर ध्यान दे, प्रथम-ध्यान प्राप्त हो गये। धाइयों ने खाद्य-भोज्य में (लगे रह कर) कुछ देर कर दी। सभी वृक्षों की छाया घूम गई, लेकिन (बोधिसत्त्व वाले) वृक्ष की छाया गोल ही खड़ी रही। धाइयों ने 'आर्य-पुत्र अकेले हैं', ख्याल कर जल्दी से कनात उठा, अन्दर घुस कर, बोधिसत्त्व को बिछौने पर आसन मारे बैठे देखा। उस चमत्कार को देख उन्होंने जाकर राजा से कहा—'देव ! कुमार इस तरह बैठा है। अन्य सभी वृक्षों की छाया लम्बी हो गई है, लेकिन जामुन के वृक्ष की छाया गोलाकार ही खड़ी है।' राजा ने वेग से आ, उस चमत्कार को देखा, "तात ! यह दूसरी बार तेरी वन्दना है" (कह) पुत्र की वन्दना की।

२. गौतम का चरित

(१) यौवन प्रवेश

क्रमशः बोधिसत्त्व सोलह वर्ष के हुए। राजा ने बोधिसत्त्व के लिए, तीनों ऋतुओं के लायक तीन महल बनवा दिये। उनमें एक नौ तला, दूसरा सात तला, तीसरा पाँच तला था। चालीस हजार नाटक-करने वाली स्त्रियों को नियुक्त किया। बोधिसत्त्व अप्सराओं के समुदाय से घिरे देवताओं की भाँति, अलङ्कृत नटियों से परिवृत, स्त्रियों द्वारा बजाये गये वाद्यों से सेवित, महा-सम्पत्ति को उपभोग करते हुए, ऋतुओं के क्रम से, उतने (ऋतुओं के अनुकूल) प्रसादों में विहरते थे। राहुल-माता देवी इनकी अप्रमहिषी (==पटरानी) थी।

वह इस प्रकार महा-सम्पत्ति का उपभोग करते रहते थे। उसी समय एक दिन बोधिसत्त्व की जाति-विरादरी में ऐसी बात चली—“सिद्धार्थ-क्रीडा में ही रत रहता है। किसी कला को नहीं सीखता, युद्ध आने पर क्या करेगा?” राजा ने बोधिसत्त्व को बुला कर कहा—“तात ! तेरे सगे सम्बन्धी कहते हैं कि सद्गार्थ किसी कला को न सीख कर सिर्फ खेलों में ही लिप्त रहता है। तुम इस विषय में क्या उचित समझते हो ?”

“देव ! मुझे शिल्प सीखने को नहीं है। नगर में मेरा शिल्प देखने के लिए ढँढोरा पिटवा दे कि आज से सातवे दिन (में) जाति वालों को (अपना) शिल्प (कर्तव्य) दिखाऊँगा।”

राजा ने वैसा ही किया। बोधिसत्त्व ने अक्षण वेध, बाल-वेध जानने वाले धनुर्धारियों को एकत्रित कर, लोंगों के मध्य में अन्य धनुर्धारियों से (भी) विशेष बारह प्रकार के शिल्प (==कला) जाति-विरादरी वालों को दिखलाये। इन (के विस्तार) को सरभंग-जातक^१ में आये (वर्णन) के अनुसार जानना चाहिए। तब बोधिसत्त्व के सगे सम्बन्धियों की शका दूर हुई।

(२) जरा, व्याधि, मृत्यु और संन्यास-दर्शन

एक दिन बोधिसत्त्व ने बगीचा देखने की इच्छा से सारथी को बुला कर

^१ सरभंग जातक (१७. २)

रथ जोतने को कहा । उसने 'अच्छा' कह महार्घ उत्तम रथ को सब अलङ्कारों से अलङ्कृत कर, कमल-पत्र-सदृश चार मङ्गल सिन्धु-देशीय (घोड़े) को जोत, बोधिसत्त्व को सूचना दी । बोधिसत्त्व देव-विमान-सदृश रथ पर चढ़ कर बगीचे की ओर चले । देवताओं ने (सोचा), सिद्धार्थ-कुमार के बुद्धत्व प्राप्त करने का समय समीप है, (हम) इसे पूर्व-लक्षण दिखायें । (सो उन्होंने) एक देव-पुत्र को जरा से जर्जरित, टूटे-दांत, पक्के केश, टेढ़े-भुके शरीर, हाथ में लकड़ी लिये, कांपता हुआ (करके) दिखलाया । उसे (केवल) बोधिसत्त्व और सारथी ही देखते थे । तब बोधिसत्त्व ने महापदानसूत्र^१ में आये (वर्णन) अनुसार सारथी से पूछा—“सौम्य, यह कौन पुरुष है ! इसके केश भी औरों के समान नहीं है ।” (और) सारथी का उत्तर पा, (वे) अहो ! धिक्कार है जन्म को, जहाँ जन्म-लेने-वाले को (ऐसा) बुढ़ापा हो, (सोचते हुए) उदास हो, वहाँ से लौट कर महल में चले गये । राजा ने पूछा—“मेरा पुत्र जल्दी क्यों लौट आया ?” “देव ! बूढ़े आदमी को देख कर ।” (भविष्यद्वक्ताओं ने) बूढ़े आदमी को देख कर प्रब्रजित होगा कहा था (सोच) राजा ने 'इसलिए, मेरा नाश मत करो । पुत्र के लिए शीघ्र ही नृत्य तैयार करो । भोग भोगते हुए प्रब्रज्या का ख्याल न आयेगा' कह, पहरा और भी बढ़ा कर चारों दिशाओं में आधे योजन तक का करवा दिया ।

फिर एक दिन बोधिसत्त्व उसी प्रकार बगीचे जाते हुए, देवताओं द्वारा निर्मित रोगी पुरुष को देख, पहले की भाँति पूछ, शोकाकुल हृदय से महल में लौट आये । राजा ने भी पूछ कर, पहले की भाँति खिन्न चित्त हो, पहरे को फिर बढ़ा कर चारों ओर पीन योजन तक का कर दिया ।

फिर एक दिन बोधिसत्त्व उसी प्रकार उद्यान जाते हुए, देवताओं द्वारा निर्मित मृत-पुरुष को देख, पहले की भाँति पूछ, उदास हो, फिर महल में लौट आये । राजा ने भी पूछ कर पहले की भाँति खिन्न चित्त हो, पहरे को फिर बढ़ा कर चारों ओर एक योजन तक का कर दिया ।

फिर एक दिन उद्यान जाते हुए, बोधिसत्त्व ने देवताओं द्वारा निर्मित

^१ देखो बोध-निकाय ।

भली प्रकार (वस्त्र) पहिने, (चीवर से) भले प्रकार ढँके एक प्रब्रजित (संन्यासी) को देख कर, सारथी से पूछा—‘सौम्य ! यह कौन है ?’ अभी बुद्ध प्रकट नहीं हुए थे, इसीलिए सारथी को प्रब्रजित (वा) प्रब्रज्या के गुणों के बारे में कुछ मालूम न था। लेकिन देवताओं की प्रेरणा से सारथी ने—‘देव ! यह प्रब्रजित है’ कह प्रब्रजितों के गुण वर्णन किये। बोधिसत्त्व ‘प्रब्रज्या’ में रुचि उत्पन्न कर, उस दिन उद्यान को गये। यहाँ पर दीर्घ-भागकों^१ का मत है कि ‘बोधिसत्त्व ने’ चारों पूर्व-लक्षणों (=निमित्तों) को एक ही दिन देखा।’

(३) पुत्र जन्म

बोधिसत्त्व ने उद्यान में दिन भर विनोद कर, सुन्दर पुष्करिणी में स्नान किया। सूर्यास्त के समय सुन्दर शिला पट्ट पर, अपने को आभूषित कराने की इच्छा में बैठे। उस समय उनके परिवारक नाना रत्न के दुशाले, नाना भाँति के आभूषण, माला, सुगन्धि, उबटन लेकर चारों ओर से घेर कर खड़े थे। उसी समय इन्द्र का आसन गर्म हुआ। उसने, “कौन मुझे इस सिंहासन से उतारना चाहता है” सोचते हुए बोधिसत्त्व के अलंकृत होने का काल देख, विदवकर्मा को बुला कर कहा—“सौम्य विश्वकर्मा ! आज आधी रात के समय सिद्धार्थ-कुमार महाभितिष्क्रमण (=गृह त्याग) करेंगे। यह (आज का शृङ्गार) उनका अन्तिम शृङ्गार है। उद्यान में जाकर महापुरुष को दिव्य अलंकारों से अलंकृत करो।”

उसने ‘अच्छा’ कह, देव-बल से उसी क्षण आकर, बोधिसत्त्व के जामा-साज के सदृश ही रूप धारण कर, जामा-साज के हाथ से दुशाला ले, बोधिसत्त्व के सिर पर बाँधा।

उसके हाथ के स्पर्श से ही बोधिसत्त्व जान गये कि यह मनुष्य नहीं, कोई देव-पुत्र है। पगड़ी से सिर को वेष्टित करते ही सिर में, मुकुट के रत्नों की भाँति एक सहस्र, दुशाले उत्पन्न हो गये। फिर बाँधने पर दस सहस्र, इस प्रकार दस बार बाँधने पर दस-सहस्र दुशाले उत्पन्न हुए। सिर छोटा और

^१ ‘दीर्घ-निकाय’ कण्ठ करने वाले पुराने आचार्यों को दीर्घ-भागक कहा जाता है।

दुशाले बहुत, इसकी शंका न होनी चाहिए (क्योंकि) उनमें सब से बड़े दुशाले (का वजन ही) श्यामा-लता के फूल के बराबर था, (और) दूसरे तो कुतुम्बुक पुष्प के ही बराबर थे। बोधिसत्त्व का सिर किजल्क-युक्त कुय्यक फूल के समान था। उनके सब आभूषणों से आभूषित हो, सब (गीत=) तालज्ञ ब्राह्मणों के अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर लेने पर, 'जय हो' आदि वचनों से, तथा सूतमागधों के नाना प्रकार के मञ्जल वचनों तथा स्तुति-घोषों से सत्कृत हो, (बोधिसत्त्व) सर्वालङ्कार-विभूषित उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए।

उसी समय 'राहुल-माता ने पुत्र प्रसव किया' सुन महाराज शुद्धोदन ने आज्ञा की कि मेरे पुत्र को यह शुभ-समाचार सुनाओ। बोधिसत्त्व ने उसे सुन कहा "राहु पैदा हुआ, बन्धन पैदा हुआ।" राजा ने 'मेरे पुत्र ने क्या कहा', पूछ, उसे सुन, कहा—“अब से मेरे पोते का नाम राहुल-कुमार हो।”

बोधिसत्त्व भी श्रेष्ठ रथ पर चढ़, बड़े भारी यश, अति मनोरम शोभा तथा सौभाग्य के साथ नगर में प्रविष्ट हुए। उस समय, प्रासाद के ऊपर बँटी, कृशा-भौतमी नामक क्षत्रिय-कन्या ने नगर की परिक्रमा करते हुए बोधिसत्त्व की रूप शोभा को देख कर, बहुत ही प्रसन्नता तथा हर्ष से यह 'उदान' कहा :—

परम शान्त है वह माता, परम शान्त है वह पिता, और परम शान्त है वह नारी, जिसका इस प्रकार का पति हो।

बोधिसत्त्व ने यह सुना तो सोचा—यह कह रही है, कि इस प्रकार के रूप के देखने वाली माता का हृदय परम शान्त होता है, पिता का हृदय परम शान्त होता है, पत्नी का हृदय परम शान्त होता है। किस के शान्त होने पर हृदय परम शान्त होता है? तब रागादि क्लेशों (मलों) से विरक्त होते हुए, (बोधिसत्त्व) को यह (विचार) हुआ कि राग-अग्नि के शान्त होने पर परम-शान्ति होती है। द्वेष-अग्नि तथा मोह-अग्नि के शान्त होने पर परम-शान्ति होती है। अभिमान मिथ्या-विचार (=दृष्टि) आदि सभी मलों के उपशमन होने पर परम-शान्ति होती है। यह मुझे प्रिय-वचन सुना रही है। मैं निर्वाण को ढूँढ़ रहा हूँ। आज ही मुझे गृह-वास छोड़, निकल कर, प्रब्रजित हो, निर्वाण

की खोज में लगना चाहिए। 'यह इसकी गुरु-दक्षिणा हो'—कह उन्होंने अपने गले से एक लाख का मोती का हार उतार कृशा गीतमी के पास भेज दिया। "सिद्धार्थ-कुमार ने मेरे प्रेम में फँस कर भेंट भेजी है" सोच वह बड़ी प्रसन्न हुई।

(४) गृह-त्याग

बोधिसत्त्व भी बड़े श्री-मीभाग्य के साथ अपने महल में जा, सुन्दर शय्या पर नेट रहे। उसी समय सभी अलङ्कारों से विभूषित, नृत्य गीत आदि में दक्ष देव-कन्या समान परम मुन्दरी स्त्रियों ने अनेक प्रकार के वाद्यो को लेकर, (कुमार को) घेर कर, खुश करने के लिए नृत्य, गीत और वाद्य आरम्भ किया। बोधिसत्त्व (रागादि) मलो से विरक्त-चित्त होने के कारण, नृत्य आदि में रत न हो, थोड़ी ही देर में सो गये। उन स्त्रियों ने भी सोचा—“जिसके लिए हम नृत्य आदि करती हैं, वह ही सो गया। अब (हम) काहे को तकलीफ़ करे।” इसलिए वह भी अपने अपने वाजो को साथ लिये ही सो गईं। उस समय सुगन्धिन-तेल-पूर्ण प्रदीप जल रहे थे। बोधिसत्त्व जाग कर, पलंग पर आसन मार बैठ गये। उन्होंने वाद्य-भाण्डों को साथ ही लिये मोई उन स्त्रियों को देखा। (उनमें) किन्हीं के मुँह से कफ़ और लार बह कर, उनका शरीर भीग गया था, कोई दाँत कटकटा रही थी, कोई खाँस गूँधी थी, कोई बर्रा रही थी, किन्हीं के मुँह खुले हुए थे, किन्हीं के वस्त्र हटे होने से अति घृणोत्पादक गुह्य स्थान दिखलाई दे रहे थे। उन (स्त्रियों) के इन विकारों को देख कर (वे) और भी अधिक दृढता-पूर्वक काम-भोगों से विरक्त हो गये। उन्हें वह सु-अलङ्कृत इन्द्र-भवन सदृश महाभवन सड़ती हुई नाना प्रकार की लाशों से पूर्ण कच्चे श्मशान की भाँति मालूम हुआ। तीनों ही भव (=संसार) जलते हुए घर की तरह दिखलाई पड़े। हा! कष्ट!! हा! शोक!! ऐसी आह निकल पड़ी। उस समय उनका चित्त प्रब्रज्या के लिए, अत्यन्त आनुर हो गया। 'आज ही मुझे महाभिनिष्क्रमण (गृह-त्याग) करना चाहिए' (इस प्रकार निश्चय कर) पलंग पर से उतर, द्वार के पास जा पूछा—“कौन है?”

ड्योड़ी में सिर रख कर सोये हुए छन्न ने कहा—‘आर्य पुत्र! मैं छन्दक हूँ।’

“मैं आज महाभिनिष्क्रमण करना चाहता हूँ, मेरे लिए एक घोड़ा तैयार करो।”

‘अच्छा देव !’ कह, उसने घोड़े का साज-सामान ले, घोड़सार में जा, सुगन्धित तेल के जलते प्रदीपों (के प्रकाश) में, बेल-बूटे वाले चँदवे के नाँचे, सुन्दर स्थान पर खड़े, अश्व-राज कन्थक को देख कर, ‘आज मुझे इसे ही तैयार करना चाहिए’ (सोच) कन्थक को ही तैयार किया। साज सजाये जाते समय (कन्थक) ने सोचा—‘(आज की) तैयारी बहुत कसी हुई है। अन्य दिनों में उद्यान-क्रीड़ा आदि की यात्रा की तैयारी जैसी तैयारी नहीं है। आज मेरे आर्य-पुत्र महाभिनिष्क्रमण के इच्छुक होंगे।’ इसलिए प्रसन्न-चित्त हो, जोर से हिनहिनाया। वह शब्द सारे नगर में फैल जाता; लेकिन देवताओं ने उस शब्द को रोक कर, किसी को न सुनने दिया।

बोधिसत्त्व छन्दक को (तो उधर) भेज, पुत्र को देखने की इच्छा से, अपने आसन को छोड़ राहुल-माता के वास-स्थान की ओर गये। वहाँ शयनागार का द्वार खोला। उस समय घर के भीतर सुगन्धित तेल-प्रदीप जल रहा था। राहुल-माता बेला, चमेली आदि के अम्मन^१ भर फूलों से सजी शय्या पर, पुत्र के मस्तक पर हाथ रखे सो रही थी। बोधिसत्त्व ने देहली में पैर रख खड़े खड़े देख कर सोचा—‘यदि मैं देवी के हाथ को हटा कर अपने पुत्र को ग्रहण करूँगा, तो देवी जाग उठेगी, इस प्रकार मेरे गमन में विघ्न होगा। बुद्ध होने के पश्चात् ही, आकर पुत्र को देखूँगा’ तब महल से उतर आये। जातकट्टकथा^२ में जो ‘उस समय राहुल-कुमार एक सप्ताह के थे’ कहा है, वह दूसरी अट्टकथाओं में नहीं है। इसलिए यहाँ यही समझना चाहिए।

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने महल से उतर कर, घोड़े के पास जाकर कहा— तात ! कन्थक ! आज तू मुझे एक रात तार दे, मैं तेरी सहायता से बुद्ध होकर, देवताओं सहित सारे लोक को तारूँगा। फिर कूद कर कन्थक की पीठ पर सवार हुए। कन्थक गर्दन से ले कर (पूँछ तक) अठारह हाथ लम्बा (और) वैसे ही महाकाय, बल-वेग-सम्पन्न धुले शङ्ख-सदृश सर्व-श्वेत वर्ण का था। यदि वह हिनहिनाता वा पैर खटखटाता, तो (वह) शब्द सारे नगर में फैल

^१ ११ द्रोण—अम्मन।

^२ यह पुरानी सिंहल भाषा वाली जातक-कथा होगी।

जाता। इसलिए देवताओं ने अपने प्रताप से, ऐसा किया, जिससे कोई उस शब्द को न सुने। उन्होंने हिनहिनाने के शब्द को रोक लिया (और) जहाँ जहाँ (घोड़ा) पैर रखता था, वहाँ वहाँ हथेलियाँ रखी। बोधिसत्त्व श्रेष्ठ अश्व की पीठ पर सवार हो छन्दक को उसकी पूँछ पकड़वा, आधी रात के समय महा-द्वार के समीप पहुँचे। उस समय राजा ने यह सोच, कि कहीं बोधिसत्त्व जिस किसी समय नगर-द्वार को खोल कर, (बाहिर) न निकल जाये, दवाजे के दोनों कपाटों में से प्रत्येक को एक हज़ार मनुष्यों द्वारा खुलने लायक बनवाया था। बोधिसत्त्व महाबल-सम्पन्न हाथी की गिनती से दस अरब हाथी के बल को धारण करते थे, और पुरुष के हिसाब से एक खरब पुरुषों का बल। उन्होंने सोचा—“यदि द्वार न खुला तो आज मैं कन्थक की पीठ पर बैठे, उसकी पूँछ पकड़ कर लटके छन्दक के साथ ही, घोड़े को जाँघ से दबा कर अठारह हाथ ऊँचे प्राकार को कूद कर पार करूँगा।” छन्दक ने भी सोचा, “यदि द्वार न खुला, तो मैं आर्यपुत्र को कन्धे पर बैठा कन्थक को दाहिने हाथ से बगल में दबा प्राकार फाँद जाऊँगा।” कन्थक ने भी सोचा—“यदि द्वार नहीं खुला, तो मैं अपने स्वामी के पीठ पर वैसे ही बैठे, पूँछ पकड़ कर लटकते छन्दक के साथ ही, प्राकार को लांघ जाऊँगा।” यदि द्वार न खुलता, तो तीनों में से प्रत्येक ऊपर सोचे अनुसार करता। लेकिन द्वार में रहने वाले देवता ने द्वार खोल दिया।

उस समय बोधिसत्त्व को (वापिस) लौटाने की इच्छा से, आकर, आकाश में खड़े हो मार^१ ने कहा—“मार्प (मित्र) ! मत निकलो। आज से सातवें दिन तुम्हारे लिए चक्र-रत्न प्रकट होगा। दो हजार छोटे द्वीपों सहित चारों महाद्वीपों पर राज्य करोगे। लौटो, मार्प !”

“तुम कौन हो ?”

“मैं वश वर्ती हूँ।”

“मार ! मैं भी जानूँता हूँ कि मेरे लिए चक्र-रत्न प्रकट होगा। लेकिन मुझे राज्य से काम नहीं। मैं तो साहसिक लोक-धातुओं को निनादित कर बुद्ध बनूँगा।”

^१कामदेव या शैतान ।

“आज से जब कभी तुम्हारे मन में कामना सम्बन्धी वितर्क, द्रोह सम्बन्धी वितर्क, या हिंसा-सम्बन्धी वितर्क उत्पन्न होगा, तब मैं तुम्हें समझूँगा।” कह, मार मीका ताकते हुए, छाया की भाँति ज़रा भी अलग न होते हुए, पीछा करने लगा।

बोधिसत्त्व हाथ में आये चक्रवर्ती-राज्य (के प्रति) अपेक्षा रहित हो, उसे थूक की भाँति छोड़ कर, आपाड़ की पूर्णमा को उत्तराषाढ़ नक्षत्र में नगर से निकले। (लेकिन) नगर से निकल कर, (उन्हें) फिर नगर देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। चित्त में ऐसा विचार होते ही महापृथ्वी कुम्हार के चक्के की भाँति काँपी, मानों कह रही थी कि ‘महापुरुष ! तूने लौट कर देखने का काम (कभी) नहीं किया।’ बोधिसत्त्व जहाँ से मुँह फेर कर नगर को देखा था, उस भू-प्रदेश में “कन्धक-निवर्तन-चैत्य” का चिन्ह बना वह गन्तव्य-मार्ग की ओर कन्धक का मुँह फेर, अत्यन्त सत्कार और महान् श्री-सौभाग्य के साथ चले। उस समय देवताओं ने उनके सम्मुख साठ हजार, पीछे साठ हजार, दाहिनी तरफ साठ हजार और बाईं तरफ भी साठ हजार मशाल धारण किये। अन्य देवताओं ने चक्रवालो के द्वार-समूह पर अपरिमित मशालों को धारण किया। और (भी) दूसरे देवताओं तथा नाग, सुपर्ण (=गरुड़) आदि (के) दिव्य गन्ध, माला, चूर्ण, धूप से पूजा करते हुए, पारिजात-मुष्प, मन्दार-मुष्प, (की वृष्टि से) घने मेघों की वृष्टि के समय (बरसती) धाराओं की भाँति, आकाश आच्छादित हो गया। उस समय दिव्य सर्गित हो रहे थे। चारो ओर आठ प्रकार के, साठ प्रकार के अड़सठ लाख बाजे बज रहे थे। समुद्र के उदर में मेघ-गर्जनकाल की भाँति, युगन्धर की कुक्षि में सागर-निर्घोष काल की भाँति (शब्द) हो रहा था। इस श्री और सौभाग्य के साथ जाते हुए, बोधिसत्त्व एक ही रात में तीन राज्यों^१ को पार कर, तीस योजन की दूरी पर अनोमा^२ नामक नदी के तट पर पहुँचे।

क्या अश्व तीस योजन से अधिक न जा सका ? नहीं, न जा सका ! वह

^१ शाक्य, कोलिय और राम-ग्राम।

^२ अमोमी नदी ? जिला गोरखपुर।

(अश्व) एक चक्रवाल के अन्दर के घेरे को, पृथ्वी पर पड़े चक्के के घेरे की तरह, मर्दित करते हुए, कोने कोने पर घूम कर, प्रातःकाल के भोजन के समय से पूर्व लौट कर अपने लिए तैयार किये गये भोजन को खा सकता था। लेकिन, उस समय मार्ग आकाश में स्थित देव नाग तथा गरुड़ आदि द्वारा बरसाये गये गन्धमाला आदि से जाँघ तक ढका हुआ था। शरीर निकालते निकालते, गन्धमाला के जाल को हटाते हटाते बहुत देर हो गई। इसलिए केवल तीस योजन ही पहुँच सका।

३. गौतम का संन्यास

(१) भिक्षु वेश में

तब बोधिसत्त्व ने नदी के किनारे खड़े हो छन्दक से पूछा—

“इस नदी का क्या नाम है ?”

“देव ! अनोमा है।”

“हमारी भी प्रब्रज्या अनोमा^१ होगी”, (मोच) एड़ी से रगड़ कर घोड़े को इशारा किया। घोड़ा छलाँग मार कर, आठ ऋषभ^२ चौड़ी नदी के दूसरे तट पर जा खडा हुआ। बोधिसत्त्व ने घोड़े की पीठ से उतर, रुपहले रेशम जैसे (नर्म) वालुका-तट पर खड़े हो, छन्दक को कहा—“सौम्य ! छन्दक ! तू मेरे आभूषणों तथा कन्थक को लेकर जा, मैं प्रब्रजित होऊँगा।”

“देव ! मैं भी प्रब्रजित होऊँगा।”

“तुझे प्रब्रज्या नहीं मिल सकती, लौट जा” तीन बार कह कर, बोधिसत्त्व उसे आभरण और कन्थक सौंप सोचने लगे :—

“यह मेरे केश श्रमण-भाव (=संन्यासीपन) के योग्य नहीं हैं, और बोधिसत्त्व के केश काटने लायक दूसरा कोई नहीं है, इसलिए अपने ही आप खड्ग से इन्हे काटूँ।”

(यह सोच) दाहिने हाथ में तलवार ले, बाये हाथ से मीर सहित जूड़े को काट डाला। केश सिर्फ दो अंगुल के होकर, दाहिनी ओर से घूम, सिर में

^१ अनोमा = अन् + अवम् = छोटी नहीं।

^२ १४० हाथ = १ ऋषभ।

चिपट गये। फिर जिन्दगी भर, उनका वही परिमाण रहा। मूँछ(-दाढ़ी) भी उनके अनुसार ही हो गई। फिर सिर-दाढ़ी मुँडाने की जरूरत नहीं रही। बोधिसत्त्व ने मौर-सहित जूड़े को ले, आकाश में फेंक दिया और (सोचा) यदि मैं बुद्ध होऊँ, तो यह आकाश में ठहरे, नहीं तो, भूमि पर गिर पड़े।” वह चूड़ा-मणि बेष्टन योजन भर (ऊपर) जाकर, आकाश में ठहरा। शक्र देवराज ने दिव्य-दृष्टि से देख, (उसे) उपयुक्त रत्नमय करण्ड में ग्रहण कर त्रयस्त्रिंश (स्वर्ग) लोक में चूड़ामणि चैत्य की स्थापना की।

बोधिसत्त्व (अप्र-पुद्गल) ने सुगन्धयुक्त मौर को काट कर, आकाश में, फेंक दिया। देवेन्द्र (=सहस्राक्ष) ने, उसे सुवर्ण-करण्ड में ग्रहण कर शिरोधार्य किया।

फिर बोधिसत्त्व ने सोचा—यह काशी के बने वस्त्र भिक्षु के योग्य नहीं है। तब कश्यप बुद्ध के समय के इनके पुराने मित्र घटिकार महाब्रह्मा ने एक बुद्धन्तर^१ बीतने पर भी जरा को अप्राप्त मित्र-भाव के कारण सोचा—आज मेरे मित्र ने महाअभिनिष्क्रमण किया है। मैं उसके लिए भिक्षु की आवश्यकताएँ (=श्रमण परिष्कार) ले चलूँगा।

“योग में युक्त भिक्षु के लिए, तीन चीवर, पात्र, उस्तरा, मुई, काय-बन्धन और पानी छानने का वस्त्र—यह आठ (चीजें) होती हैं।”

(उसने) इन आठ परिष्कारों को लाकर बोधिसत्त्व को दिया। बोधिसत्त्व ने अर्हंत-ध्वजा को धारण कर (अर्थात्) श्रेष्ठ प्रव्रज्या-वेप को ग्रहण कर छन्दक को प्रेरित किया।

‘छन्दक ! मेरी बात से माता पिता को आरोग्य कहना।’ छन्दक बोधिसत्त्व की वन्दना तथा प्रदक्षिणा कर चल दिया। लेकिन कन्थक ने बोधिसत्त्व की छन्दक के साथ हुई बात को सुना। “अब मुझे, फिर स्वामी का दर्शन नहीं होगा” सोच, आँख से ओझल होने के शोक को न सह सकने के कारण, वह कलेजा फट कर मर गया; और त्रयस्त्रिंश-भवन में कन्थक नामक देवपुत्र ही उत्पन्न हुआ। छन्दक को पहले एक ही शोक था; लेकिन कन्थक की मृत्यु से (अब) दूसरे शोक से (भी) पीड़ित हो (वह) रोता नगर को चला।

^१ दो बुद्धों के बीच का समय।

(२) राजगृह में भिक्षाटन

बोधिसत्त्व भी प्रब्रजित हो उसी प्रदेश में, अनूपिया नामक कस्बे के ग्रामों के बाग में, एक सप्ताह प्रब्रज्या सुख में बिता, एक ही दिन में तीस योजन मार्ग पैदल चल कर, राजगृह में प्रविष्ट हुए। वहाँ प्रविष्ट हो भिक्षा माँगने के लिए निकले। जैसे धनपाल राजगृह में प्रविष्ट हुआ हो, जैसे असुरेन्द्र देवनगर में प्रविष्ट हुआ हो, वैसे ही बोधिसत्त्व के रूप को देख कर सारा नगर संक्षुब्ध हो गया। राज-पुरुषों ने जाकर राजा से कहा—“देव ! इस रूप का एक पुरुष नगर में मधूकरी साँग रहा है। वह देव है या मनुष्य, नाग है या गरुड़, कौन है हम नहीं जानते ?” राजा ने महल के ऊपर खड़े ही महापुरुष को देख आश्चर्या-न्विन हो, (अपने) आदमियों को आज्ञा दी—“जाओ ! देखो ! यदि अमनुष्य होगा, तो नगर से निकल कर अन्तर्धान हो जायगा। यदि देवता हाँगा, तो आकाश से चला जायगा, यदि नाग होगा तो पृथ्वी में डुबकी लगा कर चला जायगा। यदि मनुष्य होगा, तो जो भिक्षा मिली है, उसे खायेगा।” महापुरुष ने मिश्रित भोजन को संग्रह कर, ‘इतना मेरे लिए पर्याप्त होगा’ जान, प्रविष्ट हुए द्वार से ही (बाहर) निकल, पाण्डव-पर्वत^१ की छाया में पूरब-मुँह बैठ, भोजन करना आरम्भ किया। उस समय उनके आँत उलट कर मुँह से निकलते जैसे मालूम हुए। तब इस जन्म में, इससे पूर्व ऐसा भोजन आँख से भी न देखा होने से, उस प्रतिकूल भोजन से दुःखित हुए अपने आपको, अपने आप ही यों समझाया—

“सिद्धार्थ ! तू अन्न-पान सुलभ कुल में तीन वर्ष के (पुराने) सुगन्धित चावल का भोजन किये जाने वाले स्थान में पैदा होकर भी, गुदरोधारी (भिक्षु) को देख कर (सोचता था)—कि मैं भी कब इसी तरह (भिक्षु) बन कर भिक्षा माँग भोजन करूँगा ? क्या वह भी समय होगा ?—और यही सोच घर से निकला था। अब यह क्या कर रहा है ?” इस प्रकार अपने ही अपने आपको समझा कर निर्विकार हो भोजन किया। राज-पुरुषों ने उस वृत्तान्त को देख, जाकर राजा से कहा। राजा ने दूत की बात सुन, नगर से शीघ्र निकल, बोधि-

^१ वर्तमान रत्नगिरि या रत्नकूट ।

सत्त्व के पास जा, उनकी चर्या से ही प्रसन्न हो बोधिसत्त्व को (अपने) सभी ऐश्वर्य अर्पण किये। बोधिसत्त्व ने कहा—“महाराज ! मुझे न वस्तु-कामना है, न भोग-कामना। मैंने महान् बुद्ध-ज्ञान (=अभिसंबोधित) की प्राप्ति के लिए गृह-त्याग (=अभिनिष्क्रमण) किया है। राजा के बहुत तरह से प्रार्थना करने पर भी, उसका चित्त आकृष्ट न कर सकने पर, कहा—अच्छा ! तुम निश्चय से बुद्ध होंगे। बुद्ध होने पर पहले पहल हमारे राज्य में आना।” यह यहाँ संक्षेप में है। विस्तार “प्रब्रज्या का वर्णन करता हूँ, जिस प्रकार चक्षुमान् प्रब्रजित हुए” (इस प्रकार आरम्भ होने वाले) प्रब्रज्या-सूत्र^१ को अट्टकथा के साथ प्रब्रज्या सूत्र में देख कर जानना चाहिए।

(३) तपस्या

बोधिसत्त्व ने भी राजा को वचन दे, क्रमशः विचरण करते हुए, आलार कालाम तथा उट्टक राम-पुत्र के पास पहुँच समाधि (=समापत्ति) सीखी। फिर यह (समाधि) ज्ञान (=बोध) का रास्ता नहीं है, (सोच) उस समाधि भावना को अपर्याप्त समझ, देवताओं सहित सभी लोकों को अपना बल वीर्य दिवाने के लिए महान् प्रयत्न में लगने की इच्छा से, उरुबेला में पहुँच—“यह भूमि-भाग (=प्रदेश) रमणीय है” सोच, वहाँ रह महा-प्रयत्न करने लगे।

कौण्डिन्य आदि पाँच परिव्राजक भी, गाँव, शहर, राजधानी में भिक्षा-चरण करते, बोधिसत्त्व के पास वहाँ पहुँचे। ‘अब बुद्ध होंगे, अब बुद्ध होंगे’ इस आशा से, वह उनके छः वर्ष तक महा-प्रयत्न करने के समय, आश्रम की झाड़ू-बर्दारी आदि सेवाओं को करते, बोधिसत्त्व के पास रहे।

बोधिसत्त्व भी ‘अन्तिम दर्जे की दुष्कर-क्रिया करूँगा’ सोच (एक) तिल तण्डुलादि से भी काल-क्षेप करने लगे। (आगे चल कर) आहार ग्रहण करना सर्वथा छोड़ दिया। देवताओं ने रोम कूपों द्वारा (उनके शरीर में) श्रोत्र डाला। (तो भी) आहार के बिना बहुत दुबले होकर, उनका कनक-वर्ण शरीर काला पड़ गया। (शरीर में विद्यमान) महापुरुषों के बत्तीस-लक्षण छिप गये।

^१ सुत्त-निपात, मार-वग्ग।

एक बार श्वास-रहित ध्यान करते समय, काय क्लेश से बहुत ही पीड़ित (एवं) बेहोश हो टहलने के चबूतरे (=चंक्रमण-भूमि) पर गिर पड़े। तब कुछ देव-ताम्रों ने कहा, 'श्रमण गीतम मर गये।' कुछ ने कहा 'अर्हत-व्यक्ति का विहरण (=चर्या) ऐसा ही होता है।' तब जिन (देवताओं) का विचार था कि (श्रमण गीतम) मर गये, उन्होंने जाकर राजा शुद्धोदन से कहा—“तुम्हारा पुत्र मर गया।”

मेरे पुत्र ने 'बुद्ध' होने के पश्चात् शरीर छोड़ा अथवा 'बुद्ध' होने से पूर्व ही शरीर छोड़ दिया ?”

“'बुद्ध' न हो सका। प्रयत्न-भूमि में, (प्रयत्न करते हुए ही) गिर कर मर गया।”

यह सुन कर राजा ने (इस बात का) विरोध किया—“मैं इसमें विश्वास नहीं करता। 'बुद्ध' हुए बिना मेरे पुत्र की मृत्यु होने वाली नहीं।”

राजा ने किस लिए विश्वास नहीं किया ? तपस्वी काल देवल के वन्दना करने के दिन तथा जम्बू-वृक्ष के नीचे अलौकिक घटनाएँ देखे रहने के कारण। होश में आकर, बोधिसत्त्व के उठ बैठने पर, उन देवताओं ने फिर महाराज शुद्धोदन को जाकर कहा—“महाराज ! तुम्हारा पुत्र सकुशल है।” राजा ने कहा—“हाँ ! मैं अपने पुत्र के जीवित रहने की बात जानता हूँ।” महासत्त्व की छः वर्ष की दुष्कर तपस्या आकाश में गाँठ बाँधने के समान (निष्फल) हुई। तब उन्होंने सोचा—“यह दुष्कर तपस्या बुद्धत्व-प्राप्ति का मार्ग नहीं है।” (इसलिए) स्थूल आहार ग्रहण करने के लिए ग्रामों तथा नगरों में भिक्षाटन कर, भोजन करना आरम्भ कर दिया। (शरीर के) बत्तीस महापुरुष-लक्षण (फिर) स्वाभाविक अवस्था में आ गये। शरीर फिर सुवर्ण-वर्ण हो गया। पच वर्गीय भिक्षुओं ने सोचा—छः वर्ष तक दुष्कर तपस्या करके भी यह सर्व-ज्ञता को प्राप्त नहीं कर सका, अब ग्रामादि में भिक्षा माँग कर स्थूल आहार ग्रहण करता हुआ तो यह क्या ही कर सकेगा ? यह लालची है। तपस्या के मार्ग से भ्रष्ट है। जैसे शिर से नहाने की इच्छा रखने वाले के लिए ओस-बुँद की ओर ताकना (निष्फल) है, वैसे ही हमारा इसकी ओर ताकना (=आशा रखना) है। इससे हमारा क्या मतलब (सिधेगा) ? ऐसा सोच महापुरुष

को छोड़, अपने अपने पात्र चीवर ले, अठारह योजन चल कर ऋषिपतन^१ पहुँचे ।

(४) सुजाता की खीर

उस समय उरुबेला (प्रदेश) के सेनानी नामक कस्बे में, सेनानी कुटुम्बी के घर में उत्पन्न सुजाता नाम की कन्या ने तरुणी (वयस्-प्राप्त) होने पर, एक बरगद के वृक्ष से सुख सुख रक्खी थी (—प्रार्थना की थी)—“यदि समान जाति के कुल-धर मे जा, पहले ही गर्भ में पुत्र लाभ करूँगी, तो प्रति वर्ष एक लाख के खर्च से तेरी पूजा (—बलि कर्म) करूँगी” उसकी वह प्रार्थना पूरी हुई । महासत्व (—महापुरुष) की दुप्कर तपश्चर्या का छठा वर्ष पूरा होने पर, वैशाख पूर्णिमा के दिन बलि-कर्म करने की इच्छा से, उसने पहले हज्जार गायों को यष्टि-मधु (—जेठी मधु) के बन में चरवा कर, उनका दूध दूसरी पाँच सौ गायों को पिलवाया । (फिर) उनका दूध ढाई सौ गायों को; इस तरह (एक का दूध दूसरे को पिलाते) १६ गायों का दूध आठ गायों को पिलवाया । इस प्रकार दूध का गाढ़ापन, मधुरता, और ओज (बढ़ाने के लिए) उसने क्षीर-परिवर्तन किया । उसने वैशाख-पूर्णिमा के प्रातः ही बलि-कर्म करने की इच्छा से भिन-सार को उठ कर, उन आठ गायों को दुहवाया । बछड़ों ने गीवों के थनों को मुँह नहीं लगाया । थनों के पास नवीन बरतन के लाते ही, क्षीर-धारा अपने आप ही निकलने लगी । उस आश्चर्य को देख, सुजाता ने, अपने ही हाथ से दूध को लेकर, नवीन बरतन में डाल, अपने ही हाथ से आग जला (खीर) पकाना आरम्भ किया । उस खीर के पकते समय, (उसमें) बड़े बड़े बुलबुले उठ कर दक्षिण की ओर (हों) संचार करते थे । एक बुलबुला भी बाहर नहीं गिरता था । चूल्हे से ज़रा सा भी धुआँ नहीं उठता था । उस समय चारों लोकपालों ने आकर चूल्हे पर पहरा देना शुरू किया । महान्नह्मा ने छत्र धारण किया । शक्र (—इन्द्र) ने ईंधन ला ला आग जलाई । देवताओं ने दो सहस्र द्वीप परिवारों और चारों महाद्वीपों के देवताओं और मनुष्यों के योग्य ओज, अपने देव-प्रताप से, डण्डे पर लगे हुए मधु-द्धत्ते को निचोड़ कर मधु ग्रहण करने की तरह,

^१ सारनाथ (B. N. W. RY), जि० बनारस ।

एकत्र कर उसमें डाला। और समय पर देवता ओज को कौल, कौल (=कवल) में डालते हैं। लेकिन सम्बुद्धत्व-प्राप्ति के दिन और परिनिर्वाण के दिन ऊरवसी (=देगची) में ही उँडेल देते हैं।

एक ही दिन में अनेक आश्चर्यों को प्रकट हुआ देख, सुजाता ने (अपनी) पूर्णा (नाम की) दासी को कहा—“अम्मा पूर्णो! आज हमारे देवता बहुत ही प्रसन्न हैं। मैंने इससे पहले, इतने समय तक (कभी) इस प्रकार का आश्चर्य नहीं देखा। जल्दी से जाकर देवस्थान को साफ़ करो” “आर्य्यो! अच्छा” कह उसके वचन को ग्रहण कर, वह जल्दी जल्दी वृक्ष के नीचे पहुँची। बोधिसत्त्व भी, उस रात को पाँच महास्वप्न देख, “आज मैं निःसंशय बुद्ध होऊँगा” निश्चय कर उस रात के बीतने पर, शौच आदि से निवृत्त हो, भिक्षा-काल की प्रतीक्षा करते हुए, प्रातःकाल ही आकर, अपनी प्रभा से सारे वृक्ष को प्रकाशित करते हुए, उस वृक्ष के नीचे बैठे। पूर्णा ने आकर देखा कि बोधिसत्त्व वृक्ष के नीचे बैठे हैं और पूर्व की ओर ताक रहे हैं। उनके शरीर से निकलने वाली प्रभा के कारण सारा वृक्ष प्रकाशित है। (यह) देख कर उसने सोचा—“आज हमारे देवता वृक्ष से उतर कर अपने ही हाथ से बलि ग्रहण करने को बैठे हैं” (इसलिए) उद्विग्न हो, उसने बहुत जल्दी से यह (बात) जाकर सुजाता से कही।

सुजाता ने उसकी बात को सुन कर प्रसन्न हो, “आज से तू मेरी ज्येष्ठ-पुत्री बन कर रह” कह, (अपनी) लड़की के योग्य सब आभरण आदि उसको दिये।

‘बुद्धत्व प्राप्ति के दिन लाख के मूल्य का सुवर्ण-थाल मिलना चाहिए’ इसलिए (सुजाता ने खीर) को सोने की थाल में डालने का विचार कर, लाख के मूल्य का सोने का थाल मँगवा कर, उसमें खीर डालने की इच्छा से पके वरतन पर ध्यान दिया। पन्न-गुण्य में रक्खे पानी की तरह, सारी खीर उलट कर, थाल में आ पड़ी। और वह (खीर) ठीक एक थाल भर ही हुई। वह उस सुवर्ण-थाल को दूसरे सुवर्ण-थाल से ढक, कपड़े से बाँध, अपने को सब अलकारों से अलकृत कर, थाल को अपने सिर पर रख, बड़े वैभव के साथ न्यग्रोध-वृक्ष के नीचे गई और बोधिसत्त्व को देख बहुत ही सन्तुष्ट हो, (उन्हे) वृक्ष का देवता समझ, (प्रथम) दिखाई पड़ने की जगह में ही (गौरवार्थ) झुक झुक कर जा, सिर से थाल को उतार कर खोला। फिर सोने की झारी में सुगन्धित पुष्पों से सुवासित जल ले, बोधिसत्त्व के पास जा खड़ी हुई। घटिकार महाब्रह्मा द्वारा

दिया गया मिट्टी का पात्र (=भिक्षा पात्र) इतने समय तक बराबर बोधिसत्त्व के पास रहा, लेकिन इस समय वह अदृश्य हो गया। बोधिसत्त्व ने पात्र को न देख कर, दाहिने हाथ को फैला जल ग्रहण किया। सुजाता ने पात्रसहित खीर को महापुरुष के हाथ में अर्पण किया। महापुरुष ने सुजाता की ओर देखा। उसने संकेत से जान कर—“आर्य ! मैंने तुम्हें यह प्रदान किया, इसे ग्रहण कर यथारुचि पधारिये” कह, वन्दना कर (फिर) “जैसा मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, वैसा ही तुम्हारा भी पूरा हो” कह, लाख (मुद्रा) के मूल्य के उस सुवर्ण थाल को लिये पुरानी पत्तल की भाँति ज़रा भी ख्याल न कर चल दी।

बोधिसत्त्व न्यग्रोध के नीचे बैठे हुए स्थान से उठ, वृक्ष की प्रदक्षिणा कर, थाल को ले, नेरञ्जरा के तीर पर गये। वहाँ लाखों बोधिसत्त्वों के बुद्धत्व-प्राप्ति के दिन, उतर कर नहाने योग्य, सुप्रतिष्ठित तीर्थ है; वहाँ किनारे पर थाल को रख कर, उतर नहा कर अनेक लाख बुद्धों का पहरावा अर्हंत-ध्वजा (=चीवर) पहन कर, पूर्व दिशा की ओर मुँह कर बैठ, एक (ही) बीज वाले पके ताल-फल के प्रमाण के, उनचास कवल (पिण्ड) करके, उस समस्त निर्जल मधुर-खीर का भोजन किया। यही आहार बुद्धत्व-प्राप्ति होने पर, बोधि-मण्ड में सात-सप्ताह तक बैठे रहने के समय, उनचास दिन का आहार हुआ। इनके समय तक न दूसरा आहार किया, न नहाया, न मुँह धोया, न (अन्य) शारीरिक कृत्य किए। (इन सप्ताहों को) ध्यान-सुख, मार्ग (-लाभ) सुख तथा फल (=दुःख-क्षय) सुख में ही व्रिताया। हों, उस खीर को खा, सोने के थाल को ले, “यदि मैं बुद्ध हो सकूँ, तो यह थाल पानी के स्रोत की तरफ़ चले; यदि न हो सकूँ तो नीचे की ओर जाये” कह कर, (नदी में) फेंक दिया। वह थाल धार चीर कर, नदी के बीच जा, बीचों बीच ही वेगवान् घोड़े की तरह, अस्सी हाथ (की दूरी) तक स्रोत से उलटा चला और एक गढ़े में डूब कर, काल नाग राज के भवन में जा, तीनों बुद्धों के उपयोग किये थालों से टकरा कर छन-छन (किल-किल) शब्द करता हुआ, उन सब थालों के नीचे जाकर बैठ गया। काल-नाग-राजा उस शब्द को सुन कर, “कल (भी) एक बुद्ध उत्पन्न हुआ था, आज फिर एक बुद्ध उत्पन्न हुआ है” (सोच) अनेक सौ श्लोकों से प्रशंसा करता रहा। उस (नाग-राज) को पृथ्वी का एक योजन तीन गव्यूति मोटा (?) हो जाने का समय ‘आज’ या ‘कल’ की तरह ही था।

बोधिसत्त्व भी नदी तीर के सुपुष्पित शाल वन में दिन बिता कर, शाम को डंठल से फूलों के गिरने के समय, देवताओं द्वारा अलंकृत, आठ ऋषभ चौड़े मार्ग से, सिंह-गति से बोधि-वृक्ष के पास गए। नाग-यक्ष, गरुड़ आदि ने दिव्य गन्ध तथा पुष्पों से पूजा की। दिव्य संगीत का गायन किया। दस सहस्र लोक सर्वत्र सुगन्धित किये। एक समान माला (अलंकृत) एक समान 'साधु साधु' के शब्द से गूँजित हुई। उस समय, सामने से घास लिये आते हुए सोत्थिय नामक घास काटने वाले ने, महापुरुष के आकार को देख कर, उन्हें आठ मुट्ठी तृण दिया। बोधिसत्त्व तृण ले, बोधिमण्ड पर चढ़ दक्षिण-दिशा में उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हुए। उस समय दक्षिण चक्रवाल दब कर, मानो अवीचि (नरक) तक नीचे चला गया; उत्तर-चक्रवाल ऊपर उठ कर, मानों भवाग्र तक ऊपर चला गया। "मालूम होता है, यहाँ सम्बुद्धत्व नहीं प्राप्त होगा" सोच, बोधिसत्त्व प्रदक्षिणा करते हुए, पश्चिम दिशा की ओर जा पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हुए। तब पश्चिम चक्रवाल दब कर, मानों अवीचि (नरक) तक नीचे चला गया। पूर्व-चक्रवाल ऊपर उठ कर, मानों भवाग्र तक ऊपर चला गया। वह जहाँ जहाँ जाकर ठहरे, वहाँ वहाँ नेमियों को लम्बे करके, नाभी के महारे लिटाये हुए, शकट के पहिए के सदृश महापृथ्वी ऊँची नीची हो उठी। "मालूम होता है, यहाँ भी बोधि (=ज्ञान) की प्राप्ति नहीं होगी" सोच, बोधिसत्त्व प्रदक्षिणा करते उत्तर दिशा की ओर जा दक्षिण की ओर मुँह कर खड़े हुए। तब उत्तर का चक्रवाल दब कर, मानो अवीचि (नरक) तक नीचे चला गया, दक्षिण चक्रवाल ऊपर उठ कर, मानो भवाग्र (लोक) तक ऊपर उठ गया। मालूम होता है, यह भी बुद्धत्व-प्राप्ति का स्थान न होगा" सोच, बोधिसत्त्व प्रदक्षिणा करने पूर्व दिशा की ओर जा, पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हुए। पूर्व-दिशा, सभी बुद्धों के बैठने का स्थान है इसलिए न हिलती है, न कांपती है। "यह सभी बुद्धों से अपरित्यक्त स्थान है, (यही) दुःख-पञ्जर के विध्वंसन का स्थान है"—जान, (बोधिसत्त्व ने) उन कुशों के छोरों को पकड़ कर हिलाया। उसी समय चौदह हाथ का आसन बन गया; और वह तृण ऐसे (सुन्दर) रूप से बैठ गये, जैसे (सुन्दर) रूप से कोई चतुर चित्रकार अथवा शिल्प (पोथ्य)-कार चित्रित नहीं कर सकता। बोधिसत्त्व ने बोधिवृक्ष को भी पीठ की ओर करके, दृढ़-चित्त हो निश्चय किया—“चाहे मेरा चमड़ा, नसें, हड्डी ही क्यों न

बाकी रह जायें; (और) शरीर-मांस, रक्त सूख जाये, तो भी यथार्थ ज्ञान को प्राप्त किये बिना इस आसन को नहीं छोड़ेंगा” और सौ बिजलियों के गिरने से भी न टूटने वाले अपराजित आसन लगा बैठ गये ।

(५) मार पराजय

उस समय मार देव-पुत्र ने सोचा—“सिद्धार्थ-कुमार मेरे अधिकार से बाहिर निकलना चाहता है, इसे नहीं जाने दूँगा”—और अपनी सेना के पास जा, यह बात कह, घोषणा करवा कर, अपनी सेना से निकल पड़ा । मार के आगे की ओर वह सेना बारह योजन तक; दाईं ओर बाईं ओर भी बारह बारह योजन तक; (लेकिन) पीछे की ओर चक्रवाल के अन्त तक फँली हुई थी । आसमान की ओर नौ योजन तक ऊँची थी । जय-घोष करने पर (उसका) जय-घोष एक हजार योजन दूर से भी पृथ्वी के फटने के शब्द की भाँति सुनाई देता था । तब मार देव-पुत्र ने डेढ़ सौ योजन के गिरिमेखल नामक हाथी पर चढ़ कर, सहस्रबाहु से नाना प्रकार के आयुधों को ग्रहण किया । मार-सेना के बाकी लोगों में से भी, किसी दो ने एक प्रकार के हथियार नहीं लिये । वे सब नाना प्रकार के रंग तथा मुख वाले बन कर बोधिसत्त्व को डराते हुए आये । उस समय दस सहस्र चक्रवालो के देवता महासत्त्व की स्तुति करते रहे । देवेन्द्र शक्र अपने विजयोत्तर-शङ्ख को फूँकता रहा । वह शङ्ख एक सौ बीस हाथ का था । एक बार फूँक देने से चार महीने तक बज कर निःशब्द होता था । महाकाल नाग-राजा शेष सौ श्लोकों से गुणगान कर रहा था । महाब्रह्मा स्वर्ण छत्र लिये खड़ा था । (लेकिन) मार-सेना के बोधि-मण्ड तक पहुँचते पहुँचते (देव-सेना) में (से) एक भी खड़ा न रह सका; (सभी) सामने आते ही भाग गये ।

काल-नाग-राज पृथ्वी में अन्तर्धान हो कर, पाँच सौ योजन वाले अपने मञ्जेरिक नाग-भवन में जा, दोनों हाथों से मुँह को ढँक, लेट रहा । शक्र विजयोत्तर-शङ्ख को पीठ पर रख कर चक्रवाल के प्रधान द्वार पर जा खड़ा हुआ । महाब्रह्मा स्वर्ण छत्र को चक्रवाल के सिरे पर रख (अपने आप) ब्रह्म-लोक को भाग गया । एक भी देवता न ठहर सका । महा-पुरुष अकेले ही बैठे रहे । मार ने भी अपने अनुचरो से कहा—“तात ! शुद्धोदन-पुत्र सिद्धार्थ के समान दूसरा (कोई) वीर नहीं है । हम सामने से इससे युद्ध नहीं कर सकेंगे (इसलिए)

पीछे से चल कर करें।” महापुरुष ने भी सब देवताओं के भाग जाने के कारण तीनों दिशाओं को खाली देखा। फिर उत्तर-दिशा की ओर से मार-सेना को आगे बढ़ते देख—“यह इतने लोग मेरे अकेले के विरुद्ध इतने प्रयत्नशील हैं। आज यहाँ माता, पिता, भाई या दूसरा कोई सम्बन्धी नहीं है। मेरी दस पारमिताएँ ही चिरकाल से परिशोधित मेरे परिजन के समान हैं। इसलिए इन पारमिताओं को ही ढाल बना कर, (इस) पारमिता-शस्त्र को ही चला कर, मुझे यह सेना-समूह विध्वंस करना होगा।” (यह सोच) दस पारमिताओं का स्मरण करते हुए बैठे रहे।

तब मार देव-पुत्र ने सिद्धार्थ को भगाने की इच्छा से आधी उत्पन्न की। तत्काल (उसी क्षण) पूर्व, पश्चिम से भ्रमावात उठ कर, अर्ध-योजन, (योजन), दो योजन और तीन योजन तक के पर्वत-शिखरों को उखाड़ती, वृक्षों को उन्मूलन करती, चारों ओर ग्राम-नगरो को चूर्ण विचूर्ण करती आगे बढ़ी। किंतु महापुरुष के पुण्य-तेज से उसकी प्रचंडता बोधिसत्त्व के पास पहुँचते पहुँचते (इतनी निर्बल हो गई कि) उनके चीवर का कोना भी न हिला सकी। तब पानी में डुबाने की इच्छा से उसने भयकर महा-वर्षा शुरू की। उसके दिव्य बल से ऊपर सी (फिर) हज़ार तहों वाले बादल बरसने लगे। वर्षा की धाराओं के जोर से पृथ्वी में छेद पड़ गये। वन-वृक्षों की ऊपरी चोटियों तक वाढ़ आ गई, तो भी, (वह) महासत्त्व के चीवरो को ओस की बूंदों के समान भी न भिगो सका। उसके बाद पत्थरों की वर्षा की। बड़े बड़े धुआँ-धार जलते दहकते पर्वत-शिखर आकाश-मार्ग से आये, लेकिन बोधिसत्त्व के पास पहुँच कर दिव्य-पुष्पों के गुच्छे बन गये। उसके बाद आयुध-वर्षा आरम्भ की। एक धार, द्विधार, अग्नि (=तलवार), शक्ति, तीर आदि प्रज्वलित आयुध आकाश मार्ग से आने लगे; (लेकिन) बोधिसत्त्व के पास पहुँच कर (वह भी) दिव्य-पुष्प बन गये। उसके बाद अज्ञारों की वर्षा की। लाल लाल रंग के अज्ञार आकाश से बरसने लगे; (लेकिन) बोधिसत्त्व के पैरों पर वह दिव्य-फूल बन कर बिखर गये। उसके बाद राख की वर्षा की। अत्यन्त उष्ण अग्निचूर्ण आकाश से बरसने लगा, (लेकिन) बोधिसत्त्व के चरणों पर वह चन्दन-चूर्ण बन कर गिर पड़ा। तब रेत की वर्षा की। धुंधवाती, प्रज्वलित, अग्नि मूक्षम बालुका आकाश से बरसने लगी, (लेकिन) बोधिसत्त्व के चरणों पर वह दिव्य-

पुष्प बन गिर पड़ी। तब कीचड़ की वर्षा की। धुंधवाता प्रज्वलित कीचड़ आकाश से बरसने लगा; (लेकिन) बोधिसत्त्व के पैरों पर वह दिव्य-लेप बन गिर पड़ा। तब मार देव-पुत्र ने कुमार को भगाने की इच्छा से अन्धकार कर दिया। वह अन्धकार चारों तरहू से घनघोर अन्धकार था, तो (भी) बोधिसत्त्व के पास पहुँच, सूर्य प्रभा से विनष्ट अँधेरे की भाँति अन्तर्धान हो गया।

इस प्रकार मार जब वायु, वर्षा, पाषाण, हथियार, धधक्ती राख, बालू, कीचड़, अन्धकार की वर्षा से (भी) बोधिसत्त्व को न भगा सका तो (अपनी परिषद् से बोला)—“ भणे ! क्या खड़े हो। इस कुमार को पकड़ो, मारो, भगाओ” और इस प्रकार परिषद् को आज्ञा देकर, अपने आप गिरिमेखल हाथी के कन्धे पर बैठ, (अपने) चक्र को ले, बोधिसत्त्व के पास पहुँच कर बोला—“सिद्धार्थ ! इस आसन से उठ, यह (आसन) तेरे लिए नहीं, मेरे लिए है।” महासत्त्व ने उसके वचन को सुन कर कहा—“मार ! तू ने न दस पारमिताएँ पूरी कीं, न उपपारमिताएँ, न परमार्थ-पारमिताएँ ही, न तूने पाँच महात्याग ही किये, न ज्ञातिहित न लोक-हित काम किये, न ज्ञान का आचरण किया। यह आसन तेरे लिए नहीं, मेरे ही लिए है।”

मार अपने क्रोध के वेग को न रोक सका; और उसने महापुरुष पर चक्र चलाया। महापुरुष ने (अपनी) दस पारमिताओं का स्मरण किया; और उनके ऊपर, वे आयुध फूलों का चँदवा बन कर ठहर गये। यह वही तेज चक्र था, जिसे यदि और दिनों, मार क्रुद्ध होकर फेंकता तो एक ठोस पाषाण-स्तम्भ को बाँसों के कड़ीर की तरह सँड खड कर देता। जब वह बोधिसत्त्व के लिए मालाओं का चँदवा बन गया, तब बाकी मार-परिषद् ने आसन से भगाने के लिए बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएँ फेंकी। वह पत्थर की शिलाएँ भी, दस पारमिताओं का स्मरण करते ही महापुरुष के पास आ कर, पुष्प मालाएँ बन कर, पृथ्वी पर गिर पड़ी।

चक्रनाल के किनारे पर खड़े देवता-गण गर्दन पसार पसार सिर उठा उठा कर देख रहे थे। “भो ! सिद्धार्थ-कुमार का सुन्दर स्वरूप नष्ट हो गया। अब वह क्या करेगा ?” ‘पारमिताओं को पूरा करने वाले बोधिसत्त्वों के बुद्धत्व-प्राप्ति के दिन (जो) आसन प्राप्त होता है, वह मेरे लिए ही है’ कहने वाले मार से महापुरुष ने पूछा, “मार ! तेरे दान देने का कौन साक्षी है ?”

मार ने मार-सेना की ओर हाथ पसार कर कहा—“यह इतने जने साक्षी हैं।” उस समय “मैं साक्षी हूँ” “मैं साक्षी हूँ” कह कर मार-परिषद् ने जो शब्द किया, वह पृथ्वी के फटने के शब्द के समान था। तब मार ने महापुरुष से पूछा—‘सिद्धार्थ ! तूने दान दिया है, इसका कौन साक्षी है ?’ महापुरुष ने कहा, “तेरे दान देने के साक्षी तो जीवित-प्राणी (=सचेतन) हैं लेकिन इस स्थान पर मेरे दान (दिये) का कोई जीवित साक्षी नहीं। हमारे जन्मो में दिये दान (की बात) रहने दे। वेस्सन्तर-जन्म के समय मेरे द्वारा सात सप्ताह दिये गये दान की यह अचेतन ठोस महापृथ्वी भी साक्षिणी है, (और फिर) चीवर के भीतर से दाहिने हाथ को निकाल, “वेस्सन्तर-जन्म के समय मेरे द्वारा सात सप्ताह तक दिये गये दान की तू साक्षिणी है वा नहीं ?” कह, महापृथ्वी की ओर हाथ लटकाया। महापृथ्वी ने “मैं तेरी तब की साक्षिणी हूँ”, (इस प्रकार) सौ वाणी से, सहस्र वाणी से, लाख वाणी से, मार-बल को तितर-बितर करते हुए महा-नाद किया।

तब मार ने ‘सिद्धार्थ ! तूने महादान दिया, उत्तम दान दिया है’ कहा। वेस्सन्तर के दान पर विचार करते करते डेढ़ सौ योजन के शरीर वाले गिरिमेखल हाथी ने (दोनो) घुटने टेक दिये। मार-सेना दिशाओं विदिशाओं की ओर भाग निकली। एक मार्ग से दो जनों का जाना नहीं हुआ। वे शिर के आभरण तथा पहने वस्त्रों को छोड़, जिधर मुँह समाया, उधर ही भाग निकले।

देव-गण ने भागती हुई मार-सेना को देख सोचा—‘मार की पराजय हुई, सिद्धार्थ-कुमार विजयी हुए। (आओ हम चलकर) विजयी की पूजा करे।’ फिर नागों ने नागों को, गरुड़ों ने गरुड़ों को, देवताओं ने देवताओं को, ब्रह्माओं ने ब्रह्माओं को (सन्देश) भेजा और हाथ में गन्ध माला ले, महापुरुष के पास, बोधि आसन के पास पहुँचे। इस प्रकार उनके वहाँ पहुँचने पर.—

उस समय प्रभुवित हो नाग-गण ने, “यह श्रीमान् बुद्ध की जय (हुई) और पापी मार पराजित हुआ” (कह) बोधिमण्ड में महर्षि की विजय उद्घोषित की।

उस समय प्रसन्न हो गरुड़ ने “यह श्रीमान् बुद्ध की जय (हुई), और पापी मार पराजित हुआ” (कह) बोधिमण्ड में महर्षि की विजय उद्घोषित की।

उस समय आनन्दित हो देव-गण ने “यह श्रीमान् बुद्ध की जय (हुई) और पापी मार पराजित हुआ” (कह) बोधिमण्ड में महर्षि की विजय उद्घोषित की।

उस समय आनन्दित हो ब्रह्माओं ने “यह श्रीमान् बुद्ध की जय (हुई) और पापी मार पराजित हुआ” (कह) बोधिमण्ड में स्थिर-चित्त (बुद्ध) की विजय उद्घोषित की।

शेष दस हजार चक्रवालों के देवता, माजा-गन्ध-विलेपन से पूजा कर, नाना प्रकार की स्तुतियाँ करने लगे।

(६) बुद्ध-पद का लाभ

इस प्रकार महापुरुष ने सूर्य के रहते रहते मार-सेना को परास्त किया। चीवर के ऊपर, गिरते हुए, बोधिवृक्ष के अंकुर गिर रहे थे; जान पड़ता था, लाल मूँगों की (वर्षा से उनकी) पूजा हो रही है।

प्रथम याम में उन्हें पूर्व-जन्मों का ज्ञान हुआ; दूसरे याम में दिव्य-चक्षु विशुद्ध हुआ; और अन्तिम याम में उन्होंने प्रतीत्य-समुत्पाद^१ का साक्षात्कार किया।

सो उनके बारह-पदों के प्रत्यय-स्वरूप (प्रतीत्य-समुत्पाद) को आवर्त-विवर्त की दृष्टि से, सीधे (=अनुलोम) उलटे (=प्रतिलोम), विचार करते हुए, दस सहस्र लोक-धातु (=ब्रह्माण्ड), पानी की सतह तक, बारह बार काँपी।

महापुरुष ने दस सहस्र लोक-धातुओं को उन्नादित कर, दिन की लाली फटते समय बुद्धत्व (=सर्वज्ञता) का साक्षात्कार किया। उस समय, सारे दस सहस्र लोक-धातु सु-अलकृत थे। पूर्व चक्रवाल के छोर पर ध्वजाएँ फहरा रही थीं। इन पताकाओं की प्रभाये पश्चिम चक्र-वाल के छोर तक पहुँच रही थीं। इसी प्रकार पश्चिम चक्र-वाल के छोर पर फहराती (ध्वजाओं की प्रभाओं से) पूर्व चक्रवाल के छोर (प्रभासित हो रहे थे)। उत्तर चक्रवाल के छोर पर फहराती उत्तेजित ध्वजाये दक्षिण चक्रवाल के छोर को प्रभासित कर रही थीं। दक्षिण-चक्रवाल के छोर पर उड़ाई (पताकाओं की प्रभा) उत्तर चक्रवाल के छोर तक पहुँच रही थी। पृथ्वी तल पर उठाई गई ध्वजा पताकायें, ब्रह्म-लोक को छू रही थीं; और ब्रह्मलोक में उठाई पताकायें पृथ्वी तल पर पहुँच रही थीं। दस सहस्र चक्रवाल में फूलदार वृक्षों पर फूल खिल गये, फलदार वृक्ष फलों के भार से लद गये। (वृक्षों के) स्कन्ध में स्कन्ध-कमल खिल गये। शाखाओं

^१ देखो, महा-निदान-सुत्त (शीर्घ-निकाय)।

में शाखा-कमल, लताओं में लता-कमल, आकाश में लटकने वाले कमल और शिला-तल को फोड़ कर ऊपर ऊपर सात सात होकर (खिलने वाले) दण्डक-पुष्प भी (खिल) उठे ।

दस सहस्र लोक धातु घुमा कर रक्खी हुई माला के सदृश या सुप्रसारित पुष्प-शय्या के सदृश हो गये थे । चक्रवालों के बीच के आठ सहस्र 'लोकान्तर' (जो) पहले सात सूर्यों के प्रकाश से भी प्रकाशित नहीं होते थे; (अब) चारों ओर प्रकाश से प्रकाशित (=एको भासा) हो रहे थे । चौरासी हज़ार योजन गहरा महासमुद्र मीठे जल वाला हो गया था । नदियों का बहना रुक गया । जन्मान्ध को रूप दिखाई देने लगा था । जन्म के बहरे शब्द सुनने लगे थे । जन्म के पगु पाँव से (चलने) लग गये थे । (बंदियों की) हथकड़ी, बेड़ी आदि बन्धन टूट कर गिर पड़े । इस प्रकार अनन्त प्रभा-शोभा से पूजित (हो) अनेक प्रकार की आश्चर्यकर घटनाएँ घटित हो रही थी ।

तब बुद्ध ने बुद्धत्व-ज्ञान का साक्षात् कर, सभी बुद्धों द्वारा कहे गये उदान (प्रीति-वाक्य) को कहा है :—

“दुःखदायी जन्म बार बार लेना पड़ा । मैं संसार में (शरीर रूपी गृह को बनाने वाले) गृह-कारक को पाने की खोज में निष्फल भटकता रहा । लेकिन गृह-कारक ! अब मैंने तुझे देख लिया । (अब) तू फिर गृह निर्माण न कर सकेगा । तेरी सब कड़ियाँ टूट गईं, गृह-शिखर बिखर गया । चित्त निर्वाण प्राप्त हो गया; तृष्णा का क्षय देख लिया ।”

यह तुषित देवलोक से आरम्भ करके यहाँ बोधिमण्ड मे बुद्धत्व (=सर्व-ज्ञता) प्राप्ति तक की बात 'अविदूरे निदान' कही जाती है ।

ग. सन्तिके निदान

(१) बोधि-वृक्ष के आसपास

लेकिन 'सन्तिके निदान' (क्या है) ? “भगवान् श्रावस्ती' में अनाथ

^१ बलरामपुर से १० मील पर वर्तमान सहेट महेट (जि० गोण्डा, युक्त-प्रान्त) ।

विण्डिक के आराम जेतवन में विहार करते थे”। वैशाली^१ में महावन की कूटागार शालामें विहार करते थे।” इस प्रकार उन उन स्थानों पर विहार करते समय का वृत्तान्त उन उन स्थानों पर ही मिलता है। जो कुछ इस विषय में कहा गया है, उसे भी आरम्भ से इस प्रकार समझना चाहिए :—

उस उदान (=प्रीति वाक्य) को कह कर (वहाँ) बैठे भगवान् के मन में हुआ—“मैं इस (बुद्ध) आसन के लिए चार असंख्येय एक लाख कल्प दौड़ता रहा; इसी आसन के लिए मैंने इतने समय तक, अपने अलंकृत सीस को गर्दन से काट कर दिया; सुअञ्जित आँखों और हृदय-मांस को निकाल कर प्रदान करता रहा; जालिय कुमार सदृश पुत्र, कृष्णाजिना कुमारी सदृश पुत्री माद्रीदेवी सदृश भार्या को दूसरों के दास बनने के लिए दिया। मेरा यह आसन., जय-आसन है, श्रेष्ठासन है। यहाँ (इस आसन) पर बैठे मेरे सङ्कल्प पूरे हुए हैं। अभी मैं यहाँ से नहीं उठूँगा” (यह सोच) दसों खरब समापत्तियों (=ध्यानों) में रत, सप्ताह भर तक वही बैठे रहे। इसीके बारे में कहा है—“भगवान् सप्ताह-भर तक एक ही आसन से विमुक्ति सुख का आनन्द लेते हुए बैठे रहे।”^२

तब कुछ देवताओं के मन में ऐसा सन्देह उत्पन्न हुआ, ‘सिद्धार्थ कुमार को अभी भी (कुछ योग) करना बाकी है। इसीसे वह आसन के मोह को नहीं छोड़ता है।’ शास्ता ने देवताओं के संदेह को जान, उसे हटाने के लिए, आकाश में जाकर यमक-प्रातिहार्य^३ दिखाई। महाबोधि-मण्ड में की गई यह प्रातिहार्य, (देह-)सम्बन्धियों के समागम के समय पर की गई प्रातिहार्य, और पाटिकपुत्र (परिव्राजक) के समागम पर की गई प्रातिहार्य—ये सब प्रातिहार्य, गण्डम वृक्ष के नीचे की गई यमक-प्रातिहार्य जैसी ही हुई थीं। इस प्रकार इस प्रातिहार्य से देवताओं के संदेह को दूर कर, शास्ता ने (वज्र-) आसन से ज़रा थोड़ा

^१ बसाढ (जि० मुञ्जपूरपुर) के प्रायः २ मील उत्तर वर्तमान कोल्हूआ, जहाँ आज अशोक-स्तम्भ खड़ा है।

^२ विनयपिटक, महावग्ग।

^३ दिव्य-चमत्कार।

पूर्व की ओर 'उत्तर-दिशा भाग' में खड़े हो सोचा—'इस स्थान पर मैंने सर्वज्ञता-ज्ञान प्राप्त किया।' फिर चार अक्षय्य एक लाख कल्प तक पूरी की गई पारमिताओं की फल प्राप्ति के स्थान को निनिमेष दृष्टि से देखते सप्ताह बिता दिया। इसीलिए स्थान का नाम 'अनिमिस-चेतिय' (=अनिमेष चैत्य) हो गया।

तब (वज्र-)आसन और खड़े होने के स्थान के बीच की भूमि को चक्रमण-भूमि बना, पूर्व से पश्चिम को रत्न भर चौड़े, रत्न-चक्रमण पर चक्रमण करते हुए सप्ताह बिताया। उस स्थान का नाम 'रत्न-चक्रमण चेतिय' पड़ा।

चौथे सप्ताह में, देवताओं ने बोधि से पश्चिमोत्तर दिशा में रत्न-धर बनाया। वही (शास्ता ने) आसन पर बैठे, अभिधर्म-पिटक को—विशेष रूप से अनन्त क्रम वाले समन्त पट्टान^१ को विचारते हुए सप्ताह बिताया। इस विषय में आभिधर्मिकों का कथन है—“रत्नधर रत्नमय-गृह का नाम नहीं है; बल्कि (अभिधर्म के) सात प्रकरणों का समग्र-स्थान ही रत्न-धर है।” चूंकि यहाँ दोनों ही अर्थ ठीक लग जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थ ग्रहण करने चाहिए।^१ उसके बाद उस स्थान का नाम 'रत्नधर-चेतिय' पड़ा।

(२) अजपाल बर्गद के नीचे

इस प्रकार बोधि-वृक्ष के ही समीप चार सप्ताह बिता कर, पाँचवे सप्ताह (भगवान्) बोधि-वृक्ष से (चलकर) जहाँ अजपाल बर्गद (=न्यग्रोध) है, वहाँ चले गये। वहाँ भी धर्म पर विचार करते तथा विमुक्ति-सुख का आनन्द लेने ही बैठे रहे। उस समय देवपुत्र मार ने इतने समय तक (शास्ता का) पीछा करके, मौका ढूँढते हुए भी, इनमें कोई दोष न देख, सोचा—'अब यह मेरे अधि-कार से बाहर हो गये'। और खिन्न हो, महामार्ग पर बैठे बैठे सोलह बातों का ख्याल कर, पृथ्वी पर सोलह रेखाएँ खींची। "मैंने इसकी तरह दान पारमिता पूरी नहीं की, इसीलिए मैं इसके जैसा नहीं हुआ" यह (सोच) एक रेखा खींची। वैसे ही "मैंने इसकी तरह शील-पारमिता, नैष्कर्म्य-पारमिता, प्रज्ञा-पारमिता, वीर्य-पारमिता, शान्ति-पारमिता, सत्य-पारमिता, अधिष्ठान-पारमिता, मैत्री

^१ अभिधर्म-पिटक का एक ग्रन्थ।

पारमिता, उपेक्षा-पारमिता पूरी नहीं की; इसीलिए मैं इस जैसा नहीं हुआ” (सोच) दसवीं रेखा खींची। “मैंने इसकी तरह (श्रद्धा इन्द्रिय आदि) इन्द्रियों की उन्नत अनुन्नत अवस्था सम्बन्धी असाधारण ज्ञान की प्राप्ति के आश्रय भूत दस पारमिताओं की पूर्ति नहीं की; इसलिए मैं इस जैसा नहीं हुआ” (सोच) ग्यारहवीं रेखा खींची। वैसे ही मैंने इसकी तरह असाधारण आशय-अनुशय ज्ञान, पा महाकरुणा समापत्ति (= ध्यान) ज्ञान, यमक-प्रातिहार्य ज्ञान; अनावरण-ज्ञान तथा सर्वज्ञता ज्ञान की प्राप्ति के आश्रय दस पारमिताओं की पूर्ति नहीं की। इसीलिए मैं इस जैसा नहीं हुआ” (सोच) सोलहवीं रेखा खींची। इस प्रकार, इन कारणों से (देवपुत्र मार) महामार्ग पर सोलह लकीरे खींचते बैठा रहा।

उस समय तृष्णा, अरति तथा रगा (= राग) नामक मार की (तीनों) कन्याओं ने “हमारा पिता दिखाई नहीं दे रहा है, वह इस समय कहाँ है” (सोच) ढूँढते हुए उसे खिन्न-चित्त भूमि कुरेदते (= लिखते) देखा। उन्होंने पिता के समीप जा पूछा—“तात ! आप किस लिए दुःखी तथा खिन्न-चित्त है ?”

“अम्मा ! यह महा-श्रमण मेरे अधिकार से बाहिर हो गया। इतने समय तक देखते रहते भी इसके छिद्र नहीं देख सका। इसीसे मैं दुःखी तथा खिन्नचित्त हूँ” “यदि ऐसा है, तो सोच मत करो। हम इसे अपने वश में करके ले आयेगी।”

“अम्मा ! इसे कोई वश में नहीं कर सकता। यह पुरुष अचल श्रद्धा में प्रतिष्ठित है।”

“तात ! हम स्त्रियाँ हैं। हम उसे अभी राग आदि के पाश में बाँध कर ले आयेगी। आप चिन्ता न करे” (यह) कह भगवान् के पास जा उन्होंने पूछा ! “श्रमण ! हमें अपने चरणों की सेवा करने दो।”

भगवान् ने न उनके कथन को सुना, न आँख खोल कर (उनकी ओर) देखा। वह अनुपम, उपाधिक्षीण (= निर्वाण) में रत हो, विमुक्तचित्त, विवेक (= एकान्त) सुख का अनुभव करते बैठे रहे। तब मारकन्याओं ने सोचा— “पुरुषों की रुचि भिन्न भिन्न होती है। किसी को कन्यायें प्रिय लगती हैं, किसी को नव तरुणियाँ और किसी को वीच की आयु की मध्यवयस्कायें और किसी को प्रौढ़ाये। (आओ) हम इसे भिन्न भिन्न प्रकार से प्रलोभन दें।” तब उन्होंने सौ सौ रूप धारण किये। कुमारी बनीं, अप्रसूता हुईं, एक बार प्रसूता, दो बार प्रसूता, मध्यवयस्का तथा प्रौढ़ा स्त्रियों बन बन कर छ बार भगवान् के पास आ

कर पूछा—“श्रमण ! हमें अपने चरणों की सेवा करने दो !” भगवान् ने उस (कथन) को भी मन में नहीं किया। वह उस अनुपम, उपाधिक्षीण (—निर्वाण) में रत, विमुक्त-चित्त ही रहे।

(इस विषय में) कोई कोई आचार्य्य कहते हैं—“उन्हें बूढ़ी स्त्रियों के स्वरूप में देख, भगवान् ने अधिष्ठान किया; कि यह खण्डित दन्त और श्वेत केशा हो जाये” किन्तु यह (कथन) ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि बुद्ध इस प्रकार का अधिष्ठान नहीं करते। हाँ, भगवान् ने, “तुम जाओ। काहे यह सब प्रयत्न करती हो? जो विरागी नहीं है उन लोगों के सम्मुख यह सब करना चाहिए। तथागत का राग नष्ट हो गया, द्वेष (—क्रोध) नष्ट हो गया; मोह नष्ट हो गया” कह अपनी चित्तशुद्धि के विषय में कहा :—

“जिसके जय को पराजय में बदला नहीं जा सकता, जिसके जीते (राग, द्वेष, मोह फिर) नहीं लौट सकते; उस बे-निशान (अपद—स्थान-रहित), अनन्तदर्शी बुद्ध को किस रास्ते पा सकोगे? जाल रचने वाली जिसकी विषय रूपी तृष्णा कहीं भी ले जाने लायक नहीं रह गई; उस अपद, अनन्त दर्शी बुद्ध को किस रास्ते से पा सकोगे?

इन धर्म-पद के बुद्ध-वग्ग (१४) में आई दो गाथाओं को कह धर्मोपदेश किया। तब वे मार-कन्याये हमारे पिता ने सत्य ही कहा था, “अर्हत् सुगत को राग (के बन्धन) में लाना आसान नहीं।” (सोच) पिता के पास चली गई। भगवान् भी सप्ताह बिता कर वहाँ से मुचलिन्द वृक्ष के नीचे चले गये।

(३) मुचलिन्द वृक्ष के नीचे

उस समय सप्ताह भर की बदली उत्पन्न हो गई। सर्दी आदि से बचने के लिए, नाग राज मुचलिन्द ने फन तान सात गेडुरी बनाई। उसमें गन्धकुटी में बाधारहित विचरने की तरह, विमुक्ति मुख का आनन्द लेते हुए, (भगवान् ने) सप्ताह बिताया फिर राजायतन (—वृक्ष) के पास पहुँच, वहाँ भी विमुक्ति मुख का आनन्द लेते हुए बैठे रहे। इस प्रकार यह सात सप्ताह पूरे हुए। इन सात सप्ताहों में (भगवान्) ने न मुख धोया, न शरीर-शुद्धि की, न भोजन ही किया। (सब समय) (सारे समय को) ध्यान-सुख, मार्ग-सुख और फल (—प्राप्ति के) सुख में ही व्यतीत किया।

तब सात सप्ताहों के बीतने पर, उनचासवें दिन शास्ता को मुँह धोने की इच्छा हुई। देवेन्द्र शक्र ने हर्से लाकर दी। शास्ता ने उसे खाया। उससे उन्हें शौच (—शरीर शुद्धि) हुआ। तब शक्र ने ही नागलता की दातुन (दन्तकाष्ठ) और मुख धोने के लिए पानी ला दिया। बुद्ध उस दातुन को कर, अनोतत-दह (—सरोवर) पर पानी से मुँह धो, फिर राजायतन के नीचे बैठे।

(४) धर्म-प्रचार

उस समय तपस्सु और भल्लिक नामक दो व्यापारी, पाँच सौ गाड़ियों के साथ उत्कल^१ देश से पश्चिम-देश (—मध्य देश) को जा रहे थे। उनके आति-सम्बन्धी, देवताओं ने गाड़ियाँ रोक बुद्ध के लिए आहार तैयार करने के लिए उन्हें उत्साहित किया। उन्होंने जाकर, सत्तू और पूए (—मधुपिण्ड) ले, शास्ता के पास जा, खड़े हो कर प्रार्थना की, “भन्ते ! भगवान्। कृपा कर इस आहार को ग्रहण करें।”

(मुजाता के) खीर के ग्रहण करने के दिन ही भगवान् के पात्र अन्तर्धान हो गये थे। इसलिए भगवान् ने सोचा—‘तथागत हाथ में तो आहार ग्रहण नहीं करते; मे किस (वरतन) में आहार ग्रहण करूँ?’ तब उनके विचार को जान कर चारो दिशाओं के चारों महाराजा इन्द्र नील-मणि के बने पात्र को ले आये। भगवान् ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। फिर मूंगे वर्ण के पाषाण के चार पात्र ले आये। चारों देवपुत्रो पर अनुकम्पा करने के लिए भगवान् ने चारों पात्रों को ले, एक दूसरे के ऊपर रख अधिष्ठान किया कि वह एक ही जाये। चारों पात्र मुख द्वार पर प्रकट (चार) रेखाओं वाले हो, बिचले (पात्र) के परिमाण के एक पात्र बन गये। भगवान् ने उस मूल्यवान् पत्थर के पात्र में आहार ग्रहण किया। भोजन करके (दान) अनुमोदन किया। दोनों भाई बुद्ध तथा धर्म की शरण जाने से दो वचन के उपासक^२ हुए। तब उनमें से एक के ‘भन्ते ! (पूजा) के लिए कुछ दें’ कहने पर, भगवान् ने सिर पर दाहने हाथ

^१ उड़ीसा।

^२ संघ के न होने से वह बुद्ध और धर्म बो की ही शरण गए।

को फेर कर (अपने कुछ) बालों (=केश) को दिया। उन्होंने अपने नगर में पहुँच, उस केश को भीतर रख, (ऊपर से) चैत्य बनवाया।

सम्यक सम्बुद्ध भी वहाँ से उठ, अजपाल न्यग्रोध के पास जा, वहाँ न्यग्रोध (वृक्ष) के नीचे बैठे। तब वहाँ बैठते ही उनके मन में अपने अनुभूत धर्म की गम्भीरता का विचार उत्पन्न हुआ (सब) बुद्धों के अभ्यस्त “इस धर्म का मैंने अनुभव किया है. . .” (इस प्रकार) दूसरों को धर्मोपदेश देने की अनिच्छा का विचार (=वितर्क) उत्पन्न हुआ। तब सहम्पति ब्रह्मा ने “अरे! लोक नाश हो जायगा, अरे! लोक विनाश हो जायगा” कहते, दस सहस्र चक्रवालों से शक्र-सुयाम—सन्नुषित-सुनिर्मित-वशवर्ती-महाब्रह्माओं को ले कर, शास्ता के पास जा, “भन्ते! भगवान्! धर्मोपदेश करे। सुगत! धर्मोपदेश करे” इत्यादि क्रम से धर्मोपदेश करने की प्रार्थना की।

(५) बनारस (सारनाथ)

शास्ता उसे प्रतिज्ञा दे, सोचने लगे, “मैं पहले किसे धर्मोपदेश करूँ?” “इस धर्म को आलार-कालाम शीघ्र ही जान लेगा” सोच कर देखा, तो पता लगा कि उसे मरे एक सप्ताह हो गया। तब उदक के बारे में ख्याल आया। मालूम हुआ, वह भी (उसी) रात को मर गया। (तब) सोचा—“पञ्चवर्गीय भिक्षुओं ने मेरा बहुत उपकार किया है।” पञ्चवर्गीय भिक्षुओं के बारे में प्रश्न हुआ, ‘वह इस समय कहाँ है?’ सोचते हुए, बाराणसी (बनारस) के मृगदाव^१ में (विहरते हैं) जान; वहाँ जाकर धर्मचक्र प्रवर्तित करने का विचारा किया।

कुछ दिन तक बोधिमण्ड के आस पास ही भिक्षाचार कर विहार करते रहे। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बनारस पहुँचने के विचार से, चतुर्दशी को प्रातःकाल, तड़के ही (=समय) पात्र चीवर ले, अठारह योजन के मार्ग पर चल पड़े। रास्ते में उपक नामक राजीवक^२ को देख कर, उसे अपने ‘बुद्ध’ होने की बात कह, उसी दिन शाम के समय ऋषिपतन पहुँचे।

^१ वर्तमान सारनाथ, बनारस।

^२ उस समय के नग्न साधुओं का एक सम्प्रदाय।

पञ्चवर्गीय-भिक्षुओं ने तथागत को दूर से आते देख निश्चय किया—
“आयुष्मानो ! यह श्रमण गौतम वस्तुओं के अधिक लाभ के लिए मार्ग-भ्रष्ट
हो परिपूर्ण शरीर, मोटी इन्द्रियों वाला, सुवर्ण-वर्ण हो कर आ रहा है। हम
उसे अभिवादन आदि न करेंगे। लेकिन महाकुल-प्रसूत होने से यह आसन का
अधिकारी है; अतः हम इसके लिए खाली आसन बिछा देंगे।”

भगवान् ने देवों सहित (सारे) लोक के चित्त की बात जान सकने वाले
ज्ञान से सोच कर उन (पंचवर्गीयों) के विचार को जान लिया। तब उन्होंने
समान रूप से सब देव मनुष्यों तक पहुँचने वाले मैत्री-पूर्णचित्त को, विशेष रूप
से पंचवर्गीयों की ओर फेरा। भगवान् के मैत्री-चित्त से स्पृष्ट हो, तथागत के
समीप आते आते वह अपने निश्चय पर दृढ़ न रह सके और उन्होंने अभिवादन
प्रत्युत्थान आदि सब कृत्यों को किया। लेकिन ‘सम्बुद्धत्व प्राप्ति’ का उन्हें
ज्ञान न था; इसलिए वह (तथागत को) केवल नाम लेकर अथवा ‘आवुसो’
(=आयुष्मान्) कह कर सम्बोधन करते थे।

(६) प्रथम-उपदेश : धर्मचक्र प्रवर्तन

तब भगवान् ने उन्हें “भिक्षुओ ! तथागत को नाम से अथवा ‘आवुस’ कह
कर मत पुकारो। भिक्षुओ ! तथागत अर्हत् हैं, सम्यक् सम्बुद्ध हैं” कह, अपने
बुद्ध होने को प्रगट किया। बिछे श्रेष्ठ बुद्धासन पर बैठ, उत्तराषाढ नक्षत्र
(आषाढी पूर्णिमा के दिन) अठारह करोड़ ब्रह्माओं से घिरे हुए पञ्चवर्गीय स्थविरों
को सम्बोधित कर धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र^१ का उपदेश किया। उनमें से स्थविर
अञ्जा-कौण्डिन्य उपदेशानुसार ज्ञान का विकास करते हुए, सूत्र की समाप्ति
पर अठारह करोड़ ब्रह्माओं सहित स्रोतप्राप्ति फल में स्थित हुए। तब बुद्ध
वर्षा-काल के लिए वहीं ठहर गये। अगले दिन वप्प स्थविर को उपदेश करते
बिहार में ही बैठे रहे। शेष चार जने भिक्षा माँगने गये। वप्प स्थविर पूर्वाह्न
में ही स्रोतप्राप्ति फल को प्राप्त हुए। इसी क्रम से अगले दिन भद्रिय स्थविर,
फिर अगले दिन महानाम स्थविर, फिर अगले दिन अश्वजित् महा स्थविर—
सब को स्रोतप्राप्ति फल में स्थित कर, पक्ष के पाँचवें दिन, पाँचों जनों को एकत्र

^१ संयुक्त नि० ५५ : २ : १ विनय महावग्ग (महाखलंधक) ।

कर अनन्त-लक्षण सूत्र का उपदेश किया। देशना की समाप्ति पर पाँचों स्थविर अर्हत्-फल में स्थित हुए।

तब शास्ता ने यश कुल-पुत्र की योग्यता (==उपनिस्सय) देख, उसी रात विरक्त हुए, घर छोड़ कर निकले (यश) को, “यश ! आ।” कह बुलाया। उसी रात को उसे स्रोतापत्ति-फल, (और) अगले दिन अर्हत्-फल में प्रतिष्ठित कर, उसके और भी जीवन (५४) मित्रों को “भिक्षुओ ! आओ”—वचन द्वारा प्रब्रज्या दे कर ‘अर्हत्व’ प्राप्त कराया।

(७) उरुबेला की ओर

इस प्रकार लोक में इकसठ अर्हत् हो गये। वर्षा-वास की समाप्ति पर शास्ता ने ‘प्रवारणा’^१ कर, “भिक्षुओ ! चारिका करो . . .”^२ (कह) भिक्षुओं को साठ दिशाओं में भेज, स्वयं उरुबेल को जाते हुए, मार्ग में कप्पासिय वन-सड में तीस भद्रवर्गीय कुमारों को दीक्षित (==विनीत) किया। उन (कुमारों) में जो सब से पिछला था, वह स्रोतापन्न जो सर्वश्रेष्ठ था वह अनागामी हुआ। उन सब को भी “भिक्षुओ ! आओ।” वचन से ही प्रब्रजित कर, (भिन्न भिन्न) दिशाओं में भेज, स्वयं उरुबेल पहुँच (वहाँ) तीन सहस्र पाँच सौ प्रातिहार्य (==चमत्कार) दिखा, सहस्रों जटिलो सहित उरुबेल काश्यप आदि तीन जटिल भाइयों को विनीत कर ‘भिक्षुओ ! आओ’—वचन से ही (उन्हे भी) प्रब्रजित कर गया-शीर्ष^३ पर बैठ, आदिप्त-पर्याय (—सूत्र)^४ के उपदेश से (उन्हे) अर्हत्-भाव में प्रतिष्ठित कराया। फिर उन सहस्र अर्हतों के साथ (राजा) विम्बिसार को दी हुई प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए राजगृह नगर^५ के समीप स्थित लट्टि-वन-उद्यान में पहुँचे।

(८) राजा विम्बिसार का बौद्ध होना

राजा अपने माली के मुँह से बुद्ध के आने की बात सुन, बारह नहुत^६ (==नियुत) ब्राह्मण-गृहपतियों के साथ, बुद्ध के पास पहुँचे। उनके चक्र से अंकित

^१ वर्षा-समाप्ति पर विदायणी।

^२ गया सीस, गया का ब्रह्मयोनि पर्वत है।

^३ मगध की राजधानी।

^४ महावग्ग (महाखंधक)।

^५ संयुक्त नि० ४३:३:६।

^६ नहुत=दस हजार।

तल वाले, सुनहले वस्त्र के चँदवे के समान प्रभा-पुंज प्रसारित करने वाले, चरणों में सिर से प्रणाम कर, परिषद् सहित एक ओर बैठ गया। तब उन ब्राह्मण-गृहपतियों के मन में यह (शंका) हुई—‘क्या उरुबेल-काश्यप महाश्रमण (गीतम) का शिष्य है अथवा महाश्रमण उरुबेल काश्यप का (शिष्य) ? भगवान् ने अपने चित्त से उनके चित्त के वितर्क को जान (उरुबेल काश्यप) स्थविर को ‘गाथा’ में कहा :—

“उरुबेल-वासी ! तपः कृशों के उपदेशक ! क्या देख कर (तुमने) आग छोड़ी ? काश्यप ! तुम से यह बात पूछता हूँ, तुम्हारा अग्नि-होत्र कैसे छूटा ?”

स्थविर ने भगवान् का अभिप्राय समझ कर कहा :—“रूप; शब्द, रस, काम-भोग, तथा स्त्रियाँ ये सब यज्ञ से (मिलती हैं), ऐसा कहते हैं। लेकिन (उक्त) उपाधियाँ मल हैं; यह जान कर, विरक्त चित्त हो, मैंने यज्ञ करना तथा हवन करना छोड़ दिया।”

इस गाथा को कह अपने शिष्य-भाव के प्रकाशनार्थ, तथागत के चरणों में शिर रख, “भन्ते ! भगवान् ! आप मेरे गुरु (=शास्ता) हैं, मैं आपका शिष्य हूँ” कह, आकाश में एक-ताल, दो-ताल-तीन-ताल. सात-ताल ऊँचे तक, सात बार चढ़ उतर कर, तथागत को प्रणाम कर, एक ओर बैठ गया। इस प्रकार के चमत्कार को देख, लोग कहने लगे “अहो बुद्ध ! महाप्रतापी हैं; जिन तथागत ने इस प्रकार के दुराग्रही, अपने को अर्हत् समझने वाले उरुबेल काश्यप को भी उसके मत खूबी जाल को काट कर, दीक्षित किया ! भगवान् ने “न केवल अभी मैंने उरुबेल-काश्यप का दमन किया है, अतीत-काल में भी किया है।” कह, तथा इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए महानारद काश्यप जातक^१ कह, चार आर्य्य सत्थों का प्रकाश किया। ग्यारह नहुत (ब्राह्मण-गृहपतियों) सहित मगध-नरेश (बिम्बिसार) स्रोत-आपत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुए। एक नहुत उपासक हुए।

बुद्ध के पास बैठे ही बैठे राजा (बालक-पन में अपने मन में उठी) पाँच

^१ जातक (५४४)

इच्छाओं^१ को कह, त्रिशरण ग्रहण कर, अगले दिन के लिए निमन्त्रण दे, आसन से उठ, भगवान् की प्रदक्षिणा कर चला गया। अगले दिन, जिन्होंने तथागत को देखा था, वे भी, और जिन्होंने नहीं देखा था, वे भी—सभी अठारह करोड़ राजगृह-निवासी, तथागत को देखने की इच्छा से प्रातःकाल ही राजगृह से यष्टि-वन^२ को गये। तीन गव्यूति मार्ग (भी) पर्य्याप्त नहीं था। सारा यष्टि-वन उद्यान हमेशा भरा रहता था। जन समूह भगवान् के मुन्दर स्वरूप को देखते तृप्त नहीं होते थे। यह रूप का प्रकरण (—वर्ण-भूमि) है। ऐसे स्थान पर लक्षण-अनुव्यञ्जनादि के विस्तार के साथ तथागत के शरीर के सारे सौन्दर्य का वर्णन करना चाहिए।

इस प्रकार बुद्ध (दस बल) के मुन्दर शरीर के दर्शन के लिए आने वाले जन-समूह से उद्यान के और मार्ग के निरन्तर भरे रहने से एक भिक्षु को भी बाहिर निकलने का अवकाश नहीं रहा। उस दिन भगवान् को निराहार रह जाने की सम्भावना थी। ऐसा न होने देने के लिए, शक्र का आसन गर्म हुआ। देवेन्द्र ने विचार करके, (आसन गर्म होने के) कारण को जाना; और ब्राह्मण तरुण (—माणवक) का रूप धारण कर, बुद्ध-धर्म-सघ की स्तुति करते हुए, बुद्ध (दस-बल धारी) के सामने उतर देव-बल से अपने लिए जगह कर गाथा बना कहा :—

अनासक्त (—विप्रमुक्त) संयमयुक्त पुराने जटाधारियों (—जटिलों) के साथ (—सिगी-निकशा) तप्त सुवर्ण (सुवर्ण सदृश) संयमी (—दमित) भगवान् राजगृह में प्रवेश कर रहे हैं।

मुक्त, विप्रमुक्त, पुराने जटिलों के साथ तप्त सुवर्ण से रूपवान् मुक्त भगवान् राजगृह में प्रवेश कर रहे हैं।

उत्तीर्ण (—पार-प्राप्त) विप्रमुक्त, पुराने जटिलों से युक्त, तप्त सुवर्ण जैसे रूपवान् उत्तीर्ण भगवान् राजगृह में प्रवेश कर रहे हैं।

^१ 'क्या ही अच्छा होता, यदि मैं राज्यभिषिक्त होता' आदि पांच इच्छाएँ (महावग्ग)।

^२ राजगृह नगर के समीपवर्ती जठियांब (लट्टिवन उद्यान)।

दस-वास (वाले); दस-बल (-धारी), दस धर्मों के ज्ञाता, दस गुणों से युक्त, सहस्र अर्हतों के साथ भगवान् राजगृह में प्रवेश कर रहे हैं ।”

उक्त गाथाओं से बुद्ध का गुणानुवर्णन करते हुए (देवेन्द्र) आगे आगे चल रहे थे। लोगों ने ब्राह्मण तरुण (माणवक) के रूप की सुन्दरता देख 'यह माणवक अत्यन्त सुन्दर है, हमने इसे पहले नहीं देखा' सोच, पूछा :—“यह माणवक कहाँ से (आया) है ? किस का है ?” इसे सुन माणवक ने यह गाथा कही :—

‘लोक में जो घोर हैं, सर्वत्र संयत हैं, अर्हत् हैं, सुगत हैं; अद्वितीय बुद्ध हैं—मैं उनका सेवक (परिचारक) हूँ ।

एक सहस्र भिक्षुओं के साथ बुद्ध (=शास्ता) ने, शक्र द्वारा बनाये गये मार्ग से राजगृह में प्रवेश किया। राजा ने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघ को भोजन (=महादान) दे (प्रार्थना की)—“भन्ते ! मैं बुद्ध-धर्म—सघ (=त्रिरत्न) के बिना न रह सकूँगा। समय, बे समय, भगवान् के पास आऊँगा। यष्टि (=लट्टि)—वन उद्यान बहुत दूर है। लेकिन हमारा वेणुवन उद्यान अधिक दूर नहीं है। वहाँ आना जाना सहज है। बुद्ध के योग्य निवासस्थान हैं। भगवान् ! आप उसे स्वीकार करें।” (कह) सोने की भारी मे, पुष्प गन्ध से सुवासित, मणि के रंग जल को ले कर वेणुवन उद्यान का दान करते हुए, बुद्ध (=दशबल) के हाथ में जल डाला। उसी आराम की स्वीकृति से बुद्ध धर्म (=शासन) ने (लोक में) जड़ पकड़ी—(इसीलिए) पृथ्वी काँपी। जम्बूद्वीप में वेणुवन को छोड़ और किसी निवास (=शयनासन) के ग्रहण करने के समय पृथ्वी नहीं काँपी। सिंहल (ताम्रपर्णी) में भी महाविहार^१ के अतिरिक्त, और किसी शयनासन के ग्रहण करते वक्त पृथ्वी नहीं काँपी। (भगवान्) वेणुवन को ग्रहण कर, राजा (के दान) का अनुमोदन कर, आसन से उठ, भिक्षुसघ सहित वेणुवन को चले गये।

(९) सारि-पुत्र और मौद्गल्यायन की प्रब्रज्या

उस समय अमृत की खोज में लगे हुए सारिपुत्र मौद्गल्यायन—दो परि-

^१ सिंहल-द्वीप में महास्थविर महेन्द्र को प्रदत्त प्रथम विहार।

राजक राजगृह के समीप रहते थे। उनमें से (एक) सारिपुत्र ने अश्वजित् स्थविर को भिक्षा-चार करते देखा। वह प्रसन्न-चित्त हो, उनका सत्सङ्ग कर उनसे 'जो हेतुओं से उत्पन्न धर्म हैं. (—ये धम्मा हेतुप्पभवा. . . .)' गाथा को सुन स्रोतआपत्ति फल में प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने अपने मित्र मौद्गल्यायन परिब्राजक को भी वह गाथा कही। वह भी स्रोतआपत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुए। वह दोनों ही (अपने पूर्व आचार्य) सञ्जय से भेंट कर, अपनी मंडली के साथ शास्ता के पास जा प्रव्रजित हुए। उनमें से महामौद्गल्यायन (एक) सप्ताह में ही अर्हत्व को प्राप्त हुए। सारिपुत्र पन्द्रह दिन में। शास्ता ने उन दोनों को प्रधान शिष्य (—अग्र-श्रावक) बनाया। सारिपुत्र स्थविर ने जिस दिन अर्हत् पद प्राप्त किया, उसी दिन (बुद्ध) शिष्यों का सम्मेलन किया गया।

(१०) शुद्धोदन का संदेश

तथागत के उसी वेणुवन उद्यान में विहार करते समय, शुद्धोदन महाराज ने सुना—“मेरे पुत्र ने छः वर्ष तक दुष्कर तपस्या कर, बुद्ध के उत्तम पद को प्राप्त किया है। वह धर्म-उपदेश का प्रारम्भ (—धर्मचक्रप्रवर्तन) कर, राजगृह के समीप वेणुवन में विहार करता है”। फिर एक मंत्री (—अमात्य) को बुला कर कहा :—“अरे ! आओ, तुम एक हज़ार आदमियों को साथ ले, राजगृह जाकर मेरे वचन से, मेरे पुत्र को कहो—‘आपके पिता महाराज शुद्धोदन (आपका) दर्शन करना चाहते हैं’, कह और मेरे पुत्र को (बुलाकर) ले कर आओ।”

“अच्छा देव !” कह उसने राजा के वचन को शिरोधार्य किया। फिर वह एक हज़ार आदमियों को साथ ले, शीघ्र ही साठ योजन रास्ते को पार कर (राजगृह) पहुँचा। बुद्ध (उस समय) (भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका) चार प्रकार की परिषद् के बीच बैठ, धर्म उपदेश कर रहे थे। उसी समय वह विहार में प्रविष्ट हुआ। उसने 'राजा का भेजा सन्देश अभी पड़ा रहे' सोच परिषद् के अन्त में खड़े खड़े शास्ता का धर्म उपदेश सुना;

‘ये धम्मा हेतुप्पभवा तेसं हेतुं तथागतो आह ! तेसं च यो निरोधो, एवं वादी महा समणो ।

और खड़े ही खड़े हज़ार आदमियों सहित अर्हत् पद प्राप्त कर उसने प्रब्रज्या माँगी। भगवान् ने 'भिक्षुओ ! आओ' कह हाथ पसारा। उसी समय वे सब योगबल से पात्र-चीवर-धारी हो गये। सौ वर्ष के स्थविर (=बुद्धभिक्षु) जैसे हो गये।

'अर्हत् पद प्राप्त होने पर आर्य-लोग मध्यस्थ भाव को प्राप्त हो जाते हैं', इसलिए उसने राजा के भेजे सन्देश को नहीं कहा। राजा ने 'न गया हुआ (अमात्य) ही लौटता है, न कोई समाचार ही सुनाई देता है' सोच; 'अरे ! आ, तू जा' कह, उसी प्रकार से दूसरा अमात्य भेजा। वह भी जा कर, पूर्व प्रकार से परिषद् सहित अर्हत्-पद को प्राप्त हो चुप रह गया। राजा ने इसी प्रकार हज़ार हज़ार मनुष्यों के साथ नौ अमात्य भेजे। सब अपना अपना (आत्मोन्नति का) काम समाप्त कर, चुप्पी साध, वही विहरने लगे। कोई लौट कर समाचार भी कहने वाला न मिलने से, राजा सोचने लगा—“इतने आदमियों ने मेरे प्रति स्नेह का भाव रखते हुए भी कोई समाचार तक नहीं दिया, तो अब कौन मेरे वचन को करेगा ?” (इस प्रकार सोचते हुए) सारी राजकीय परिषद् पर विचार करते हुए, उसने काल उदायी को देखा। वह राजा का सर्वार्थसाधक, (प्राइवेट सेक्रेटरी) आन्तरिक, अतिविश्वासी अमात्य था। वह बोधिसत्त्व के साथ एक ही दिन पैदा हुआ था (और) साथ का धूली-खेला मित्र था। राजा ने उसे बुलाया तात ! काल-उदायी ! मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ, नौ हज़ार आदमियों को भेजा। एक आदमी भी आ कर समाचार (=शासन) भी कहने वाला नहीं है। शरीर का कोई ठिकाना नहीं। मैं जीते जी पुत्र को देख लेना चाहता हूँ। क्या मेरे पुत्र को मुझे दिखा सकोगे ?”

“देव ! दिखा सकूँगा, यदि साधु बनने (=प्रब्रज्या लेने) की आज्ञा मिले।”

“तात ! तू प्रब्रजित (हो) या अप्रब्रजित, मेरे पुत्र को लाकर दिखा।”

“देव ! अच्छा” (कह) वह राजा का सन्देश (=शासन) ले, राजगृह गया और बुद्ध (=शास्ता) के धर्म उपदेश के समय सभा (परिषद्) के अन्त में खड़ा हो, धर्म सुन, साथियों (=परिवार) सहित अर्हत्फल को प्राप्त हो “भिक्षु ! आओ” के वचन से साधु (=प्रब्रजित) हुआ।

भगवान् ने (=शास्ता) बुद्ध हो कर पहला वर्षावास ऋषिपतन में किया। वर्षावास समाप्ति पर प्रवारणा कर, उरुवेला में जा, वहाँ तीन

मास रह, तीनों जटाधारी (=जटिल) भाइयों को रास्ते पर ला, एक हज़ार भिक्षुओं के साथ, पीप मास की पूर्णिमा को राजगृह जा, (वहाँ) दो मास रहे। इतने में बनारस से चले पाँच मास बीत गये। सारा हेमन्त-ऋतु समाप्त हो गया। उदायी स्थविर, आने के दिन से सात-आठ दिन बिता, फाल्गुण की पूर्णिमासी को सोचने लगे—हेमन्त बीत गया। बसन्त आ गया। मनुष्यों ने खेत (सस्य आदि) काट कर, सामने के स्थानों पर रास्ता छोड़ दिया है। पृथ्वी हरित तृण से आच्छादित है। वन-खण्ड फूलों से लदे हैं। रास्ते जाने लायक हो गये हैं। यह बुद्ध (=दश-बल) के लिए अपने सम्बन्धियों (=जाति) को मिलने (=संग्रह करने) का (यह ठीक) समय है। (यह सोच) भगवान् के पास जा कर बोले—

“भवन्त इस समय वृक्ष पत्ते छोड़ फलने के लिए (नये पत्तों से) अंगार-वाले (जैसे) हो गये हैं। उनकी चमक अग्नि-शिखा सी है। महावीर! यह शक्यों (=भगीरथों भगीरसों^१) (के संग्रह करने) का समय है।

न बहुत शीत है, न बहुत उष्ण है, न भोजन की बहुत कठिनाई है। भूमि हरियाली से हरित है। महामुनि! यह (चलने का) समय है,”

(इत्यादि) साठ गाथाओं द्वारा बुद्ध (=दश-बल) से (अपने) कुल के नगर को जाने के लिए यात्रा की स्तुति की। भगवान् (=शास्ता) ने पूछा—
“उदायी! क्या है, जो (तुम) मधुर स्वर से यात्रा की स्तुति कर रहे हो?”

“भन्ते! आपके पिता महाराज शुद्धोदन (आपका) दर्शन करना चाहते हैं। (आप) जातिवालो का संग्रह करे।”

“उदायी! अच्छा? मैं जाति वालो का संग्रह करूँगा; भिक्षु-संघ को कहो कि यात्रा की तैयारी (=व्रत) करे।”

“अच्छा भन्ते!” (कह) स्थविर ने (भिक्षु-संघ को) कहा।

(११) कपिलवस्तु-गमन

भगवान् दस हज़ार अंग-मगध वासी कुल-पुत्रों तथा दस हज़ार कपिलवस्तु वासी कुल-पुत्रों, सब बीस हज़ार अर्हत् भिक्षुओं के साथ राजगृह से निकल कर,

^१ शब्द अस्पष्ट है।

प्रति दिन योजन भर चलते थे। राजगृह से साठ योजन (दूर) कपिलवस्तु दो मास में पहुँचने की इच्छा से धीमी चारिका से चलते थे। स्थविर भी भगवान् के चल पड़ने की बात को राजा से कहने की इच्छा से आकाश मार्ग से जा राजा के निवास स्थान पर प्रकट हुए। राजा ने स्थविर को देख प्रसन्न-चित्त हो, (उन्हें) बहुमूल्य आसन पर बिठा, अपने लिए तैयार किये गये, नाना प्रकार के स्वादु भोजन से पात्र भर कर दिया। स्थविर ने उठ कर चलने का सा ढंग किया। “बैठ कर, भोजन करे” (राजा ने कहा) “महाराज ! मैं भगवान् (==शास्ता) के पास जा कर भोजन करूँगा” (स्थविर ने उत्तर दिया)।

“शास्ता कहाँ है ?”

“महाराज ! बीस हज़ार भिक्षुओं सहित वह तुम्हारे देखने के लिए चल पड़े हैं।”

राजा ने प्रसन्न-चित्त हो कहा :—“आप इस भोजन को ग्रहण करें और जब तक मेरा पुत्र यहाँ नहीं पहुँचता, तब तक उसके लिए यही से भिक्षा (==पिण्डपात) ले जाये।” स्थविर ने स्वीकार किया। राजा ने स्थविर को (भोजन) परोस कर दिया, और (भिक्षा-पात्र) में सुगन्धित चूर्ण लगा, उसे उत्तम भोजन से भर ‘इसे तथागत को दे’ कह, पात्र स्थविर के हाथ में दिया। स्थविर ने सब के सामने ही, पात्र को आकाश में फेक दिया; और अपने आप भी आकाश में उड़ भिक्षा (==पिण्डपात) लाकर भगवान् (==शास्ता) के हाथ में दी। भगवान् (==शास्ता) ने वह आहार ग्रहण किया। इस प्रकार स्थविर प्रति दिन (आहार) लाते थे।

यात्रा में भगवान् (शास्ता) ने राजा की ही भिक्षा (==पिण्डपात) ग्रहण की। स्थविर ने भी प्रतिदिन भोजन करने के बाद “भगवान् ! आज इतना चले आये, भगवान् ! आज इतना चले आये” (कह) भगवान् के दर्शन से पहले ही बुद्ध के गुणों की कथा से सारे राजपरिवार में बुद्ध (==शास्ता) के प्रति श्रद्धा पैदा कर दी। इसीलिए भगवान् ने ‘भिक्षुओं ! मेरे गृहस्थों का मन-प्रसन्न करने वाले (==कुलप्रसादक) शिष्य (==श्रावक) भिक्षुओं में काल-उदायी सर्वश्रेष्ठ हैं” (कह) उसे ऊँचा (==अग्र) स्थान दिया है।

शाक्य भी भगवान् के पहुँचने पर, ‘अपनी जाति के (सर्व)श्रेष्ठ (पुरुष) के दर्शन की इच्छा से एकत्रित हुए; और ‘अपनी सभा में’ भगवान् के ठहराने

के लिए स्थान पर विचार किया। उन्होंने न्यग्रोध (नामक) शाक्य के आराम को रमणीय जान, वहाँ सब प्रकार से सफाई कराई। अगवानी के लिए पहले गन्ध, पुष्प हाथ में ले, सब अलङ्कारों से अलङ्कृत, नगर के छोटे छोटे लड़कों तथा लड़कियों को भेज फिर राजकुमारों और राजकुमारियों को भेजा। उनके बाद स्वयं गन्ध, पुष्प, चूर्ण आदि से भगवान् की पूजा करते, (उन्हें) न्यग्रोधाराम लिवा ले गये। वहाँ बीस हजार अर्हंतों के साथ (जा कर) भगवान्, बिछे श्रेष्ठ बुद्ध के आसन पर बैठे। शाक्य अभिमानी स्वभाव के थे। उन्होंने 'सिद्धार्थ-कुमार हमसे छोटा है, हमारा कनिष्ठ है, हमारा भानजा है, हमारा पुत्र है, हमारा नाती है', सोच छोटे छोटे राजकुमारों को कहा—“तुम प्रणाम करो। हम तुम्हारे पीछे बैठेंगे।” उनके इस प्रकार (बिना प्रणाम किये ही) बैठे रहने पर, भगवान् ने उनके मन की बात जान विचारा—जाति-सम्बन्धी मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हैं। अच्छा तो मैं उनसे प्रणाम कराऊँगा” और अभिज्ञा के सहारे ध्यानावस्थित हो, आकाश में चढ़, उनके सिर पर पैर की धूली बखेरते हुए से, गण्डम्ब वृक्ष के नीचे किये गये यमक नामक दिव्य-प्रदर्शन (यमक-प्रातिहार्य) जैसी प्रातिहार्य की।

राजा ने इस आश्चर्य को देख कर कहा—‘भगवान् ! मैं उत्पन्न होने के दिन, तुम्हें काल देवल की वन्दना के लिए ले गया था; उस समय (तुम्हारे) चरणों को उलट कर ब्राह्मण के सिर में लगे देख, मैंने तुम्हारी वन्दना की। वह मेरी प्रथम वन्दना (थी)। फिर खेत बोन के उत्सव के दिन, जामुन की छाया में सुन्दर शय्या पर बैठे रहने के समय, दिन ढल जाने पर भी जामुन के वृक्ष की छाया का बना रहना देख कर भी (मैंने तुम्हारे) चरणों में वन्दना की थी। वह मेरी दूसरी वन्दना (थी)। अब पहले कभी न देखी गई यह प्रातिहार्य, देख कर भी, मैं तुम्हारे चरणों की वन्दना करता हूँ। यह मेरी तीसरी वन्दना है। राजा के वन्दना करने पर, एक शाक्य भी ऐसी नहीं बचा, जो बिना वन्दना किये रहा हो। सभी ने वन्दना की। इस प्रकार भगवान् जाति-सम्बन्धियों से प्रणाम करवा, आकाश से उतर बिछे आसन पर बैठे। भगवान् के बैठने पर जाति-सम्बन्धियों का समूह अत्यन्त प्रसन्न (=शिखर-प्राप्त) हो सभी एकाग्र चित्त हो बैठे।

तब महामेघ ने कमल-वर्षा (=पुष्कर-वर्षा) आरम्भ की। ताम्बे के रंग

का पानी, नीचे, शब्द करता हुआ बहने लगा। भीगने की इच्छा वाले भीगते थे, जो नहीं भीगना चाहते थे, उनके शरीर पर बूँद मात्र भी न गिरती था। यह देख सभी चकित हुए, और कहने लगे—अहो! आश्चर्य! अहो! अद्भुत!

बुद्ध ने कहा कि यहाँ केवल अभी मेरे वंश के समागम के समय ही वर्षा नहीं बरसी पहले भी वह बरसी है” और इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, महावेस्सन्तर-जातक^१ कही। धर्म उपदेश सुन, सभी उठ, प्रणाम कर चले गये। न राजा ने, न राजा के महामात्य ने, और न दूसरे किसी ने भी कहा कि भगवान् ! कल हमारी भिक्षा ग्रहण करे।

(१२) सम्बन्धियों से मिलन

अगले दिन बीस हजार भिक्षुओं सहित बुद्ध (=शास्ता) ने कपिलवस्तु में भिक्षाटन के लिए प्रवेश किया। (वहाँ) न किसी ने उन्हें भोजन के लिए निमन्त्रित ही किया, न किसी ने पात्र ही ग्रहण किया। भगवान् ने इन्द्रकीर्त्ति^२ पर खड़े हो सोचा—“पूर्व के बुद्धों ने (अपने) कुल के नगर में कैसे भिक्षाटन किया? क्या बीच के घरों को छोड़ कर (सिर्फ) बड़े बड़े आदमियों के ही घर गये, अथवा एक ओर से सब के घर?” फिर देखा कि एक बुद्ध ने भी बीच बीच में घर छोड़ कर भिक्षाटन नहीं किया है, (फिर) निश्चय किया—“मेरा भी (कुल) अब यही (बुद्धों का) कुल है, इसलिए मुझे अपना यह कुल धर्म ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से भविष्य में मेरे शिष्य (=श्रावक) मेरा ही अनुकरण करते (हुए) भिक्षाचार के व्रत को पूरा करेंगे।” ऐसा (सोच), छोर के घर से ही, एक ओर से भिक्षाचार आरम्भ किया।

“आर्य सिद्धार्थकुमार भिक्षाचार कर रहे हैं” यह (सुन) लोग दुतल्ले, तितल्ले प्रासादों पर से खिड़कियाँ खोल देखने लगे।

राहुल-माता देवी ने भी—‘आर्यपुत्र इसी नगर में राजाओं के बड़े भारी डाट से सोने की पालकी आदि में (चढ़कर) घूमै, और आज (इसी नगर में)

^१ जातक (५४७)

^२ किले के द्वार के बाहर खड़ा खम्भा।

वह शिर-दाढ़ी मुंडा, काषाय वस्त्र पहिन, कपाल (—खपड़ा) हाथ में ले, भिक्षाचार कर रहे हैं ! क्या (यह) शोभा देता है' कह, खिड़की खोल कर देखा कि परम वैराग्य से उज्ज्वल (बुद्ध का) शरीर नगर की सड़कों को प्रभासित कर रहा है। चारों ओर व्याम भर प्रभा वाली, बत्तीस महापुरुष लक्षणों और अस्सी अनुव्यञ्जनो से अलकृत, अनुपम बुद्ध शोभा से शोभायमान भगवान् को देखा और (उसका) शिर से पाँव तक (इस प्रकार) आठ नरसिंह गाथाओं में वर्णन किया—

“चिकने, काले, कोमल, घुँघरवाले केश हैं; सूर्य्य सदृश निर्मल तलवाला ललाट है, सुन्दर, ऊँची, कोमल, लम्बी नासिका है; नरसिंह अपने रश्मि-जाल को फेंका रहे हैं ”

इत्यादि फिर (जा कर) राजा से कहा—“आपका पुत्र भिक्षाचार कर रहा है ।”

राजा घबराया हुआ, हाथ से धोती सँभालते, जल्दी जल्दी निकल कर, वेग से जा, भगवान् के सामने खड़ा हो बोला—“भन्ते ! हमे क्यों लजवाते हो ? किस लिए भिक्षाटन करते हो ? क्या यह प्रगट करते हो कि इतने भिक्षुओं के लिए (हमारे यहाँ) भोजन नहीं मिलता ?”

“महाराज ! हमारे वंश का यही आचार है ।”

“भन्ते ! निश्चय से हम लोगों का वंश महा सम्मत (—मनु) का क्षत्रिय वंश है ? इस वंश में एक क्षत्रिय भी तो कभी भिक्षाचारी नहीं हुआ ।”

“महाराज ! वह राज-वंश तो आपका वंश है । हमारा वंश तो दीपङ्कर-कौण्डिन्य काश्यप (आदि) का बुद्ध-वंश है । और दूसरे अनेक सहस्र बुद्ध भिक्षाचारी (रहे हैं) ; भिक्षाचार से ही जीविका चलाते रहे हैं ।” उसी समय सड़क में खड़े ही खड़े यह गाथा कही :—

“उद्योगो आलसी न बने, सुचरित धर्म का आचरण करे, धर्माचारी (पुरुष) इस लोक में भी और परलोक में भी सुख-पूर्वक सोता है ।”

गाथा की समाप्ति पर राजा स्रोतापत्ति-फल में स्थित हुआ । (फिर) :—

“सुचरित कर्म का आचरण करे, दुश्चरित कर्म (—धर्म) का आचरण न करे । धर्माचारी (पुरुष) इस लोक और परलोक में सुख पूर्वक सोता है ।” इस गाथा को सुन कर राजा सङ्घदागामी फल में प्रतिष्ठित हुआ । महाधम्मपाल

जातक^१ को सुन कर अनागामी फल में प्रतिष्ठित हुआ। अन्त में मृत्यु के समय, श्वेत छत्र के नीचे, सुन्दर शय्या पर लेटे ही लेटे अर्हत्पद को प्राप्त हुआ। राजा को अरण्यवास कर योगाभ्यास आदि प्रयत्न नहीं करना पड़ा। (उसने) स्रोत-आपत्ति-फल का साक्षात्कार कर, भगवान् का पात्र ले, मण्डली सहित भगवान् को महल पर ले जाकर, उत्तम खाद्य भोज्य परोसे। भोजन के बाद एक राहुल-माता को छोड़, शेष सभी रनिवास ने आ आ कर भगवान् की वन्दना की। वह परिजन द्वारा—“जाओ, आर्यपुत्र की वन्दना करो” कहने पर ‘यदि मेरे में गुण है, तो आर्यपुत्र स्वयं मेरे पास आयेगे; आने पर ही वन्दना कलेंगी’ कह न गई।

भगवान् राजा को पात्र दे, दो प्रधान शिष्यों (—सारिपुत्र, मौद्गल्यायन) के साथ, राजकुमारी के शयनागार (—स्त्री गर्भ) में जा “राजकन्या को यथारुचि वन्दना करने देना, कुछ न बोलना” कह बिछे आसन पर बैठे। उसने जल्दी से आ पैर पकड़ कर, शिर को पैरों पर रख, अपनी इच्छानुसार वन्दना की। राजा ने भगवान् के प्रति राजकन्या के स्नेह-सत्कार आदि गुण को कहा—“भन्ते ! मेरी बेटी आपके काषाय-वस्त्र पहिनने को सुन कर, तभी से काषाय-धारिणी हो गई। आपके एक बार भोजन करने को सुन, एकाहारिणी हो गई। आपके ऊँचे पलङ्ग के छोड़ने की बात सुन, तस्ते पर सोने लगी। आपके माला, गन्ध आदि से विरत होने की बात सुन, माला गन्ध आदि से विरत हो गई। अपने पीहर वालों के ‘हम तुम्हारी सेवा सुश्रूषा करेगे’ ऐसा पत्र भेजने पर एक सम्बन्धी को भी नहीं देखती ! भगवान् ! मेरी बेटी ऐसी गुणवती है।”

“महाराज ! इसमें (कुछ) आश्चर्य नहीं, इस समय तो आपकी सुरक्षा में रह, परिपक्व ज्ञान के साथ राजकन्या ने अपनी रक्षा की है। पहले तो बिना किसी रक्षा के, अपरिपक्व ज्ञान रखते भी, पर्वत के नीचे विचरते समय अपनी रक्षा की थी” कह चन्द किन्नर जातक^२ सुना, बुद्ध आसन से उठ कर चले गये।

दूसरे दिन (नन्द) राजकुमार का अभिषेक, गृहप्रवेश, विवाह—ये तीन मंगल-उत्सव थे। उस दिन, भगवान् नन्द के घर जाकर, उसे प्रब्रजित करने

^१ जातक (४४७)।

^२ जातक (५८५)।

की इच्छा से नन्दकुमार के हाथ में पात्र दे मंगल कह, आसन से उठ कर चल पड़े। (नन्द की नव वधू) जनपद-कल्याणी ने कुमार को पीछे जाते देखा पर, “आर्य पुत्र ! जल्दी आइयो” कह गर्दन बढ़ा कर देखने लगी। राजकुमार भी (संकोचवश) भगवान् को ‘पात्र ग्रहण कीजिये’ न कह, विहार (तक) चला गया। उसकी (अपनी) इच्छा न रहने पर भी भगवान् ने उसे प्रब्रजित किया। इस प्रकार भगवान् ने कपिलपुर जाने के तीसरे दिन नन्द^१ को साधु बनाया।

(१३) पुत्र को दाय-भाग

सातवें दिन राहुल-माता ने (राहुल) कुमार को अलंकृत कर, भगवान् के पास यह कह कर भेजा, “तात ! देख ! बीस हज़ार साधुओं श्रमणों के मध्य में (जो वह) सुनहले उत्तम रूप वाले साधु (=श्रमण) है वही तेरे पिता हैं। उनके पास बहुत से खजाने थे; जो उनके (घर से) निकलने के बाद से नहीं दिखाई देते। जा, उनसे बरासत माँग। (उनसे कह) “तात ! मैं (राज-) कुमार हूँ। अभियेक प्राप्त करके चक्रवर्ती (-राजा) बनना चाहता हूँ। मुझे धन चाहिए। धन दें। पुत्र पिता की सम्पत्ति का स्वामी होता है।” कुमार भगवान् के पास जा, पिता का स्नेह पा प्रसन्न-चित्त हो, “श्रमण ! तेरी छाया सुखमय है” कह और भी अपने अनुकूल (कुछ कुछ) कहता खड़ा रहा।

भगवान् भोजन के बाद (दान का) महत्त्व कह आसन से उठ कर चले गये ! कुमार भी, ‘श्रमण ! मुझे दायज दें। श्रमण ! मुझे दायज दें।’ कहता भगवान् के पीछे पीछे हो लिया। भगवान् ने कुमार को नहीं लौटाया। परिजन भी उसे भगवान् के साथ जाने से न रोक सके। इस प्रकार वह भगवान् के साथ आराम तक चला गया। भगवान् ने सोचा—“यह पिता के पास के जिस धन को माँगता है, वह (धन) सासारिक है, नाशवान है। क्यों न मैं इसे बोधिमण्ड में मिला अपना सात प्रकार का आर्य-धन^२ दूँ। इसे अलौकिक बरासत का स्वामी बनाऊँ (ऐसा सोच) आयुष्मान सारिपुत्र को कहा—“सारि-

^१ सिद्धार्थ की मौसी और सौतेली माँ महागौतमी प्रजापती का पुत्र।

^२ श्रद्धा, शील (=सदाचार) लज्जा, निन्दा-भय, (बहु-)श्रुत होना, त्याग तथा प्रज्ञा।

पुत्र ! तो लो राहुल-कुमार को साधु बनाओ।” राहुल-कुमार के साधु होने पर राजा को अत्यन्त दुःख हुआ। उस दुःख को न सह सकने के कारण राजा ने (उसे) भगवान से निवेदन कर, वर माँगा—“अच्छा भन्ते ! आर्य (भिक्षु लोग) माता पिता की आज्ञा के बिना (उनके) पुत्र को प्रव्रजित न करे” भगवान ने राजा को वह वर दिया।

फिर एक दिन (भगवान्) राज-महल में प्रातःकाल के भोजन के लिए गये। (भोजन) कर चुकने पर, एक और बैठे राजा ने कहा—“भन्ते ! आपके दुष्कर तपस्या करने के समय, एक देवता ने मेरे पास आ कर कहा कि तुम्हारा पुत्र मर गया। उसके वचन पर न विश्वास करके उसके वचन का खण्डन करते हुए मैंने कहा “मेरा पुत्र बुद्ध-पद प्राप्ति किये बिना मर नहीं सकता”।

ऐसा कहने पर, भगवान् ने कहा, “जब तुमने उस समय में, हड्डियाँ दिखा कर, ‘तुम्हारा पुत्र मर गया’ कहने पर विश्वास नहीं किया, तो अब क्या विश्वास करोगे ?” इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए (भगवान् ने) महाधम्मपाल जातक^१ कहा। कथा की समाप्ति पर राजा अनागमिफल में स्थित हुआ।

(१४) अनाथपिण्डक का दान

इस प्रकार पिता को तीन फलों में स्थापित कर, भिक्षुसंघ सहित भगवान् (कपिलवस्तु में चल कर) फिर एक दिन राजगृह जा सीतवन में ठहरे। (उस) समय, अनाथपिण्डक गृहपति पाँच सौ गाड़ियों में माल भर, राजगृह जा अपने प्रिय मित्र सेठ के घर ठहरा था। वहाँ उसने भगवान् बुद्ध के उत्पन्न होने की बात सुनी। फिर अत्यन्त प्रातःकाल (उठा और) देवताओं के प्रताप से खुले द्वार से बुद्ध के पास पहुँचा। धर्मोपदेश सुन, स्तोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हो, दूसरे दिन भिक्षु-संघ सहित बुद्ध को महादान दे, श्रावस्ती आने के लिए भगवान् (=शास्ता) से वचन लिया।

(अनाथपिण्डक ने) रास्ते में पैतालीस योजन तक लाख लाख खर्च करके, योजन योजन पर विहार बनवाये। अट्टारह करोड़ अशर्फी (=सुवर्ण) बिछा कर जेतवन मोल ले, उसने मकान बनवाना आरम्भ किया। (वहाँ) बीच में

^१ जातक (४४७)।

दश-बल बुद्ध की गन्धकुटी बनवाई। उसके इर्द गिर्द अस्सी महास्थविरों के पृथक् पृथक् निवास, एक दीवार-दो दीवार-वाली, हंस के आकार की लम्बी शालायें, मण्डप तथा दूसरे बाकी शयनासन, पुष्करिणियाँ, टहलान (=चक्रमण), रात्रि के स्थान और दिन के स्थान बनवाये। (इस प्रकार) अट्टारह करोड़ के खर्च^१ से रमणीय स्थान में सुन्दर विहार बनवा, भगवान् के लिवा लाने के लिए दूत भेजा। भगवान् (=शास्ता) दूत का सन्देश सुन, महान् भिक्षु-संघ के साथ राजगृह से निकल क्रमशः श्रावस्ती नगर में पहुँचे।

महासेठ भी विहार-पूजा की तैयारी (पहले ही से) कर चुका था। उसने तथागत के जेतवन में प्रवेश करने के दिन, सब अलंकारों से अलंकृत पाँच सौ कुमारों के साथ, सब अलंकारों से प्रतिमण्डित (अपने) पुत्र को आगे भेजा। अपने साथियों सहित वह, पाँच रंग की चमकती हुई, पाँच सौ पताकाये ले कर बुद्ध के आगे आगे चला। उसके पीछे महासुभद्रा और चूळसुभद्रा (नाम की) सेठ की दो बेटियाँ, पाँच सौ कुमारियों के साथ, पूर्ण-घट ले कर निकली। उनके पीछे सब अलंकारों से अलंकृत सेठ की देवी (=भार्या) पाँच सौ स्त्रियों के साथ, भरा थाल लेकर निकली। उसके बाद सफेद वस्त्र धारण किये स्यंव सेठ जैसे ही श्वेत वस्त्र धारण किये अन्य पाँच सौ सेठों को साथ ले, भगवान् की अगवानी के लिए चला।

यह उपासक मण्डली आगे जा रही थी। (पीछे पीछे) भगवान् महाभिक्षु-संघ से घिरे हुए, जेतवन को अपनी सुनहरी शरीर-प्रभा से रञ्जित करते हुए, अनन्त बुद्ध-लीला और अतुलनीय बुद्ध शोभा के साथ जेतवन में प्रविष्ट हुए। तब अनाथपिण्डक ने उन्हें पूछा—“भन्ते ! मैं इस विहार के विषय में कैसे क्या कहूँ ?”

“गृहपति ! यह विहार आये हुए तथा न आये हुए भिक्षु-संघ को दान कर दे।”

‘अच्छा भन्ते !’ कह महासेठ ने सोने की भारी ले, बुद्ध के हाथ पर (दान का) जल डाल, “मैं यह जेतवन विहार सब दिशा और सब काल (आगत अना-

^१ श्रेष्ठी नगर का अर्वातनिक पदाधिकारी होता था। वह धनिक व्यापारियों में से बनाया जाता था।

गत चतुर्दिश) के बुद्ध-प्रमुख भिक्षुसंघ को देता हूँ कह प्रदान किया। शास्ता ने विहार को स्वीकार कर दान की प्रशंसा करते कहा :—

“यह गर्मी सर्बों से, हिंल जन्तुओं से, रेंगने वाले (=सर्पादि) जानवरों से, मच्छरों से, बूँदा बाँदी से, वर्षा से और घोर हवा-धूप से रक्षा करता है। यह आश्रय के लिए, सुख के लिए, ध्यान के लिए और योगाभ्यास के लिए (उपयोगी है) इसीलिए बुद्ध ने विहार-दान को श्रेष्ठ-दान (=अग्रदान) कह, उसकी प्रशंसा की है। अपनी भलाई चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि सुन्दर विहार बनवाये और उनमें बहु-श्रुतों को निवास कराये और प्रसन्न-चित्त उन सरल चित्त वालों को, अन्न-पान वस्त्र तथा निवास (-शयनासन) प्रदान करे। तब (ऐसा करने पर) वे सब दुःखों के नाश करने वाले, धर्म का उपदेश करते हैं, जिसे जान कर वह मलरहित (=अनाश्रव) परिनिर्वाण को प्राप्त होगा”

इस प्रकार विहार-दान का माहात्म्य कहा।

दूसरे दिन से अनाथपिण्डक ने विहार-पूजोत्सव आरम्भ किया। विशाखा का प्रासाद का पूजोत्सव चार महीने में समाप्त हुआ। लेकिन अनाथपिण्डक का विहार-पूजोत्सव नौ महीनों में समाप्त हुआ था। विहार पूजोत्सव में भी अठारह करोड़ ही खर्च हुए। इस प्रकार (उसने) उस विहार ही में चौवन करोड़ धन का दान किया।

पूर्व में भगवान् विपस्ती के समय, पुन्नवसुमित्र नामक सेठ ने सोने की ईंटों को सिर से सिर लगा कर, (उससे भूमि) खरीद कर, उसी स्थान में योजन भर का संधाराम बनवाया था। भगवान् शिल्पि के समय श्रीवर्द्ध नामक सेठ ने सोने के फँलाकों को फँला कर (भूमि) खरीद कर, उसी स्थान पर तीन गव्यूति (६ मील) भर का संधाराम बनवाया था। भगवान् विश्वभू (=वेस्सभू) के समय स्वस्ति (=सोत्थि) नामक सेठ ने सोने के हस्ति-पदों के फँलाव से खरीद कर, उसी स्थान पर आधे-योजन भर का संधाराम बनवाया था। भगवान् ककुसन्ध के समय अच्युत नामक सेठ ने सोने की ईंटों के फँलाव से खरीद कर, उसी स्थान पर गव्यूति (२ मील) भर का संधाराम बनवाया। भगवान् कोनागमन के समय उग्र नामक सेठ ने सोने के कच्छुओं के फँलाव से खरीद कर, उसी स्थान पर, आधे गव्यूति (एक मील) का संधाराम बनवाया। भगवान् काश्यप के समय में सुमङ्गल नामक सेठ ने सोने की ईंटों के फँलाव से खरीद

कर, उसी स्थान पर सोलह करीष तक का संधाराम बनवाया । लेकिन हमारे भगवान् के समय अनाथपिण्डक सेठ ने करोड़ों कार्षापणों के फैलाव से खरीद कर, उसी स्थान पर आठ करीष^१ भर में संधाराम बनवाया । यह स्थान सभी बुद्धों से अपरित्यक्त स्थान है । इस प्रकार बोधिमण्ड में सर्वज्ञता-प्राप्ति से महापरिनिर्वाण-मञ्च तक, जिस जिस स्थान पर भगवान् रहे, यह सब 'सन्तिके-निदान' है ।

इसीके सम्बन्ध से (आगे) सब जातकों का वर्णन करेंगे ।

जातकट्ठकथा की निदान-कथा समाप्त



^१ एक करीष = ४ अम्मण । चार अम्मण बीज बोने की जगह ।

पहला परिच्छेद

१. अपण्णक वर्ग

१. अपण्णक जातक

अपण्णक (इत्यादि)—यह धर्म-कथा भगवान् ने श्रावस्ती के जेतवन महा-विहार में रहते समय कही। किस के कारण यह कथा कही गई? एक सेठ के पाँच सौ तैथिक मित्रों के कारण।

क. वर्तमान कथा

एक दिन **अनाथपिण्डिक** सेठ, अपने पाँच सौ **अन्य-तीर्थिक**^१ मित्रों को साथ ले, बहुत सा गन्ध, माला, लेप, तेल, मधु, मक्खन, वस्त्र-आच्छादन आदि लिवाकर, जेतवन गया। (वहाँ) भगवान् की वन्दना कर, माला आदि से पूजा कर, भिक्षु-संघ को भेषज तथा वस्त्र आदि प्रदान कर, बैठने के सम्बन्ध के **छः बोधों**^२ को छोड़, एक ओर बैठ गया। वे दूसरे मत के शिष्य भी तथागत की वन्दना कर, शास्ता के पूर्ण चन्द्र की शोभा से शोभित मुख, लक्षण और अनुलक्षणों (अनुव्यञ्जनो) से मण्डित, तथा चारों ओर चार हाथ (=व्याम) की दूरी तक प्रभा से प्रकाशित सुन्दर शरीर (=ब्रह्म काय) —जिससे समय समय पर जोड़ा जोड़ा होकर घनी बुद्ध-किरणें निकलती थी—को देखते, **अनाथपिण्डिक** के समीप ही बैठ गये।

^१ किसी अन्य पन्थ के अनुयायी।

^२ अत्यन्त समीप, अत्यन्त दूर जिधर से हवा आती हो उबर, ऊँचे स्थान पर, बिल्कुल सामने तथा बिल्कुल पीछे हो कर बैठना—ये बैठने के छः बोध हैं।

तब बुद्ध ने उन्हें, मनःशिलातल पर सिंह-नाद करते तरुण सिंह की तरह, या वर्षा के गरजते मेघ की तरह, या आकाश-गङ्गा के अवतरण की तरह, या रत्नों की माला गूँधते हुए की तरह, आठ बातों से युक्त, श्रवण-योग्य, कमनीय और उत्तम स्वर से नाना प्रकार की विचित्र धर्म-कथाये कही। उन्होंने बुद्ध के उपदेश सुन, प्रसन्न चित्त हो, उठ कर बुद्ध की वन्दना की; और दूसरे मतों की शरण छोड़ बुद्ध की शरण ग्रहण की। उस दिन से आरम्भ करके, वे नित्य-प्रति, अनाथपिण्डक के साथ, गन्ध माला आदि हाथ में ले, विहार जा कर धर्म सुनते, दान देते, सदाचार (==शील) रखते तथा व्रत (==उपो-सथ-कर्म) करते थे।

दूसरे दिन भगवान् श्रावस्ती से राजगृह चले गये। बुद्ध (==तथागत) के जाने पर, वे अन्य-तीर्थिक श्रावक तथागत की शरण छोड़, फिर दूसरे मतों की शरण ग्रहण कर, अपने पहले स्थान पर ही चले गये। भगवान् सात आठ मास बिता कर फिर जेतवन लौट आये। अनाथपिण्डक फिर उन्हें (साथ) ले जा कर, बुद्ध के पास जा गन्ध आदि से पूजा तथा प्रणाम कर, एक ओर बैठे। वे (तीर्थिक) भी भगवान् की वन्दना कर, एक ओर बैठ गये। तब (अनाथ-पिण्डक ने) बुद्ध (==तथागत), से, (उनके) चारिका पर चले जाने के समय, उन (तीर्थिकों) के (तथागत की) शरण छोड़, फिर दूसरे मतों की शरण ग्रहण करके, अपने पहले स्थान पर चले जाने की बात कही।

भगवान् ने अनन्त (==अप्रमाण) करोड़ कल्पों तक निरन्तर वाणी सम्बन्धी सदाचार को पालन करने के प्रताप से, दिव्य सुगन्धों से सुगन्धित, नाना प्रकार की सुगन्धियों से भरे रत्न-करण्ड को खोलते हुए की तरह, अपने मुख-पद्म को खोल कर, मधुर स्वर से पूछा—“उपासको! क्या तुम सचमुच तीन-शरणों^१ को छोड़ कर दूसरे मत की शरण चले गये थे?”

उन्होंने छिपा न सकने के कारण कहा—“भगवान्! सच (है)।”

तब बुद्ध ने कहा—‘उपासको! नीचे श्रवीचि नामक नरक से ऊपर भवाग्र नामक सर्वापरि देव-लोक तक जितनी अप्रमाण लोक-धातुये हैं, उनमें (कही

^१ बुद्ध, धर्म, और संघ की शरण।

भी) सदाचार (=शील) आदि गुणों में बुद्ध के समान भी कोई नहीं, बढ़ कर तो कहाँ से होगा ?' 'भिक्षुओ ! (पैर) या बे पैर वाले जितने भी प्राणी है बुद्ध (=तथागत) उनमें सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं^१। 'इस लोक या पर-लोक में जितने भी धन है तथागत', 'शुद्ध-चित्तों में श्रेष्ठ (=अग्र)' इत्यादि सूत्रों में प्रकाशित तीनों रत्न (=बुद्ध, धर्म और संघ) के गुण प्रकाशित किये। "इस प्रकार के गुणों से युक्त तीनों रत्नों की शरण जाने वाले उपासक वा उपासिका नरक आदि में पैदा नहीं होते। (वे) नरक के जन्म से बच कर, देव-लोक में उत्पन्न हो, महासम्पत्ति भोगते हैं। इसलिए तुम लोगों ने इस प्रकार की शरण को छोड़ कर, दूसरे मतों की शरण ग्रहण करके, अनुचित किया है।"

त्रिरत्न को मोक्ष (दायक) और उत्तम मान कर (उनकी) शरण जाने वालों का नरक आदि में जन्म न लेना—यह दिखाने के लिए, यह सूत्र^२ उद्धृत करना चाहिए :—

"जो बुद्ध की शरण गये हैं, वे नरक नहीं जायेंगे। मनुष्य-देह को छोड़ कर, वे देव-लोक में पहुँचेंगे ॥"

"जो धर्म की शरण गये हैं, वे नरक नहीं जायेंगे। मनुष्य-देह को छोड़ कर, वह देव-लोक में पहुँचेंगे ॥"

"जो संघ की शरण गये हैं, वह नरक नहीं जायेंगे। मनुष्य-लोक को छोड़ कर, वे देव-लोक में पहुँचेंगे।"

भयभीत हो मनुष्य पर्वत, वन, आराम (=उद्यान), वृक्ष, चैत्य आदि, अनेक स्थानों (को देवता मान उन) की शरण लेते हैं। किन्तु ये शरण मङ्गल दायक नहीं, ये शरण उत्तम नहीं, क्योंकि इन शरणों को ग्रहण करने से, सब दुःखों से छुटकारा नहीं मिलता।

जो बुद्धधर्म तथा संघ की शरण जाते हैं; जिन्होंने चारों आर्य सत्त्यों को भली प्रकार प्रज्ञा से देखा है। (वे चार आर्य सत्य हैं—) (१) दुःख, (२)

^१ इतिवृत्तक ।

^२ संयुक्त निकाय, महासमय सूत्र ।

दुःख की उत्पत्ति, (३) दुःख का नाश और (४) दुःखनाशक आर्य अष्टांगिक मार्ग । ये हैं मङ्गलप्रद शरण, ये हैं उत्तम शरण, इन शरणों को पा कर (मनुष्य) सारे दुःखों से छूट जाता है ॥”^१

शास्ता ने केवल उन्हें इतना ही धर्मोपदेश नहीं किया; बल्कि यह भी कहा—“उपासको ! बुद्धानुस्मृति कर्मस्थान (—योगाभ्यास के लिए मन का विषय), धर्मानुस्मृति कर्मस्थान, संघानुस्मृति कर्मस्थान, श्रोतआपत्ति मार्ग, श्रोतआपत्ति फल, सङ्घदागामी मार्ग, सङ्घदागामी फल, अनागामी मार्ग, अनागामी फल, अर्हत्-मार्ग तथा अर्हत् फल, का दायक होता है । (और उस) क्रम से भी धर्मोपदेश कर (अन्त में कहा—) “इस प्रकार की शरण छोड़ कर तुमने अनुचित किया ।”

बुद्धानुस्मृति श्रोतापत्ति मार्ग आदि को देते हैं; यह “भिक्षुओ ! एक धर्म (—वात) के अभ्यास करने से, बढ़ती करने से, सम्पूर्ण निर्वेद—विराग, निरोध, उपशमन, अभिज्ञा, सम्बोधि (—परमज्ञान) तथा निर्वाण की प्राप्ति होती है । कौन सा है वह एक धर्म ? बुद्धानुस्मृति^२” आदि सूत्रों से प्रतिपादित करना चाहिए । इस प्रकार भगवान् ने नाना प्रकार से उपासकों को उपदेश दे कहा—“उपासको ! पूर्व (काल) में भी मनुष्यों ने (एक बार) तर्क-वितर्क से अयोग्य शरण को शरण समझ ग्रहण किया, और भूतों (—अमनुष्यों) वाले मरुभूमि (—कान्तार) में जा भूतों (—यक्षों) के ग्रास हो बर्बाद हुए । लेकिन उसी मरुभूमि में निर्दोष (—अपण्णक) शरण को अनुकूलता के साथ सम्पूर्ण रूप से ग्रहण करने वाले मनुष्य कल्याण (—स्वस्तीभाव) को प्राप्त हुए ।” यह कह (तथागत) चुप हो गये ।

तब अनाथपिण्डक गृहपति आसन से उठ, भगवान् की वन्दना तथा प्रशंसा कर, (दोनों) हाथों को जोड़, सिर पर रख, इस प्रकार बोला—“भन्ते ! इन उपासकों का इस समय उत्तम शरण को छोड़ वितर्क के पीछे चलना तो हमें मालूम है; लेकिन पूर्व समय में भूतों वाली मरुभूमि में वितर्क के पीछे चलने

^१ धम्मपद, बुद्धवग्ग ।

^२ अंगुत्तर निकाय, एकक निपात ।

वालों का बर्बाद होना, और निर्दोष-गहनी (—अपण्णक-ग्राह) ग्रहण करने वालों का कल्याण प्राप्त करना—यह (बात) हमें मालूम नहीं। वह आपको ही मालूम है। भगवान् ! अच्छा हो, यदि आप हमें इस बात को आकाश में उदय हुए पूर्ण चन्द्रमा की भाँति प्रकट करें।”

तब भगवान् ने 'गृहपति ! मैंने अनन्त (—अप्रमाण) समय तक दस पारमिताओं को पूरा करके, लोगों के संशय निवारण के लिए, बुद्ध (—सर्वज्ञता) का ज्ञान प्राप्त किया है। सोने के पात्र (—नालिका) में सिंह के तैल डालने की भाँति अच्छी तरह ध्यान देकर सुनो' कह, सेठ को सचेत कर, बादलों को फाड़ कर निकलते चन्द्रमा की तरह, पूर्व जन्म की छिपी बात को प्रकट किया :—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में काशी देश के बनारस (—बाराणसी) नगर में ब्रह्मदत्त^१ नामक राजा राज्य करता था। उस समय बोधिसत्त्व ने (एक) बंजारे (—सत्थवाह) के घर में जन्म ग्रहण किया था। क्रमशः सयाने हो, वह पाँच सौ गाड़ियाँ ले, व्यापार करते हुए विचरते थे। वह कभी पूर्व-देश से अपरान्त देश जाते थे, कभी अपरान्त से पूर्व।

बनारस ही में (एक) और भी बंजारे का पुत्र था, लेकिन वह मूर्ख, जड़ और भोंदू था। उस समय बोधिसत्त्व ने बनारस से बहुत सा मूल्यवान् सौदा पाँच सौ गाड़ियों पर लाद, चलने की तैयारी की थी। उस मूर्ख बंजारे के पुत्र ने उसी प्रकार, पाँच सौ गाड़ियाँ लाद, चलने की तैयारी की थी। बोधिसत्त्व ने सोचा यदि यह मूर्ख मेरे साथ साथ जायगा तो एक ही रास्ते से एक हजार गाड़ियों के जाने पर रास्ता काफी न होगा, आदमियों के लिए लकड़ी-पानी तथा बैलों के लिए घास-चारा मिलना कठिन हो जायगा। इसलिए या तो उसे आगे जाना चाहिये या मुझे।

तब उस आदमी को बुला, यह बात कह कर पूछा :—हम दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं जा सकते तुम आगे जाओगे या पीछे ?

^१ जातकों में काशी के राजा ब्रह्मदत्त का बहुत उल्लेख है।

उसने सोचा 'आगे जाने में मुझे बहुत लाभ है। बिना बिगाड़े (=अभिन्न) रास्ते से जाऊँगा, बैल अछूते तृण खायेंगे, मनुष्यों को तेमन बनाने के लिए अछूते पत्ते मिलेंगे, शान्त (निर्मल) पानी प्राप्त होगा; और मन माने दाम पर सौदा बेचूँगा।' (यह सोच कर) उसने कहा :—“सौम्य ! मैं ही आगे जाऊँगा ।’

बोधिसत्त्व ने पीछे जाने में बहुत लाभ देखे। उन्होंने सोचा :—‘यह आगे आगे जा कर विपम स्थानों को सम करेगा, मैं उसके गये रास्ते से चलूँगा। आगे जाने वाले बैल पकी कड़ी घास खा लेंगे; इस प्रकार मेरे बैल नये मधुर तृणों को खायेंगे। पत्ते तोड़ लिये गये स्थानों पर, नये उत्पन्न पत्ते, साग भाजी के लिए मधुर होंगे। यह लोग जहाँ पानी नहीं है, ऐसे स्थानों को खोद कर पानी निकालेंगे, सो दूसरों के खोदे हुए कुओं (गढ़ों) से हम पानी पीयेंगे। (वस्तुओं का) मूल्य निश्चित करना वैसा ही है जैसा मनुष्यों की जान लेना होना है। मैं पीछे जा कर इनके निश्चित किये गये मूल्य से सौदा बेचूँगा।’ इतने लाभ देख कर उन्होंने कहा :—सौम्य ! तुम आगे जाओ।”

“अच्छा ! सौम्य !” कह, वह मूर्ख बंजारा गाड़ियों को जोत (नगर से) निकला। वह क्रमशः मनुष्यों की बस्तियाँ पार कर कान्तार (=मरुभूमि) के प्रवेश-स्थान पर पहुँचा।

कान्तार पाँच प्रकार के होते हैं :—“चोरों का कान्तार, व्याल (=हिंसक जन्तुओं) का कान्तार, भूतों का कान्तार, निर्जल (=निरुदक) और अल्प-भक्ष कान्तार।”

जिस मार्ग पर चोरों का दखल हो, वह चोर-कान्तार (कहा जाता है)। सिंह आदि व्यालों से अधिकृत मार्ग व्याल-कान्तार; जहाँ स्नान करने वा पीने के लिए पानी न मिले वह निरुदक कान्तार; भूतों (=अमनुष्यों) वाला मार्ग अमनुष्य कान्तार, और खाने पीने के लायक कंद मूल आदि से शून्य मार्ग अल्प-भक्ष कान्तार। इन पाँच प्रकार के कान्तारों में से वह कान्तार निरुदक-कान्तार तथा अमनुष्य-कान्तार था। इसलिए यह बंजारे का लड़का गाड़ियों में बड़े बड़े मटके रखवा, (उन्हें) पानी से भरवा कर (उस) साठ योजन के कान्तार में चला।

कान्तार के बीच में पहुँचने पर, कान्तार में रहने वाले दैत्य ने सोचा कि

यदि मैं इनके साथ के पानी को फेंकवा दूँ, तो (इनके) दुर्बल हो जाने पर मैं इन सब को खा सकूँगा। (यह सोच) उसने बिल्कुल सफेद रंग के तरुण बैलों को मनोरम रथ (=यान) में जुनवाया, धनुष-तरकस-ढाल (आदि) हथियार (=आयुध) हाथ में लिये। फिर नीले और सफेद कमलों (की माला को) धारण कर, गीले केश, गीले वस्त्र, दस बारह दैत्यों को साथ ले एक बड़े राजा (=ईश्वर पुरुष) की तरह उस रथ में बैठ कीचड़ में डूबे हुए पहियों के साथ रास्ते पर हो लिया। उसके आगे पीछे चलने वाले, उसके सेवक (=परिचारक) भी, भीगे केश, भीगे वस्त्र, नीले सफेद कमलों की मालाये धारण किये हुए, लाल सफेद कमलों के गुच्छे लिये, पानी तथा कीचड़ की बूँदें टपकाते हुए, और भिस की जड़ें खाते हुए (साथ) चले। जब सामने की हवा चलती थी, तो बजारा रथ में बैठ, नौकरों (=परिचारकों) के साथ धूली को हटाते हुए आगे आगे चलता था; जब पीछे की हवा चलती थी, तब उसी प्रकार पीछे पीछे चलता था। उस समय तो सामने की हवा थी। इसलिए बजारा आगे आगे जा रहा था।

दैत्य ने उस बजारे को आता देख, अपने रथ को रास्ते से एक ओर कर के पूछा—कहाँ जाते है? (फिर) कुशल-क्षेम की बातचीत की।

बजारे ने भी अपने रथ को रास्ते से एक ओर हटा, (अन्य) गाड़ियों को जाने का रास्ता दे, एक ओर खडे खडे उस दैत्य से कहा—“जी! हम बनारस से आते है” और पूछा—“यह जो आप उत्पल-कुमुद धारण किये, पद्म-पुण्डरीक हाथ में लिये, कीचड़ से सने और पानी की बूँदें चुवाते और भिस की जड़ें खाते आ रहे है; सो क्या आप लोगो के आने के रास्ते में वर्षा हो रही है, (वहाँ) उत्पल आदि से ढके सरोवर है?”

उसकी बात सुन कर दैत्य बोला—“मित्र! यह क्या कहते हो? सामने यह जो हरे रंग की बन-पाँती दिखाई देती है, उससे आगे के सारे जंगल में मूसला-धार वर्षा हो रही है। पहाड की दरारे भरी हुई है। जगह जगह पर पद्म आदि से पूर्ण जलाशय है।” फिर आगे पीछे जाती गाड़ियों की ओर, इशारा करके पूछा—“यह गाड़ियाँ ले कर कहाँ जा रहे हो?”

“अमुक देश को।”

“इस इस गाड़ी में क्या क्या सौदा है?”

“यह (सौदा) है, और यह (सौदा) है।”

“पिछनी गाड़ी बहुत भारी मालूम हो रही है। उसमें क्या सौदा है?”

“उसमें पानी है।”

“अभी जो पानी साथ लाये, सो तो अच्छा किया। लेकिन अब यहाँ से आगे पानी की आवश्यकता नहीं। आगे बहुत पानी है। मटकों को फोड़, पानी फेक मुख से जाओ।”

इस प्रकार की बातचीत कर “आप जाइये, हमे देर होती है” कह, कुछ दूर जा कर, उनकी आँख से ओझल हो, (दैत्य) अपने नगर को ही चला गया।

उस मूर्ख बजारे ने अपनी मूर्खता के कारण दैत्य की बात मान, मटके फुडवा, चुल्लू भर भी पानी बाकी न रख, सभी (पानी) फिकवा गाड़ियाँ हँकवाई। आगे (रास्ते में) जरा सा भी पानी न था। आदमी पानी बिना पीडित होने लगे। उन्होंने सूर्यास्त तक चलते रह कर, (शाम को) बैलों को खोल, गाड़ियों का घेरा बना खडा कर, बैलों को गाड़ियों के पहियों से बाँधा। न बैलों को पानी मिला, न मनुष्यों को भोजन (=यवागू-भात)। दुर्बल मनुष्य जहाँ तहाँ पड़ कर सो रहे। रात होने पर दैत्यों के नगर से (वह) दैत्य आये (और) सब बैलों तथा मनुष्यों को मार, उनका मास खा, हड्डियाँ (वही) छोड़ कर चले गये। इस प्रकार (उस) मूर्ख बजारे के पुत्र (की मूर्खता) के कारण, वह सब नाश को प्राप्त हुए। उनकी हाथो आदि की हड्डियाँ इधर उधर बिखर गईं; (किन्तु) पाँच सौ गाड़ियाँ जैसी की तैसी खडी रही।

उस मूर्ख बजारे के पुत्र के चले जाने के मास आध-मास बाद, बोधिसत्त्व भी पाँच सौ गाड़ियों के साथ नगर से निकले; और क्रमशः कान्तार के मुख पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने पानी के मटकों में बहुत सा पानी भर लिया (और) अपने तम्बुओं में ढँढोरा पीट, आदमियों को एकत्रित कर कहा—“बिना मुझे पूछे, एक चुल्लू भर पानी भी काम मे न लाना। जगल में विषेले-वृक्ष भी होते हैं। (इस लिए) किसी ऐसे पत्ते, फूल या फल को, जिसे पहले न खाया हो, बिना मुझ से पूछे कोई न खामये।”

इस प्रकार आदमियों को ताकीद कर, पाँच सौ गाड़ियों के साथ मरुभूमि (=कान्तार) की ओर बढ़े।

उस मरुभूमि के मध्य में पहुँचने पर, उस दैत्य ने पहले ही की भाँति अपने

को बोधिसत्त्व के मार्ग में प्रकट किया। बोधिसत्त्व ने उसे देखते ही पहचान लिया (और सोचा) — “इस मरुभूमि में जल नहीं है। इसका नाम ही निर्जल-कान्तार है। यह (पुरुष) निर्भय है। इसकी आँखें लाल हैं। (और) इसकी छाया तक दिखाई नहीं पड़ती। निस्सन्देह इसने आगे गये मूर्ख बंजारे के पुत्र का सब पानी फिकवा, उन्हें पीड़ित कर, उसे मंडली सहित खा लिया होगा। लेकिन यह मेरी पंडिताई (=बुद्धि) तथा चतुराई (=उपाय-कुशलता) को नहीं जानता।” फिर उससे कहा — “तुम जाओ। हम व्यापारी लोग बिना दूसरा पानी देखे, (साथ) लाये पानी को नहीं फेकते। जहाँ दूसरा पानी दिखाई देगा, वहाँ इस पानी को फेक गाड़ियों को हलका कर चल देगे।”

दैत्य थोड़ी दूर जा कर, अन्तर्धान हो अपने नगर को चला गया। दैत्य के चले जाने पर आदिमियों ने बोधिसत्त्व से पूछा — “आर्य ! यह मनुष्य ‘यह हरे रंग वाली बन पाँती दिखाई देती है। उसके आगे मूसलाधार वर्षा बरस रही है’ कहते हुए, उत्पल-कुमुद आदि की मालायें (धारण किये हुए), पद्म-पुण्डरीक के गुच्छे को (हाथ में) लिये भिस की जड़ खाते, भीगे वस्त्र, भीगे-सीस, पानी की बूँद चूते हुए, आये है। इसलिए (क्यों न) हम पानी को फेक, गाड़ियों को हलकी कर, जल्दी जल्दी चले।”

बोधिसत्त्व ने उनकी बात न मुन, गाड़ियों को रुकवा, सब मनुष्यों को एकत्रित करवा, (उनसे) पूछा — “क्या तुम में से किसी ने इस कान्तार में तालाब अथवा पुष्करिणी होने की बात पहले कभी सुनी ?”

“आर्य ! नहीं ! यही सुना है कि यह कान्तार निर्जल-कान्तार है।”

“अब कुछ मनुष्य कहते हैं कि इस हरे रंग की बन-पाँती के उस पार वर्षा होती है। (अच्छा, तो) वर्षा की हवा कितनी दूर तक चलती है ?”

“आर्य ! योजन भर।”

“क्या किसी एक (जने) के शरीर को भी वर्षा की हवा लग रही है ?”

“आर्य ! नहीं।”

“बादल का सिरा (=मेघ सीस) कितनी दूर तक दिखाई देता है ?”

“आर्य ! योजन भर।”

“क्या किसी को एक भी बादल दिखाई दे रहा है ?”

“आर्य ! नहीं।”

“विजली कितनी दूर तक दिखाई देती है ?”

“आर्य ! चार पाँच योजन तक ।”

“क्या किमी को विजली का प्रकाश दिखाई पड़ा है ?”

“आर्य ! नहीं ।”

“बादल की गर्ज कितनी दूर तक सुनाई देती है ?”

“आर्य ! एक दो योजन भर ।”

“क्या किसी को बादल की गर्ज सुनाई दी है ?”

“आर्य ! नहीं ।”

“यह मनुष्य नहीं, यह दैत्य (थे) । (वह) हमारा पानी फिकवा कर, दुबैल कर, (हमें) खाने के विचार से आये होंगे । आगे जाने वाला मूर्ख बंजारे का पुत्र चतुर (=उपाय-कुशल) नहीं था । इन्होंने अवश्य पानी फिकवा, पीडा दे, उमे खा लिया होगा । उसकी पाँच सौ गाड़ियाँ जैसी की तैसी भरी खड़ी होगी । आज हम उन्हें देखेंगे । चुल्लू भर पानी भी बिना फेके (गाड़ियों को) हाँको” (कह) हँकवाया ।

फिर जाने हुए, उन्हो (=बोधिसत्त्व) ने जैसी की तैसी भरी हुई पाँच सौ गाड़ियाँ, तथा बैलों और आदमियों के हाथों आदि की हड्डियों को इधर उधर बिखरा देख, गाड़ियाँ खुलवा दी । गाड़ियों के इर्द गिर्द घेरे में तम्बू तनवा दिन रहते ही आदमियों और बैलों को शाम का भोजन खिलवा, मनुष्यों के (घेरे के) बीच में बैलों को बँधवा-सुलवा स्वयं सर्दारों (वलनायकों) सहित हाथ में खड्ग ले, रात्रि के तीनों याम पहरा देंते, खड़े ही खड़े सवेरा कर बैलों को खिला, कमजोर गाड़ियों को छोड़, (उनकी जगह) मजबूत को ले, कम मोल का सौदा छोड़ (उसकी जगह) अधिक दाम वाले सौदे को लाद, जहाँ जाना था, उस स्थान पर चले गये । सामान को दुगुने-तिगुने मोल पर बेच, सारी मडली को (साथ) ले फिर (सानद) अपने नगर को लौट आये ।

यह कथा कह कर बुद्ध (शास्ता) ने कहा—गृहपति ! इस प्रकार पूर्वं काल में वितर्क के पाछे चलने वाले सर्वनाश को प्राप्त हुए ; लेकिन यथार्थ-ग्राही लोग दैत्यों के हाथ से बच कर, सकुशल इच्छित स्थान पर जा, फिर अपने स्थान पर लौट आये ।

इस प्रकार इन दो कथाओं को मिला, पूर्वापर कथा सम्बन्ध छोड़, सम्बुद्ध

हो जाने पर इस यथार्थ (==अपण्णक)-धर्म-उपदेश के सम्बन्ध में यह गाथा कही—

अपण्णकं ठानमेके दुतियं आहु तविकका ।

एतदञ्जाय सेधावी तं गण्हे यदपण्णकं ॥

[‘कुछ (पडिन) लोग यथार्थ (==अपण्णक) बात (==स्थान) कह रहे हैं; ताकिक लोग दूसरी (अयथार्थ) । यह जान कर बुद्धिमान् पुरुष, जो यथार्थ है, उसे ग्रहण करे’]

इसमें जो ‘अपण्णक’ (शब्द) है, उसका अर्थ है—ऐकातिक, अवि-रोधी नैर्याणिक (==निर्वाण को प्राप्त करने वाला) । ठान (==स्थान) का मतलब है, बात या कारण । ‘कारण’ को ‘स्थान’ इसलिए कहते हैं, क्योंकि ‘फल’ उस कारण के अधीन हो कर उठरता है । ‘स्थान को स्थान, अस्थान को अस्थान समझ कर’ इत्यादि में ‘स्थान का जो भावार्थ है (==प्रयोग) है, उसे भी जानना चाहिये । यहाँ ‘अपण्णक ठान’ इन दो शब्दों का मतलब है, सारे हितों मुषों का दाता, पडिनो द्वारा आचरित जो एकातिक कारण है, यथार्थ कारण है, नैर्याणिक-कारण है । सक्षेप रूप से यह (अर्थ) है । विस्नार से तो (बुद्ध, धर्म, संघ इन) तीन की शरण जाना, (गृहस्थों को) पाँच शील (==सदाचार), (साधुओं को) दस शील (पालन करना), प्रातिमोक्ष (==भिक्षु-नियमों) से (अपनी) रक्षा करना (==संवर), इन्द्रिय-संयम, शुद्ध जीविका रखना, विहित वस्तुओं (==प्रत्ययों) का सेवन, सभी चारों प्रकार की शुद्धता वाला शील, इन्द्रियों का संयम (==गुप्त द्वारता), भोजन की (उचित) मात्रा का ज्ञान, जागरूक रहना, ध्यान, विदर्शना, अभिञ्जा, समापत्ति (==समाधि), आर्य (अष्टांगिक) मार्ग, आर्य-फल-यह सब अपण्णक वाते (==स्थान) अपण्णक रास्ता (प्रतिपदा), नैर्याणिक रास्ता (है) यह अर्थ है । क्योंकि यह ‘अपण्णक-प्रतिपदा’ नैर्याणिक प्रतिपदा का ही

‘अंगुत्तर अट्टान पाली ।

नाम है, इसीलिए भगवान् ने अपण्णक-प्रतिपदा का उपदेश देते हुए यह सूत्र^१ कहा है—

“भिक्षुओ ! तीन धर्मों (=वातों) से युक्त भिक्षु अपण्णक (=यथार्थ) प्रतिपदा में लग कर, अपने चित्त के मलों के विनाश के लिए प्रयत्नशील होता है। कौन से तीन धर्मों से ? भिक्षुओ ! भिक्षु इन्द्रियों को वश में रखता है, भोजन की (उचित) मात्रा का जानकार होता है। सचेत रहता है। भिक्षुओ ! भिक्षु कैसे इन्द्रियों को वश में रखता है ? भिक्षुओ ! जब भिक्षु रूप (=स्थूल वस्तुओं) को देख कर, उसके आकार (=निमित्त) को ग्रहण नहीं करता इम प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु इन्द्रियों को वश में रखता है। भिक्षुओ ! भिक्षु कैसे भोजन की (उचित) मात्रा का जानकार होता है ? भिक्षुओ ! जब भिक्षु सोच-समझ कर आहार ग्रहण करता है, न तो मस्ती के लिये, न अभिमान के लिये। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु भोजन को (उचित) मात्रा का जानकार होता है। भिक्षुओ ! भिक्षु कैसे सचेत (=जागरूक) रहता है ? भिक्षुओ ! भिक्षु दिन में टहलना और बैठना। इस प्रकार भिक्षुओ ! सचेत होता है।”

इस सूत्र में तीन ही धर्म कहे गए हैं। लेकिन यह अपण्णक-प्रतिपदा अर्हत्-फल की प्राप्ति तक रहती है। यहाँ अर्हत्-फल भी फल-समाधि तथा उपाधि-रहित-निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग (=प्रतिपदा) का ही नाम है।

कुछ (=एके) इस शब्द का मतलब है पण्डितजन। अमुक पण्डितजन, इस प्रकार का कोई नियम नहीं। लेकिन यहाँ पर ‘एक’ शब्द का प्रयोग मडली सहित बोधिसत्त्व के ही लिए जानना चाहिये। तार्किक लोगों ने दूसरा ही कहा है (=दुतियं आहु तक्किका) —दूसरा अर्थात् पहले कहे गये अपण्णक स्थान, नैर्याणिक-कारण से भिन्न (=दूसरा) तर्क के पीछे चलना, अनैर्याणिक कारण। तार्किकों ने कहा (=आहु तक्किका) इसे यहाँ पहले शब्द (= दुतिय) से मिला कर पढ़ना चाहिये। अपण्णक स्थान = अविरोधी बात = नैर्याणिक बात-को-बोधिसत्त्व आदि कुद्ध बुद्धिमान् (=पण्डित) मनुष्यों ने ग्रहण किया।

^१ अंगुत्तर निकाय, तिक निपात ।

लेकिन जिन्होंने मूर्ख बंजारे को अपना मुखिया बनाया वह तर्क-ग्राही (=दलील-बाज) थे; उन्होंने दूसरी अयथार्थ, अनैकातिक, अनैर्यागिक बात स्वीकार की। उनमें से जिन्होंने अपण्णक स्थान को ग्रहण किया, उन्होंने शुद्ध मार्ग (=शुक्ल-मार्ग) का अनुगमन किया। जिन्होंने दूसरे 'आगे जल अवश्य होगा' इस प्रकार की दलील-बाजों (=तर्क-ग्राह) से युक्त अनैर्यागिक बात को माना, उन्होंने अशुद्ध (=कृष्ण) मार्ग का अनुगमन किया। इसमें जो शुक्ल-मार्ग है वह उन्नति का मार्ग है, जो कृष्ण-मार्ग है वह अवनति का मार्ग। इसलिए जिन्होंने शुक्ल-मार्ग का ग्रहण किया, उनकी अवनति न हो कर, वह सुखी हुए; लेकिन जिन्होंने कृष्ण-मार्ग का अनुसरण किया, वे अवनत हो दुःख को प्राप्त हुए।'

इस प्रकार भगवान् ने अनाश्रयिण्डक गृहपति को उक्त बात कह कर, आगे यूँ कहा—“यह जान कर मेधावी पुरुष जो यथार्थ है, उसे ग्रहण करे।” इसमें “एतदञ्जाय मेधावी” का अर्थ है—मेधा कही जाने वाली विशुद्ध, उत्तम, प्रज्ञा से युक्त कुलपुत्र, इस अपण्णक और सपण्णक, तर्क-ग्राह तथा अतर्क-ग्राह कहे जाने वाले दोनों स्थानों में गुण-दोष, लाभ-हानि, अर्थ-अनर्थ जान कर। 'तं गण्हे यदपण्णक' का अर्थ है, जो सम्पूर्ण रूप से शुक्ल-मार्ग है, उन्नति-मार्ग कहा जाने वाला नैर्यागिक-कारण है, उसीको ग्रहण करे। किस लिए? पूर्ण रूप से शुक्ल-मार्ग होने के कारण। लेकिन दूसरे को ग्रहण न करे। किस लिए? अनैकातिक (=असम्पूर्ण) होने के कारण। यह अपण्णक-प्रतिपदा सब बुद्धों, प्रत्येक बुद्धों, और श्रावकों (=बुद्ध-पुत्रों) की प्रतिपदा है। सभी बुद्ध इस अपण्णक-प्रतिपदा (=मार्ग) का अनुसरण करके ही बृद्ध पराक्रम से पारमितायें पूरी कर बोधि (-बुद्ध) के नीचे बुद्ध पद को प्राप्त होते हैं, प्रत्येक-बुद्ध प्रत्येक-बुद्ध-पद को प्राप्त होते हैं; बुद्ध-पुत्र श्रावक-पारमिता-ज्ञान को साक्षात् करते हैं। इस प्रकार भगवान् ने उन उपासकों को तीन कुल-सम्पत्तियाँ^१, छः कामावचर स्वर्ग^२ और ब्रह्म-लोक सम्पत्तियाँ दे कर भी अन्त में अर्हत्-मार्ग को देने वाली

^१ क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा वैश्य।

^२ चानुर्महाराजिक, अयस्त्रिंश, याम, तुषित, निर्माण-रति तथा परनिमित्त वश-वर्ति।

अपण्णक प्रतिपदा, तथा चारदुर्गतियों (==अपायों) और पाँच नीच-कुलों^१ में जन्म देने वाली सपण्णक प्रतिपदा इस प्रकार यथार्थ (==अपण्णक) धर्म का उपदेश कर, चारों आर्य सत्यो को, सोलह प्रकार से प्रकाशित किया। चारों सत्यों (के प्रकाशित करने के) के अन्त में, वह सब पाँच सौ उपासक श्रोत-आपन्न हो गये।

बुद्ध ने इस धर्म-उपदेश को दिखला कर, दो कथाएँ कह, तुलना कर, जातक का सारांश निकाला।

उस समय का मूर्ख बजारा देवदत्त था। उसकी मण्डली देवदत्त की मण्डली थी। (इस समय की) बुद्ध की मण्डली, बुद्धिमान् (==पण्डित) बंजारे की मण्डली थी। और बुद्धिमान् बजारा तो मैं ही था। (यह कह) भगवान् ने धर्म-उपदेश समाप्त किया।

२. वगणुपथ जातक

“अकिलासुतो” इत्यादि यह धर्म-कथा भगवान् ने श्रावस्ती में विहार करते समय कही। किस के लिए? एक शिथिल-प्रयत्न भिक्षु के लिए।

क. वर्तमान कथा

बुद्ध के श्रावस्ती में विहार करते समय एक श्रावस्ती-निवासी कुल-पुत्र (==सभ्रान्त तरुण) ने जेतवन जा कर बुद्ध (==शास्ता) के पास जा धर्म-उपदेश सुना; और प्रसन्न-चित्त (हो) इन्द्रिय-सम्बन्धी सुखों (==कामों) में दोष देख, साधु हो, भिक्षु-दीक्षा (==उपसम्पदा) ग्रहण की। पाँच-वर्ष बीत

^१(१) बॉस का काम करने वाले, (२) नैषाद, (==मल्लाह), (३) रथ-कार, (४) मेहतर, (५) चाण्डाल।

जाने पर दो 'सात्रिकायें' और 'विदशाना-क्रम' को सीख, बुद्ध से अपने चित्त के अनुकूल योगक्रिया (==कर्मस्थान) ग्रहण की। फिर एक जंगल में प्रविष्ट हो, वर्षावास के तीन महीने तक साधना में लगे रहने पर भी 'श्रवभास-मात्र' वा निमित्त-मात्र भी न उत्पन्न कर सका।

तब उसके मन में यह विचार हुआ—“बुद्ध ने चार प्रकार के व्यक्ति कहे हैं। मैं शायद चौथी प्रकार का—पदपरम—व्यक्ति होऊँगा। मालूम होता है मैं इस जन्म में मार्ग या फल कुछ नहीं प्राप्त कर सकूँगा। तो फिर मैं जंगल में रह कर ही क्या करूँगा? (इसलिए) बुद्ध के पास जा, उनके अति सुन्दर शरीर को देखते तथा (उनके) मधुर धर्मोपदेश को सुनते हुए विचरूँगा।” (यह सोच) फिर 'जैतवन' वापिस चला गया।

तब परिचितों तथा मित्रों ने उससे पूछा—“आयुष्मान् ! तू योगाभ्यास (==श्रमणधर्म) करने के लिए भगवान् (==शास्ता) से योगविधि (==कर्म-स्थान) ले कर गया था; लेकिन अब लौट कर मघ के साथ घूम रहा है। क्या तेरे माधु होने (==प्रब्रज्या) का उद्देश्य पूरा हो गया है? क्या तू जन्म-ग्रहण से मुक्त हो गया है?”

“आयुष्मानो ! मैंने मार्ग या फल नहीं प्राप्त किया। यह सोच, कि (शायद) मे इनके योग्य नहीं हूँ; मैं अभ्यास को छोड़ चला आया हूँ।”

“आयुष्मान् ! दृढ़ पराक्रमी-उपदेशक के धर्म (==शासन) में साधु बन कर तू ने, जो प्रयत्न करना छोड़ दिया, वह उचित नहीं किया। आ तुझे तथागत के पास ले चले” कह, उसे शास्ता के पास लिवा ले गये।

शास्ता ने उसे देख कर कहा—“भिक्षुओ ! तुम इस अनिच्छुक भिक्षु को ले कर आये हो। इस भिक्षु ने क्या (अपराध) किया है ?”

“भन्ते ! यह भिक्षु ऐसे उवारने वाले (==नैर्याणिक) धर्म में साधु बन, योगाभ्यास (==श्रमण-धर्म) करते करते उस प्रयत्न को छोड़ कर, लौट आया है।”

^१ भिक्षु-प्रातिमोक्ष तथा भिक्षुणी-प्रातिमोक्ष

^२ ध्यान के विषय (=object) का श्रवभास श्रववा साकार रूप दिखाई देना।

तब भगवान् ने उससे पूछा—“क्या सचमुच भिक्षु ! तूने प्रयत्न डीला कर दिया ।”

“हाँ सचमुच ! भगवान् !”

“भिक्षु ! ऐसे धर्म में साधु हो तू अपने को ‘अल्पेच्छ’, ‘सन्तुष्ट’, ‘एकान्त-प्रिय’ वा ‘प्रयत्नवान्’ न बना, क्यों आलसी भिक्षु प्रकट कर रहा है ? क्या तू पूर्व-जन्म में उद्योगपरायण नहीं था ? (पूर्व जन्म में) तरे अकेले के उद्योग से मरुभूमि में पाँच सौ गाड़ियों के आदमी और बैल पानी पाकर सुखी हुए थे । अब तू किस लिए हिम्मत हार रहा है ?”

वह भिक्षु (भगवान् की) इस बात से सँभल गया ।

यह बात सुन कर भिक्षुओं ने भगवान् से प्रार्थना की—“भन्ते ! इस समय इस भिक्षु का हिम्मत-हार बैठना तो प्रकट है, लेकिन पूर्व-जन्म में इस अकेले के प्रयत्न से मरुभूमि में बैलों और मनुष्यों का पानी पाकर सुखी होना हमें मालूम नहीं । वह आपके बुद्धत्व (=सर्वज्ञता) के ज्ञान को ही प्रकट है । हमें भी वह बात (=कारण) कहिये ।”

“तो भिक्षुओ ! सुनो ।” (कह) भगवान् ने उस भिक्षु को ध्यान दिला (उस) पूर्व-जन्म की अज्ञात बात को प्रकट किया—

ख. अतीत कथा

पूर्व काल में काशी देश के बनारस नगर में, ब्रह्मदत्त (राजा) के राज्य करते समय, बोधिसत्त्व बंजारे के कुल में पैदा हुए; सयाना होने पर पाँच सौ गाड़ियों के साथ वह व्यापार करने लगे । वह एक दिन साठ योजन वाली मरु-भूमि में जा रहे थे । उस कान्तार का रेत इतना बारीक था कि सुट्टी में लेने पर हाथ में नहीं ठहरता था । सूर्योदय के समय से (ही) भौर की आग की तरह (इतना) गर्म हो जाता था कि उस पर चला नहीं जाता था । इसलिए उस कान्तार को पार करने वाले, लकड़ी-पानी, तिल, चावल सब को गाड़ियों पर लाद, रात को ही चलते थे । (वह) उषा (अरुणोदय) के समय गाड़ियों को घेरे में खडी कर, उन पर मण्डप तनवा, समय रहते ही भोजन समाप्त कर, छाया में बैठे बैठे दिन बिताते थे । सूर्यास्त होने पर शाम का भोजन खा कर, भूमि के

ठडी होने पर, गाड़ियों को जुतवा चल देते थे। यह यात्रा समुद्र-यात्रा जैसी होती थी। (उसमें भी) दिशा प्रदर्शक (=थल नियामक) की ज़रूरत रहती थी। वह दिशा-प्रदर्शक तारों को देख कर, क्राफ़िले को (कान्तार से) पार उतारता था।

वह बजारा भी, उस समय, इसी ढग से, उस कान्तार में जा रहा था। उन्सठ योजन पार कर लेने पर, यह सोच कि, अब एक ही रात में हम मरु-भूमि से बहार हो जायेंगे, शाम को भोजन कर, सब लकड़ी पानी फेकवा गाड़ियाँ जुतवा चल पड़ा। दिशा-प्रदर्शक (रुष) अगली गाड़ी पर आसन (कुर्सी) बिछवा, आकाश में तारों को देखता, 'इधर हाँको उधर हाँको', कहता हुआ चला था। इतनी दूर तक न सोया रहने के कारण, थक कर, उसे नींद आ गई। बैलों ने लौट कर, जिस रास्ते से वह आये थे, उसी (रास्ते) को ग्रहण कर लिया; और उसे पता नहीं लगा। बँल सारी रात चलते रहे। दिशा-प्रदर्शक ने अरुणोदय के समय उठ कर, तारों को देख कर, 'गाड़ियों को लौटाओ, लौटाओ'। कहा। गाड़ियों को लौटा कर क्रमशः रास्ते पर लाते ही लाते अरुणोदय हो गया।

आदमियों ने (पहचान लिया) — 'यह तो हमारा कल के पडाव का स्थान है।' (फिर सोचने लगे) — 'हमारा लकड़ी पानी खतम हो गया। इसलिए अब हमारा नाश है।' — गाड़ियों को खोल, घेरे में खड़ा कर, ऊपर से मण्डप तान, चिन्ता के मारे वे अपनी अपनी गाड़ी के नीचे लोट रहे।

बोधिसत्त्व ने 'मेरे हिम्मत हारने पर सभी नाश को प्राप्त होंगे' (सोच), प्रातः काल ठडे ठडे समय में ही घूमने हुए एक दूब-घास के पीढ़े को देख कर विचार्य — 'यह पीढ़े नीचे पानी की नमी के ही कारण उगे होंगे', (और) कुदाली मँगवा, वह जगह खुदवाने लगे। (लोगों ने) साठ हाथ तक खोदा। इतने खोदने पर (उनकी) कुदाली नीचे एक पत्थर से टकराई। (पत्थर से) टकराते ही सब ने हिम्मत हार दी। लेकिन बोधिधसत्त्व ने सोचा — 'इस पत्थर के नीचे पानी होना चाहिये।' (यह सोच) नीचे उतर, पत्थर पर खड़े हो, झुक कर, कान लगा, शब्द पर ध्यान दिया। नीचे पानी के बहने का शब्द सुन, ऊपर आ, अपने छोटे सेवक से कहा — 'तात ! यदि तू ने हिम्मत छोड़ दी, तो हम सब नष्ट हो जायेंगे। तू बिना हिम्मत छोड़े, इस हथौड़े (=अयकूट) को ले, गढ़े में उतर कर, इस पत्थर को तोड़।'।

उसने बोधिसत्त्व की वान मान ली; और सब के हिम्मत छोड़ देने पर भी हिम्मत न हार, नीचे उतर कर पत्थर पर चोट की। पत्थर बीच से टूट कर, नीचे गिर पानी के सोते के बीच में पड़ा। (वहाँ से) ताड़ के तने जितनी (ऊँची) पानी की धारा निकली। सब ने पानी पी, स्नान कर, पुराने धुरे (=अक्ष) और जुए फाड़, खिचड़ी-भात पका कर खाया। बँलों को भी खिलाया। (फिर) सूर्यास्त होने पर, पानी के गढ़े के पास ध्वजा गाड़, इच्छित स्थान को गये। वहाँ उन्होंने सीदे को बेच, दुगुणा, चार गुणा मुनाफ़ा उठाया; और फिर अपने निवास स्थान को लौट आये।

वहाँ अपनी आयु भर जी कर, कर्मानुसार गति को प्राप्त हुए। बोधिसत्त्व भी दान आदि पुण्य-कर्म करके पर-लोक सिधारे। बुद्ध (=सम्यक्सम्बुद्ध) ने बुद्ध-पद प्राप्त कर लेने पर (ही) यह कथा कह, इस गाथा को कहा था—

अकिलामुनो वण्णुपथे खणन्ता,
उदङ्गणे तत्थ पपं अविन्दुं ।
एवं मुनी विरियबलूपपन्नो,
अकिलामु विन्दे हृदयस्स सत्तिं ॥

[प्रयत्नशील लोगों ने बालू के मार्ग में खोद कर पानी पाया। इसी प्रकार वीर्य्य-बल से युक्त मुनि प्रयत्नशील हो हृदय की शान्ति को प्राप्त करे।]

इसमें अकिलामुनो का अर्थ है, आलस्यरहित वा प्रयत्नशील। वण्णुपथे, वण्णु कहते हैं बालू को, सो इसका अर्थ है बालू का मार्ग। खणन्ता=भूमि को खोदता हुआ। उदङ्गणे, इस में उद् जो है, सो निपात है, अङ्गणे=मनुष्यों के घूमने का स्थान=खुला प्रदेश। तत्थ=उस बालू मार्ग में। पपं अविन्दुं का अर्थ है पानी को पाया। पिया जाने से पानी को पपा कहते हैं या बहने वाला (-जल) आप, पपा अर्थान् महाजल। एवं शब्द उपमा वा द्योतक है। मुनी =मीन कहते हैं ज्ञान को, अथवा काय-मीन आदि में से किसी एक से युक्त व्यवित को मुनी कहते हैं। लेकिन इस मुनी के, 'अगारिय-मुनी' 'अनगारिय-मुनि', 'सेख मुनि', 'असेखमुनि', 'पच्चेकमुनि', 'मुनि-मुनि'—इस प्रकार के कई

भेद है। सो अगारिय (==आगारिक)-मुनि, जिसने गृहस्थ रहते मार्ग-फल को प्राप्त कर लिया है, जो धर्म (==शासन) का ज्ञाता है। अनगारिय (==अनागारिक) मुनि, जो उक्त प्रकार से ही मार्ग-फल को प्राप्त है, लेकिन साधु है। सेख (==शैक्ष्य) मुनि का अर्थ है सात शैक्ष (==श्रोतापन्न से अर्हत्-मार्ग प्राप्त तक) पच्चेक (==प्रत्येक)-मुनि का अर्थ है 'प्रत्येक-सम्बुद्ध'। मुनि-मुनि=बुद्ध (==सम्यक्सम्बुद्ध)। सक्षेप मे यहाँ इन सबसे मौनेय्य (==मौन) नामक प्रजा से मुक्त मुनी समझना चाहिये। विरियबलूपपक्षो का अर्थ है वीर्य्य (==हिम्मत) से तथा शरीर-बल और ज्ञान-बल से युक्त। अकिलासु=आलस्य रहित। 'चाहे चमड़ा, नस और हड्डी ही बाकी रह जाये चाहे शरीर में सारा मांस और खून सूख जाए'—इस प्रकार के चारों अङ्गों से सम्पूर्ण वीर्य्य से युक्त=आलस्य-रहित (कहा जाता है)। विन्दे हृदयस्स सान्ति का अर्थ है चित्त तथा हृदय की शांतत्व का कारण होने से 'शान्ति' कहे जाने वाले ध्यान-विदर्शना-अभिज्ञा-अर्हत्व-मार्ग ज्ञान नामक आर्य-धर्म को प्राप्त करना है।

भगवान् ने, "भिक्षुओ ! आलसी मनुष्य दु ख से जीवन बिताता है, पाप, बुरे कर्म (==अकुशल धर्म) ने युक्त होता है, महान हित को खो देता है। (लेकिन) भिक्षुओ ! प्रयत्नशील (मनुष्य) सुख से जीवन बिताता है। पाप, बुराइयां (==अकुशल धर्मों) से रहित होता है, सच्चे हित की पूर्ति करता है। भिक्षुओ ! ढील करने से उत्तम (==अग्रपद) की प्राप्ति नहीं होती"—इस प्रकार अनेक सूत्रों में आलसी के जीवन का दुःखमय होना और प्रयत्न-शील के जीवन का सुखमय होना बतलाया है। यहाँ भी आग्रह-रहित, प्रयत्न शील विदर्शक को उद्योग द्वारा होने वाले सुखमय जीवन को दिखाते हुए कहा है— "इस प्रकार उद्योग बल से युक्त, मुनी निरालस हो चित्त की शान्ति प्राप्त करे"। (इसीलिए) यह कहा गया "जिस प्रकार उन व्यापारियों ने निरालस (हो) बालुका पथ में भी खोद कर जल पा लिया। इसी प्रकार इस धर्म (==शासन) में

भी निरालस हो प्रयत्न करने वाला पण्डित-भिक्षु इस ध्यान आदि भेद से कही गई हृदय की शान्ति को प्राप्त करता है। इसलिए भिक्षु ! (जब पूर्व-जन्म में तू ने (केवल) पानी के लिये प्रयत्न किया, तो अब इस प्रकार के उबारने वाले (=नैर्याणिक) धर्म (=शासन) में मार्ग-फल की प्राप्ति के लिये क्यों हिम्मत हारता है ?' इस प्रकार धर्मोपदेश के बाद (भगवान् ने) चारो (आर्य-सत्त्यों) की व्याख्या (=प्रकाशन) की। सत्त्यों की व्याख्या समाप्त होने पर वह हिम्मत हारा भिक्षु अर्हत्व (नामक) उत्तम-फल में प्रतिष्ठित हुआ।

शास्ता ने दोनों कथाएँ सुना, तुलना कर, जातक का सारांश दिखाया—“उम समय हिम्मत न हार कर पापाण को तोड़ कर, जन-समूह को पानी देने वाला (मेरा) छोटा-सेवक (चूळूपस्थायक) यही हिम्मत हारा भिक्षु था। वाकी मंडली आज की बुद्ध-मंडली थी। प्रधान बजारा तो मैं (स्वयं) ही था” कह (धर्म-)उपदेश समाप्त किया।

३. सेरिवाणिज जातक

‘इध चेहि नं विराधेसि’—इस धर्म उपदेश को भी भगवान् ने श्वावस्ती में रहते हुए एक हिम्मत हारे भिक्षु के ही सम्बन्ध में कहा था।

क. वर्तमान कथा

पूर्वोक्त प्रकार से ही भिक्षुओं द्वारा (बुद्ध के सम्मुख) लाए जाने पर बुद्ध (=शास्ता) ने उससे कहा—“भिक्षु ! इस प्रकार के मार्ग-फल-दायक धर्म (=शासन) में साधु हो कर भी (यदि) तू हिम्मत हार बैठेगा, तो तू उसी प्रकार चिन्ता को प्राप्त होगा, जैसे लाख के मूल्य की सोने की थाली गँवा कर

सेरि नामक बनिया ।” भिक्षुओं ने भगवान् से उस बात के स्पष्ट करने की प्रार्थना की । भगवान् ने पूर्व-जन्म की अज्ञात बात (इस प्रकार) प्रकट की—

ख. अतीत कथा

अब से पाँच कल्प पूर्व बोधिसत्त्व सेरिब नामक देश में फेरी करने वाले बनिए (के रूप में पैदा) हुए थे । वह सेरिब नामक एक (दूसरे) फेरी करने वाले लोभी बनिये के साथ नील बाहिनी नामक नदी पार कर, अन्धपुर नामक नगर में गया । (दोनों ने) नगर की गलियों को आपस में बाँट लिया । बोधिसत्त्व अपने हिस्से की गलियों में सौदा बेचते; दूसरा बनिया अपने हिस्से की गलियों में ।

उस समय नगर के एक सेठ का परिवार दरिद्र हो गया था । उसके आति-मम्बन्धी और (उसका) धन नष्ट हो गया । (उस परिवार में) बाकी रह गई थी अपनी दादी के साथ एक लड़की । दोनों जने दूसरों की नौकरी-चाकरी (—मजदूरी) करके पेट पालते थे । लेकिन, उनके घर में पहले महासेठ के उपयोग में आने वाली दूसरे (साधारण) बरतनों में फेंकी हुई एक सोने की थाली थी । चिरकाल से उपयोग में न आने के कारण वह मैली हो गई थी । वह (दोनों) इतना भी नहीं जानती थीं कि यह सोने की थाली है । उस समय वह लोभी बनिया “(हीरे) मोती लो, (हीरे) मोती लो” (कहता) धूमता हुआ, उस घर के सामने आया । लड़की ने उसे देख कर अपनी दादी से कहा—

“अम्मा ! मुझे एक कण्ठा ले दो ।”

“अम्मा ! हम दरिद्र क्या देकर लेंगे ।”

“हमारे पास यह थाली जो है, यह हमारे किसी काम की नहीं है, इसे दे कर ले ले ।”

उसने व्यापारी को बुला कर, आसन पर बिठा, वह थाली दे कर कहा—

“आर्य ! इस (थाली) को लेकर, अपनी बहन को कुछ दे दो ।”

व्यापारी ने थाली हाथ में ले, सोने की थाली होगी (सोच) उलट कर, थाली की पीठ पर सूई से रेखा खींची । ‘सोने की है’ जान, “इनसे मुफ्त में ही थाली लेनी चाहिये” (सोच) कहा, “यह कितने दाम की होगी ? यह तो आधे

मास के मूल्य की भी नहीं है” (कह) थाली को भूमि पर फेंक, आसन से उठ कर चला गया।

(अपने में तै पाये नियम के अनुसार) एक के गली में हो आने पर, दूसरा उस गली में प्रवेश करता था। उस (बनिये) के बाद बोधिसत्त्व उस गली में प्रविष्ट हो (हीरे) मोती लो, (हीरे) मोती लो’ कहते घूमते हुए उसी द्वार पर पहुँचे। उस लड़की ने फिर उसी प्रकार अपनी दादी को कहा। दादी ने पूछा—“अम्मा ! पहला आया व्यापारी थाली को ज़मीन पर पटक कर चला गया, अब क्या देकर ‘कण्ठा’ लें ?” लड़की ने उत्तर दिया—“अम्मा ! वह व्यापारी कठोर-भाषी था, लेकिन यह सौम्य मूर्ति तथा मृदुभाषी है। आशा है कि यह थाली को ले लेगा।”

“अच्छा ! तो पुकार।”

उसने उसे बुलाया। उसके घर में प्रवेश कर बैठने पर, (उन्होंने उसे) वह थाली दी।

उसने ‘थाली सोने की है’ जान, कहा—“अम्मा ! यह थाली लाख के मूल्य की है। थाली के मूल्य का सामान मेरे पास नहीं।”

“आर्य ! पहले आया व्यापारी, यह आधे मासे के मूल्य की भी नहीं है, कह पृथ्वी पर पटक कर चला गया था। यह (अब) तेरे ही पुण्य (के प्रताप) से सोने की थाली हो गई होगी। हम इसे तुम्हें देते हैं। (इसके बदले में) हमें कुछ ही देकर, इसे ले जाइये।”

बोधिसत्त्व के हाथ में उस समय पाँच सौ कार्षापिण और पाँच सौ के मूल्य का सौदा था। वह सब दे कर, ‘मुझे यह तराजू, थैली, और आठ कार्षापिण दें’ माँग लेकर चले गये। और शंघ्र ही नदी के किनारे पहुँच, मल्लाह को आठ कार्षापिण दे, नाव पर चढ़ चले।

तब लोभी बनिये ने फिर उनके घर जा कर कहा—“लाओ वह थाली, मैं तुम्हें कुछ दे ही दूँ।”

लड़की ने उसे गाँव देते हुए कहा—“तू हमारी लाख के मूल्य की थाली को आधे मासे के मूल्य की भी नहीं बताता था। लेकिन तेरे स्वामी जैसा एक बर्मात्मा व्यापारी, हमें (एक) हज़ार दे कर उसे ले गया।”

यह सुन ‘मैंने लाख के मूल्य की सोने की थाली गँवा दी, उसने मेरी बड़ी

हानि की' (सोच) अत्यन्त व्याकुल (—शोकग्रस्त) हो उठा। उसकी स्मृति ठिकाने न रही, और वह पागल (—संज्ञा हीन) सा हो गया। उसने अपने हाथ के कार्षापण और सौदे को घर के दरवाजे पर बखेर दिया। जो कुछ पहने-ओढ़े था, उसे भी उतार दिया, और वह तराजू की डण्डी की मुंगरी बना, बोधिसत्त्व के पीछे पीछे भागा। नदी के किनारे पहुँच, बोधिसत्त्व को (नाव में) जाते देख, मल्लाह से कहा—“ओ ! मल्लाह ! मल्लाह ! नाव को लौटाओ” बोधिसत्त्व ने “नाव को मत लौटाओ” कह मना किया।

उस बनिये को बोधिसत्त्व को निकल जाते देख, अत्यन्त शोक हुआ। उस का हृदय गर्म हो गया। और मुँह से खून निकल पड़ा, तथा हृदय (मूखे) कीचड़ की तरह फट गया। (इस प्रकार वह) बोधिसत्त्व के प्रति शत्रुता का भाव मन में रख, उसी क्षण मर गया।

बोधिसत्त्व के प्रति देवदत्त का यह पहला डाह हुआ। बोधिसत्त्व (भी) दान आदि पुण्य करके कर्मानुसार गति को प्राप्त हुए।

तम्यक् सम्बुद्ध ने यह धर्मोपदेश कह, सम्बुद्ध होने ही की अवस्था में यह गाथा कही—

इध चेहि नं विराधेसि सद्धम्मस्स नियामतं ।

चिरं त्वं अनुतपेस्ससि सेरिवा थं व वाणिजो ॥

[यदि तू सद्धर्म के नियम को नहीं प्राप्त करता, तो तू सेरिवा बनिये की तरह दुःख को प्राप्त हांगा]

इसमें 'इध चेहि नं विराधेसि सद्धम्मस्स नियामतं' का अर्थ है कि इस धर्म में जो अधिक से अधिक सात जन्म ग्रहण करने के ही नियम वाला श्रोत-आपत्ति मार्ग है, उसे यदि तू प्राप्त नहीं करे, हिम्मत हार दे, तो यह नहीं मिलता। 'चिरं त्वं अनुतपेस्ससि' का अर्थ है, ऐसा होने पर चिरकाल तक सोच करते हुए, रोते हुए, तपेगा अथवा हिम्मत हार देने के कारण, आर्य-मार्ग न पाने के कारण, (तू) चिरकाल तक नरक आदि में उत्पन्न हो, नाना प्रकार के दुःखों को भोगेगा, सतप्त-परितप्त होगा, क्लेश को प्राप्त होगा। कैसे? सेरिवा थं व वाणिजो ।" सेरिवा— यह नाम है। थं वा का अर्थ है जैसे। यह कहा गया है कि "जिस प्रकार पूर्व-

समय में **सेरिवा** नामक व्यापारी लाख के मूल्य की सोने की थाली पाकर, उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न न करके, उसे गँवा कर, (पीछे) अफमोस को प्राप्त हुआ। उसी प्रकार तू भी इस धर्म में, तैयार की गई सोने की थाली के सदृश, आर्य-मार्ग को प्रयत्न की ढिनाई के कारण न प्राप्त करके, उससे भ्रष्ट हो, चिरकाल तक अनुताप को प्राप्त करेगा। लेकिन यदि प्रयत्न नहीं छोड़ेगा, तो जैसे बुद्धिमान् व्यापारी ने सोने की थाली पाई, वैसे ही (तू भी) मेरे धर्म (=शासन) में नौ प्रकार के अलौकिक (=लोकोत्तर) धर्मों को प्राप्त करेगा।

इस प्रकार बुद्ध (=शास्ता) ने अर्हत्व-प्राप्ति को सर्वोच्च स्थान दे, यह धर्म उपदेश कर चारों (आर्य-)सत्यों की व्याख्या की। सत्यों की व्याख्या समाप्त होने पर, वह हिम्मत हारा भिक्षु अर्हत्व (नामक) सर्वोत्तम (=अग्र) फल में स्थित हुआ। बुद्ध ने भी दोनों कथाएँ सुना, तुलना कर, जातक का सारांश निकाला।

‘उस समय का मूर्ख व्यापारी बेचदत्त था; और बुद्धिमान् व्यापारी तो मैं ही था’, कह उपदेश समाप्त किया।

४. चुल्लसेट्ठि जातक

“अप्पकेनापि मेधावी”—यह धर्म-उपदेश भगवान् ने राजगृह के पास स्थित जीवक के आश्रम में विहार करते समय चुल्लपन्थक स्थविर को उद्देश करके कहा।

क. वर्तमान कथा

यहाँ पहले चुल्लपन्थक की उत्पत्ति कहनी चाहिये—राजगृह में एक धन सेठ की लड़की का अपने नौकर से सम्बन्ध था। दूसरों से अपने इस कर्म को

छिपाने के लिये उसने डर से नौकर से कहा—“अब हम यहाँ नहीं रह सकते । यदि मेरे माता पिता इस दोष को जान लेंगे, तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे । चलो हम विदेश निकल चले ।”

(तब वे) दोनों हाथ में ही ले चलने योग्य कीमती कीमती (सारवान्) चीज ले (नगर के) प्रधान द्वार से बाहर हो किसी अपरिचित स्थान में रहने की इच्छा से निकल भागे । उनके एक ही स्थान पर इकट्ठे रहते समय, दोनों के सहवास से (लड़की को) गर्भ हो गया । गर्भ के परिपक्व होने पर उस (लड़की) ने स्वामी से सलाह की—“गर्भ परिपक्व हो गया । जिस स्थान में जाति-सम्बन्धी नहीं हों वैसे स्थान पर प्रसव होने पर हम दोनों को बहुत कष्ट होगा । चलो पिता के घर चले ।”

वह ‘आज चले, कल चले’ करते करते दिन बिताने लगा । लड़की सोचने लगी—‘यह मूर्ख अपने अपराध के भारीपन के कारण जाने से डरता है । माता पिता हर तरह से हिनैपी होने हैं । चाहे यह जाए, या न जाए, मुझे जाना चाहिए ।’ फिर पति के घर से बाहर गये रहते वक्त घर के सामान को ठीक ठाक कर दिया । अपने पिता के घर चलने की बात पड़ोसियों को कह, रास्ते पर चल पड़ी । तब उस आदमी ने घर लौट कर, स्त्री को न देख, पड़ोसियों से पूछा । पिता के घर जाने की बात सुन, जल्दी जल्दी अनुगमन करते जा, उसे मार्ग में पाया । उस स्थान पर उसे प्रसव हो चुका था “भद्रे ! क्या हुआ ?” उसने पूछा । “स्वामी ! एक पुत्र हुआ है । अब क्या करना चाहिये ? जिस मतलब के लिये हम पिता के घर जा रहे थे, वह काम रास्ते में ही हो गया । अब वहाँ जाकर क्या करेंगे ? चलो लौटे ।”

फिर दोनों एक राय हो वापिस लौटे । उस बच्चे के पन्थ में पैदा होने के कारण उसका नाम पन्थक रक्खा गया ।

कुछ समय बाद उसे दूसरा गर्भ हो गया । (पहले की भाँति यहाँ भी सारी कथा समझनी चाहिये) ।

पन्थ (=मार्ग) में ही उत्पन्न होने के कारण, पहले उत्पन्न हुए (बालक) का नाम महापन्थक और दूसरे का चुल्लपन्थक कर दिया गया । दोनों बच्चों को लेकर, वह अपने निवास स्थान पर लौट आये । पन्थक बच्चों ने दूसरे बच्चों को ‘चाचा, नाना, नानी’ कहते सुनकर माता से पूछा—“दूसरे बच्चे, चाचा,

नाना, नानी' कहते हैं; माँ ! क्या हमारे नातेदार नहीं हैं ?”

“हाँ तात ! यहाँ तुम्हारे नातेदार नहीं हैं; लेकिन राजगृह नगर में धन सेठी नाम के (तुम्हारे) नाना हैं; वहाँ तुम्हारे बहुत से नातेदार हैं।”

“अम्मा, वहाँ हम किस लिये नहीं जाते हैं ?”

उसने पुत्र को अपने न जाने का कारण कह, पुत्रों के बार बार कहने पर स्वामी से कहा—“यह बच्चे बहुत दुःखी हो रहे हैं। क्या माता पिता हमें देख कर (हमारा) मांस थोड़े ही खा लेंगे ? आओ ! इन बच्चों को पिता का घर दिखला दें।”

“मैं सामने न जा (—खडा हो) सकूँगा। हाँ ! तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा।”

“आर्य ! अच्छा जैसे भी हों बच्चों को पितृ-कुल दिखलाना है।”

दोनों जाने बच्चों को ले कर, क्रमशः राजगृह पहुँचे। नगर-द्वार पर एक शाला में ठहरे। माता पिता के पास सन्देश भेजा—“बच्चों की माँ (अपने) दो बच्चों को लेकर आई है।”

उन्होंने वह सन्देश सुन कर कहला भेजा—“संसार में जन्म-मरण के चक्कर में घूमते हुए (ऐसा) कोई नहीं, जो (कभी न कभी) पुत्र या पुत्री न बना हो। उन दोनों ने हमारा बड़ा अपराध किया है। इसलिये वह हमारी आँखों के सामने नहीं खडे हो सकते। इतना धन लेकर वह दोनों (किसी) सुख की जगह जाकर रहे; लेकिन बच्चों को यहाँ छोड़ जाये।”

सेठ की कन्या ने माता पिता के भेजे धन को लिया, और बच्चों को आये हुए दूतों के साथ भेज दिया। बच्चे, (अपने) नाना के कुल में पलने लगे।

उन दोनों में से चुल्लपन्थक तो (अभी) बहुत छोटा था, लेकिन महापन्थक (अपने) नाना के साथ बुद्ध का धर्म-उपदेश सुनने जाता था। नित्य भगवान् (शास्ता) के सम्मुख (जाकर) धर्मोपदेश सुनने से, उसका मन साधु बनने को चाहा। उसने नाना से कहा—“यदि आप आज्ञा दे, तो मैं भिक्षु बनूँ।”

“तात ! क्या कहा ? मेरे लिये, सारे लोक की प्रब्रज्या से बढ़कर, तेरी प्रब्रज्या श्रेष्ठ है। यदि निभ सके तो तात ! साधु बन जा।” (कह) स्वीकार कर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा—“क्यों महासेठ ! क्या पुत्र मिला है ?”

“हाँ भन्ते ! यह बालक मेरा नाती है, कहता है कि आपके पास साधु बनूँगा।”

बुद्ध ने एक पिण्डपातिक^१ भिक्षु को बालक को प्रब्रजित करने की आज्ञा दी। स्थविर ने उस (बालक) को त्वच्-पञ्चक^२ कर्मस्थान कह प्रब्रजित किया।

उसने बुद्ध के बहुत से उपदेश सीख (बीस) वर्ष की अवस्था में ही^३ उपसम्पदा प्राप्त की। उपसम्पन्न होने पर भली प्रकार मन देकर अभ्यास करते हुए अर्हत्त्व को प्राप्त हुआ। ध्यान-सुख और मार्ग-सुख से समय व्यतीत करते उसने सोचा—‘क्या मैं यह सुख चुल्लपन्थक को भी दे सकता हूँ?’ फिर नाना सेठ के पास जा कर कहा—“महासेठ ! यदि तुम्हें स्वीकार हो, तो मैं इस बालक को प्रब्रजित करूँ ?”

“भन्ते ! प्रब्रजित करे।”

स्थविर ने चुल्लपन्थक बच्चे को प्रब्रजित कर, दस शीलों में स्थापित किया। चुल्लपन्थक सामणेर प्रब्रजित होते ही मन्द-बुद्धि हो गया।

“पदुमं यथा कोकनदं सुगन्धं
पातो सिया फुल्लमवीतगन्धं,
अङ्गीरसं पस्स विरोचमानं
तपन्तमादिच्चमिवन्तलिकखे।”

(“जैसे लाल कमल या सुगन्धित कोकनद आकाश में प्रकाशमान सूर्य को देख सुगन्धित और फुल्लित होना है, उसी प्रकार आकाश में तपने वाले सूर्य के सदृश प्रकाशयुक्त अगिरस गोत्रीय (—बुद्ध) को देखो।”)

इस एक गाथा को चार महीनों में भी न सीख सका। यह भिक्षु (पूर्व में) काश्यप सम्यक् सम्बुद्ध के समय प्रब्रजित हुआ था। (अपने) बुद्धिमान् (होने के अभिमान में) एक मन्द-बुद्धि भिक्षु के पार्ष्णी (=बुद्ध-वचन) मीखने के समय उसका मजाक उड़ाया। उस परिहास से उस भिक्षु को इतनी लज्जा आई

^१ पिण्डपातिक—भिक्षा पर ही निर्भर रहने वाले।

^२ भिक्षु (=श्रामणेर) को प्रब्रज्या के समय केस, लोम, नख, वन्त तथा त्वच्, इन पाँच शब्दों का सांकेतिक उपदेश।

^३ बीस वर्ष से कम आयु रहने पर, कोई भी भिक्षु उपसम्पन्न नहीं हो सकता।

कि वह भिक्षु न पाठ ही याद कर सका, न स्वाध्याय ही कर सका। उसी कर्म के फल से (इस जन्म में) वह भिक्षु प्रब्रजित होते ही मन्दबुद्धि हो गया। याद किये पद को वह अगले पद के सीखते समय भूल जाता था। उस समय एक ही गाथा को कण्ठस्थ करने का प्रयत्न करते उसे चार महीने बीत गये। तब उसे महापन्थक ने कहा—“पन्थक ! तू इस धर्म (=शासन) के योग्य नहीं है। चार महीने में एक गाथा भी तू नहीं सीख सका; तो प्रब्रज्या का उद्देश्य किस प्रकार पूरा करेगा ? निकल यहाँ से”—(कह) विहार से निकाल दिया।

बुद्ध शासन के प्रति स्नेह में चुल्लपन्थक गृहस्थ न होना चाहते थे। महापन्थक उस समय भोजन-प्रवन्धक (=भक्त उद्देशक) थे। (एक दिन) कौमार-भृत्य जीवक^१ बहुत गन्धमाला सहित अपने आश्रम में गया, (वहाँ) बुद्ध की पूजा कर उसने धर्मोपदेश सुना। आसन से उठ, बुद्ध को प्रणाम कर, महापन्थक के पास जाकर पूछा—“भन्ते ! (आजकल) भगवान् के साथ कितने भिक्षु हैं ?”

“पाँच सौ भिक्षु हैं।”

“भन्ते ! बुद्ध सहित पाँचों सौ भिक्षुओं के साथ कल आप मेरे घर पर भिक्षा ग्रहण करें।” स्थविर ने उत्तर दिया—

“उपासक ! चुल्लपन्थक नामक (भिक्षु) मन्द-बुद्धि है, मूढ है, उसे छोड़ शेष सब का निमन्त्रण स्वीकार करता हूँ।”

चुल्लपन्थक ने सोचा—“स्थविर इतने भिक्षुओं का निमन्त्रण स्वीकार करते हैं; किन्तु मुझे वाहर रख कर, स्वीकार करते हैं। निस्सन्देह मेरे भाई का मन मेरी ओर बिगड़ा हुआ है। अब मुझे इस शासन (मे रहने) से क्या (लाभ) ? गृहस्थ हो कर दान आदि पुण्य करते जीवन व्यतीत कलेंगा।”

सौ वह एक दिन प्रातः ही गृहस्थ बनने की इच्छा से चल दिया। बुद्ध ने प्रातःकाल ही लोक के बारे में विचार करते, (अपने दिव्य-ज्ञान से) इस बात को जान लिया; और चुल्लपन्थक से भी पहले, उसके जाने के मार्ग के बरामदे में जाकर टहलने लगे। चुल्लपन्थक ने घर से निकल कर, बुद्ध को देख,

^१ बुद्ध का समकालीन प्रसिद्ध वैद्य।

(उनके) पास जा वन्दना की। बुद्ध ने पूछा—“चुल्लपन्थक ! इस समय तू कहाँ जा रहा है।”

“भन्ते ! मेरे भाई ने मुझे निकाल दिया है, इसलिये मैं गृहस्थ होने जा रहा हूँ।”

“चुल्लपन्थक ! तू मेरे आधीन (= पास) प्रब्रजित हुआ है। यदि भाई ने निकाल दिया, तो तू मेरे पास क्यों नहीं आया ? आ, गृहस्थ हो कर क्या करेगा ? मेरे समीप रहना।” (कह) चुल्लपन्थक को ले कर गन्धकुटी के दरवाजे में बिठा कर कहा—“चुल्लपन्थक पूर्व दिशा की ओर मुंह करके इस कपड़े के टुकड़े पर ‘रजो हरणं रजो हरणं’ कह, परिमार्जन करते हुए यहीं (बैठे) रहना।” (और फिर) ऋद्धि-बल से निर्मित कपड़े का एक परिशुद्ध टुकड़ा, उसे देकर, (उचित) समय की सूचना मिलने पर (स्वयं) भिक्षुसंघ सहित जीवक के घर जा कर बिछे आसन पर बैठे।

चुल्लपन्थक भी सूर्य की ओर देखते, तथा उस वस्त्र के टुकड़े से ‘रजो हरणं रजो हरणं’ कह पोंछते बैठा रहा। पोंछते पोंछते उसका वह वस्त्र का टुकड़ा मैला हो गया। तब वह सोचने लगा—“यह वस्त्र का टुकड़ा अति परिशुद्ध (था), लेकिन इस शरीर के कारण, अपने पूर्व-स्वरूप को छोड़ इस प्रकार मैला हो गया।” (यह सोच) उसने “सभी संस्कार अनित्य हैं” का ख्याल कर, सस्कारों के क्षय और व्यय पर विचार करते हुए विदर्शना-भावना (=समाधि) बढ़ाई।

बुद्ध ने ‘चुल्लपन्थक का चित्त विदर्शना-भावना पर आरूढ़ हुआ’ जान, ‘चुल्लपन्थक ! तू यह ही मत सोच कि यह वस्त्र का टुकड़ा रज (=धूलि, मैल) से रञ्जित हो गया। तेरे अपने अन्दर जो राग आदि मैल है, उनको दूर कर।” कह, सामने बैठ प्रकाश फैलाते हुए से दिखाई देते हुए हो कर यह गाथायें कहीं—

“रागो रजो न च पन रेणु बुच्चति
रागस्सेतं अधिवचनं रजोति,
एतं रजं विप्पजहित्व भिक्खवो
बिहरन्ति ते विगतरजस्स सासने ॥

बोसो रजो न च पन रेणु वुच्चति
 दोसस्सेतं अधिवचनं रजोति,
 एतं रजं विप्पजहित्व भिक्खवो
 विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने” ।
 मोहो रजो न च पन रेणु वुच्चति
 मोहस्सेतं अधिवचनं रजोति,
 एतं रजं विपज्जहित्व भिक्खवो
 विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने” ।

“राग को (असल) रज (=धूलि) कहते हैं, न कि रेणु को । रज राग का पर्यायवाची शब्द है । भिक्षु इस रज से मुक्त हो कर रज-रहित के शासन में विचरते हैं ।

द्वेष (=क्रोध) को रज कहते हैं, न कि रेणु को । रज द्वेष का पर्यायवाची शब्द है । भिक्षु इस रज से मुक्त हो कर रज-रहित के शासन में विचरते हैं ।

मोह को रज कहते हैं, न कि रेणु को । रज मोह का पर्यायवाची शब्द है । भिक्षु इस रज से मुक्त हो कर, मोह-रहित के शासन में विचरते हैं ।”

गाथाओं की समाप्ति पर चुल्लपन्थक को प्रति सम्भदा—ज्ञान के सहित अर्हत्व प्राप्त हुआ; और प्रति-सम्भदा-ज्ञान के साथ ही साथ तीनों पिटकों का भी ज्ञान हो गया ।

उसने पूर्व (-जन्म) में राजा हो, नगर की प्रदक्षिणा करते हुए, माथे से पसीना गिरने पर, शुद्ध वस्त्र से माथे को पोछा । वस्त्र मैला हो गया ‘इस शरीर के कारण इस प्रकार का परिशुद्ध वस्त्र अपने पूर्व-स्वरूप को छोड़ मैला हो गया’ सोच उसे, ‘सब संस्कार (=निर्माण) अनित्य हैं’—ऐसी अनित्य-बुद्धि हुई । इसी कारण से (इस जन्म में भी) उस (की अर्हत्व-प्राप्ति) का साधन (=प्रत्यय) ‘रजो हरण’ ही हुआ !

कौमारभृत्य जीवक बुद्ध के लिये दक्षिणा का जल लाया । बुद्ध ने ‘जीवक ! (अभी) विहार में भिक्षु हैं’ कह हाथ से पात्र ढक दिया । महापन्थक ने कहा—

‘अनिच्चा वत संखारा ।

“भन्ते ! (श्रव) विहार में (श्रीर) भिक्षु नहीं है।”

शास्ता ने कहा—“जीवक ! है।”

जीवक ने आदमी भेजा, ‘भणे ! जाओ, देखो तो विहार में भिक्षु है या नहीं ?’

उस समय चुल्लपन्थक ने, “मेरा भाई ‘विहार में भिक्षु नहीं है’ कहता है, सो उसे विहार में भिक्षुओं का होना दिखाऊँगा”—सोच, सारे आम्रवन को भिक्षुओं से भर दिया। कुछ भिक्षु चीवर-कर्म (चीवर का सीना) कर रहे थे। कुछ भिक्षु चीवर रँग रहे थे। कुछ मिल कर पाठ कर रहे थे। इस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हज़ारो भिक्षु बना दिये। उस आदमी ने बहुत से भिक्षुओं को देख, लौट कर जीवक से कहा—“आर्य ! सारा आम्रवन भिक्षुओं से भरा पड़ा है।” उस समय चुल्लपन्थक स्थविर—

“सहस्तकखत्तुं श्रत्तानं निम्मिनित्त्वान पन्थको,
निसीदम्भवने रम्भे याव कालप्पवेदना” ॥

[चुल्लपन्थक अपने को भिन्न भिन्न हज़ार प्रकार का बना, (भोजन के) समय की सूचना मिलने तक रमणीय आम्रवन में बैठे रहे।]

तब बुद्ध ने उस पुरुष से कहा—“विहार जाकर कहो कि शास्ता चुल्लपन्थक को बुलाते है।”

उसके जाकर वैसा कहने पर, सहस्रों मुखों से “मै चुल्लपन्थक, मै चुल्लपन्थक”, की (आवाज) उठी।

आदमी ने लौट कर कहा—“भन्ते ! सब चुल्लपन्थक ही है।”

“अच्छा ! तू जाकर, जो पहले बोले मै चुल्लपन्थक हूँ, उमका हाथ पकड़ लेना। बाकी सब अन्तर्धान हो जायेंगे।”

उस (आदमी) ने वैसा ही किया। उर्मा समय हज़ार के हज़ार भिक्षु अन्तर्धान हो गये। स्थविर आदमी के साथ आये। बुद्ध ने भोजन के बाद जीवक को बुला कर कहा—“जीवक ! चुल्लपन्थक का पात्र ग्रहण कर। चुल्लपन्थक तुझे (दान-) अनुमोदन करेगा।”

जीवक ने वैसा ही किया। स्थविर ने मिहनाद करते हुए तरुण-सिंह की तरह तीनों पिटकों का साराश निकाल कर अनुमोदन किया।

बुद्ध भिक्षु-संघ के साथ आसन से उठ, विहार में गये। वहाँ भिक्षुओं ने (अपना माध्याह्निक) सन्मान प्रदर्शन किया। फिर आसन से उठ कर (भगवान् ने) गन्धकुटी के सामने खड़े हो, भिक्षुसंघ को सुगतोपदेश (=बुद्धोपदेश) दे, कर्मस्थान^१ बता, भिक्षुसंघ को उत्साहित कर, सुगन्धित गन्धकुटी में प्रवेश कर दाहिनी करवट लेट सिंह-शय्या से शयन किया। तब शाम को, धर्म-सभा में, भिक्षु इधर उधर से एकत्र हुए। लाल बानात की कनात पसारते से, बैठ कर, वह बुद्धता के गुण को वर्णन कर रहे थे—“आयुष्मानो! महापन्थक ने चुल्लपन्थक की प्रवृत्ति (=अध्यास) न जानी; और (यह चार महीनों में एक भी गाथा कण्ठस्थ न कर सका, इसलिये, मूढ़ है सोच विहार से निकाल दिया। लेकिन सम्यक् सम्बुद्ध ने अतुलनीय धर्मराज होने के कारण, प्रातःकाल और मध्याह्न के भोजन के समय के भीतर ही उसे प्रतिसम्भिदा-ज्ञान सहित अर्हत्व प्रदान कर दिया; और प्रतिसम्भिदा-ज्ञान के साथ ही उसे त्रिपिटक (का ज्ञान) भी आ गया। अहो! बुद्धों के बल की महानता!”

तब भगवान् ने यह जान कि धर्म-सभा में इस प्रकार की बातचीत हो रही है, सोचा कि आज मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। उन्होंने बुद्ध-शय्या से उठ सुरक्त सघाटी धारण की; विजली के सदृश (चमकदार) पट्टी (=काय बंधन) को बाँधा; लाल बानात (कम्बल) सदृश अपने महा-चीवर को पहना; और फिर सुगन्धित गन्धकुटी से निकले। मस्त हाथी का पीछा करने वाले सिंह के समान, अनन्त बुद्ध-लीला के साथ, वह धर्म-सभा में पहुँचे। (वहाँ सभा में जाकर) अलकृत मण्डप के बीच में अच्छी तरह विद्याये श्रेष्ठ बुद्धासन पर चढ़, छः वर्ण की बुद्ध-किरणे फैलाते, समुद्र-नर्भ को प्रकाशित करने वाले, युगन्धर पर्वत के शिखर पर स्थित बाल-सूर्य की भाँति, आसन के बीच में विराजमान हुए। सम्यक् सम्बुद्ध के आते ही भिक्षु संघ बालचित छोड़ चुप हो गया। शास्ता ने मृदु, मैत्रीपूर्ण चित्त से परिषद् को देख कर सोचा—“यह परिषद् अति सुन्दर लगती है। किसी एक में भी हाथ की चञ्चलता नहीं; पाँव की चञ्चलता नहीं; खाँसने का शब्द वा छीकने का शब्द नहीं। सभी बुद्ध का

^१ योग विधियाँ ।

गौरव करने वाले हैं। सभी बुद्ध के तेज से प्रभावित हैं। मेरे आयु-कल्प तक भी चुपके रहने पर, यह पहले बोलना आरम्भ न करेंगे। मुझे ही बातचीत आरम्भ करने का विषय ढूँढ़ना चाहिए।” अपने ही प्रथम बोलने का निश्चय कर, भगवान् ने मधुर ब्रह्म-स्वर से भिक्षुओं को आमन्त्रित कर पूछा—“भिक्षुओ ! इस समय किस बातचीत में लगे थे ? इस समय क्या कथा चल रही थी ?”

“भन्ते ! यहाँ हम कोई और फजूल (=तिरश्चीन-कथा) बात नहीं कर रहे थे। हम यहाँ बैठे आपका गुणानुवाद ही कर रहे थे, कि “आयुष्मानो ! महापन्थक ने चुल्लपन्थक की प्रवृत्तिअहो ! बुद्धों के बल की महानता ! ! !”

शास्ता ने भिक्षुओ की बात सुनकर कहा—“भिक्षुओ ! इसी जन्म में चुल्लपन्थक ने मेरे कारण धर्म में महानता (नहीं) प्राप्त की है, पूर्व जन्म में भी मेरे कारण उसने भोगो (=ऐश्वर्य) में महानता प्राप्त की थी।”

भिक्षुओ ने भगवान् से, उस बात को प्रकट करने की प्रार्थना की। तब भगवान् ने पूर्व-जन्म की छिपी हुई बात को प्रकट किया—

ख. अतीत कथा

पूर्व काल में, काशां गट्ट के, बाराणसी (नगर) में ब्रह्मदत्त (राजा) के राज्य करते समय, बोधिसत्त्व एक सेठ परिवार में उत्पन्न हुए थे। वयस्क होने पर श्रेष्ठी^१ (=सेठी) का पद या चुल्लसेठी नाम से प्रसिद्ध हुए। वह पण्डित थे, =व्यक्त थे, सब लक्षणों के जानकार थे। एक दिन उन्होंने राजा की सेवा में जाते समय गली में एक मरे चूहे को देखा। उसी समय नक्षत्र का विचार करके कहा—बुद्धिमान् (चक्षुमान्) कुलपुत्र इस चूहे को ले जाकर, (अपने) परिवार का पालन कर सकता है; अथवा जीविकोपार्जन के पेशे (=कर्मान्त) में लगा सकता है।

एक दरिद्र कुलपुत्र ने श्रेष्ठी की बात सुन, “यह बिना जाने नहीं कह रहा

^१ उस समय का एक राजकीय पद जो कि नगर के अधिक धनी पुरुष को मिलता था।

हैं" (सोच) उस चूहे को एक दुकान पर ले जा बिल्ली के (खाने के) लिये दे डाला। उसके लिए उसे एक काकणी (=कार्षापण का आठवाँ हिस्सा) मिली। उस काकणी से उसने गुड़ खरीदा। फिर एक बरतन में पानी ले जगल से आदे हुए मालियों को देख, उन्हें थोड़ा थोड़ा गुड़ और पानी देने लगा। उन्होंने उसे एक एक मुट्ठी फूल दिये। अगले दिन वह उन फूलों को बेच कर प्राप्त किये मूल्य से, फिर गुड़ और पानी का घड़ा ले कर, पुष्प-उद्यान में ही चला गया। मालियों ने उसे आधे चुने पुष्प-वृक्ष दे दिये।

थोड़े समय में इस उपाय से उसने आठ कार्षापण प्राप्त कर लिये। एक दिन ऐसा हुआ कि आंधी आई; और हवा से राज्योद्यान में बहुत सी सूखी लकड़ी, शाखायें और पत्ते गिर पड़े। माली नहीं जानता था कि उनको कैसे हटवाये। उसने आकर माली से कहा—“यदि यह लकड़ी-पत्ते मुझे दो, तो मैं इन सब को यहाँ से उठवा ले जाऊँ।” “आर्य ! ले जाओ।” (कह) उसने स्वीकार कर लिया। तब वह चुल्ल-अन्तेवासिक (=छोटा शिष्य) छोटे लड़कों के खेलने की जगह पर गया। उन्हें (थोड़ा थोड़ा) गुड़ दे, थोड़ी ही देर में लकड़ी-पत्ते उठवाकर उद्यान के द्वार पर ढेर लगवा लिया। उस समय राजकीय कुम्हार राज-परिवार के बर्तनों को पकाने के लिए लकड़ी ढूँढ़ रहा था। राजोद्यान के द्वार पर जा उसने उन (लकड़ी-पत्तों) को देखा। उन्हें खरीद लिया। उस दिन चुल्ल-अन्तेवासिक को लकड़ी के बेचने से सोलह कार्षापण और चाटी तथा दूसरे पाँच बर्तन मिले। (इस प्रकार) धीरे धीरे उसके पास चौबीस कार्षापण हो गये। उसने सोचा ‘मेरे लिये यह एक (अच्छा) ढग है।’ वह नगर-द्वार के समीप एक पानी की चाटी रख पाँच सौ घसियारों (=तृण-हारको) को पानी पिलाने लगा। वे पूछने लगे “सौम्य, तू ने हमारा बहुत उपकार किया है। हम तेरे लिये क्या करें ?”

“काम पढ़ने पर कहूँगा (करना)”—कह, इधर उधर घूमते हुए, उसने स्थलपथकर्मिक (स्थल-मार्ग के कर्मचारी)^१ से और जल-मार्ग के कर्मचारी^१ (=जलपथकर्मिक) से मित्रता कर ली।

^१ उस समय के राज-पदाधिकारी।

(एक दिन) स्थलपथकर्मिक ने उससे कहा—“कल इस नगर में, घोड़ों का व्यापारी, पाँच सौ घोड़े ले कर आने वाला है।” उसने उसकी बात सुन घसियारों से कहा—“आज मुझे (सब जनें) एक एक घास की पूली (=तृण-कलाप) दो, और मेरा घास न बिकने तक, अपना घास न बेचो।” उन्होंने ‘अच्छा’ कह स्वीकार किया और घास के पाँच सौ पूले लाकर, उसके घर पर डाल दिये। घोड़ों के व्यापारी ने सारे नगर में (ढूँढा)। किसी दूसरी जगह घोड़ों के लिये उसे चारा न मिला। (अन्त में) उसे एक सहस्र देकर, उसने (वह) घास खरीदी।

कुछ दिन बाद, उसके जलपथकर्मिक मित्र ने कहा कि घाट (=पत्तन-बन्दरगाह) पर बड़ी नाव आई है। उसने सोचा ‘यह एक (अच्छा) मौका है’ और आठ कार्पाण में सब सामान से सुसज्जित एक रथ किराये पर लिया। बड़ी सज्जक के साथ नाव के घाट पर जा, नाविक को एक अँगूठी पेशगी दे (उससे) थोड़ी दूर पर, क्रानत तनवा, (भीतर) बैठ, आदमियों से कह दिया “जब बाहर से व्यापारी आयें, तो उन्हें तीन पहरो से लिवा कर सूचित करना।”

“नाव आई है” सुन, बाराणसी के सौ व्यापारी सामान खरीदने के लिए आये। ‘यहाँ से तुम्हें सामान नहीं मिल सकता, अनुक स्थान के महान् व्यापारी ने पेशगी दी है’, सुन, वह उसके पास आये। सेवकों ने पूर्व आज्ञा के अनुसार उन्हें तीन पहरो में से लिवा कर सूचना दी।

वे व्यापारी सौ थे। उनमें से प्रत्येक ने एक एक सहस्र देकर, उसे नाव में भागीदार बनाया। फिर एक एक सहस्र देकर, अपने अपने हिस्से (=के माल) को छुड़ा लिया। (इस प्रकार) चुल्ल-अन्तेवासिक दो लाख ले बाराणसी आया। कृतज्ञता प्रकट करने की इच्छा से वह एक लाख साथ ले चुल्लसेठी के पास गया। श्रेष्ठी ने पूछा—“तात ! क्या करके तू ने यह धन कमाया।”

उसने कहा—“आपके ही बताये उपाय से चार महीने के अन्दर यह धन कमाया।” और मरे चूहे से आरम्भ करके सब कहानी कह डाली। चुल्लक-महासेठी ने ‘इस प्रकार के तरुण को किसी दूसरे के पास छोड़ना अच्छा नहीं’; सोच उसे अपनी तरुण कन्या दे सारे परिवार का मालिक बना दिया।

श्रेष्ठी की मृत्यु के बाद, उसे उस नगर के श्रेष्ठी का पद प्राप्त हुआ। बोधिसत्त्व भी कर्मानुसार परलोक सिधारे। सम्यक् सम्बुद्ध ने यह धर्मोपदेश

कह, बुद्ध होने की अवस्था में यह गाथा कही—

अप्पकेनापि मेघावी पाभतेन विचक्खणो,
समुट्ठापेति अत्तानं अणुं अग्निं व सन्धमं ।

[(चतुर) मेघावी (पुरुष) थोड़ी सी भी आग को फूँक मारकर बढ़ा लेने की तरह, थोड़े से भी मूलधन से अपने को उन्नत कर लेता है ।]

इसमें 'अप्पकेनापि' का अर्थ है थोड़े से भी =परिमित से भी । मेघावी= प्रज्ञावान् । पाभतेन=सामान का मूल्य । विचक्खणो=व्यवहार-कुशल । समुट्ठापेति अत्तानं का अर्थ है बहुत सा धन तथा यश कमा कर, उसपर अपने को प्रतिष्ठित करता है । कैसे ? अणुं अग्निं व सन्धमं, जैसे बुद्धिमान् आदमी थोड़ी सी आग को भी क्रम से गोबर का चूरा आदि डाल कर, तथा मुँह से फूँक मारकर उठा लेता है, बढ़ा लेता है, बड़ा अग्नि-पुञ्ज बना लेता है । उसी प्रकार बुद्धिमान् मनुष्य थोड़ा भी मूल प्राप्त कर, नाना (प्रकार के) उपायों से धन और यश की वृद्धि करता है, और वृद्धि कर, उसपर अपने को प्रतिष्ठित करता है अथवा उस महान् धन और यश से अपने को उठाता है, प्रसिद्ध करता है, मशहूर करता है ।—यह अर्थ है ।

इस प्रकार भगवान् ने, "भिक्षुओ ! इस जन्म में चुल्लपन्थक ने मेरे कारण धर्म में धर्म की महानता को प्राप्त किया, और पूर्व जन्म में मेरे कारण भोगो (=ऐश्वर्य) की महानता तथा यश की महानता को प्राप्त किया" कह, इस धर्मोपदेश को स्पष्ट कर, दोनों कहानियाँ सुना, तुलना करके जातक का साराश निकाल दिखाया—“उस समय का चुल्लअन्तेवासिक (यही) चुल्लपन्थक था; और चुल्लकमहासेट्ठी तो मैं (स्वयं) ही था” कह देशना समाप्त की ।

५. तण्डुलनालि जातक

‘किमग्घति तण्डुलनालिका, तण्डुल-नालि का क्या मूल्य है ? यह (उपदेश) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय लाल-उदायी स्थविर को उद्देश करके कहा ।

क. वर्तमान कथा

उस समय मल्लपुत्र आयुष्मान् दब्ब सघ के भोजन-प्रबन्धक (=भत्तुद्दे-सक) थे। जब प्रातःकाल वह भोजन को शलाकायें^१ बाँटते तो लाल-उदायी स्थविर को, किसी दिन अच्छा भोजन मिलता, किसी दिन खराब। जिस दिन उन्हें खराब भोजन मिलता, वह भोजन की शलाकायें बाँटने के स्थान पर गड़बड़ करते; और कहते ‘क्या दब्ब ही शलाका देना जानता है, हम नहीं जानते’। उसके शलाका की जगह पर गड़बड़ करने से उमे ही शलाकाओं की डलिया दे दी गई, “हन्त ! लो तुम ही शलाकायें बाँटो।” उस दिन से वह ही सघ को (भोजन की) शलाकायें बाँटने लगा। बाँटते समय वह न जानता था—यह अच्छे भोजन (की शलाका) है और यह खराब भोजन (की शलाका) है। यह भी न जानता था—अमुक वर्ष की^२ आयु तक के भिक्षुओं को अच्छा भात दिया जा चुका है, और अमुक-वर्ष की आयु तक के भिक्षुओं को खराब। ‘अमुक-वर्षों’ की सीमा (=ठिनिका) करते हुए भी ‘अमुक-वर्ष-तक की सीमा की जा चुकी है’—का ख्याल न रखता था। भिक्षुओं के स्थान के बारे में, ‘इस स्थान पर,

^१ गृहस्थों की ओर से परिमित आदमियों का निमंत्रण होने पर भिक्षुओं के चुनने में वेंसिल जैसी लकड़ी की शलाकाओं का वितरण होता था।

^२ भिक्षुओं की आयु उनकी उपसम्पदा से गिनी जाती है।

इस (आयु)-सीमा तक के भिक्षु ठहरे', इस स्थान पर, इस सीमा तक के भिक्षु ठहरें, करके पृथ्वी या दीवार पर रेखा खींचता था। अगले दिन शलाका की जगह में भिक्षु (पहले दिन से) कम हो जाते वा अधिक हो जाते। उनके कम होने पर रेखा नीचे हो जाती, अधिक होने पर ऊपर। वह सीमा (=ठितिका) का ख्याल न कर, रेखा के चिन्ह के अनुसार शलाका बाँटता। तब उसे भिक्षु कहते—“आयुष्मान् लालउदायी ! रेखा चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे, लेकिन अच्छे भोजन मिल चुकने की सीमा अमुक-वर्ष के भिक्षुओं तक है, और खराब-भोजन मिल चुकने की सीमा अमुक-वर्ष के भिक्षुओं तक।” (लाल-उदायी) खीझ कर उत्तर देता—“यदि ऐसा है, तो यह रेखा यहाँ किस लिए है ? मैं तुम्हारा विश्वास थोड़े ही करूँगा। मैं (तो) इस लकीर का विश्वास करूँगा।”

तब नए भिक्षुओं ने और धाम्णरों ने उसे, “(आयुष्मान् ! लालउदायी) तेरे शलाका बाँटने पर भिक्षुओं के लाभ की हानि होती है। तू बाँटने के योग्य नहीं। यहाँ से निकल” कह, शलाका-बाँटने की जगह से निकाल दिया। उस समय शलाका की जगह पर बड़ा कोलाहल हुआ।

उसे सुन बुद्ध ने आनन्द स्थविर से पूछा—“आनन्द ! शलाका की जगह में बड़ा कोलाहल है। यह क्या शोर है ?” स्थविर ने तथागत को वह बात बताई।

शास्ता ने कहा—“आनन्द ! अपनी मूर्खता से लालउदायी न केवल इस जन्म में दूसरों के लाभ की हानि कर रहा है; बल्कि (इसने) पहले भी ऐसा किया है।” स्थविर ने इस बात को स्पष्ट करने के लिये प्रार्थना की। भगवान् ने पूर्व-जन्म की गुप्त बात प्रकट की—

ख. अतीत कथा

“पूर्व समय में, काशी राष्ट्र के बाराणसी (नगर) में ब्रह्मवत्त (नामक) राजा राज्य करते थे। उस समय हमारे बोधिसत्त्व उस (राजा) के अर्थ-कारक (=मूल्य निश्चित करने वाले appraiser of the prices) थे। (वे) हाथी, घोड़े, मणि, सुवर्ण आदि का मूल्य (निश्चित) करते और मूल्य

करवा चीज के मालिकों को चीज का उचित मूल्य दिलवाते थे। लेकिन राजा लोभी था, उसने लोभी-स्वभाव होने के कारण सोचा—“यदि यह अर्घकारक मूल्य (निश्चित) करता रहा, तो थोड़े ही समय में मेरे घर का धन नष्ट हो जायेगा। (इसलिए) किसी दूसरे को अर्घकारक रखूँगा।” उसने खिड़की खोल कर राजांगन में देखते हुए, एक लोभी, मूर्ख, गँवार आदमी को वहाँ से जाते देख कर सोचा—“यह मेरा दाम लगाने का काम कर सकेगा।” और फिर उसे बुला कर पूछा—“अरे ! क्या तू हमारा दाम लगाने का काम कर सकेगा ?”

“देव ! कर सकता हूँ”। राजा ने अपने धन की रक्षा करने के लिए उस मूर्ख आदमी को अर्घ-कारक के पद पर स्थापित किया। उस समय से वह मूर्ख अर्घ-कारक हाथी, घोड़े आदि का दाम लगाते वक्त, दाम को घटा कर जैसा मन में आता, वैसा कहता था। उसके उस पद पर प्रतिष्ठित होने के कारण, जो कुछ वह कहता, वही चीजों का मूल्य होता।

उस समय एक सरहद्दी (=उत्तरापथक) घोड़े का व्यापारी पाँच सौ घोड़े लेकर आया। राजा ने उस आदमी को बुलवाकर घोड़ों का दाम लगवाया। उसने पाँच सौ घोड़ों का दाम एक तण्डुल नालिका किया और फिर “घोड़ों के व्यापारों को एक तण्डुल नालिका दे दो” कह, घोड़ों को (राजकीय) अश्व-शाला में भिजवा दिया। घोड़े के व्यापारी ने पुराने अर्घ-कारक के पास जा, उस समाचार सुना कर पूछा, कि अब क्या करना चाहिए ?

उसने उत्तर दिया—“उस आदमी को रिशवत देकर, उससे कहो—कि हमारे घोड़ों का मूल्य एक तण्डुल-नालिका है; यह तो हमें मालूम हो गया, अब हम यह जानना चाहते हैं कि आपसे जो तण्डुल-नालिका मिली है, उसका क्या मूल्य है ? क्या आप राजा के सम्मुख खड़े हो कर, कह सकेंगे कि तण्डुल-नालिका का क्या मूल्य है ? यदि कहे कि ‘कह सकता हूँ’ तो उसे राजा के पास लेकर आओ। मैं भी वहाँ आऊँगा।”

घोड़ों के व्यापारी ने “अच्छा” कह बोधिसत्त्व के वचन को स्वीकार कर, अर्घ-कारक को रिशवत दे, वह बात कही। उसने रिशवत पाकर उत्तर दिया—“हाँ, तण्डुल-नालिका का मोल करा सकता हूँ।” “तो राज-कुल चले” कह, उसे ले, राजा के पास आये। बोधिसत्त्व तथा दूसरे बहुत से अमात्य भी आ गये।

घोड़ों के व्यापारी ने राजा को प्रणाम करके कहा—“देव ! यह तो मेने जाना कि पाँच सौ घोड़ों का मूल्य एक तण्डुल-नालिका है, अब अर्घ-कारक से पूछें कि एक तण्डुल-नालिका का क्या मूल्य है ?”

राजा ने रहस्य न जानने के कारण पूछा—“अरे अर्घकारक ! पाँच सौ घोड़ों का क्या मूल्य है ?”

“देव ! तण्डुल-नालिका ।”

“अरे ! पाँच सौ घोड़ों का तो मूल्य तण्डुल-नालिका है, उस तण्डुल-नालिका का क्या मूल्य है ?” उस मूर्ख ने उत्तर दिया—“तण्डुल-नालिका का मूल्य है भीतर-बाहर (==सत्र) वाराणसी ।”

राजा का पक्ष लेकर, उसने पहले तो घोड़ों का मूल्य एक तण्डुल-नालिका (स्थिर किया) अब घोड़ों के व्यापारी से रिश्वत लेकर, उस तण्डुल-नालिका का मूल्य अन्दर-बाहर (==सत्र) वाराणसी किया ।

“किमघति तण्डुलनालिकाय
अस्मान मूलाय वदेहि राज !
वाराणसि सन्तरबाहिरन्तं
अयमघति तण्डुलनालिका ॥”

[राजन् ! घोड़ों की कीमत, इस तण्डुल-नालिका का क्या मूल्य है ? इस तण्डुल-नालिका का मूल्य अन्दर-बाहर सहित (सारी) वाराणसी है]

उस समय वाराणसी का शहर पनाह (प्रकार) बारह योजन का था, (और) उसके अन्दर-बाहर तो तीन सौ योजन का देश (==राष्ट्र) था । सो, उस मूर्ख ने अन्दर और बाहर सहित इतनी बड़ी वाराणसी को तण्डुल-नालिका का मूल्य बताया ।

इसे सुन अमात्य ताली पीट कर हँसते हुए कहने लगे—“हम आज तक यही समझते रहे कि पृथ्वी और राज्य अमूल्य (होते) हैं । (लेकिन आज मालूम हुआ) कि इतने बड़े राज्य सहित वाराणसी का मूल्य एक तण्डुल-नालिका मात्र है । अहो ! मूल्य करने वाले की प्रज्ञा ! इतने समय तक यह अर्घ-कारक कहाँ (छिपे) रहे । हमारा राजा ही (इनके) योग्य नहीं है ।”

उस समय राजा ने लज्जित हो, उस मूर्ख को निकाल, बोधिसत्त्व को ही

अर्घ-कारक का पद दिया । (समय आने पर) बोधिसत्त्व भी कर्मानुसार (परलोक को) गये ।

शास्ता ने इस धर्म-उपदेश की कहानी कह कर, तुलना कर, जातक का साराश निकाल दिखाया—“उस समय का गँवार, मूर्ख अर्घकारक (आज कल यह) लालउदायी है । बुद्धिमान् अर्घकारक तो मैं (स्वयं) ही था” कह धर्म-देशना समाप्त की ।

६. देवधम्म जातक

“हिरि ओत्तप्प सम्पन्ना=लज्जा और भय से युक्त” यह (धर्मदेशना) भगवान् ने जेतवन में विहार करते समय, एक बहुत सामान रखने वाले भिक्षु को लेकर कही ।

क. वर्तमान कथा

उसने प्रव्रजित होने से पहले अपने लिए परिवेण, अग्निशाला, भाण्डागार बनवा कर उस भाण्डागार को घी-चावल आदि से भर कर प्रव्रज्या ग्रहण की । फिर प्रव्रजित होने पर, वह अपने नौकरों को बुलवा (उनसे) यथावधि भोजन पकवा कर खाता था । उसके पास सामान बहुत था । रात को दूसरा ओढ़न-बिछावन होता था, दिन को दूसरा । वह विहार के एक सिरे पर बसता था ।

एक दिन वह चीवर, बिछौने आदि को निकाल कर परिवेण में फैला कर सुखवा रहा था । उसी समय, जनपद (=देश) के बहुत से भिक्षु शयनासन देखते घूमते हुए (उस) परिवेण में पहुँचे । वे चीवर आदि देख पूछने लगे—“यह किसके हैं ?” उसने उत्तर दिया, “आवुसो ! ये मेरे हैं ।”

“आवुस ! यह भी चीवर, यह भी चीवर, यह भी ओढ़न, यह भी ओढ़न, यह भी बिछावन, यह भी बिछावन—यह सब तुम्हारे हैं ?”

“हाँ ! ये सब मेरे हैं ।”

“आवुस ! भगवान् ने (अधिक से अधिक) तीन चीवरों (के रखने) की आज्ञा दी है । इस प्रकार के निर्लोभी बुद्ध के धर्म में साधु हो कर (भी) तू इतना सामान रखता है ?” ‘चल, तुझे भगवान् के पास ले चले’ कह उसे शास्ता के पास ले गये ?

शास्ता ने देख कर पूछा—“भिक्षुओ ! क्यों जबरदस्ती इस भिक्षु को ले कर आये हो ?”

“भन्ते ! यह भिक्षु बहुत भाण्ड बटोरे है, बहुत सामान रखे है ।”

“भिक्षु ! क्या तू सचमुच बहुत सामान रखता है ?”

“भगवान् ! हा, सचमुच ।”

“भिक्षु ! तू किस लिए, बहु-भाण्डिक हो गया ? क्या मैं निर्लोभता, मतोष . . . एकान्त-चिन्तन और अभ्यास की प्रशंसा नहीं करता ?”

शास्ता की इस बात को सुन वह भिक्षु क्रुद्ध हो, “तो अच्छा ! अब से मैं इम तरह रहूँगा” कह, ऊपर पहने चीवर को उतार, सभा के बीच में केवल एक चीवर (= अन्तरवासक) धारी हो कर खड़ा हो गया ।

तब शास्ता ने उसे सँभालते हुए पूछा—“भिक्षु ! क्या तू ने जल-राक्षस के जन्म में लज्जा तथा निन्दा-भय के साथ विहार करते हुए बारह वर्ष नहीं बिताये ? तो फिर अब इस गौरव-पूर्ण बुद्ध धर्म में प्रव्रजित होकर तू किस लिए चार प्रकार की परिपद् के बीच में पहने हुए चीवर को छोड़, लज्जा-भय त्याग खडा है ?”

वह शास्ता के वचन को सुन, लज्जा तथा निन्दा-भय से युक्त हो, उस चीवर को पहन, शास्ता को प्रणाम कर, एक ओर बैठ गया । भिक्षुओं ने भगवान् से उस बात के प्रकट करने की प्रार्थना की । भगवान् ने पूर्व-जन्म की छिपी हुई बात प्रकट की—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में काशी देश में, बाराणसी (बनारस) में ब्रह्मवत्त राजा था । उस समय बोधिसत्त्व ने उस (राजा) की पटरानी की कोख से जन्म ग्रहण किया ।

नाम-करण के दिन उसका नाम **महिंसास** कुमार रक्खा । उसके खेल-कूद करते, राजा को एक और भी पुत्र हुआ, जिसका नाम **चन्द्रकुमार** रक्खा गया; लेकिन उसके खेल-कूद करते समय ही उसकी माता (बोधिसत्त्व-माता) मर गई । राजा ने दूसरी पटरानी बनाई । वह राजा की प्रिया तथा अनुकूल थी । राजा के सहवास से उसे एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम **सूर्य्य-कुमार** रक्खा गया । राजा ने पुत्र को देख, सन्तुष्ट हो, कहा—“भद्रे ! तेरे पुत्र को वर देता हूँ ।” देवी ने ‘इच्छा होने पर ग्रहण करूँगी’ कह वर को अमानत रक्खा । (फिर) पुत्र के सयाने होने पर उसने राजा से कहा—“आपने पुत्र-जन्म के समय मुझे वर दिया था, अब मेरे पुत्र को राज्य दीजिये ।”

‘प्रज्वलित अग्निपुञ्ज के समान चमकते मेरे दो पुत्र हैं, (उन्हें छोड़ कर) तेरे पुत्र को राज्य नहीं दे सकता’—कह राजा ने इन्कार किया । लेकिन रानी को बार बार याचना करते देख, राजा ने सोचा, ‘यह मेरे पुत्रों का बुरा भी सोच सकती है ।’ (इसलिये) पुत्रों को बुला कर कहा—“तात ! मैंने **सूर्य्यकुमार** के उत्पन्न होने के समय वर दिया था । अब उसकी माता राज्य मांगती है । मैं उसको नहीं देना चाहता । लेकिन स्त्री-जाति पापिन होती है, वह तुम्हारी बुराई भी सोच सकती है । इसलिए अभी तुम जंगल में चले जाओ, मेरे मरने पर आकर अपने कुल के आधीन (इस) नगर में राज्य करना ।” (यह कह) रोते कुमारों के सिरों को चूम, (उन्हे जङ्गल में) भेज दिया ।

पिता को प्रणाम कर उन्हे राज-प्रासाद से उतरते समय देख, **सूर्य्य-कुमार** को भी बात मालूम हो गई । ‘मैं भी भाइयों के साथ जाऊँगा’ (सोच) वह भी उनके साथ निकल पडा ।

वह हिमालय में प्रविष्ट हुए । बोधिसत्त्व ने मार्ग से हट, वृक्ष के नीचे बैठ, **सूर्य्यकुमार** को बुला कर कहा—“तात ! सूर्य्य ! इस तालाब पर जाओ, वहाँ नहा, पानी पी, हमारे पीने के लिये भी कमल के पत्ते में पानी ले आओ । उस तालाब को **कुबेर** (—वैश्रवण) ने एक जल-राक्षस को दिया था; और कुबेर ने उस (राक्षस) को कह रक्खा था कि **देवधर्म** जानने वालों को छोड़, अन्य जो कोई इस तालाब में उतरेंगे, वे (सब) तेरे आहार होंगे; (तालाब में) न उतरने वाले तेरे आहार नहीं होंगे ।”

तब से वह राक्षस, जो उस तालाब में उतरते, उनसे **देवधर्म** पूछता ।

जो न जानते, उनको खा जाता। सूर्यकुमार उस तालाब पर पहुँचा। बिना सोचे विचारे ही, उसमें उतरा। राक्षस ने उसे पकड़ कर पूछा—“तुझे देवधर्म मालूम है ?”

उसने उत्तर दिया—“हाँ जानता हूँ। चाँद सूर्य देव-धर्म हैं।”

“तू देव-धर्मों को नहीं जानता” (कह) उसने पानी में प्रवेश कर, उसे अपने वासस्थान पर ले जाकर रक्खा। बोधिसत्त्व ने उसे देर करता देख, चन्द्र-कुमार को भेजा। राक्षस ने उसे भी पकड़ कर पूछा—“तुझे देव-धर्म मालूम है ?” “हाँ जानता हूँ। चारों दिशाये देव-धर्म हैं।” राक्षस ने ‘तू देव-धर्म को नहीं जानता’ कह उमे भी पकड़ कर वहीं रक्खा।

उसके भी देर करने पर “कोई आफन पडी” मोच, बोधिसत्त्व अपने आप वहाँ पहुँच, दोनों (जनों) के उतरने के पद-चिन्ह देख, “यह तालाब राक्षस के अधिकार में होगा” (मोच) तलवार निकाल, (तीर-)कमान ले खड़े हो गये। जल-राक्षस ने बोधिसत्त्व को पानी में उतरते न देख जगल में काम करने वाले मनुष्य का रूप धारण कर, बोधिसत्त्व से पूछा—“महाशय ! रास्ते के थके तुम किन लिए इस तालाब में उतर, नहा, (पानी) पी, भिसे खा, फूल को धारण कर सुख पूर्वक (आगे) नहीं जाते ?”

बोधिसत्त्व ने उमे देव, मोचा, “यह वही यक्ष होगा” (और) यह जान कर पूछा—“क्या तू ने मेरे भाइयों को पकड़ रक्खा है ?”

“हाँ, मैंने (पकड़ रक्खा है)।”

“किस कारण से ?”

“इस तालाब में उतरने वालों पर मुझे अधिकार है।”

“क्या सब पर अधिकार है ?”

“जो देव-धर्म जानते हैं, उन्हें छोड़ बाकी सब पर अधिकार है ?”

“क्या तू देव-धर्म (जानना) चाहता है ? यदि चाहता है, तो मैं तुम्हें देव-धर्म कहूँगा।”

“तो कहे, मैं देव-धर्मों की सुनूँगा।”

“मैं देव-धर्मों को कहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा शरीर साफ नहीं है।”

यक्ष ने बोधिसत्त्व को नहलाया, भोजन करवाया, पानी पिलाया, फूल धारण कराया, सुगन्धियों का लेप कराया, फिर अलङ्कृत मण्डप के बीच आसन

प्रदान किया । बोधिसत्त्व ने आसन पर बैठ, यक्ष को पैरों में बिठा, 'तो, देवधर्मों को ध्यान-पूर्वक कान देकर सुनो' कह, इस गाथा को कहा—

हिरिओत्तप्पसम्पन्ना सुक्कधम्मसमाहिता,

सन्तो सप्पुरिसा लोके देव-धम्माति बुच्चरे ॥

[लज्जा और निन्दा-भय से युक्त, शुभ-कर्मों से युक्त (लोगों) को शान्त और सत्पुरुष देव-धर्म कहते हैं ।]

यहाँ हिरि ओत्तप्पसम्पन्ना का अर्थ है हिरि (=लज्जा) और ओत्तप्प (=निन्दा-भय) से युक्त । इन (दो शब्दों) में, कायिक दुराचार आदि में जो लज्जा मानना है, वह हिरि (=ह्री) है । 'हिरि' लज्जा का ही पर्याय-वाची शब्द है । और उन्ही (=कायिक दुराचार आदि) से जो तपना है, वह 'ओत्तप्प' है; पाप से उद्विग्न होने का यह पर्यायवाची शब्द है । सो हिरि (=लज्जा) अपने (अन्दर) से उत्पन्न होती है; ओत्तप्प (=निन्दा-भय) बाहरी (कारणों) से । हिरि का स्वामी (=आधिपत्य) खुद है; किन्तु ओत्तप्प का स्वामी लोक । हिरि में लज्जा का भाव रहता है; ओत्तप्प में निन्दा-भय का भाव । हिरि का लक्षण है (आत्म-)शौर्य (आदि) का भाव, ओत्तप्प का लक्षण है दुष्कर्म (=व्य) करने में भयभीत होना । सो (पुरुष) अपने (अन्दर) से उत्पन्न होने वाली 'हिरि' को चार कारणों से उत्पन्न करता है—जात (=जाति) का विचार करके, आयु का विचार करके, वीरता का विचार करके, तथा (अपनी) बहु-श्रुतता (=पाण्डित्य) का विचार करके । सो कैसे ? (प्राणि-हिंसा आदि) पाप-कर्म (अँची) जान वालों का काम नहीं; यह केवट आदि नीच जातियों का काम है । वैसी (अँची) जात वाले को ऐसा कर्म करना अनुचित है—इस प्रकार जात का विचार कर प्राण-हिंसा आदि पापकर्म के न करते हुए, हिरि उत्पन्न करता है । पाप-कर्म बच्चों का काम है; सयाने पुरुष के लिए ऐसा करना अनुचित है; इस प्रकार आयु का विचार कर, प्राणि-हिंसा आदि पाप को न करते हुए, हिरि उत्पन्न करता है । पाप-कर्म दुर्बलों का काम है, मेरे जैसे वीर (पुरुष) को इस प्रकार का कर्म करना अनुचित है; इस प्रकार वीरता (=शूरभाव) का विचार कर प्राणि-हिंसा आदि पाप-कर्म को न करते हुए, हिरि उत्पन्न करता है । पाप-कर्म (करना) अन्धे-मूर्खों का काम है; पण्डितों का काम नहीं । (मेरे)

जैसे पण्डित, बहुश्रुत को इस प्रकार का कर्म करना अनुचित है। इस प्रकार बहु-श्रुत-भाव का विचार कर, प्राणि-हिंसा आदि पाप-कर्म को न करते हुए, हिरि उत्पन्न करता है। इसी प्रकार अपने से उत्पन्न होने वाली 'हिरि' को चार कारणों से उत्पन्न कर, और उस हिरि को अपने चित्त में स्थापित कर, पाप-कर्म नहीं करता। इस प्रकार हिरि अपने (अन्दर) से उत्पन्न होने वाली होती है।

ओत्तप्य कैसे बाहर (के कारणों) से उत्पन्न होने वाला है? 'यदि तू पाप-कर्म करेगा, तो चारों प्रकार की सभा (=परिषद्) में निन्दा का भागी होगा—

“गरहिस्सन्ति तं विज्जू असुांच नागरिको यया
विवज्जितो सीलवन्तेहि कथं भिक्षु ! करिस्ससि ॥”

[विज लोग तेरी उसी प्रकार निन्दा करेगे, जैसे नागरिक (लोग) गन्दगी की। सच्चरित्र भिक्षुओं द्वारा (अकेला) छोड़ दिये जाने पर, हे भिक्षु ! तू कैसे करेगा ?]

इस प्रकार विचार करने से बाहर (के कारणों) से उत्पन्न ओत्तप्य (=निन्दा-भय) के मारे, पाप-कर्म नहीं करता। इस प्रकार ओत्तप्य बाहर (के कारणों) से उत्पन्न होने वाला है।

हिरि (=लज्जा) का स्वामित्व कैसे अपने आप है? जब एक कुल-पुत्र अपने को अधिपति (=प्रधान), ज्येष्ठ मान कर सोचता है, मेरे जैसे श्रद्धा से प्रव्रजित, बहुश्रुत, धूत-ज्ञ^१ रखने वाले को पाप-कर्म करना अनुचित है, (और) यह सोच पाप-कर्म से बचा रहता है। इस प्रकार हिरि का स्वामी अपने आप है। इसीलिए भगवान् ने कहा है—“वह अपने को ही स्वामी करके, अकुशल को छोड़ता है, कुशल (=अच्छे) कर्म का अभ्यास करता है। सदीप को छोड़ता है, निर्दोष कर्म का अभ्यास करता है। अपने आपको पवित्र बनाये रखता है।”^२ ओत्तप्य का स्वामी लोक कैसे है? यहाँ एक कुल-पुत्र लोक को ही स्वामी (=अधिपति), ज्येष्ठ करके, पाप-कर्म से बचता है। जैसे कहा

^१ अवधूतों के नियम, प्रारण्यक, पिण्डपातिक, पांसुकूलिक आदि होना।

^२ अंगुत्तर-निकाय, तिक निपात।

हे—“यह लोक-समूह महान् है। इस लोक-समूह मे (ऐसे) श्रमण-ब्राह्मण हैं, जो ऋद्धिमान् हैं; दिव्यचक्षु (वाले) हैं, दूसरों के चित्त की बात जान लेने वाले हैं। वे (अपने) दूर से भी देख लेते हैं, और स्वयं पास होने पर भी नहीं दिखाई देते। वे (अपने) चित्त से, (दूसरों के) चित्त को जान लेते हैं। वे मुझे जान लगे (और कहेंगे), ‘भो ! देखते हो। इस श्रद्धा-पूर्वक घर से बेघर (हो), प्रब्रजित हुए कुल-पुत्र को, जो पाप बुरे-कर्मों से युक्त हो, विहरता है।’ (और) ऐसे देवता भी हैं, जो ऋद्धि-मान् हैं, दिव्य-चक्षु (वाले) हैं, दूसरों के चित्त की बात जान लेने वाले हैं। वे तो दूर से भी देख लेते हैं, और स्वयं पास होने पर भी दिखाई नहीं देते। वे (अपने) चित्त से, (दूसरों के) चित्त को जान लेते हैं। वे मुझे जान लगे, (और कहेंगे)—“भो ! देखते हो। इस श्रद्धा पूर्वक घर से बेघर (हो) प्रब्रजित हुए कुल-पुत्र को, जो पाप बुरे कर्मों से युक्त हो, विहरता है।” (इस प्रकार) वह लोक को ही स्वामी (=अधिपति) मान कर बुराइयों को छोड़ता है, भलाईयों का अभ्यास करता है, सदोष को छोड़ता है, निर्दोष-कर्म का अभ्यास करता है, अपने आपको पवित्र बनाये रखता है।’ इस प्रकार ओत्तप्प का स्वामी लोक है।

‘हिरि में लज्जा का भाव रहता है, ओत्तप्प मे निन्दा-भय’—सो, यहाँ लज्जा का अर्थ है, लज्जा का आकार-प्रकार। इस भाव से जो युक्त हो, उसे हिरि (कहते हैं)। भय का अर्थ है नरक-भय, इस भाव से जो युक्त है, वह ओत्तप्प। ये दोनों (हिरि और ओत्तप्प) ही पाप के त्याग में कारण होते हैं। जैसे पाखाना-पेशाब करता हुआ कोई कुल-पुत्र, शरम खाने के योग्य किसी को देख कर, लज्जा करने लगे, शरम खाये; इसी प्रकार अपने-आप में लज्जा का भाव उत्पन्न होने पर, (व्यक्ति) पाप-कर्म नहीं करता। कोई नरक-गामी होने के भय से डर कर पाप नहीं करता। यहाँ यह उपमा है—‘जैसे लोहे के दो गोलों में, एक शीतल हो, लेकिन मल लगा हुआ, दूसरा ऊष्ण अङ्गार-वर्ण। (उन दोनों में से) बुद्धिमान (आदमी) शीतल को मल लगा रहने के कारण घृणा के मारे नहीं ग्रहण करता, दूसरे को जलने के भय से। सो शीतल (गोले) के मल लगे

रहने के कारण, घृणा के मारे न ग्रहण करने की तरह अपने-आप में लज्जा उत्पन्न होने से पाप-कर्म का न करना, और ऊष्ण (गोले) के जलने के भय से, न ग्रहण करने की तरह, नरक के भय से पाप का न करना, जानना चाहिये ।

हो। (=हिरि) का लक्षण है (आत्म-)गौरव (आदि) का भाव; श्रोतृत्प का लक्षण है दुष्कर्म करने में भयभीत होना—ये दोनों भी पाप-कर्म के त्याग में ही कारण होते हैं । एक व्यक्ति अपनी जाति (=जात) की महानता का विचार कर, अपने शास्ता की महानता का विचार कर, अपनी विरासत का महानता का विचार कर, अपने गुरुभादयो (=सब्रह्मचारियो) की महानता का विचार कर, (इन) चार कारणों से गौरव स्वभाव वाली ह्रीं को उत्पन्न कर पाप-कर्म से बचता है । दूसरा व्यक्ति आत्म-निन्दा के भय से, पर-निन्दा के भय से, दण्ड के भय से, दुर्गति के भय से—(इन) चार कारणों से दुष्कर्म करने में भय रूपी श्रोतृत्प को उत्पन्न कर पाप-कर्म नहीं करता । यदा जाति की महानता आदि के विचार, तथा आत्म-निन्दा आदि के भय विस्तार से कहने चाहिये । इनका विस्तार अंगुत्तर निकाय की अट्टकथा में आया है ।

शुक्लधम्मसमाहिता (शुक्लधर्मसमाहित) का अर्थ है, इन हिरि तथा श्रोतृत्प से ही आरम्भ करके, जितनी भी आचरणीय भलाइयाँ हैं, वे सब शुक्ल धर्म हैं, और वे सक्षेप में चातुर्भूमिक लौकिक तथा लोकोत्तर धर्म हैं—इन धर्मों से समाहित=समन्नागत=युक्त । सन्तो सप्पुरिसा लोके—काय-कर्मादि के शान्त होने से शान्त, कृतज्ञता=कृतवेदिता के कारण शोभायमान् पुरुष, सत्पुरुष । लोक—संस्कार-लोक, सत्त्व (=प्राणि) लोक, प्रोकास (=स्थान)लोक, स्कन्ध-लोक, आयतन-लोक, धातु-लोक—ये अनेक प्रकार के लोक हैं । सो 'एक लोक—यव सत्वो की स्थिति आहार पर निर्भर है . . . अट्टारह लोक, अट्टारह धातु-लोक',—इसमें संस्कार-लोक कहा गया है । स्कन्ध-लोक आदि सब उसके अन्तर्गत आ ही गये । यही लोक, परलोक, देव-लोक, मनुष्य-लोक अर्थात् सत्त्व-लोक कहा गया है—

यावता चन्दिमसुरिया परिहरन्ति विसाभन्ति विरोचना,

ताव सहस्रधा लोको एत्थ ते वत्तन्ति वसो ॥

[जहाँ तक चन्द्रमा तथा सूर्य घूमते हैं, प्रकाश से दिशाओं को प्रकाशित

करते हैं; वहाँ तक सहस्र (चक्रवाल) लोक है; और इस सारे लोक पर तेरा वश है ।]

इस गाथा में ओकास-लोक का वर्णन किया गया है । इनमें यहाँ मतलब है सत्व-लोक से । सत्व लोक में ही (जो) इस प्रकार के सत्पुरुष होते हैं, वे देव-धम्माति बुच्चरे, (= वे देव-धर्म कहलाते हैं) । इनमें देव तीन प्रकार के होते हैं—सम्मति-देव, उत्पत्ति-देव और विशुद्धि-देव । महासम्मत् के समय से लेकर, लोंग (जिन जिन) राजा राजकुमार आदि को देव कह (करके) बुलाते हैं (= सम्मत करते हैं), वे सम्मति-देव । देव-लोक में उत्पन्न हुए देव, उत्पत्ति-देव । क्षीणाश्रव (= अर्हत्) विशुद्धि-देव । ऐसा कहा भी गया है— “सम्मति-देव है राजा, महारानियों, (राज-)कुमार । उत्पत्ति-देव है भूमि के देवों से आरम्भ करके ऊपर के देवों तक । विशुद्धि-देव है बुद्ध, प्रत्येक-बुद्ध, क्षीणाश्रव ।” इन देवों के धर्म है देव-धर्म । बुच्च का अर्थ है कहलाते हैं । हिरि तथा ओत्तप्प—यह दोनो कुशल-धर्मों के मूल है । कुशल (-कर्म) रूपी सम्पत्ति से देव-लोक में उत्पत्ति होने से, और विशुद्धता का कारण होने से, कारण के अर्थ में ही, तीन प्रकार के देवों के धर्म, देव-धर्म । उन देव-धर्मों से युक्त मनुष्य भी देव-धर्म है । इसलिये व्यक्ति की ओर सकेत करके उपदेश किये गये इस धर्मोपदेश में, इन धर्मों का उपदेश करते हुए कहा है, “सन्तो सप्पुरिसा लोके देव-धम्माति बुच्चरे ।”

यक्ष इस धर्म-देशना को सुन प्रसन्न हुआ, और बोधिसत्त्व से बोला, “पण्डित ! मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ । एक भाई को (लौटा) देता हूँ । (बोलों) किस (भाई) को लाऊँ ?”

“छोटे भाई को लाओ ।”

“पण्डित ! तू देव-धर्मों को केवल जानता भर है, उनके अनुसार आचरण नहीं करता ।”

“कैसे (= किस कारण से) ?”

“क्योंकि तू ज्येष्ठ (भाई) को छोड़, उसके छोटे भाई को मँगवा कर ज्येष्ठ का गौरव नहीं रखता है ।”

“यक्ष ! मे देव-धर्मों को जानता हूँ, और उनके अनुसार आचरण करता हूँ। इसी (भाई) के कारण, हमने इस वन में प्रवेश किया। इसीके कारण, हमारे पिता से इसकी माँ ने राज्य माँगा। हमारे पिता ने उसे वर न दिया, (लेकिन) हमारी रक्षा के लिए, हमें वनवास की आज्ञा दी। (सो) इस कुमार को बिना लिये यदि हम लौटेंगे; तो—“इसे जंगल में एक यक्ष ने खा लिया”— यह बात कहने पर भी कोई विश्वास न करेगा। इसलिए मैं, निन्दा के भय से भय-भीत, इसीको माँगता हूँ।

“साधु, साधु पण्डित ! तू देव-धर्मों को जानता है, और उनके अनुसार आचरण भी करता है” कह, यक्ष ने बोधिसत्त्व को साधु (-वाद) दे, (उसके) दोनों भाई लाकर, (उसे) दे दिये।

तब बोधिसत्त्व ने उसे कहा—“सौम्य ! तू अपने पूर्व के पाप-कर्म के कारण, दूसरों का रक्त-मांस खाने वाले यक्ष की योनि में उत्पन्न हुआ। अब फिर भी पाप-कर्म ही करता है। यह पाप-कर्म नरक आदि से छूटने न देगा। (इसलिए) अब से तू पाप-कर्म को छोड़ कर पुण्य (=कुशल) कर्म कर।” (इस प्रकार) बोधिसत्त्व, उस यक्ष को दमन कर सके। उस यक्ष का दमन कर, उमी यक्ष की रक्षा में बही रहने लगे।

एक दिन नक्षत्र देख, पिता के मरने की बात जान, यक्ष को साथ ले, वे **बाराणसी** पहुँचे। फिर राज्य को ग्रहण कर, **चन्द्रकुमार** को उप-राज और **सूर्य-कुमार** को सेनापति का स्थान दिया। यक्ष के लिए एक रमणीय स्थान पर, मन्दिर (=आयतन) बनवा दिया, और ऐसा (प्रबन्ध) कर दिया, जिससे उसे श्रेष्ठ माला, श्रेष्ठ पुष्प, और श्रेष्ठ भोजन मिलता रहे। धर्मानुसार राज्य करके वह कर्मानुसार (परलोक) को गये।

शास्ता ने इस धर्म-उपदेश को ला कर, (आर्य-सत्त्वों को प्रकाशित किया। आर्य-सत्त्वों के प्रकाशन के अन्त में, उमने भिक्षुओं को **लौत आपत्ति-फल** में प्रतिष्ठित किया। सम्यक्-सम्बुद्ध ने दोनों कथाएँ कह कर, तुलना कर, जातक का सारांश निकाल दिखाया।

उस समय का उदक-राक्षस, (इस समय का) बहु-भाण्डिक भिक्षु है। **सूर्य-कुमार** (इस समय का) **आनन्द**, **चन्द्र-कुमार** (इस समय का) **सारिपुत्र**, और **महिंसांस-कुमार** नामक ज्येष्ठ भ्राता तो मैं ही था।

७. कट्टहारि जातक

“पुत्रो त्याहं महाराज . . .” यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते हुए वासभ खत्तिया (क्षत्रिया) की कथा के सम्बन्ध में कही। वासभ-खत्तिया की कथा बारहवे परिच्छेद (निपात) में भद्रसाल जातक^१ में आयेगी।

क. वर्तमान कथा

महानाम शाक्य को नागमुण्डा नामक दासी की कोख से लड़की उत्पन्न हुई। (पीछे वह) कोसल-नरेश की पटरानी हुई। उससे राजा को पुत्र हुआ। लेकिन राजा ने उसका पूर्व में दासी होना जान, उसको तथा उसके पुत्र विडूडभ को भी स्थान से च्युत कर दिया। दोनों घर के भीतर ही रहते। शास्ता ने उस बात का पता पा, पाँच सौ भिक्षुओं के साथ, प्रातःकाल ही राजा के निवास-स्थान पर जा, बिछे आसन पर बैठकर पूछा—“महाराज ! वासभ खत्तिया कहाँ है ?” राजा ने (उसके सम्बन्ध में) उक्त बात कही। “महाराज ! वासभ खत्तिया किसकी लड़की है ?”

“भन्ते ! महानाम की।”

“और (यहाँ) आकर, वह किसे प्राप्त हुई ?”

“भन्ते ! मुझे”

“महाराज ! यह राजा की लड़की, राजा को प्राप्त हुई, राजा से ही इसे पुत्र हुआ; सो वह पुत्र किस लिए पिता के राज्य का अधिकारी नहीं ? पूर्व समय में राजाओं ने लकड़हारिनी के मुहूर्त भर के सहवास से, उसकी कोख से उत्पन्न पुत्र को भी राज्य दिया है।”

^१ भद्रसाल जातक (४६५)

राजा ने भगवान् से, उस बात को स्पष्ट कर, कहने की प्रार्थना की। भगवान् ने पूर्व जन्म की छिपी हुई बात प्रकट की—

ख. अतीत कथा

“पूर्व समय में, वाराणसी में, ब्रह्मवत्त राजा बड़े समारोह के साथ उद्यान गया। वह वहाँ पुष्प-फलो की चाह से घूम रहा था; उन्ही समय उद्यान के वन-पण्ड में गा गा कर लकड़ी चुनती एक स्त्री को देख, उसपर आसक्त हो, उसने उससे सहवास किया। उसी क्षण, बोधिसत्त्व ने उसकी कोख में प्रवेश किया। उसकी कोख, वज्र से भरी गर्द की तरह, भारी हो गई। उसने गर्भ स्थापित हुआ जान, (राजा से) कहा—“देव ! मुझे गर्भ हो गया है।” राजा ने अँगूली की अँगूठी देकर कहा—“यदि लड़की हो, तो इस (अँगूठी) को फेंककर, (अपनी) लड़की को पालना। यदि लड़का हो, तो अँगूठी के साथ, उसे मेरे पास लाना।” इतना कहकर, वह चला गया। गर्भ-परिपक्व होने पर, उसने बोधिसत्त्व को जन्म दिया। बोधिसत्त्व के इधर उधर दौड़-भाग कर क्रीड़ा भूमि में खेलते समय, कोई कोई (उसके सम्बन्ध में) कहते थे, “बिना-बाप-के ने हमें मारा।” इसे सुन, बोधिसत्त्व ने माता के पास जाकर पूछा—“माँ, मेरा पिता कौन है ?”

“तात ! तू वाराणसी-नरेश का पुत्र है।”

“अम्मा ! क्या इसका कोई साक्षी (—सबूत) है ?”

“तात ! राजा ‘यदि लड़की हो, तो इस अँगूठी को फेंककर, (अपनी) लड़की को पालना, यदि लड़का हो, तो अँगूठी के साथ, उसे मेरे पास लाना,’ कह, यह अँगूठी दे गया है।”

“अम्मा ! यदि ऐसा है, तो मुझे क्यों पिता के पास नहीं ले चलती ?”

उसने पुत्र का विचार जान, राज-द्वार पर जा, राजा को कहला भेजा, और राजा के बुलवाने पर, राजा को प्रणाम कर कहा—“देव ! यह तुम्हारा पुत्र है।”

राजा ने पहचानते हुए भी, सभा में लज्जा के मारे, कहा—“यह मेरा पुत्र नहीं है।”

“देव ! यह तुम्हारी अँगूठी है, इसे पहचानेंगे ?”

“यह अँगूठी भी मेरी नहीं है ।”

“देव ! तो अब मेरे पास सत्य क्रिया^१ के अतिरिक्त कोई दूसरा साक्षी नहीं है । ‘यदि यह बालक आप से पैदा हुआ है, तो आकाश में ठहरे, नहीं तो भूमि पर गिरकर मर जाये’ कह, उसने बोधिसत्त्व को पैरों से पकड़, आकाश में फेंक दिया । बोधिसत्त्व ने आकाश में पालथी मार, बैठ, मधुर स्वर से पितृ-धर्म (= पिता का कर्तव्य) कहते हुए, यह गाथा कही—

पुत्रो त्याहं महाराज ! त्वं मं पोस जनाधिप !

अञ्जेपि देवो पोसेति किंच देवो सकं पजं ।

[महाराज ! तुम्हारा पुत्र हूँ । जनाधिप ! तुम मेरा पालन करो । देव ! तुम तो औरो का भी पालन करते हो, (फिर) अपनी सन्तान की (तो बात ही) क्या ?]

इसमें पुत्रो त्याहं का मतलब है, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ । पुत्र होते हैं चार प्रकार के—आत्मज, क्षेत्रज, अन्तेवासिक तथा दिन्नक (= दत्तक) । अपने हेतु (शरीर) से जो उत्पन्न हुआ हो, वह आत्मज, शयनासन पर, पलंग पर, छाती पर;—इस प्रकार के स्थानों पर जो (दूसरे से) उत्पन्न हुआ, वह क्षेत्रज; अपने पास रहकर शिल्प (= विद्या) सीखने वाला अन्तेवासिक, तथा पालने-पोसने के लिए दिया गया (बालक) दिन्नक । यहाँ पुत्र शब्द का प्रयोग आत्मज के अर्थ में है । चारों प्रकार की संग्रह-उस्तुओं^२ से जो प्रजा का रञ्जन करे, वह राजा; फिर महान् राजा, सो महाराज, आमन्त्रित करने के लिए ही महाराज ! कहा गया है । त्वं मं पोस जनाधिप का अर्थ है, हे जनाधिप ! हे महाजन (-समूह) में ज्येष्ठतम ! आप मेरा पोषण करे, भरण करे, वृद्धि करे । अञ्जेपि देवो पोसेति का अर्थ है कि देव अन्य अनेक हाथी-पालक,

^१ सत्य किरिया, सत्य और पुण्य की शपथ ।

^२ दान, प्रिय-वाणी, लोक-हित का आचरण तथा समानता ।

अश्व-पालक आदि मनुष्यों तथा हाथी घोड़े आदि प्राणियों का पालन करते हैं। किञ्च देवो सकं पजं में किञ्च (==और क्या) शब्द निन्दार्थक तथा अनुग्रहार्थक निपात है। 'देव, अपनी सन्तान, मुझ अपन पुत्र की पालना नहीं करते' कहकर निन्दा भी की गई है; और 'अन्य बहुत जनों का पालन करते हैं' कहकर अनुग्रह (का भाव भी जाग्रत) किया गया है। इस प्रकार बोधिसत्त्व ने निन्दा करते हुए, तथा अनुग्रह (का भाव जाग्रत) करते हुए कहा—“किञ्च देवो सकं पजं [=अपनी सन्तान की (तो बात ही) क्या ?] ।

राजा ने बोधिसत्त्व को आकाश में बैठे, इस प्रकार धर्मोपदेश करते सुन हाथ पसार कर कहा—“तात ! आ ! मैं ही पालन करूँगा । मैं ही पालन करूँगा ।” (और भी लोगों ने) सहस्रो हाथ फैलाये । बोधिसत्त्व, और किसी के हाथ में न उतर कर, राजा के ही हाथ में उतर, उसकी गोद में बैठे । राजा ने उन्हें उप-राजा बना, उनकी माता को पटरानी (==अग्र-महिषी) बनाया । पिता के मरने पर वह काष्ठवाहन राजा के नाम से धर्म-पूर्वक राज्य का सञ्चालन कर (अपने) कर्मानुसार परलोक को गया ।

शास्ता ने कोसल-नरेश का यह धर्मोपदेश ला दोनों कहानियाँ कह, तुलना करके जातक कथा का सारांश निकाल दिखाया । उस समय की माता, (अब की) महामाया थी, पिता (अब का) शुद्धोदन राजा था और काष्ठवाहन-राजा तो मैं ही था ।

द. गामणी जातक

अपि अतरमानानं—यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक उद्योग हीन (==भालसी) भिक्षु के सम्बन्ध में कही । इस जातक की

वर्तमान-कथा^१ तथा अतीत-कथा;^२ दोनों ग्यारहवें परिच्छेद के संवर-जातक^३ में आयेगी। उस जातक में तथा इसमें कहानी समान ही है, हाँ गाथा का भेद है।

बोधिसत्त्व के उपदेश को मानकर, सौ भाइयों में सबसे छोटा होने पर भी गाम्भी कुमार, सौ भाइयों के बीच, श्वेतछत्र के नीचे, सिंहासनासीन हुआ। अपने यश रूपी धन पर विचार करते हुए, 'मेरा यह यश रूपी धन, मुझे अपने आचार्य से मिला है, सोच, सन्तुष्ट-चित्त हो, यह उदान (—हर्ष से प्रेरित कथन) कहा—

अपि अतरमानानं फलासाय समिञ्जति,

विपक्व ब्रह्मचरियोस्मि एवं जानाहि गाम्भी ॥

[जल्द-बाजी न करने वालों की विशेष-फल की आशा पूर्ण होती है। गाम्भी ! तू ऐसा जान कि मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ।]

इसमें जो अपि है, सो केवल निपात-मात्र है। अतरमानानं का मतलब है पण्डितों के उपदेश को मानकर, जल्द-बाजी से काम न ले, ढंग (—उपाय कौशल) से काम करनेवालों की। फलामाव समिञ्जति का अर्थ है—इच्छित फल की जो आशा है, वह उस फल की प्राप्ति होने से पूरी होती ही है। अथवा फलासा = आशा-फल; इच्छानुसार फल की प्राप्ति होती ही है, यह अर्थ है। विपक्वब्रह्मचरियोस्मि चारों संग्रह-वस्तुयें श्रेष्ठ-चर्या होने से ब्रह्म-चर्या (कही गई है)। और क्योंकि वह यश रूपी धन की प्राप्ति का मूल-कारण है, इसलिए यश रूपी धन की प्राप्ति हुई रहने से (ब्रह्म-चर्य) का परिपक्व (—विपक्व) होना कहा गया है। और जो उसके यश की उत्पत्ति हुई है, वह भी श्रेष्ठता के कारण 'ब्रह्मचर्य' (कहा जा सकता है)। इसीलिए कहा है—

^१ पञ्चुप्पन्न वत्थु तथा अतीत-वत्थु ।

^२ संवर जातक (४६२) ग्यारहवें परिच्छेद की इस कथा से गाम्भी जातक की गाथा की संगति नहीं बैठती। मालूम होता है। असली गाम्भी जातक लुप्त हो गई है।

विपक्वब्रह्मचरियोस्मि । एवं जानाहि गामणी—कहीं कहीं ग्रामिक पुरुष को; और कहीं कहीं ग्राम में जो बड़ा हो, उसे भी ग्रामणी कहा गया है । लेकिन यहाँ (अपने को) सब जनों में श्रेष्ठ समझ अपनी ही ओर इशारा कर, अपने को सम्बोधन करके उदान कहा है—“भो ग्रामणी ! तू इस बात को इस प्रकार जान । यह जो सौ भाइयों का अतिक्रमण करके, तुझे इस महाराज्य की प्राप्ति हुई है, सो यह आचार्य्य (की कृपा) से हुई है ।” उसकी राज्य प्राप्ति के बाद सात आठ दिन व्यतीत होने पर, उसके सभी भाई अपने अपने निवास स्थान को चले गये । ग्रामणी-राजा धर्मानुकूल राज्य का सञ्चालन कर, कर्मानुसार परलोक को प्राप्त हुआ ।

शास्ता ने इस धर्म-उपदेश को ला, दिखाकर, (आर्य्य-)सत्यों को प्रकाशित किया । (आर्य्य-)सत्यो के प्रकाशन के अन्त में, (वह) आलसी भिक्षु अर्हत्-पद में प्रतिष्ठित हुआ । शास्ता ने दोनो कहानियाँ कह, मेल तुलनाकर, जातक का सारांश निकाल दिखाया ।

६. मखादेव जातक

उत्तमङ्गला भट्ट इस गाथा को शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, महाभिष्क्रमण के बारे में कहा । वह (=महाभिष्क्रमण) पहले निदान-कथा में कहा ही जा चुका है ।

क. वर्त्तमान कथा

उस समय भिक्षु बैठे बुद्ध के गृहत्याग (=अभिष्क्रमण) की प्रशंसा कर रहे थे । शास्ता ने धर्म-सभा में आ बुद्धासन पर बैठ, भिक्षुओं को सम्बोधित किया—“भिक्षुओ ! बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो ?”

“भन्ते ! और कोई बात-चीत नहीं, बैठे आपके अभिनिष्क्रमण की ही प्रशंसा कर रहे हैं ।”

“भिक्षुओं ! तथागत ने केवल अब ही अभिनिष्क्रमण नहीं किया; पहले भी अभिनिष्क्रमण किया है ।”

भिक्षुओं ने भगवान् से इस बात को स्पष्ट करने की प्रार्थना की। भगवान् ने पूर्व-जन्म की छिपी हुई बात प्रकट की—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में त्रिदेह राष्ट्र (की) मियिला (नामक नगरी) में, मखादेव नाम का धार्मिक राजा हुआ। वह चौरासी हजार वर्ष तक बाल-क्रीड़ा (खेल कूद) में लगा रहा। उसके बाद उपराजा और फिर महाराजा हुआ। चिरकाल के बाद (उसने), एक दिन (अपने) नाई (कृष्णक) में कहा—“सौम्य कृष्णक ! जब तुझे मेरे सिर में सफेद (बाल) दिखाई दें, तो मुझे कहना ।” नाई ने कितने ही समय बाद एक दिन राजा के मुरमे के रंग के (=काले) केशों में केवल एक सफेद (बाल) देखकर राजा में निवन्दन किया—“देव ! आपके (सिर में) एक सफेद (बाल) (दिखाई) दे जा है ।”

“तो सौम्य ! उस सफेद (बाल) को उखाड़कर मेरी हथेली पर रखो ।”

ऐसा कहने पर, (नाई ने उस बाल को) सोने की चिमटी से उखाड़कर राजा की हथेली पर रख दिया। उस समय भी राजा की चौरासी हजार वर्ष की आयु शेष थी; लेकिन फिर भी सफेद (बाल) को देखते ही, जैसे यमराज आकर समीप खड़ा हो गया हो, (अथवा) आग लगी कुटिया में दाखिल हुआ हो, उसका चित्त, उद्विग्न हो उठा। वह मोचने लगा—“मूर्ख मखादेव ! सफेद (बाल) के उगने तक भी तू इन (चित्त के मँलों) का परित्याग न कर सका ।” उसके इस प्रकार सफेद (बाल) की उत्पत्ति पर बार बार विचार करने से, (उसका) हृदय गर्म हो उठा। शरीर में पसीना चूने लगा। वस्त्र भीगकर उतारने योग्य हो गये। उस ने ‘आज ही मुझे निकलकर प्रव्रजित होना चाहिए (का निश्चय कर), नाई को लाख (मुद्रा) आमदनी के गाँव देकर ज्येष्ठ-पुत्र को बुलाकर कहा—“तात ! मेरे सिर में सफेद (बाल) उग आया है।

में बढा हो गया हूँ। (अभी तक) मैं ने मानुषिक भोगों का उपभोग किया है, अब मैं दिव्य भोगों की खोज करूँगा। (यह) मेरा गृहत्याग (=निष्क्रमण) का समय है। (अब) तू इस राज्य को संभाल। मैं प्रब्रजित हो, मल्लादेव-आम्र-उद्यान में रहते हुए योगाभ्यास (=श्रमण-धर्म) करूँगा।”

इस प्रकार उसने जब इस प्रब्रज्या के लेने की इच्छा प्रकट की, तो अमात्यों ने आकर उसे पूछा—“देव ! आपके प्रब्रजित होने का क्या कारण है ?” राजा ने सफेद (बाल) को हाथ में लेकर, अमात्यो से यह गाथा कही—

उत्तमङ्गरुहा मरुहं इमे जाता वयोहरा,
पातुभूता देवदूता पब्वज्जासमयो मम ॥

[यह मेरी आयु का हरण करनेवाले मेरे सिर के बाल पंदा हो गए हैं। यह देव-दूत प्रादुर्भूत हुए हैं। यह मेरी प्रब्रज्या का समय है।]

यहाँ उत्तमङ्गरुहा का अर्थ है केश। हाथ पाँव आदि अङ्गों में उत्तम-अङ्ग (=सिर) में उत्पन्न होने के कारण, केश, उत्तमङ्गरुहा कहलाते हैं। इमे जाता वयोहरा, अर्थात् तान ! देखो, सफेद (बाल) होने से, यह तीनों प्रकार की आयु के हरण करनेवाले (हैं), (इसलिए) इमे जाता वयोहरा। पातु भूता = उत्पन्न हुए। देवदूता, देव कहते हैं मृत्युको, उसके दूत, सो देवदूत। सिर में सफेद (बालों) के उत्पन्न होने पर (मनुष्य अपने को) यमराज (= मृत्यु-राज) के समीप खड़ा सा समझता है, इसलिए सफेद (बाल) मृत्यु-देव के दूत कहलाते हैं। देवताओं जैसे दूत, इस अर्थ में भी देव-दूत। जिस प्रकार अलकृत-सजे हुए देवता के, आकाश में खड़े होकर ‘अमुक दिन मरेगा’ कहने से वह (मरण) वैसे ही होता है, इसी प्रकार सिर में सफेद (बाल) का उगना भी देवता की भविष्यद्वाणी के सदृश ही होता है। इसलिए सफेद (केश) देव सदृश दूत कहलाते हैं। विशुद्धि-देवों के दूत, इस अर्थ में भी देव-दूत। सभी बोधिसत्त्व बूढ़े, व्याधिरुस्त, मृत तथा प्रब्रजित को देख कर ही वैराग्य को प्राप्त हो, निकल कर प्रब्रजित होते हैं। जैसे कहा है—

जिण्णं च दिस्वा दुखितं च व्याधितं
मतञ्च दिस्वा गतमायुसङ्ख्यं

कासाव वत्थं पब्बज्जितञ्च दिस्वा
तस्मा अहं पब्बजितोमिह राजा ॥

[जीर्ण (==बूढ़े) दुःखित==व्याधित को देखकर, प्रायुक्षय-प्राप्त==मृत को देखकर, (तथा) काषाय वस्त्र धारी प्रब्रजित को देखकर, हे राजन् ! मैं प्रब्रजित हुआ हूँ ।]

इस प्रकार सफेद (केश) विशुद्धि-देवों के दूत होने से देव-दूत कहलाते हैं । पब्बज्जासमयो मम, स्पष्ट करता है कि यह मेरे लिए गृहस्थ से निकलने के कारण 'प्रब्रज्या' कहे जाने वाले, साधु-भेस धारण करने का समय है ।

यह (सब) कहकर, वह उसी दिन राज्य छोड़, ऋषि-प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित हुआ और उसी मखादेव-आम्र-वन में विचरते हुए, चौरासी हजार वर्ष तक चारों ब्रह्मविहारों^१ की भावना करते ध्यानावस्था को बिना छोड़े मरकर, ब्रह्म-लोक में उत्पन्न हो, फिर वहाँ से मिथिला ही में निमि नामक राजा (के रूप में) उत्पन्न हुआ; और उसने नष्ट होते हुए अपने वंश को सँभाला ! फिर वही आम्रवन में प्रब्रजित हो, ब्रह्मविहारो की भावना कर, फिर ब्रह्मलोक ही में उत्पन्न हुआ ।

शास्ता ने भी, "भिक्षुओ ! तथागत ने केवल इसी जन्म में महाभिनिष्क्रमण नहीं किया, पहले भी अभिनिष्क्रमण किया है ।"

इस धर्म-उपदेश को लाकर, दिखाकर, चारों (आर्य-)सत्त्यों को प्रकाशित किया । (उस समय) कोई खोतापन्न हुए । कोई सकृदागामी । कोई अनगामी ।

इस प्रकार भगवान् ने इन दो कहानियों को कहकर, तुलना करके जातक का सारांश निकाल दिखाया । उस समय का नाई (अबका) आनन्द था, पुत्र (अबका) राहुल था । और मखादेव राजा तो मैं ही था ।

^१ मैत्री-भावना, करुणा-भावना, मुदिता-भावना तथा उपेक्षा-भावना ।

१०. सुखविहारी जातक

‘यञ्ज अञ्जे न रक्खन्ति—’ यह गाथा, बुद्ध ने अनूपिय नगर के समीप स्थित अनूपिय आम्र-वन में विहार करते समय सुख पूर्वक विहार करनेवाले भद्रिय स्थविर के बारे में कही ।

क. वर्त्तमान कथा

सुख पूर्वक विहार करनेवाले भद्रिय स्थविर छ क्षत्रियों तथा सातवे उपाली की प्रब्रज्या के समय, प्रब्रजित हुए थे । उन (सात) में से भद्रिय स्थविर किम्बल स्थविर, भृगु स्थविर तथा उपालि स्थविर अर्हत्व पद को प्राप्त हुए । आनन्द स्थविर श्रोतापन्न हुए । अनहद स्थविर दिव्य-चक्षु के लाभी हुए । वेयदत्त ध्यान के लाभी हुए । अनूपिय नगर तक द्वाओं क्षत्रियों की कथा खण्डहाल जातक^१ में आयेगी । आयुष्मान् भद्रिय राज करने के समय, अपनी हिंसाजत के लिए, पहरेदारों तथा और भी कई प्रकार की आरक्षा के साथ रहते थे । महल के ऊपरले तल्ले पर, बड़े पलंग पर लेटते समय भी, अपने भय-भीत होने की बात स्मरण कर, तथा अब अर्हत्पद प्राप्त कर लेने पर जङ्गल आदि में, जहाँ तहाँ विचरते हुए भी, अपने को निर्भय देख, प्रसन्नता से कहते थे—“अहो ! सुख ! अहो ! सुख ।”

इसे सुन भिक्षुओं ने भगवान् से कहा कि—

“आयुष्मान् भद्रिय अग्गना अर्हत् होना (=अञ्जं) कह रहे हैं ।”^२

^१ खण्डहाल जातक (५४२)

^२ चुल्लवग्ग में भद्रिय का ‘गृह-सुख’ को याद करना लिखा है ।

भगवान् ने कहा, “भिक्षुओ ! भद्वि, केवल अब ही सुख पूर्वक विहार करनेवाला नहीं है, यह पहले भी सुख पूर्वक ही विहार करनेवाला था।” भिक्षुओं ने भगवान् से, उस बात के स्पष्ट करने की प्रार्थना की। भगवान् ने पूर्व-जन्म की छिपी हुई बात प्रकट की—

ख. अतीत कथा

पूर्व-समय वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्त्व ने (एक) प्रसिद्ध, महान् कुल में ब्राह्मण हो, जन्म लिया था। भोगों (=कामों) में लिप्त रहने के दुष्परिणाम (=आदीनव) और वैराग्य (निष्क्रमण) में लाभ देखकर, भोगों को छोड़, हिमवन्त में प्रवेश कर, वह ऋषि-प्रव्रज्या के अनुसार प्रव्रजित हुए। उन्होंने आठ समापत्तियों को प्राप्त किया। इनके अनुयायी अनेक थे; पाँच सौ तो तपस्वी थे। इन्होंने वर्षा-काल आने पर हिमवन्त से निकल, तपस्वियों के गण सहित, ग्राम, नगर (=निगम) आदि में घूमते हुए, वाराणसी पहुँच राजा के आश्रित, राज-उद्यान में वर्षा-वास किया। वहाँ वर्षा के चारों मास रहकर, राजा से (चलने के लिए) पूछा। राजा ने प्रार्थना की—“भन्ते आप बृद्ध हैं। आपको हिमवन्त से क्या ? शिष्यों को हिमवन्त भेजकर, आप यही रहें।”

बोधिसत्त्व ने अपने प्रधान शिष्य को पाँच सौ तपस्वी सौंपकर कहा—“जा। तू इनके साथ हिमवन्त में रह। मैं यही रहूँगा।” (इस प्रकार) उनको चलता कर, आप वही रहने लगे। इनका, वह प्रधान शिष्य राज-प्रव्रजित था। उसने बड़े भारी राज्य को छोड़, प्रव्रजित हो कसिण-परिक्रम (=योग-अभ्यास) कर, आठ समापत्तियाँ प्राप्त की थी। हिमवन्त में तपस्वियों के साथ रहते रहते एक दिन, उसने (अपने) आचार्य्य को देखने की इच्छा से तपस्वियों को बुलाकर कहा—‘तुम उत्कण्ठा रहित हो, यहीं रहो। मैं आचार्य्य की वन्दना करके लौटूँगा।’ और आचार्य्य के पास जाकर, प्रणाम कर, कुशल-श्रेम पूछ, एक चटाई फैलाकर, उसपर आचार्य्य के समीप ही लेट रहा।

उस समय राजा तपस्वी को देखने की इच्छा से उद्यान में जाकर, प्रणाम कर, एक ओर बैठ रहा। शिष्य-तपस्वी राजा को देखकर भी (अपने स्थान से)

नहीं उठा। लेटा ही लेटा 'अहो ! सुख ! अहो ! सुख'—इस प्रकार का उदान (= प्रीति-वाक्य) कहता रहा। राजा ने 'यह तपस्वी मुझे देखकर भी नहीं उठा है' (सोच) असन्तुष्ट हो बोधिसत्त्व से कहा—“भन्ते ! मालूम होता है, इस तपस्वी को पेट भर खाने को मिला है। तभी तो 'उदान' कहता हुआ सुख-पूर्वक लेटा है।” “महाराज ! पहले, यह तपस्वी भी तुम्हारे सदृश एक राजा था। सो 'मैंने राज्य-श्री का आनन्द लूटते कितने ही शस्त्रधारी पहरेदार मेरी रक्षा करते हैं, तो भी, इस प्रकार का सुख अनुभव नहीं किया' (सोच) यह अपने प्रव्रज्या-सुख के बारे में इस प्रकार का उदान कह रहा है।”

यह कह बोधिसत्त्व ने राजा को धर्म-कथा कहने के लिए, यह गाथा कही—

यञ्च अञ्जे न रक्खन्ति यो च अञ्जे न रक्खन्ति,
स वे राज ! सुखं सेति कामेसु अनपेक्खवा ॥

[जिसकी न दूसरे रक्षा करते हैं, और जो न दूसरों की रक्षा करता है; राजन् ! वही भोगो (= कामो) में अपेक्षा-रहित व्यक्ति सुख से सोता है ।]

यञ्च अञ्जे न रक्खन्ति का अर्थ है, जिस व्यक्ति की दूसरे बहुत से व्यक्ति आरक्षा नहीं करते। यो च अञ्जे न रक्खन्ति का अर्थ है, जो अकेला व्यक्ति, मैं राज्य का सञ्चालन करूँ, (सोच) दूसरे बहुत से व्यक्तियों की आरक्षा (हिफाजत) नहीं करता है। स वे राज ! सुख सेति का अर्थ है, महाराज ! वह अकेला, अद्वितीय, प्रविविक्त (= एकान्तसेवी) व्यक्ति, शारीरिक तथा मानसिक सुख से समन्वित हो सोता है। यह तो देशना (= पाँति) का शब्दशः अर्थ हुआ। नहीं तो, इस प्रकार का व्यक्ति सुख से केवल सोता ही नहीं है, वह सुख से चलता है, ठहरता है, बैठता है, सोता है—अर्थात् सब अवस्थाओं (= इय्यापयो) में वह सुखी ही रहता है। कामेसु अनपेक्खवा = वस्तु-कामना तथा किलेस (= पापेच्छा)-कामना में आसक्ति-रहित हो, जिसके छन्द = राग का नाश हो गाय है जो तृष्णा-रहित है 'हे राजन् ! इस प्रकार का व्यक्ति सब शारीरिक अवस्थाओं में सुख से विहार करता है।

राजा धर्म-देशना (= धर्मोपदेश) सुन, सन्तुष्ट-चित्त हो, प्रणाम कर, (अपने) निवास-स्थान पर गया । और (वह) शिष्य भी आचार्य्य को प्रणाम कर हिमवन्त को चला गया । लेकिन बोधिसत्त्व वहीं विहार करते हुए, ध्यानावस्थित रह, काल करके ब्रह्म-लोक में उत्पन्न हुए ।

शास्ता ने इस धर्म-उपदेश को ला, दिखा, दोनों कहानियों को कह, तुलनाकर, जातक का सारांश निकाल दिखाया । उस समय (का) शिष्य, भद्रिय स्थविर था, और गण-शास्ता तो मैं ही था ।



पहला परिच्छेद

२. सील वर्ग

११. लक्ष्मण जातक

‘होति सीलवतं अत्यो’—इस गाथा को, राज-गृह के समीप बेट्टुवन में विहार करते हुए (बुद्ध ने), देवदत्त के बारे में कहा।

क. वर्तमान कथा

देवदत्त का (भगवान् को) मारने का प्रयत्न करने तक का वृत्तान्त खण्डहाल जातक^१ में, धनपाल (हाथी) के भेजने तक का वृत्तान्त चुल्लहंसजातक^२ में, तथा पृथ्वी में प्रवेश करने तक का वृत्तान्त सोलहवें परिच्छेद में समुद्वाणिज जातक^३ में आयेगा।

एक समय देवदत्त ने भगवान् में पाँच बातें^४ (—वस्तु) स्वीकार करने की प्रार्थना की। उन (पाँच बातों) के अस्वीकृत होने पर, वह सङ्घ में फूट पैदा कर, पाँच सौ भिक्षुओं को साथ ले गया-सीस में रहने लगा। (समय बीतने पर) उन भिक्षुओं को कुछ अकल आई। यह जानकर, बुद्ध ने (अपने दोनों प्रधान शिष्यों, को कहा—

“सारिपुत्त ! तुम्हारे साथी पाँच सौ भिक्षु, देवदत्त के मत को पसन्द कर उसके साथ चले गये, लेकिन अब उनको अकल आ गई है। तुम बहुत से

^१ ५४२ जातक । ^२ ५३३ जातक । ^३ ४६६ जातक ।

^४ सभी भिक्षु आजीवन आरभ्य-वासी; वृक्षों के नीचे रहनेवाले (—घर में न रहें); पंसु-कूलिक (—गुड़ड़ी धारी); पिण्डपातिक (—भिक्षा पर ही जीवित रहना) तथा शाकाहारी (—अमांस भोजी) हों।

भिक्षुओं के साथ वहाँ जाओ, और उन्हें धर्मोपदेश द्वारा मार्ग-फल का बोध करवा, साथ ले आओ ।” तब वह वैसे ही (गयासीम) गये; और उन्हें धर्मोपदेश द्वारा मार्ग-फल का अबोध करवा, फिर एक दिन अरुणोदय के समय उन भिक्षुओं को साथ लेकर, बेलुवन चले आये । आकर, सारिपुत्र स्थविर भगवान् को प्रणाम कर एक ओर खड़े हुए । तब भिक्षुओं ने स्थविर की प्रशंसा करते हुए, भगवान् से कहा—

“भन्ते ! हमारे ज्येष्ठ-भ्राता, धर्मसेनापति (सारिपुत्र) पाँच सौ भिक्षुओं के बीच में आते कैसे मुन्दर लगते हैं; लेकिन देवदत्त तो अनुयायियों (=परिवार) के बिना रह गया ।”

“भिक्षुओ ! जाति-सघ के बीच में आते हुए सारिपुत्र, केवल अब ही मुन्दर नहीं लगते हैं, पहले भी वह शोभा देते थे, और देवदत्त, केवल अब ही बे-जमाती (गण-रहित) नहीं हुआ, पहले भी हुआ है ।”

भिक्षुओ ने भगवान् से उस बात को प्रकट करने की प्रार्थना की । भगवान् ने पूर्व-जन्म की छिपी हुई बात प्रगट की—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में मगध देश के राजगृह नगर में, कोई मगध-नरेश राज्य करते थे । उस समय बोधिसत्त्व ने मृग की योनि में जन्म ग्रहण किया था । बड़े होकर वह (एक) हज़ार मृगों के दल के साथ, जंगल में वास करते थे । उनके लक्षण और काल नाम के दो पुत्र थे । उन्होंने अपने बूढ़ा होने पर, “तात ! मे अब बूढ़ा हो गया, अब तुम इस मृग-गण को सँभालो” कह एक एक पुत्र को पाँच पाँच सौ मृग सौंप दिये । उस समय से, वह दोनों जने मृग-गण को लेकर घूमने लगे । मगध देश में खेती के दिनों में, खेती पकने के समय, जंगल में मृगों को खतरा होता था । खेती-खानेवाले मृगों को मारने के लिए लोग जहाँ तहाँ गढ़े खोदते, काँटे लगाते, पत्थर-यन्त्रों (=गुलेल) को सँवारते, कूट-पाश आदि बन्धन फैलाते थे, (जिससे) बहुत से मृग मारे जाते । बोधिसत्त्व ने खेती पकने का समय जान, पुत्रों को बुलवाकर कहा—“यह खेती पकने का समय है । (इस समय) बहुत से मृग मारे जाते हैं । हम बड़े (लोग) तो जिस

किसी ढंग से एक ही स्थान पर (रहते) दिन काट लेगे, लेकिन तुम अपने अपने मृग-गणको लेकर, जगल में, पर्वत में जाओ; और (वहाँ रह) खेती कटने के समय (लौट) आना ।”

वे पिता के वचन को ‘अच्छा’ (कह), अपने अनुयायियों सहित निकल पड़े। उनके जाने के मार्ग में रहने (वाले) मनुष्य, “इस समय मृग पर्वतों पर चढ़ते हैं, इस समय पर्वतों से उतरते हैं” जानते थे और जहाँ तहाँ छिपने योग्य जगहों पर छिप कर वे बहुत से मृगों को मार डालते थे। काल (नामक) मृग अपनी मूढ़ता के कारण, यह जाने योग्य समय है (अथवा) यह नहीं जाने योग्य समय है, न समझ, मृग-गण को ले पूर्वाह्न के समय भी, सायंकाल के समय भी, रात्रि के समय भी, (तथा) प्रातःकाल के समय भी ग्राम-द्वार के पास से ही निकलता था। जहाँ तहाँ प्रगट ही खड़े, अथवा छिपे रह मनुष्य बहुत से मृगों को मार डालते। इस प्रकार अपनी मूढ़ता के कारण (उसने) बहुत से मृगों को मरवा कर, बहुत थोड़े से ही मृगों के साथ आरण्य में प्रवेश किया। लेकिन पण्डित =व्यक्त, उपायकुशल लक्षण (नामक) मृग, ‘इस समय जाना चाहिए, इस समय नहीं जाना चाहिए’ जानता था। वह न ग्राम-द्वार से जाता, न दिन में जाता, न रात्रि (=शाम) के समय जाता, न प्रातःकाल के समय जाता; मृग-गण को लेकर केवल आधी-रात के समय जाता। इसलिए वह एक भी मृग का नाश बिना होने दिये ही जंगल में प्रविष्ट हुआ। वहाँ चार महीने रहकर वे (मृग) खेत कट जाने पर, पर्वत से उतरे। काल मृग, लौटते समय भी, पहली ही तरह से (लौटकर) बाकी मृगों को भी मरवा कर अकेला ही (वापिस) आया। लेकिन लक्षण मृग की मडली का एक भी मृग नष्ट न हुआ और अपने पाँच सौ मृगों के साथ, माता पिता के पास (वापिस) आया। बोधिसत्त्व ने दोनों पुत्रों को आता देख, मृग-गण से बात चीत करते हुए यह गाथा कही—

होति सीलङ्गतं अत्यो पटिसन्धार बुत्तिनं,
लक्षणं पस्स आयन्तं ज्ञाति संघ पुरक्खतं;
अय पस्ससि मं कालं सुविहीनं च ज्ञातिहि ।।

[(सदाचारी) और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वालों की उन्नति होती

है। जाति-संघ के आगे आगे आते हुए लक्षण को देखो और जाति-संघ से रहित (अकेले) आते हुए इस काल को (तो) तुम देखते ही हो।]]

यहाँ शीलवत का अर्थ है, शुक्ल-शील से युक्त; आचार-युक्त (=सदाचारी)। अर्थ =उन्नति। 'पटिसन्धार वृत्तिनं' धम्म-पटिसन्धार तथा आमिष-पटिसन्धार—इन दोनों की वृत्ति को कहते हैं पटिसन्धार-वृत्ति। सो उन पटिसन्धारवृत्ति वालो का पाप निवारण सम्बन्धी उपदेश =अनुशासन रूपी पटिसन्धार (=वात-चीत) ही धर्म-पटिसन्धार है। गोचर-लाभ, गिलानु-पट्टाक (=रोगी की सेवा), धार्मिक रक्षा के रूप में सम्बन्धी पटिसन्धार ही आमिष-पटिसन्धार कहा जाता है। ऐसा कहा गया है कि इन दोनों पटिसन्धारों में जो स्थित है; सदाचारी है, पण्डित है; उनकी उन्नति होती है। अब उस उन्नति को दिखाने के लिए, जैसे पुत्र माता को बुलाता हो वैसे 'लक्षणां पस्स' आदि कहा। संक्षेप में इसका अर्थ है—(सदा-)आचार-पटिसन्धार युक्त, एक मृग को भी बिना खोये, बिरादरी के साथ आगे आते हुए अपने पुत्र को देखो, और उसी (सदा-) आचार-पटिसन्धार सम्पत्ति से रहित, मूढ़, एक भी जाति-भाई को बिना बचाये, सभी नातेदारों से रहित, अकेले आने-वाले इस काल मृग को देखो (अथ पस्ससिमं कालं)। इस प्रकार पुत्र की प्रशंसा करते हुए बोधिसत्त्व आयु-भर (जीवित) रहकर कर्मानुसार परलोक सिधारे।

बुद्ध ने भी 'भिक्षुओ ! जाति-संघ भाइयों के साथ आता हुआ सारिपुत्र केवल अब ही सुन्दर नहीं लगता, पहले भी शोभा देता था। और देवदत्त, केवल अब ही गण से रहित नहीं हुआ, पहले भी हुआ है'—इस धर्म देशना को दिखा, दोनों कहानियों को जोड़, तुलनाकर, जातक का सारांश निकाल दिखाया।

उस समय का काल मृग (अब का) देवदत्त था और उसकी परिषद् भी देवदत्त परिषद् ही थी। लक्षण मृग सारिपुत्र है। लेकिन उसकी मण्डली बुद्ध की मण्डली ही है। माता, (अब की) राहुल-माता हुई। और पिता तो मैं ही था।

१२. निग्रोध मृग जातक

“निग्रोधमेव सेवेष्य . . .” यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, कुमार काश्यप स्थविर की माता के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

वह राजगृह नगर के (एक) महासम्पत्तिशाली सेट की लड़की थी । अति स्वच्छ-विचार (= ऊँचे कुशल-मूल), परिमार्जित-मस्कार, अन्तिम-शरीर वाली (उस लड़की) के हृदय में मुक्त होने की इच्छा वैसेही प्रज्वलित हो रही थी, जैसे घड़े के अन्दर प्रदीप । जब से होरा सँभाला, तभी से उसका मन गृहस्थ में न लगता था । उसने प्रव्रजित होने की इच्छा से माता पिता से कहा— “अम्मा-तात ! मेरा मन घर में नहीं लगता । मैं (मोक्ष की ओर) ले जानेवाले बुद्ध-धर्म में प्रव्रजित होना चाहती हूँ । आप मुझे प्रव्रजित कराये ।”

“अम्म ! क्या कहती है ? यह धनी कुल, और तू हमारी अकेली लड़की ! तू प्रव्रजित नहीं हो सकती ।”

माता-पिता स बार-बार प्रार्थना करने पर भी, प्रव्रज्या की आज्ञा न मिलने पर, वह सोचने लगी—“अच्छा (= हों) । पति-कुल जाकर, स्वामी को मनाकर प्रव्रजित होऊँगी ।” फिर आयु-प्राप्त होने पर, पति-कुल जाकर, पति को देवता बना, शीलवान्, सदाचारिणी (= कल्याण धर्मा) हों गृहस्थ में रहने लगी । उनके सहवास से उसकी कोख में गर्भ प्रतिष्ठित हो गया । (लेकिन) उसको गर्भ के प्रतिष्ठित होने का पता नहीं लगा ।

उस समय उस नगर में उत्सव (= नक्षत्र) की घोषणा हुई । सब नगर-वासी उत्सव मनाने लगे । नगर देव-नगर की भाँति अलङ्कृत किया गया । लेकिन उसने, इस प्रकार के विशाल उत्सव के रहने पर भी, न अपने शरीर

पर (चन्दनादि का) लेप किया, न उसे अलंकृत किया । स्वाभाविक वेष में ही घूमती रही ।

उसके स्वामी ने उससे पूछा—“भद्रे ! सारा नगर (तो) उत्सव मना रहा है, तू अपने को क्यों नहीं सजा रही है ?”

“आर्य्यं ! यह शरीर बत्तीज प्रकार को गन्दगियों से^१ भरा है, इसे अलंकृत करने से ही क्या ? यह शरीर न तो देव का बनाया हुआ है, न ब्रह्म का बनाया हुआ है, न स्वर्णमय है, न मणिमय, न हरिचन्दनमय है, न ही पुण्डरीक, कमल, उत्पल (आदि) के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, न अमृतौषधि से पूर्ण है । (यह) गन्दगी में पैदा हुआ, माता-पिता (के संयोग) से अस्तित्व में आया है । अनित्यता, मालिश तथा मर्दन की आवश्यकता होना, टूटना, ध्वस्त होना—यही इसका स्वभाव है । यह श्मशान को बढ़ानेवाला है, तृष्णा से उत्पन्न है । शोको का निदान है । विलाप का कारण है । सब रोगों का आलय है । (दण्ड-)कर्मों का भोगनेवाला है । अन्दर से गन्दा है; बाहर नित्य (गन्दगी) चूती रहती है । कीड़ों का निवासस्थान (—आवास) है । श्मशान का यात्री है । मरना (ही) इसका अन्त है । (यह शरीर) सब लोगों की दृष्टि में रहता हुआ भी—

अट्ठी नहारु संयुतो तचमंस विलेपनो,
छत्रिया कायो पटिच्छत्रो यथाभूतं न दिस्तति ॥
अन्तपुरो उदरपुरा यक पेलस्स वत्थिनो,
हृदयस्स पप्फासस्स वक्कस्स पिहकस्स च ।
सिघाणिकाय खेलस्स, सेदस्स, मेदस्स च
लाहितस्म, लसिकाय, पित्तस्स च वसाय च ॥
अथस्स नवहि सातेहि असुचि सवति सब्बदा
अकिखम्हा अक्खिगूथको, कण्णम्हा कण्णगूथको ॥
सिघाणिका च नासातो मुखेन वमति एकदा
पित्तं सेम्हं च वमति कायम्हा सेदजल्लिका ॥

^१ केस, रोम, नख, दाँत, त्वच् आदि (देखो सत्तीपट्टान सुक्त, मञ्जिभूम निकाय) ।

अथस्स सुसिरं सीसं मत्थलुङ्गेन पूरितं ,
 सुभतो नं मञ्जति बालो अविज्जाय पुरक्खतो^१ ॥
 अनंत्ताबोनवो कायो विसरुक्ख समूपमो ,
 आवासो सम्बरोगानं पुञ्जो दुक्खस्स केवलो ॥
 सच्चे इमस्स कायस्स अन्तो बाहिरतो सिया ।
 ढण्डं नूनगहेत्वान काके सोणे च वारये ॥
 दुग्गन्धो असुच्चो कायो कुणपो उक्करूपमो ,
 निन्दितो चक्खभूतेहि कायो बालाभिनन्दितो ॥

[यह हड्डी और नसों का संयोग है, ऊपर से त्वष् और मांस का लेप है, और उसके ऊपर चमड़ी से ढका है । (इसलिए इस शरीर का) यथार्थ स्वरूप नहीं दिखाई देता । (यह) आँतों, आमाशय, यकृत-पेल, उदरस्थ (वस्ती), हृदय, फुफ्फुस, वृक्क, प्लीहा (पिहक) सीढ, थूक, पसीना, वर (मेद), रक्त, लसिका^१ पित्त और चर्बी (वस)—इन सबसे भरा हुआ है । इसके नौ स्रोतों से सदा गन्दगी बहती है—आँखों से आँख का मैल, कानों से कान का मैल, नाक से सीढ । कभी कभी मुँह से उल्टी, पित्त और कफ की भी, शरीर से पसीना (=स्वेद जल) । इसका छिद्रो वाला शीस मत्थलुङ्ग^१ से भरा है । अविद्या से घिरे हुए लोगो को यह (शरीर) आकर्षक (=शुभ) मालूम होता है । यह विष-वृक्ष सदृश शरीर अनेक दोषों (=आदिनव) से युक्त है । सब रोगों का घर है । केवल दुःख का ढेर है । यदि (किसी तरह से) इस शरीर के अन्दर का हिस्सा बाहर आ जाये, तो निश्चय से डण्डा लेकर कौआँ और कुत्तों को हटाना पड़े । (इसलिए) पंडितो (=चक्षुभूत) ने इस दुर्गन्ध-युक्त, अशुचि-पूर्ण कचवर-सदृश, गन्दे शरीर की निन्दा की है । बाल (मूर्ख) ही इस पर रीभते हैं (=प्रशंसा करते हैं)]

^१ विजय सुत्त (सुत्तनिपात) ।

^२ कोहनी आदि जोड़ों में स्थित तरल पदार्थ ।

^३ खोपड़ी के भीतर का गुद्दा ।

“आर्य पुत्र ! इस शरीर को अलंकृत करके क्या करूँगी ? इस शरीर का अलंकृत करना क्या वैसा ही नहीं है जैसा गन्दगी भरे घड़े के बाहर चित्र बनाना ?” सेठ-पुत्र ने उसके इस वचन को सुनकर कहा—“भद्रे ! यदि तू इस शरीर में इतने दोष देखती है, तो प्रव्रजित क्यों नहीं होती ?” “आर्य पुत्र ! यदि मुझे प्रव्रज्या मिले, तो मैं आज ही प्रव्रजित होऊँ।” सेठ-पुत्र ने ‘अच्छा’ में तुझे प्रव्रजित कराऊँगा, कह, महा-दान दे, महासत्कार कर, बहुत सी साथियों (परिवार) के साथ, उसे भिक्षुणी-विहार में ले जाकर, वहाँ देवदत्त के पक्ष की भिक्षुणियों के पास प्रव्रजित कराया। वह प्रव्रज्या प्राप्त कर, संकल्प पूर्ण होने के कारण सन्तुष्ट हुई। तब उसके गर्भ के परिपक्व होने से, उसकी इन्द्रियों (= आकार-प्रकार) का परिवर्तन (= अन्यथा होना); हाथ पैर तथा पीठ का भारीपन, तथा पेट (= उदर पटल) का मोटापन देखकर, भिक्षुणियों ने पूछा—“आर्यो ! तू गर्भिणी सी प्रतीत होती है। सो यह क्या है ?”

“आर्यो ! मैं इसे नहीं जानती कि यह क्या है, लेकिन मेरा शील (= सदा-चार) परिपूर्ण है।”

तब उन भिक्षुणियों ने उसे देवदत्त के पास ले जाकर, देवदत्त से पूछा—“आर्य ! इस कुलपुत्री ने बड़ी कठिनाई से (अपने) स्वामी को मना कर प्रव्रज्या प्राप्त की। लेकिन अब इसे गर्भ दिखाई देता है। हम नहीं जानती कि यह गर्भ इसे गृहस्थ रहने समय से ही है, अथवा प्रव्रजित होने पर रहा है ? अब हम क्या करें ?” देवदत्त ने बुद्ध न होने के कारण, तथा क्षान्ति मैत्री और दया का भी अभाव होने के कारण, सोचा “मुझे चाहिए कि मैं इसका चीवर उतरवा दूँ (= अप्रव्रजित करा दूँ), नहीं तो (लोग) मेरी यह कहकर निन्दा करेंगे कि देवदत्त के पक्ष की एक भिक्षुणी कोख में गर्भ लिये फिरती है और देवदत्त उसकी उपेक्षा करता है।”

तब उसने बिना सोचे विचारे, पत्थर के रोड़े को उलठाने की तरह कहा—“जाओ, इसे अप्रव्रजित कर दो।” वे, उसका वचन सुन, उठ, प्रणाम कर विहार (= उपाश्रय) चली गईं।

तब इस कम आयु की भिक्षुणी ने दूसरियों से कहा—“आर्यो ! न तो देवदत्त स्थविर ‘बुद्ध’ हैं, न ही मैं उनकी अनुयायी होकर प्रव्रजित हुई हूँ। मैं, जो

लोकाग्र, सम्यक् सम्बुद्ध है, उनकी अनुयायी हो प्रव्रजित हुई हैं। और यह 'प्रव्रज्या' मुझे बड़ी कठिनाई से मिली है, सो मेरी इस (प्रव्रज्या) का लोप मत करो। आध्रो, मुझे (साथ) लेकर, शास्ता के पास जेतवन चलो।" वे उसे साथ ले, राजगृह से पंतालीस योजन मार्ग क्रम से चलकर, जेतवन पहुँची। बुद्ध को प्रणाम कर, उन्होंने वह बात निवेदित की। शास्ता ने सोचा— "यद्यपि इसको गृहस्थ के समय ही गर्भ रहा है, लेकिन फिर भी तैथिको को यह कहने को हां जायगा कि श्रमण गौतम, देवदत्त द्वारा छोड़ी (भिक्षुणी) को साथ लिये फिरता है। इसलिए इस कथा को शान्त करने के लिए, राजा सहित परिषद् के बीच में, इस अधिकरण (—मुकद्दमे) का फैसला होना चाहिए।"

फिर एक दिन, कोशल-नरेश, प्रसेनजित्, बड़े अनाथपिण्डक, छोटे अनाथपिण्डक, महाउपासिका विशाल, तथा अन्य प्रसिद्ध प्रसिद्ध महाकुलो को बुलवाकर, सायकाल के समय चारों प्रकार की परिषद् के एकत्र होने पर, उपाली स्थविर को सम्बोधित किया— "आध्रो ! चारों प्रकार की परिषद् के बीच में इस तरह भिक्षुणी के कर्म की परीक्षा करो।"

"भन्ने ! अच्छा" कह, स्थविर ने परिषद् के बीच में जाकर, अपने आसन पर बैठ, राजा के आगे उपासिका विशाखा को बुलवाकर, (उसे) यह अधिकरण सौपा— "विशाखे ! इस तरह ने अमुक महीने, अमुक दिन प्रव्रज्या ग्रहण की है। तू जाकर, इसका गर्भ प्रव्रज्या में पूर्व का है, अथवा पीछे का; इसे यथार्थ जान।"

उपासिका ने 'अच्छा' कह, इसे स्वीकार कर, कनात तनवा दी। और कनात के अन्दर तरुण भिक्षुणी के हाथ, पाँव, नाभी तथा उदर तक देखकर, महीने और दिनों का विचार कर, ठीक से जान लिया, कि गृहस्थ रहते यह गर्भ टहरा। फिर स्थविर के पास जाकर, यह बात निवेदित की। स्थविर ने चारों प्रकार की परिषद् के बीच में उस भिक्षुणी को बरी किया। वह बरी होकर भिक्षु-संघ तथा शास्ता को प्रणाम कर, भिक्षुणियों के साथ ही भिक्षुणी-विहार को गई। गर्भ के परिपाक होने पर उसने ऐसे महाप्रतापी, पुत्र का जन्म दिया जिसने पद्योत्तर (बुद्ध) के चरणों में प्रार्थना की थी।

तब एक दिन राजा ने भिक्षुणियों के विहार के समीप से जाते हुए, बालक

की आवाज सुनकर मन्त्रियों से पूछा। अमात्यो ने मालूम कर उसे कहा—
“देव ! उस तरुण भिक्षुणी के पुत्र हुआ है। यह उसकी आवाज है।”

“भ्रणे ! भिक्षुणियों को बच्चों के पालन पोषण में कठिनाई होती है, इसलिए इस (बालक) को हम पालेंगे” (कह) राजा ने उस बच्चे को नटी स्त्रियों को दिलवा कर, (राज-)कुमार की तरह पालन करवाया। नामग्रहण के दिन, उसका नाम काश्यप रक्खा। (राज-)कुमार की तरह पालन होने से, वह कुमार-काश्यप नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सात वर्ष की आयु में शास्ता के पास प्रव्रजित हुआ। (बीस वर्ष की) आयु पूरी होने पर उपसम्पदा प्राप्त कर, समय बीतने पर सुन्दर धर्मोपदेशक हुआ। शास्ता ने ‘भिक्षुओ! मेरे सुन्दर (—चित्र) धर्म-कथित श्रावको में कुमार-काश्यप सर्व-श्रेष्ठ है’ (कह) उसे सर्व-श्रेष्ठ पद दिया। आगे चलकर, वम्मिक सूत्र^१ सुनने पर, उसने अर्हत्-पद प्राप्त किया। उसकी भिक्षुणी माता ने भी विदर्शना-भावना (—योगाभ्यास) द्वारा अग्र-फल (—अर्हत्व) प्राप्त किया। कुमार-काश्यप स्थविर, बुद्धों के शासन रूपी आकाश में पूर्ण-चन्द्र की भाँति प्रकाशित हुए।

एक दिन तथागत, भिक्षाटन से लौटकर, भोजन करने के बाद, भिक्षुओं को उपदेश दे गन्धकुटी में प्रविष्ट हुए। भिक्षु उपदेश ग्रहण कर, अपने अपने रात-दिन रहने के स्थानों में दिन विना कर, शाम के समय धर्म-सभा में एकत्रित हो, “आवुमो ! देवदत्त ने ‘बुद्ध’ न होने के कारण, तथा क्षमा, मैत्री और दया का अभाव होने के कारण, कुमार काश्यप स्थविर और स्थविरों को क्षण में नष्ट कर दिया। लेकिन सम्यक् सम्बुद्ध ने, धर्म-राज होने के कारण, तथा क्षमा, मैत्री और दया रूपी सम्पत्ति से युक्त होने के कारण, उन दोनों को आश्रय दिया’ कहते हुए, बैठे बुद्ध-गुणों की प्रशंसा कर रहे थे।

शास्ता ने बुद्ध-लीला से धर्म-सभा में आ, बिछे आसन पर बैठकर पूछा,
“भिक्षुओ ! इस समय बैठे क्या बात-चीत कर रहे थे ?”

सभी ने उत्तर दिया, “भन्ते ! आप ही की गुण-कथा (कहने) में लगे थे।”

^१ अंगुत्तर निकाय, एतदग्ग वग्ग ।

^२ मज्झिम निकाय ।

“भिक्षुओ ! तथागत केवल अब ही, इन दोनों के आश्रय (-दाता) तथा सहारा नहीं हुए, पहले भी हुए हैं ।”

भिक्षुओं ने भगवान् से उस बात को प्रगट करने की प्रार्थना की । भगवान् ने पूर्व-जन्म की छिपी हुई बात प्रगट की—

ख. अतीत कथा

“पूर्व समय ये वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व ने मृग की योनि में जन्म ग्रहण किया । वह माता की कोख से निकलते ही सोने के रंग का था । उसकी आँखें मणि की गोलियों के सदृश, उसके सींग रजत-वर्ण के (उसका) मुँह लाल रंग के दुशाल की राशि के सदृश, हाथ पैर के सिरों पर जैसे लाख लगी हो, और उसकी पूँछ चमरी (गाय) की सी थी । लेकिन उसका शरीर घोड़े के बच्चे जितना बड़ा था । वह पाँच सौ मृगों के साथ जंगल में रहता था । और उसका नाम था निग्रोध मृग-राज । वहाँ से थोड़ी ही दूर पर (=अविदूर) पाँच सौ मृगों के साथ, एक दूसरा भी शाख-मृग रहता था । वह भी सुनहरे ही रंग का था ।

उस समय वनारस का राजा मृगों का वध करने पर तुला हुआ था । बिना मास के वह खाता ही न था । मनुष्यों के काम छुड़ा, सारे निगमों तथा जनपदों के लोगों को इकट्ठा करवा, प्रतिदिन शिकार के लिए जाता था । मनुष्यों ने सोचा—“यह राजा (प्रतिदिन) हमारा काम छुड़वाता है । क्यों न हम उद्यान में घास (=निवाप) बो, पानी रख, बहुत से मृगों को उद्यान में दाखिल करा, द्वार बन्द कर, राजा को सोप दे ?” उन सब ने उद्यान में मृगों के लिए घास और तृण बो दिया, पानी रख दिया । फिर वे दरवाजे लगाकर, नगर के मनुष्यों के सहित, मुद्गर आदि नाना प्रकार के हथियार हाथ में ले, जंगल में घुसे, मृगों को ढूँढने हुए, “(घेरे के) बीच में आये मृगों को पकड़ेंगे सोच, प्रोजन भर स्थान को घेर, (उस घेरे को) क्लृप्त करते हुए, निग्रोध मृग तथा शाखा मृग के निवास-स्थानों को बीच में घेर लिया । फिर, उस मृग यूथ को देख, वृक्ष, गुल्म आदि तथा भूमि को मुद्गरों से पीटते हुए, मृगों के भुण्ड को छिपी छिपी जगहों से निकाला और तलवार, शक्ति, धनुष आदि आयुधों को निकाल, कोलाहल करते

हुए, उस भुड को उद्यान में दाखिल कर, द्वार को बन्द कर, राजा के पास जा, कहा—'देव ! लगातार शिकार के लिए जाने से हमारे काम की हानि होती है। हमने जंगल से मृगों को लाकर (उनसे) आपका उद्यान भर दिया। अब से आप उनका मांस खाये'। फिर राजा से आज्ञा माँग चले गये।

राजा ने उनकी बात सुन, उद्यान में जा, मृगों को देखते हुए, (उनमें) दा मुनहरी मृगों को देख, उन्हें अभय-दान दिया। उस दिन से लगाकर, कभी वह स्वयं जाकर, एक मृग को मार लाता, कभी उसका रसोइया ही जाकर मृग को मार लाता। मृग धनुष को देखते ही मरने के भय से डरकर भागते। दो तीन चोटें खाकर दुःखित होते, जखमी (=रोगी) होते और मर भी जाते। मृग यूथ ने यह बात बोधिसत्त्व से कही। उसने शाख मृग को बुलवा कर कहा—'सौम्य ! मृग बहुत नष्ट हो रहे हैं। यदि मरना अवश्य ही है, तो अब से मृग तीर से न बेधे जायें। गर्दन काटने की जगह (धर्म-गण्डिक स्थान) पर मृगों की बारी बँध जावे। एक दिन मेरी परिपद् (मंडली) में से एक की बारी हो एक दिन तेरी मंडली में से एक की। जिसकी बारी आवे, वह मृग धर्म-गण्डिका पर जाकर, सिर रखकर पड़ रहे। इस प्रकार मृग जखमी न होंगे।'

उसने 'अच्छा' कह स्वीकार किया। उस समय से जिसकी बारी आती, वह मृग जाकर, धर्म-गण्डिका पर सीस रखकर पड़ रहता। रसोइया आकर, वहाँ पड़े को लेकर, जाता।

एक दिन शाख-मृग की टोली में एक गर्भिणी हिरणी की बारी आई। उसने शाख-मृग के पास जाकर कहा—'स्वामी ! मैं गर्भिणी हूँ। पुत्र पैदा होने पर, हम दो जने बारी बारी से जायेंगे ! आज मेरी जगह किसी और को भेज दो।' उसने उत्तर दिया, "मैं तेरी जगह, किसी दूसरे को नहीं भेज सकता जो तुझ पर पड़ी है, उसे तू ही जान। जा।"

उसके दया न दिखाने पर, वह बोधिसत्त्व के पास गई, और जाकर वही बात कही। वह उस (हिरणी) की बात सुन, 'अच्छा तू जा, मैं तेरी बारी टाल दूँगा' कह, स्वयं जाकर धर्म-गण्डिका पर सिर रखकर लेट रहा। रसोइये ने उसे देख, 'अभय-प्राप्त मृग-राज गण्डिका पर पड़ा है, क्या कारण है?' (सोच) जल्दी से जाकर राजा से कहा। राजा ने उसी समय रथ पर चढ़, बहुत से जन-समूह (=परिवार) के साथ आकर, बोधिसत्त्व को देखकर पूछा—

“सौम्यमृगराज ! क्या मैंने तुम्हें अभय-दान नहीं दिया ? यहाँ तू किस लिए पड़ा है ?”

“महाराज ! गर्भिणी हिरणी ने आकर कहा कि मेरी वारी किसी दूसरे पर डाल दो। मे एक का मरण-दुःख किसी दूसरे पर न डाल सकता था। इसलिए अपना जीवन उसे देकर, और उसका मरना अपने ऊपर लेने के लिए, मैं यहाँ आकर पड़ा हूँ। महाराज ! इसमें और कोई दूसरी शंका न करे।”

राजा ने कहा—“स्वामी ! स्वर्ण-वर्ण मृग-राज ! मैंने तेरे सदृश क्षमा, मैत्री और दया से युक्त मनुष्यों में भी किसी को इससे पहले नहीं देखा। इसलिए मैं तुम्हें पर प्रसन्न हूँ। उठ, तुम्हें और उसको—दोनों को अभय देता हूँ।”

“महाराज ! हम दोनों को अभय मिलने पर बाकी क्या करेंगे ?”

“स्वामी ! वाकियों को भी अभय देता हूँ।”

“महाराज ! इस प्रकार केवल उद्यान के ही मृगों को अभय मिलेगी। बाकी क्या करेंगे ?”

“स्वामी ! उनको भी अभय देना हूँ।”

“महाराज ! मृग तो अभय प्राप्त करे, बाकी चतुष्पाद (=चौपाये) क्या करेंगे ?”

“स्वामी ! उनको भी अभय देता हूँ।”

“महाराज ! चतुष्पाद तो अभय प्राप्त करे, बाकी पक्षी (=द्विज) क्या करेंगे ?”

“स्वामी ! उनको भी अभय देता हूँ।”

“महाराज ! पक्षी तो अभय प्राप्त कर, बाकी जल में रहनेवाले जन्तु (=मच्छ) क्या करेंगे ?”

“स्वामी ! उनको भी अभय देना हूँ।”

इस प्रकार महा-सत्व (=बोधिसत्व) राजा में सब सत्वों के लिए अभय की याचना कर, उठकर, राजा को पाँच शीलों में प्रतिष्ठित कर, “महाराज ! धर्माचरण करो। न्याय करूँ माता पिता, पुत्र पुत्री, ब्राह्मण-गृहपति, निगम तथा जनपद के लोग, (सब के साथ) धर्म का व्यवहार=उचित व्यवहार करने से शरीर छूटने पर, मरने के बाद, सुगति, स्वर्ग लोक को प्राप्त होंगे।”

—इस प्रकार राजा को बुद्ध-लीला से धर्मोपदेश दे, कई दिन उद्यान में रह,

मृगों के भुंड के साथ, अरण्य में चला गया। उस हिरणी ने भी पुष्प सदृश पुत्र को जन्म दिया। वह खेलता खेलता शाख-मृग के पास चला जाता। उसकी माता उसे वहाँ जाता देख, 'पुत्र ! अब से उस के पास ना जाकर (केवल) निग्रोध (-मृग) के पास ही जाना' कह उपदेश देती हुई, यह गाथा कहती—

निग्रोधमेव सेवेद्य न साखमुपसंबसे,
नांग्रोधस्मि मतं सेद्यो यच्च साखस्मि जीवितं ॥

[निग्रोध की ही सेवा करे। साख के समीप न जाये। साख (के आश्रय) में जीने की अपेक्षा निग्रोध (के आश्रय) में मरना श्रेयस्कार है]।

निग्रोधमेव सेवेद्य का अर्थ है कि तात ! तू, अथवा अपना हित चाहनेवाला अन्य कोई निग्रोध की ही सेवा करे—भजे—पास रहे। न साखमुपसंबसे का अर्थ है कि साख-मृग के पास न रहे, पास जाकर न रहे, उसके आश्रय में रह कर जीविका न चलाए। निग्रोधस्मि मतं सेद्यो का अर्थ है कि निग्रोध राजा के चरणों में मरना भी श्रेष्ठ है; अच्छा है, उत्तम है। यच्च साखस्मि जीवितं का अर्थ है कि साख(-मृग)के पास जो जीना है, वह श्रेष्ठ नहीं है, अच्छा नहीं है, उत्तम नहीं है।

उसके बाद से अभय-प्राप्त मृग मनुष्यों के खेत खाने लगे। मनुष्य 'यह, अभय-प्राप्त मृग है' (सोच) न उन्हें मारते थे, न भगाते थे। उन्होंने राजा-ङ्गण में इकट्ठे हो, राजा से इसकी शिकायत की। राजा ने उत्तर दिया—“मैंने प्रसन्न चित्त हो, उस श्रेष्ठ निग्रोध मृग को वर दिया है। मैं राज्य छोड़ दूँगा, लेकिन उस प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ूँगा। जाओ, मेरे राज्य में किसी को मृग मारने की छुट्टी नहीं है।”

निग्रोध मृग ने उस समाचार को सुन, मृगों के समूह को एकत्र कर, “अब से दूसरो के खेत न खाये जाये” (कह) मृगों को (खेत खाने से) रोक मनुष्यों को कहलवाया कि अब से लगाकर खेती करनेवाले खेती की रक्षा के लिए बाड़ न बाँधें। (केवल) खेत को घेर करके पत्तों की भण्डी (=निशानी) बाँध दें। उस समय से खेतों में पत्तों की निशानी बाँधने की प्रथा आरम्भ हुई। उसके बाद से कोई भी मृग पत्तों की निशानी को न लाँघता। (क्योंकि) बोधि-

सत्त्व ने उनको ऐसा करने का उपदेश दिया था। इस प्रकार मृग यूथ को उपदेश दे, बोधिसत्त्व आयु पर्यन्त जीवित रह, कर्मानुसार (परलोक) सिघारे। राजा भी बोधिसत्त्व के उपदेशानुसार पुण्य कर्म करके, कर्मानुसार (परलोक) को सिघारा।

शास्ता ने, 'भिक्षुओ ! मैं केवल अब ही इस स्थविरी तथा कुमार-काश्यप का आश्रय (-दाता) नहीं हुआ हूँ; पहले भी आश्रय (-दाता) रहा हूँ,—इस धर्म देशना को लाकर, चार आर्य-सत्य रूपी धर्म-देशना कर, दोनों कहानियाँ कह, मेल मिलाकर, जातक का सारांश निकाल दिखाया।

उस समय का साख-मृग (अब का) देवदत्त था। उसकी परिपद् (=टोली) भी देवदत्त-परिपद् थी। हिरणी (अबकी) धेरी (=स्थविरी) हुई। पुत्र (अबके) कुमार-काश्यप। राजा (अबके) आनन्द (स्थविर)। लेकिन निग्रोध मृगराज तो मैं ही था।

१३. कण्डिन जातक

“धिरत्थु कण्डिनं सल्लं”—यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, पूर्व-भार्या के लोभ के बारे में कही।

वह (कथा) आठवें परिच्छेद के इन्द्रिय-जातक^१ में आयेगी।

क. वर्तमान कथा

भगवान् ने उस भिक्षु को कहा—‘भिक्षु ! पूर्व समय में भी तू इस स्त्री (-जाति) के कारण, प्राणों से हाथ धो, बिना लाट के अङ्गारों पर पकाया गया

^१ ४२३ जातक।

था ।” भिक्षुओं ने भगवान् से उस बात को प्रकट करने की प्रार्थना की । भगवान् ने पूर्व-जन्म की छिपी हुई बात प्रकट की—

अब आगे ‘भिक्षुओं की प्रार्थना करना’ तथा ‘पूर्व-जन्म की छिपी बात होना’ न कहकर केवल अतीत की बात कही—इतना ही कहेंगे । केवल इतना कहने पर भी ‘प्रार्थना करना’ तथा बादलों के गर्भ से चन्द्रमा के निकलने की तरह, ‘पूर्व-जन्म की छिपी बात का प्रकट होना’—यह सब पूर्वोक्त प्रकार से ही जोड़कर समझना चाहिए ।

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में मगध राष्ट्र के राजगृह (नगर) में मगध-नरेश राज्य करते थे । मगधवासियों को खेती के समय मृगों से बड़ी हानि होती । वे (मृग) जंगल में पर्वतों पर जाते । सो, एक जंगली पर्वत-निवासी मृग, एक ग्रामवासिनी हरिणी के साथ संवास (—मेल) के कारण, उन मृगों के पर्वत से नीचे (—ग्रामान्त) उतरने के समय, उस हरिणी पर आसक्त हो उन (मृगों) के साथ नीचे उतर आया । उस (हरिणी) ने उससे पूछा, “आर्य तू पर्वतवासी मूर्ख मृग सा कौन है ! ग्राम आशङ्का तथा भय का स्थान है । (तू) हमारे साथ मत उतर ।” लेकिन वह उस (हरिणी) पर आसक्त रहने के कारण नहीं लौटा और साथ ही गया ।

मगधवासी, ‘इस समय मृगों का पर्वत से उतरने का समय है’ जान छिपे हुए स्थानों में (छिप कर) रहते । उन दोनों के आने के मार्ग पर भी, एक शिकारी, एक छिपे स्थान पर खड़ा था । हरिणी (—मृगपोतिका) ने, मनुष्य-गन्ध सूँघ कर, ‘एक शिकारी खड़ा होगा’ सोच, उस बाल (—मूर्ख) मृग को आगे कर पीछे पीछे हो ली । शिकारी ने एक ही बाण के प्रहार से, उस मृग को वहीं गिरा दिया । हरिणी, आहत जान, छलांग मार कर, हवा की गति से भाग गई । शिकारी छिपे स्थान (—कोठे) से निकल, मृग को काट कर, अग्नि जलाकर, बिना लाट के अङ्गारों पर मधुर मांस को पका, खा कर, पानी पी, रक्त की बूँदें चूते शेष मांस को बहँगी पर रख, बच्चों को सन्तुष्ट करने के लिए घर ले गया ।

उस समय बोधिसत्व ने उस जंगल में देवता होकर जन्म लिया था ।

उन्होंने उस घटना को देख, (सोचा), यह मूर्ख-मृग न तो माता के लिए मरान पिता के लिए, (यह मरा तो) कामुकता के लिए। कामुकता के कारण प्राणी सुगति से (गिर कर) हाथों का कटना आदि दुर्गति, पाँच प्रकार के बन्धनादि (तथा) नाना प्रकार के दुःख को प्राप्त होते हैं। दूसरों को मरने का दुःख देना भी, इस लोक में निन्दनीय ही है। जिस देश पर स्त्री न्यायाधीश (—विचारक) होती है, अनुशासन करती है, वह स्त्री की अधीनता में रहनेवाला देश भी निन्दनीय ही है। इस प्रकार एक गाथा से तीन निन्दनीय वस्तुओं को दिखाकर, वनदेवताओं को 'साधुकार' देकर गन्धपुष्पादि से पूजा करने के समय मधुर स्वर से उस वन-पण्ड को उन्नादित करते हुए, इस गाथा से धर्मोपदेश दिया—

धिरत्यु कण्डिनं सल्लं पुरिसं गाळ्हवेधिनं,
धिरत्यु तं जनपदं यत्थित्थी परिनायिका;
ते चापि धिक्किता सत्ता ये इत्थीनं वसं गता ॥

[कण्डेवाले तीर से, जोर से बेधनेवाले मनुष्य को धिक्कार है। जिस जन-पद का स्त्रियाँ सञ्चालन करती हैं, उस जन-पद को धिक्कार है। जो सत्त्व (—प्राणी) स्त्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, उन प्राणियों को धिक्कार है।]

धिरत्यु गरहा—निन्दा के अर्थ में 'निपात' है। सो इसे यहाँ त्रास और उद्वेग के कारण गहाँ-वाचक समझना चाहिए। त्रसित और उद्विग्न-चित्त होकर ही बोधिसत्त्व ने इस प्रकार कहा। 'कण्डा' जिसको है, सो कण्डी, उसको (—नं) कण्डी को। उस 'कण्ड' को प्रवेश होने के अर्थ में शल्य कहते हैं। इसलिए कण्डिन सल्लं का अर्थ है सल्लं कण्डिनं। अथवा शल्य वाला होने के कारण शल्य, और शल्य बड़ा भारी जख्म करके, जोर का प्रहार देता तेजी से बीधता है, इसलिए 'गाळ्ह-वेधी'। उस गाळ्ह-वेधी को गाळ्ह-वेधिनं। नाना प्रकार के कण्डे, कुमुद (—कंवल) के पत्ते के आकार के तल (—नोक) वाले, सीधे जाने वाले शल्य से युक्त पुरुष को—गाळ्हवेधिनं पुरिसं धिरत्यु—धिक्कार है।

परिनायिका का अर्थ है स्वामिनी (—ईश्वरा); संबिधान (—प्रबन्ध)

करनेवाली। 'ध्विक्किता' का अर्थ है गर्हिता। शेष, यहाँ स्पष्ट ही है। इससे आगे, इतना भी न कहकर, जो जो अस्पष्ट है, उसीकी व्याख्या करेंगे। इस प्रकार एक गाथा में तीन निन्दित-चीजे दिखाकर, बोधिसत्व ने वन को उन्नादित करते हुए बुद्ध की भाँति (बुद्ध लीला से) धर्मोपदेश किया।

बुद्ध ने इस धर्मोपदेश को लाकर (आर्य-सत्यों को प्रकाशित किया। (आर्य-सत्यों (के प्रकाशित होने) की समाप्ति पर उत्कण्ठित भिक्षु स्रोता-पत्तिफल में प्रतिष्ठित हुआ। शास्ता ने दोनों कथायें कह, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। इससे आगे 'दोनों कथायें कहकर'—यह शब्द बिना कहे, केवल 'मेल मिलाकर' (= अनुसन्धिघटेत्वा)—इतना ही कहेंगे। लेकिन बिना कहने पर भी, उसे, पूर्वोक्त प्रकार से ही ग्रहण करना चाहिए।

उस समय का पर्वतवासी मृग (अब का) उत्कण्ठित-भिक्षु था। मृग पोतिका (अब की) पूर्व-भार्या थी। कामुकता में दोष दिखाकर, उपदेश करनेवाला देवता तो मैं ही था।

१४. वातमिग जातक

“न किरत्थि रसेहि पापियो”—यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय चुल्लपिण्डपातिक-तिष्य स्थविर के बारे में कही।

क. वर्तमान कथा

शास्ता के राजगृह के समीप बेलुवन में विहार करते समय, एक महा सम्पत्तिशाली सेठ-कुल के तिष्य-कुमार नामक पुत्र ने, एक दिन बेलुवन जा, शास्ता की धर्म-देशना सुन, प्रब्रजित होने की इच्छा से, प्रब्रज्या की याचना की।

माता पिता की आज्ञा न मिलने पर, रट्टपाल स्थविर^१ की तरह सप्ताह भर भूखे रह, माता पिता से आज्ञा ले, बुद्ध के पास प्रव्रज्या ग्रहण की। बुद्ध उसे प्रव्रजित करने के बाद, कोई आधे महीने तक वेणुवन में विहार कर, जेतवन को चले गये। वहाँ वह कुल-पुत्र तेरह धुताङ्ग व्रतों को ग्रहण कर, श्रावस्ती में क्रम से^२ भिक्षा माँगते हुए, समय विताने लगा। चतुलपिण्डपातिक तिस्स स्थविर का नाम लेने पर, वह बुद्ध मत में वैसे ही प्रगट—प्रसिद्ध था, जैसे आकाश तल पर चन्द्रमा। उस समय राजगृह में उत्सव (=नक्षत्र-क्रीड़ा) था। स्थविर के माता पिता, उन सब आभरणों को, जिन्हें स्थविर गृहस्थ में रहते पहनते थे, चाँदी की डलिया में रख, (उसे) अपनी छाती पर रख, 'अन्य उत्सवों (=नक्षत्र-क्रीड़ाओं) के मौके पर हमारा पुत्र इन इन आभूषणों से अलंकृत होकर मेले में जाता था। अब हमारे उस अकेले पुत्र को, लेकर श्रमण गौतम श्रावस्ती चला गया। इस समय वह कहीं बैठा होगा, कहीं खड़ा होगा कहते रोते थे। एक वेश्या ने उसके घर जाकर, सेठानी को रोते देख पूछा—“आर्य्ये ! क्यों रोती हो ?”

उसने सब बात कह दी।

“आर्य्ये ! आर्य्य-पुत्र को क्या क्या प्यारा लगता था ?”

“अमुक अमुक (चीजे)।”

“यदि तुम, इस घर का सब ऐश्वर्य मुझे दो, तो मैं आर्य्य-पुत्र को ले आऊँगी।”

सेठानी ने 'अच्छा' कह, स्वीकार कर, खर्चा दे, बहुत से अनुयायियों के साथ उसे यह कहकर भेजा, “जा, अपने बल से मेरे पुत्र को ला।”

तब वह परदे वाली गाड़ी में बैठ, श्रावस्ती पहुँची। (वहाँ) जिस गली में स्थविर भिक्षा माँगने जाया करते थे उसमें घर लिया। फिर सेठ के नौकरों को स्थविर की आँख से ओझल रख, अपने ही आदमियों के साथ स्थविर के भिक्षा के लिए आने के समय, पहले कडखी भर, फिर कटारा भर (भिक्षा) देने लगी। (इस प्रकार) रस-तृष्णा से बाँध धीरे धीरे घर के भीतर विठा कर

^१ दस्रो मज्झिम निकाय सुत्त ८२ (३३०)

^२ एक सिरे से, सभी घरों से।

भिक्षा देती थी। जब उसने (स्थविरको) अपने वश में हुआ जाना; (तो एक दिन) रोगी होने का बहाना कर, वह घर के अन्दर जा लेटी। स्थविर भिक्षा के समय, क्रम से भिक्षा माँगते हुए गृह-द्वार पर आये। नौकर-चाकरों ने स्थविर का पात्र ग्रहण कर उन्हें घर में बिठाया।

स्थविर ने बैठते ही पूछा—“उपासिका कहाँ है?”

“मन्ते ! रोगी है, आपका दर्शन करना चाहती है।”

“रस-तृष्णा में बँधे होने से वह अपनी प्रतिज्ञा (=व्रतसमादान) तोड़ कर, उसके लेटे रहने की जगह चले गये। उसने अपने आने का (असली) कारण कह, उनके चित्त को लुभा लिया। फिर उसने रस-तृष्णा में बाँध उनका चीवर उतरवा दिया, और अपने वश में कर, गाड़ी में बिठा, बहुत से लोगों के साथ राजगृह चली गई। वह बात प्रसिद्ध हो गई। धर्म सभा में बैठे हुए भिक्षुओं ने कहना आरम्भ किया कि एक वेश्या चुल्ल पिण्डपतिक तिस्स थेर को रस-तृष्णा में बाँधकर (साथ) ले गई। बुद्ध ने धर्मसभा में जा, अलंकृत आसन पर बैठ, पूछा—“भिक्षुओ ! क्या बात चल रही है?” उन्होंने वह समाचार कहा। भगवान् ने “भिक्षुओ ! यह भिक्षु केवल अब ही रस-तृष्णा में बँधकर, उसके वशीभूत नहीं हुआ, पहले भी हुआ है,” कह, अतीत की बात कही—

ख. अतीत कथा

“पूर्व-समय में बाराणसी में राजा महावत्त का (एक) सञ्जय नामक माली था। एक शीघ्रगामी मृग (वात-मृग) उस उद्यान में आता, (लेकिन) सञ्जय को देख कर भाग जाता। सञ्जय उसको डराकर निकालता था। वह बार बार आकर उद्यान में ही चरता था। माली प्रति दिन उद्यान से नाना प्रकार के फल-फूल राजा के पास ले जाता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा—“सौम्य ! उद्यानपाल ! उद्यान में कोई आश्चर्य (की चीज़) देखते हो?”

“देव ! और तो कुछ नहीं देखता, हाँ यह देखता हूँ कि एक शीघ्र-गामी-मृग आकर उद्यान में चरता है।”

“क्या, उसे पकड़ सकोगे?”

“यदि थोड़ा मधु मिले, तो उसे यहाँ राज-निवास के अन्दर भी ला सकूँगा।”

राजाने उसे मधु दिलवा दिया। उसने मधु ले, उद्यान में जाकर, शीघ्रगामी-मृग के चरने की जगह (कुछ) तिनकों को मधु से माख (=चुपड़) दिया। मृग आकर, मधु लगे तिनकों को खाकर, रस-तृष्णा से बँधा हुआ, किसी दूसरी जगह न जा, उद्यान में ही आता था। माली ने, उसके मधु-लिप्त तृण में लुब्ध हो जाने पर, धीरे धीरे अपने को प्रगट किया।

उसने उसे देख, कुछ दिन तक भाग कर, फिर फिर देखने से विश्वास पैदा कर, धीरे धीरे माली के हाथ में रखे तृणों को भी खाना आरम्भ कर दिया। माली ने उसका 'विश्वास जीत लिया' जान, राज-भवन तक सड़क पर चटाइयाँ बिछवाईं। जहाँ तहाँ (पत्तों की) डालियाँ गिरवाईं। '(तब वह) मधु के कुप्पे को कन्धे पर लटका, तृणों की पूली को बगल में दबा, मधु से माखे तृण मृग के आगे आगे बखेरते राज-भवन के अन्दर चला गया। मृग के अन्दर दाखिल होने पर द्वार बन्द कर लिये गये। मृग मनुष्यों को देखकर, काँपता हुआ, मरने से भयभीत (राज-)भवन के आङ्गण में इधर उधर भागने लगा। राजा ने प्रासाद से उतर, उसे काँपते देख, (सोचा)—वात-मृग मनुष्य दिखाई देने की जगह एक सप्ताह तक नहीं जाता। और जहाँ से डरा दिया जाये, वहाँ तो जन्म-भर नहीं जाता। सो इस प्रकार छिपकर रहनेवाला वात-मृग रस-तृष्णा में बँधकर, अब ऐसी जगह आ गया। भो ! लोक में रस-तृष्णा से बढकर बुरी चीज नहीं है। यह (सोच) इस गाथा से धर्मोपदेश की स्थापना की—

न किरन्ति रसेहि पापियो आवासेहि वा सन्थबेहि वा ।

वातमिगं गेहनिस्सितं वसमानेसि रसेहि सञ्जयो ॥

[निवासस्थान वा मित्रों के मिलाप की भी आसक्ति रस की आसक्ति से बढकर खराब नहीं है। घोर जंगल में रहनेवाले मृग को रस के द्वारा सञ्जय ने वश में कर लिया ।]

'किर' तो यों ही 'निपात' है। रसेहि का अर्थ है जिह्वा से चखे जानेवाले मीठे, खट्टे आदि। पापियो—पापतर (=बहुत बुरी)। आवासेहि वा सन्थबेहि वा का अर्थ है दिल लगे हुए रहने के स्थान तथा मित्रों के मिलाप में भी आसक्ति बुरी ही है, लेकिन आसक्ति-पूर्वक परिभोग—आवास से तथा मित्रों के मिलाप से सौगुणा, हज्जारगुणा बुरी है भोजन के रस में आसक्ति; क्योंकि आहार का

सेवन निरन्तर करना होता है, (और) उसके बिना प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती । बोधिसत्व ने इस अर्थ को पूर्व अनुश्रुति के अनुसार कहा कि न करित्थ रसेहि पापियो आवासेहि वा सन्थवेहि वा । यहाँ उनकी दोष-पूर्णता प्रदर्शित कर वातमिग आदि कहा । गेह निस्सितं^१ का अर्थ है गहन स्थान में रहनेवाला ।

भावार्थ यह है—देखो रसों की दोषपूर्णता—सञ्जय (नामक) माली ने अरण्य निवासी वातमृग (=जंगली-मृग) को मधु-रस (के लालच) से, अपने वश में कर लिया । सब ही जगह रस-भोग की आसक्ति के समान दोषपूर्ण=बुरी, दूसरी कोई (चीज) नहीं । इस प्रकार रस-तृष्णा के दोष कहकर, उस मृग को (फिर) जंगल में ही भेज दिया ।

शास्ता ने, 'भिक्षुओ ! न केवल अब ही, उस वेश्या ने इसे रस-तृष्णा से बाँधकर, अपने वश में किया है बल्कि पहले भी किया था ।' इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया ।

उस समय (का) सञ्जय यह (अब की) वेश्या थी । वातमृग (अब का) चुल्लपिण्डपातिक था । लेकिन बाराणसी का राजा तो मैं ही था ।

१५. खरादिय जातक

“अट्ठखुरं खरादिये” यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, एक कटुभाषी भिक्षु के सम्बन्ध में कही ।

क. वर्तमान कथा

वह कटुभाषी भिक्षु (किसी का) उपदेश न ग्रहण करता था । बुद्ध ने

^१ 'अगेह निस्सितं' पाठ अधिक अच्छा होता ।

उस से पूछा—“भिक्षु ! क्या तू सचमुच कटुभाषी (है), (किसी का) उपदेश नहीं ग्रहण करता ?”

“भगवान् ! यह (बात) सच है।”

बुद्ध ने, ‘पहले भी तू ने कटुभाषिता के कारण, पण्डितों का उपदेश नहीं ग्रहण किया; और पाश से बँधकर, अपने प्राणों का नाश किया’ कह अतीत की कथा सुनाई ।

ख. अतीत कथा

“पूर्व समय में, बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्व मृग की योनि में पैदा हो, मृग-गण के साथ जंगल में रहते थे । (एक दिन) उनकी बहन ने उन्हें हरिण-पुत्र दिखाकर कहा—“भाई ! यह तुम्हारा भांजा है । इसे मृग-माया सिखाओ ।” यह कह (उसे मृग-पुत्र) सौया । उसने भांजे को कहा—अमुक समय पर आकर सीखना । वह कहे हुए समय पर न आया । जैसे एक दिन, उसी प्रकार सात दिनों तक, सात उपदेशों (=आज्ञाओं) का उल्लंघन कर, वह मृग-माया को बिना सीखे ही चरता हुआ पाश में बँध गया । माता ने भाई से आकर पूछा—“क्यों भाई ! तू ने भांजे को मृग-माया सिखा दी थी ?” बोधिसत्व ने, “उस बात न माननेवाले का सोच मत कर । तेरे पुत्र ने मृग-माया नहीं सीखी” कह, अब भी उसे सिखाने का अनिच्छुक ही हो, यह गाथा कही—

अटठखुरं खरादिये ! मिगं वड्कातिवड्कनं ।

सत्तहि कलाहतिवकन्तं न तं श्रोवदितुस्सहे ॥

[हे खरादिये ! वड्कातिवड्क, सात कलाओं (=उपदेशों) का उल्लंघन करनेवाले, उस मृग को मेरी उपदेश देने की रचि (=प्रेरणा) नहीं ।]

अटठखुरं; एक एक पाँव में दो दो (खुर) होने से आठ खुर । खरादिये; इस नाम से सम्बोधन करता है । मिगं—सब (मृगों) के लिए एक शब्द है । वड्कातिवड्कनं—आरम्भ में टेढ़े, आगे और भी टेढ़े, इस प्रकार वड्कातिवड्क (टेढ़े अति टेढ़े); जिसके ऐसे सींग हों; वह वड्कातिवड्की, उस (=तं),

वङ्कातिवङ्की को । सत्तहि कलाहतिक्कन्तं का अर्थ है, उपदेश के सात समयों पर उपदेश का उल्लंघन करने वाला । न तं अब्बवितुस्सहे का अर्थ है, इस प्रकार के कटुभाषी मृग को उपदेश देने की मेरी प्रवृत्ति नहीं होती । ऐसे को उपदेश देने का मुझे विचार तक नहीं होता ।'—यही स्पष्ट किया है ।

सो शिकारी, उस पाश में बँधे हुए कटुभाषी मृग को मारकर, मांस लेकर चला गया ।

बुद्ध ने भी, 'भिक्षु ! तू केवल अब ही कटुभाषी नहीं है, पहले भी कटुभाषी ही रहा है ।'—यह धर्म-देशना ला कर, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया ।

उस समय का भाजा मृग (अब का) कटुभाषी भिक्षु था । बहन (अब की) उत्पल-वर्णा (भिक्षुणी) थी । लेकिन उपदेश देनेवाला मृग तो मैं ही था ।

१६. तिपल्लत्थमिग जातक

“मिगंतिपल्लत्थं . . .” यह गाथा, शास्ता ने कोसम्बी^१ के बदरिकाराम में विहार करते हुए शिक्षा-कामी राहुल स्थविर के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

एक समय, शास्ता के आलवि नगर के पास के अग्गालव चैत्य में विहार करते समय उपासिकायें और भिक्षुणियाँ धर्म सुनने के लिए विहार को जाती थी ।

^१ इलाहाबाद से प्रायः तीस मील पश्चिम, जमुना के बायें किनारे वर्तमान कोसम (जिला इलाहाबाद, यु० प्रा०) ।

धर्म-श्रवण दिन में होता था। समय बीतने पर, उपासिकाओं और भिक्षुणियों ने जाना छोड़ दिया। भिक्षु और उपासक ही (धर्म-श्रवणार्थ) रह गये। उसके बाद धर्म-श्रवण रात को होने लगा। धर्म सुनने के बाद स्थविर भिक्षु अपने अपने निवास स्थान को चले जाते थे। दहर (=कम आयु वाले भिक्षु) उपासकों के साथ उपस्थान शाला (=दान-शाला) में सो जाते थे। उन के सो जाने पर, कोई कोई घुर घुर स्वास खँचते हुए, दाँतों को कटकटाते हुए सोते। कोई कोई थोड़ी देर सोकर उठ खड़े होते। उस विकार (=विकृति) को देखकर, उन्होंने बुद्ध से निवेदन किया। भगवान् 'जो भिक्षु (किसी) अनुप-सम्पन्न के साथ सोये, वह पाचित्तिय (=प्रायश्चित्त करने योग्य दोष) का भागी होता है' शिक्षा-पद की घोषणा (=प्रज्ञप्ति) कर, कोसम्बी को चले गये।

भिक्षुओं ने आयुष्मान् राहुल को कहा—“आयुष्मान् राहुल ! भगवान् ने शिक्षापद की घोषणा कर दी है। अब तू अपने लिए निवासस्थान ढूँढ़।” इससे पहले, भगवान् के प्रति गौरव रहने से, और उस आयुष्मान् राहुल के शिक्षा-कामी होने से, भिक्षु, आयुष्मान् राहुल के अपने निवास-स्थान पर आने पर उसका बड़ा सत्कार करते थे। उसके लिए छोटी सी चारपाई बिछा देते, और सिरहाना करने के लिए चीवर देते थे। लेकिन उस दिन शिक्षा-पद के भय से निवास-स्थान तक नहीं दिया। राहुल-भद्र भी दशबल(-धारी) मेरे पिता हैं, या धर्म सेनापति (=सारिपुत्र) मेरे उपाध्याय है, या महामौदगल्यायन मेरे आचार्य्य हैं या आनन्द स्थविर मेरे चाचा हैं (सोच) उनमें से किसी एक के पास न जा दशबल(-धारी) के काम आनेवाले शौचागार में, ब्रह्मविमान में प्रविष्ट होने के सदृश, दाखिल हो, (वही) रहा।

बुद्धों के शौचागार का द्वार भली प्रकार बन्द रहता है। भूमि सुगन्धियुक्त होती है, सुगन्धित मालाओं की लड़ियाँ फैली ही होती है। तमाम रात दीपक जलता है। लेकिन राहुल-भद्र ने, उस शौच-स्थान (=कुटि) में इन सब चीजों (=सम्पत्ति) के होने के कारण, वहाँ वास नहीं किया; बल्कि भिक्षुओं के 'अब तू अपने स्थान को जा' कहने से, उनके उपदेश का गौरव रखनेवाला, तथा शिक्षा-कामी होने से वहाँ निवास किया। बीच बीच में, भिक्षु भी, उस आयुष्मान् को दूर से आता देख, उसकी परीक्षा लेने के लिए, मुट्टु वाली भाङ्गू अथवा कूड़ा-फेकने-वाला, बाहर फेक देते। और उसके आने पर पूछते—“आवसो !

यह बाहर किसने छोड़ दिये ?” तब किसी के, ‘राहुल ! इस मार्ग से गया है’ कहने पर, वह ‘भन्ते ! मैं यह नहीं जानता हूँ’ न कहकर, उन्हें उचित स्थान पर रख, ‘भन्ते ! मुझे क्षमा करे’ कह क्षमा माँगकर जाता । यह ऐसा शिक्षा-कामी था । इस अपनी शिक्षा-काम्यता के ही कारण, उसने वहाँ निवास किया ।

शास्ता ने अरुणोदय से पूर्व ही शौचालय के द्वार पर खड़े होकर खाँसा । उस आयुष्मान् ने भी खाँसा । “यह कौन है ?” “मैं राहुल हूँ” कह, निकलकर प्रणाम किया । “राहुल ! तू यहाँ किस लिए पडा है ?” “रहने का स्थान न मिलने के कारण । भन्ते ! भिक्षु पहले मेरा सत्कार (=संग्रह) करते थे, लेकिन अब आपत्ति (=दोषी होने) के भय से मुझे निवास-स्थान नहीं देते । सो मैं “इस स्थान में औरों का दखल नहीं” सोच यहाँ लेटा हूँ ।”

भगवान् के मन में ‘राहुल की (भी) इस प्रकार लापरवाही कर, भिक्षु, अन्य कुल-पुत्रों को प्रब्रजित कर क्या करोगे ?’ (सोच) धर्म-संवेग उत्पन्न हुआ । सो प्रातःकाल ही, सब भिक्षुओं को एकत्र करवा, भगवान् ने धर्म-सेनापति से पूछा—“सारिपुत्र तुझे मालूम है कि आज (रात) राहुल कहाँ रहा ?” “भन्ते ! नहीं मालूम है ।” “सारिपुत्र ! आज राहुल शौचालय (=वच्च कुटि) में रहा है । सारिपुत्र ! तुम राहुल को इस प्रकार छोड़कर, और बालको को प्रब्रजित कर क्या करोगे ? यह (हाल) रहने पर तो, इम शासन में प्रब्रजित प्रतिष्ठित नहीं होंगे । इससे आगे अनुपसम्पन्न को एक दो दिन, अपने पास रखकर, तीसरे दिन उनका निवासस्थान मालूम कर, उन्हें (वहाँ) बाहर बसाओ”— इस उप-नियम को बनाकर, फिर शिक्षा-पद की घोषणा की ।

उस समय धर्म-सभा में बैठे भिक्षु, राहुल की प्रशंसा कर रहे थे । “आयुष्मानो ! देखो ! यह राहुल कितना शिक्षा-कामी है ! ‘अपने निवास-स्थान को जा’ कहने पर, ‘मैं दशबल का पुत्र हूँ । तुम कौन लगते हो शयनासन के । निकलो, तुम ही निकलो ।’—इस प्रकार, किसी एक भिक्षु को भी प्रत्युत्तर न दे, शौच-स्थान में जा (सो) रहा ।” उनके इस प्रकार कहते समय, शास्ता ने धर्म-सभा में आ, अलंकृत आसन पर बैठ, पूछा—“भिक्षुओ ! इस समय बैठे क्या बात-चीत कर रहे थे ?” “भन्ते ! और कोई बात नहीं ; राहुल के शिक्षा-कामी होने की बात ।” शास्ता ने, “भिक्षुओ ! राहुल केवल अब ही शिक्षा-कामी नहीं है पूर्व पशु-योनि में भी शिक्षा-कामी ही रहा है” (कह) अतीत की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में राजगृह में एक मगध-नरेश राज्य करते थे । उस समय बोधिसत्त्व मृग की योनि में उत्पन्न हो, मृग-गण के सहित अरण्य में रहते थे । उनकी बहन ने, अपने पुत्र को उनके पास ले जाकर, कहा—“भाई ! (अपने) इस भांजे को मृग-माया सिखा ।” बोधिसत्त्व ने ‘अच्छा’ कह, स्वीकार कर, कहा—‘जा तात ! अमुक समय आकर सीखना ।’ उसने मामा के बताये हुए समय पर ही, उसके पास जाकर, मृग-माया सीखी । एक दिन जंगल में चरते हुए, उसने, पाश में बँधकर, बँध जाने की चिल्लाहट (=बद्धराव) की । मृग-गण ने दौड़ आकर, उसकी माता को कहा—“तेरा पुत्र पाश में बँध गया ।” उसने भाई के पास जाकर पूछा—“भाई ! क्या तेरे भांजे ने मृग-माया सीख रक्खी है ?” बोधिसत्त्व ने, “तू पुत्र के विषय में कुछ बुरी आशङ्का मत कर, उसने मृग-माया भली प्रकार सीख रक्खी है । वह, अभी हँसता हँसता चला आयागा” कह यह गाथा कही—

मिगं तिपल्लत्थ मनेकमायं,
अट्ठखुरं अड्ढ रत्ताव पायिं,
एकेन सोतेन छमास्स सन्तो
छहि कलाहतिभोति भगिणेण्यो ॥

[तीन प्रकार से सोनेवाला, अनेक प्रकार की माया जाननेवाला, अठ खुरों वाला, आधीरात को पानी पीनेवाला, (मेरा) भाजा, एक नासिका-छिद्र को पृथ्वी पर रखे स्वांस लेते हुए छः कलाओं से (शिकारी को) धोखा देगा ।]

मृग=भाजा मृग । तिपल्लत्थं, पल्लत्थ कहते हैं (पालथी को), शयन को । दोनों पासों पर, और गौ के बैठने की तरह सीधा बैठना, इस तरह जिसका तीन प्रकार का आसन (=शयन) हो, वह ‘तिपल्लत्थो’; उस तिपल्लत्थ को, ‘तिपल्लत्थं’ । अनेकमायं का अर्थ है बहुत माया, बहुत धोखा । अट्ठखुरं एक एक पैर में दो दो खुर होने से आठ खुर । अड्ढरत्तावपायिं, का अर्थ है पूर्व-याम के समाप्त होने पर, मध्यम-याम में जंगल से लौटकर पानी के पीने से, ‘आधी रात को जल पीता है’ करके अड्ढरत्तावपायिं, उस अड्ढरत्तावपायिं को—

यही अर्थ है। मैंने अपने भांजे मृग को अच्छी प्रकार मृग-माया सिखा दी है। कैसे? एकेन सोतेन छमास्ससन्तो छहि कलाहतिभोति भागिणेय्यो। इसका भावार्थ है कि मैंने तेरे पुत्र को इस प्रकार सिखाया है। “ऊपर के एक नासिका-श्रोत की वायु को रोककर, पृथ्वी से लगे हुए, एक निचले नासिका छिद्र से, वहाँ पृथ्वी ही में साँस लेते हुए, छ कलाओं से शिकारी को (अतिभोति—छः प्रकार से अञ्भोत्थरति) धोखा देता है। कौन सी छः कलाओं से? चारों पैर पसारकर, एक पासे पर सोने से, खुरों से तिनके और बालू खोदने से, जीभ निकालने से, पेट को फुलाने से, पाखाना-पेशाब करने से, हवा (स्वांस) को रोकने से। दूसरा क्रम—पैरों को अगली ओर पसारने से, शरीर तानने से, दोनों ओर पलटने से, ऊपर उद्धलने से, नीचे पटकने से,—इन छः कलाओं से धोखा देता है; मर गया है, ऐसा ख्याल पैदा कर धोखा देता है। ‘इस प्रकार, उसको मृग-माया सिखाई’—प्रगट किया है। अन्य क्रम—उसको ऐसे सिखाया, जैसे एकेन सोतेन छमास्ससन्तो छहि कलाह—दो प्रकार से कहे गये छः छः ढंगों से (कलाहति=कलायिस्सति) शिकारी को धोखा देगा। ‘भोति’ शब्द से बहन को सम्बोधन किया है। भागिणेय्यो—इस प्रकार छः ढंग से धोखा दे सकनेवाले भांजे का निर्देश करता है।

इस प्रकार बोधिसत्त्व न, भांजे के सम्यक् मृग-माया सीखे रहने की बात कह बहन को सान्त्वना दी। वह हरिण-बच्चा भी पाश में बँधने पर, बिना हाथ पैर मारे ही, पृथ्वी पर महा-सुख पूर्वक टाँगें फैलाकर, लेट, पैरों के पास स्थान पर खुर-प्रहार से बालू तथा तृणों को उखाड़, पेशाब पाखाना कर, सिर को गिरा, जीभ निकाल, शरीर को मुँह की भाग से भिगो, हवा से पेट को फुला, आँखों को उलट, निचले नासिका-छिद्र से स्वांस लेते हुए, ऊपर के नासिका-छिद्र से स्वांस लेना रोक, सारे शरीर को कड़ा कर, अपने को मर गये के सदृश दिखाया। नीली मक्खियों ने उसे घेर लिया। जहाँ तहाँ कौबे भी आ जुटे। शिकारी आकर, पेट पर हाथ फेर, ‘प्रातःकाल ही फँस गया होगा, अब सड़ चला’ (सोच) उसकी बन्धन रस्सी खोल, ‘अब इसे यहीं काटकर, इसका मांस ले जाऊँगा’ (सोच) आशङ्का रहित हो, डाल-पात लेने लगा। हरिण-बच्चा उठकर, चारों पैरों पर खड़ा हो, शरीर को तान, गर्दन को पसार,

तेज वायु से उड़ाये गये बादल की तरह, जल्दी से माता के पास आ गया ।

शास्ता ने, 'भिक्षुओ ! राहुल (केवल) अब ही शिक्षा-कामी नहीं है, पहले भी शिक्षा-कामी ही रहा है—इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया । उस समय का भांजा-हिरण-वच्चा (अब का) राहुल था । माता (अब की) उत्पल-वर्णा थी । और माया-मृग तो मैं ही था ।

१७. मारुत जातक

'काले दा यदि वा जुण्हे . . .' इस गाथा को शास्ता ने जेतवन में विहरते हुए, दो चिर-प्रव्रजितों (= वृद्ध-प्रव्रजितों) के वारे में कहा ।

क. वर्तमान कथा

वे (दोनों) कोशल जनपद के एक अरण्य-वास में रहते थे । एक का नाम था काल स्थविर और दूसरे का जुण्ह स्थविर । एक दिन जुण्ह (स्थविर) ने काल से पूछा—“भन्ते ! काल ! सरदी किस समय पड़ती है ?” उसने उत्तर दिया—“काल (= कृष्ण पक्ष) में पड़ती है ।” तब एक दिन काल ने जुण्ह से पूछा—“भन्ते ! जुण्ह ! सरदी किस समय पड़ती है ?” उसने उत्तर दिया—“जुण्ह (= श्वेत पक्ष) में पड़ती है ।” वे दोनों अपनी शङ्का का निबटारा न कर सकने के कारण शास्ता के पास गये (और) शास्ता को प्रणाम कर पूछा—“भन्ते ! सरदी किस समय पड़ती है ?” शास्ता ने उनकी कथा सुन “भिक्षुओ ! मैंने पहले भी तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दिया है ; लेकिन पूर्व-जन्म से छिपा रहने के कारण, तुम उस उत्तर का ख्याल नहीं करते” कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में सिंह और व्याघ्र दो मित्र एक पर्वत-भाग की एक ही गुफा में रहते थे । उस समय बोधिसत्त्व भी ऋषि-प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित हो, उसी पर्वत-भाग में रहते थे । एक दिन उन (दोनों) मित्रों का शीत के बारे में विवाद चल पडा । व्याघ्र ने कहा—“काल (=कृष्ण पक्ष) में पड़ती है” सिंह ने कहा—“जुण्ह (=श्वेत पक्ष) में ।’ उन दोनों ने अपनी शंका न निबटा सकने के कारण, बोधिसत्त्व से पूछा । बोधिसत्त्व ने यह गाथा कही—

काले वा यदि वा जुण्हे यदा वायति मालुतो,
वातजानि हि सीतानि उभोत्थमपराजिता ॥

[काल-पक्ष में, वा जुण्ह-पक्ष में जब भी वायु (=मारुत) चलती है (सरदी पड़ती है) । शीत, हवा से उत्पन्न होता है । दोनों कथन (=अर्थ) ही ठीक (=अपराजित) हैं ।]

काले वा यदि वा जुण्हे का अर्थ है कृष्ण-पक्ष में वा श्वेत-पक्ष में । यदा वायति मालुतो का अर्थ है, जिस समय पुरवा आदि हवा चलती है, उस समय सरदी पड़ती है । किस कारण से ? वातजानि हि सीतानि, क्योंकि वायु के रहने पर ही शीत होता है, जिसका भावार्थ है कि कृष्ण-पक्ष वा शुक्ल-पक्ष का होना विशेष कारण नहीं । उभोत्थमपराजिता का अर्थ है कि इस प्रश्न के बारे में तुम दोनों ही ठीक (=अपराजित) हो—इस प्रकार बोधिसत्त्व ने उन मित्रों को समझाया ।

शास्ता ने “भिक्षुओ ! मैंने पहले भी तुम्हारे इस प्रश्न क उत्तर दिया है” कह, इस धर्म-देशना को लाकर आर्य (-सत्त्यों) को प्रकाशित किया । (आर्य-) सत्त्यों के (प्रकाशन के) अन्त में दोनों स्थविर श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुए । शास्ता ने मेल मिलाकर, जातक का सारांश निकाल दिखाया । उस समय का व्याघ्र (अब का) काल (स्थविर) था । सिंह (अब का) जुण्ह (स्थविर) था ! प्रश्नोत्तर देनेवाला तपस्वी तो मैं ही था ।

१८. मतकभत्त जातक

“एवं चे सत्ता जानेय्युं—” इस गाथा को शास्ता ने जेतवन में विहार करते हुए, श्राद्ध (=मतकभत्त) के बारे में कहा ।

क. वर्तमान कथा

उस समय मनुष्य बहुत सी भेड़ बकरी आदि को मार, मृत-सम्बन्धियों की याद में श्राद्ध (=मतकभत्त) करते थे । भिक्षुओं ने उन मनुष्यों को वैसा करते देख शास्ता से पूछा—“भन्ते ! मनुष्य बहुत से प्राणियों की प्राण-हानि कर श्राद्ध करते हैं (=मृतक-भात देते हैं) । क्या भन्ते ! इससे (ऐसा करनेवालों की) उन्नति (हो सकती) है ?” शास्ता ने कहा—“भिक्षुओ ! श्राद्ध करने के विचार से भी प्राण-हानि करनेवाले की कुछ भी उन्नति नहीं है । पूर्व समय में पण्डितों ने आकाश में बैठ, धर्मोपदेश कर, (प्राण-नाश) के दोष दिखा, सकल जन्तु-जीवियों से, इस कर्म को छुड़वा दिया था । अब (वह बात) पूर्व-जन्मों में छिप जाने के कारण, यह (कर्म) फिर प्रादुर्भूत हो गया ।” (यह कह) अतीत की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, एक त्रिवेदज्ञ, दिशा-प्रमुख (=लोक-प्रसिद्ध) आचार्य्य-ब्राह्मण ने श्राद्ध करने के विचार से, एक भेड़ा मँगवा कर, अपने शिष्यों को कहा—तात ! इस भेड़े को नदी पर ले जा, नहला, गले में माला डाल, पञ्चाङ्गुलियों (का चिन्ह) दे, सजा कर ले आओ । उन्होंने ‘अच्छा’ कह, स्वीकार कर, उस (भेड़े) को नदी पर ले जा, (वहाँ) नहला, सजा, नदी के किनारे पर रक्खा । वह भेड़ा, अपने

पूर्व-कर्म का विचार कर, 'ऐसे दुःख से आज मुक्त हो जाऊँगा' सोच हर्षित हो, घड़े के फूटने की तरह, जोर से हँसा और (फिर) 'यह ब्राह्मण मुझे मारकर जिस दुःख को मैंने भोगा है, उसे भोगेगा' सोच, ब्राह्मण के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न कर, जोर से रोया। उन ब्रह्मचारियों (=माणवकों) ने उससे पुछा—“सम्म ! भेड़ ! तू जोर (=महाशब्द) से हँसा और रोया ! किस कारण तू हँसा ? और किस कारण रोया ?” “तुम यह बात, मुझे अपने आचार्य के पास ले जाकर पूछना।” उन्होंने उसे ले जाकर, यह बात अपने आचार्य से जा कही।

आचार्य ने उनकी बात सुनकर भेड़े से पूछा—“भेड़ ! तू किस लिए हँसा ? किस लिए रोया ?” भेड़े ने पूर्व-जन्म-स्मरण-ज्ञान से अपने पूर्व-कर्म का स्मरण कर ब्राह्मण को कहा—“हे ब्राह्मण ! पूर्व-जन्म मे मैंने तेरे सदृश ही मन्त्रपाठी ब्राह्मण हो, 'श्राद्ध करूँगा' (सोच) एक भेड़ा मारकर (मृतक-भात) दिया। सो, मैंने, उस एक भेड़े को मारने के कारण, एक कम पाँच सौ योनियों में अपना सीस कटवाया। यह मेरा पाँचसौवाँ, अन्तिम जन्म है। आज मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊँगा' (सोच) हर्षित हुआ (और) इस कारण से हँसा। और जो रोया ? सो (तो यह सोचकर) कि मैं तो, एक भेड़े के मारने के कारण पाँच सौ जन्मों में (अपना) सीस कटा कर, आज इस दुःख से मुक्त हो जाऊँगा, (लेकिन) यह ब्राह्मण मुझे मारकर, मेरी तरह पाँच सौ जन्मों तक सीस कटाने के दुःख को भोगेगा। सो, तेरे प्रति करुणा से रोया।” “भेड़ ! डर मत। मैं तुम्हें नहीं मारूँगा।” “ब्राह्मण ! क्या कहते हो ? तुम चाहे मारो, चाहे न मारो, मैं आज मरण दुःख से नहीं छूट सकता।” “भेड़ ! डर मत। मैं तेरी हिफाजत (=आरक्षा) करता हुआ, तेरे साथ ही साथ घूमूँगा।” “ब्राह्मण ! तेरी हिफाजत अल्प-मात्र है; मेरा किया हुआ पाप बड़ा भारी है।”

ब्राह्मण, भेड़े को मुक्त कर, 'इस भेड़े को किसीको न मारने दूँगा' (सोच) शिष्यों को ले, भेड़े के साथ ही साथ घूमने लगा। भेड़े ने छूटते ही, एक पत्थर की शिला के पास उगी हुई भाड़ी की ओर गर्दन उठाकर, पत्ते खाने शुरू किये। उसी क्षण, उस पत्थर-शिला पर बिजली पड़ी। उसमें से पत्थर की एक फाँक ने छीज कर, भेड़े की पसारी हुई गर्दन पर गिर, गर्दन काट दी। जन (=समूह) एकत्र हो गया। उस समय बोधिसत्व, उस जगह वृक्ष-देवता हो कर उत्पन्न हुआ था। उसने उन लोगों को देखते ही, (अपनी) दैव-शक्ति से आकाश

में पल्लथी मारकर बैठ, 'अच्छा हो ! यदि ये प्राणी, पाप-कर्म के इस प्रकार के फल को जानकर, प्राण-हानि न करे' (सोच) मधुर स्वर से धर्मोपदेश करते हुए, यह गाथा कही—

एवं चे सत्ता जानेय्युं दुःखायं जाति सम्भवो,
न पाणो पाणिनं हञ्जे पाणघाती हि सोचति ॥

[यदि प्राणी, इस बात को समझ ले कि जाति (=जन्म लेना) दुःख है, तो (एक) प्राणी दूसरे प्राणी की हत्या न करे। प्राण-घात करनेवाले को चिन्तित रहना पड़ता है।]

“एवञ्चे सत्ता जानेय्युं . . .” यदि प्राणी इस प्रकार जान ले; कैसे दुःखायं जाति सम्भवो यह जहाँ तहाँ जन्म लेना तथा उत्पन्न (हुए) की क्रम-पूर्वक वृद्धि कहलाने वाला सम्भव (=होना)—यह, जाति, व्याधि, मरण, अप्रिय-सम्प्रयोग, प्रिय-विप्रयोग, हस्त-पाद छेदन आदि दुःखों का कारण होने से दुःख है—यदि इसे जान ले। न पाणो पाणिनं हञ्जे का अर्थ है कि दूसरो का वध करनेवाले का वध होता है, पीड़ा देनेवाले को पीड़ा होती है, इस प्रकार दूसरे जन्म में दुःख भोगना होता है, यदि इसे जान ले तो कोई प्राणी दूसरे प्राणी की हत्या न करे; एक सत्व दूसरे सत्व की हत्या न करे। किस कारण से ? प्राणघाती हि सोचति क्योंकि अपने हाथ से मारना दूसरे के हाथ से मरवाना आदि छः कर्मों में से किसी भी एक कर्म से दूसरे की जीवितेन्द्रिय (=प्राण) के नाश करनेवाला प्राण-घाती व्यक्ति, आठ महा-नरकों में, सोलह उस्सद-नरकों में, नाना प्रकार की पशु-योनियों में, प्रेत-योनि में, तथा असुर-योनि में—इन चार प्रकार के अपायों में महा-दुःख का अनुभव करते हुए, दीर्घ काल तक अन्तर-दाह करने वाले शोक से चिन्तित रहता है। अथवा, जैसे यह भेड़ मरने के डर से चिन्तित रहा, वैसे दीर्घ काल तक चिन्तित रहता है—यह जान कर भी कोई प्राणी प्राणियों की हत्या न करे। कोई भी प्राणातिपात (प्राण-घात) का कर्म न करे। लेकिन मोह से मूढ़ हुए, अविद्या से अन्धे हुए (लोग) इन दुष्परिणामों को न देखने के कारण प्राणातिपात करते हैं।

इस प्रकार महासत्व ने निरय (नरक) भय का डर दिखाकर धर्मोपदेश किया। मनुष्य, उस धर्मोपदेश को सुन, निरय से भयभीत हो, प्राणातिपात (जीव-हिंसा) से हटे। बोधिसत्व, उपदेश दे, मनुष्यों को शील (सदाचार) में प्रतिष्ठित कर, (अपने) कर्मानुसार, (परलोक) गये। जन (-समूह) ने भी बोधिसत्व के उपदेशानुसार आचरण कर, दान देना आदि पुण्य-कर्म कर, देव-नगर को भर दिया। शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला कर, जातक का सारांश निकाल दिखाया "मैं ही उस समय वृक्ष-देवता था।"

१६. आयाचितभक्त जातक

'सचे मुञ्चे. . . ' इस गाथा को, शास्ता ने जेतवन में विहार करते हुए, देवताओं की याचना सम्बन्धी बलिकर्म (= सुख सुखना) के बारे में कही।

क. वर्तमान कथा

उस समय (व्यापारी) लोग, व्यापार के लिए जाते समय, प्राणियों को मार, देवताओं की बलि चढ़ा, 'हम (यदि) बिना विघ्न-बाधा के (अपनी) अर्थ-सिद्धि करके लौटे, तो फिर आपको बलि चढ़ायेगे' कह, सुख सुख (= आयाचना) कर जाते थे। फिर बिना विघ्न-बाधा के अर्थ (= मतलब) पूरा कर, लौट आने पर, 'यह देव-कृपा से हुआ' सोच, बहुत से प्राणियों को मारकर, सुख पूरी करने (= आयाचना) से मुक्त होने के लिए, बलि-कर्म करते। उसे देख भिक्षुओं ने भगवान् से पूछा—भन्ते ! इस (बलि-कर्म) से कुछ मतलब सिद्ध होता है ? भगवान् ने अतीत की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में काशी-राष्ट्र के एक गामड़े में, एक कुटुम्बी ने ग्राम-द्वार पर

खड़े न्यग्रोध-वृक्ष के देवता की सुख सुख (=बलि-कर्म की प्रतिज्ञा) कर, बिना विघ्न-बाधा के (वापिस) लौट, बहुत से प्राणियों का बध कर, सुख पूरी करनी चाही। वह वृक्ष के नीचे गया। तब वृक्ष-देवता ने वृक्ष के टहने पर खड़े होकर यह गाथा कही—

सचे मुञ्चे पेच्च मुञ्चे मुच्चमानो हि बज्भति,
न हेवं धीरा मुच्चन्ति, मुक्ति बालस्स बन्धनं।

[यदि मुक्त होना है, तो आगे (फिर फिर के जन्म) से मुक्त हो, तू तो मुक्त होने का प्रयत्न करता हुआ, और भी बँधता है। धीरा (पण्डित) इस प्रकार मुक्त नहीं होत। बाल (=मूर्ख मनुष्य) का, मुक्ति (का प्रयत्न), और भी, उसके बन्धन (का कारण) होता है।]

सचे मुञ्चे पेच्च मुञ्चे=भो पुरुष ! यदि तू मुक्त होवे, यदि मुक्त होने की इच्छा होवे, (तो) पेच्च मुञ्चे, तो जैसे परलोक से मुक्त हो सके, वैसे (मुक्त होवे)। मुच्चमानो हि बज्भति, लेकिन जैसे तू प्राण-घात कर मुक्त होना चाहता है, वैसे तो मुक्त होने का प्रयत्न करनेवाला पाप-कर्म से बँधता है। न हेवं धीरा मुच्चन्ति, जो पण्डित पुरुष है वह इस प्रकार जन्म-मरण से मुक्त नहीं होते। क्यों? एव रूपा हि मुक्ति बालस्स बन्धनं इस प्रकार प्राणाति-पात करके प्राप्त की गई “मुक्ति” मूर्ख का बन्धन ही होती है—इस धर्म का उपदेश किया।

उस समय से आरम्भ करके मनुष्यों ने इस प्रकार के जीव-हिंसा-कर्म से हट धर्मानुसार आचरण कर, देव-नगर की पूर्ति की। शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिखाया। “उस समय, मैं ही वृक्ष-देवता था।”

२०. नलपाण जातक

“दिस्वा पदमनुत्तिष्णं . . .” यह गाथा, शास्ता ने कोशल (जनपद) में चारिका करते हुए, नलक-पान ग्राम पहुँच, नलक-पान पुष्करिणी पर केतक वन में विहार करते हुए नलदण्ड (सरकण्डों) के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

उस समय, भिक्षुओं ने नलक-पाण पुष्करिणी में नहा कर, सूई-घर (=सूई रखने की नालियाँ) बनाने के लिए, श्रामणों से सरकण्डे मँगवा, उन के आर पार छेद देख, शास्ता के पास आकर पूछा—भन्ते ! हम ने सूई-घर बनाने के लिए सरकण्डे मँगवाए हैं, वह नीचे से ऊपर तक छिदे हुए हैं । इसका क्या कारण है ? शास्ता ने “भिक्षुओ ! यह मेरे पुराने अधिष्ठान (=निश्चय) (का फल) है” कह अतीत की कथा कही—

ख. अतीत कथा

“पूर्व समय में वह वन-षण्ड (एक) अरण्य ही था । वहाँ की पुष्करिणी में रहनेवाला एक जल-राक्षस भी (पुष्करिणी में) उतरने वालों को खा जाता था । उस समय बोधिसत्व, रोहित मृग के बच्चे जितने बड़े, कपि-राज ही, अस्सी हजार वानरों से घिरे, कपि-सेना के नायक हो अरण्य में रहते थे । उसने वानर-गण को उपदेश दिया—“तात ! इस अरण्य में विष-वृक्ष हैं, अमनुष्य-परिगृहीत पुष्करिणियाँ हैं; इसलिए तुम किसी ऐसे फल-फूल को, जिसे पहले न खाया हो खाने के समय, किसी जल को, जिसे पहले न पिया हो पीने के समय मुझे पूछ लेना । वे “अच्छा” (कह) स्वीकार कर, एक दिन ऐसे स्थान पर गये, जहाँ पहले कभी न गये थे । वहाँ दिन में

बहुत देर तक पानी ढूँढते हुए, एक पुष्करिणी को देख, बिना पानी पिये, वहाँ बैठे, बोधिसत्व के आने की प्रतीक्षा करने लगे। बोधिसत्व ने आकर पूछा !
 “तात ! क्यों पानी नहीं पीते ?” “आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।”
 “तात ! अच्छा किया” (कह) बोधिसत्व ने पुष्करिणी के चारों ओर घूमकर, पद-चिन्हों को देखते हुए, (केवल) उतरने के ही चिन्हों को देखा। वापिस चढ़ने (के चिन्हों) को नहीं।

‘यह पुष्करिणी, निश्चय-पूर्वक अमनुष्य-परिगृहीत है’ जान, उसने कहा—
 “तात ! तुमने अच्छा किया, जो पानी नहीं पिया। यह पुष्करिणी अमनुष्य-परिगृहीत (ही) है।” जल-राक्षस ने भी यह जान, कि वह (पानी पीने के लिए) नहीं उतर रहे हैं, नीले पेट, सफेद मुँह, और लाल-हाथ-पैर वाला वीभत्स रूप धारण कर, पानी को चीरकर, (बाहर) निकल कहा—“तुम किस लिए बैठे हो ? उतर कर, पानी पीओ ?”

बोधिसत्व ने पूछा—“तू यहाँ पैदा-टुआ जल-राक्षस है ?”

“हाँ ! मैं हूँ।”

“तू ! यहाँ उतरने वालो को हडप लेता है ?”

“हाँ ! मैं यहाँ उतरने वालों को लेता हूँ। और तो और, मैं पक्षियों तक को नहीं छोड़ता। तुम, सब को भी खाऊँगा।”

“हम तुम्हें, अपने को खाने नहीं देंगे।”

“और पानी पीओगे ?”

“हाँ ! पानी पीयेंगे, और तेरे वशी-भूत न होंगे।”

तो, कैसे पानी पीओगे ?।”

“क्या तू समझता है कि (पुष्करिणी में) उतर कर पीयेंगे ? हम अस्सी हजार के अस्सी हजार (पुष्करिणी में) बिना उतरे, एक एक सरकण्डा ले, कंवल की नाली से पानी पीने की तरह, तेरी पुष्करिणी का पानी पीयेंगे ! इस प्रकार, तू हमें न खा सकेगा”—इस अर्थ को जान, शास्ता ने, अभिसम्बुद्ध होने की अवस्था में, इस गाथा के पहले दोनों चरण कहे—

दिस्वा पद्मनुत्तिणं दिस्वानोत्तरितं पवं,
 नळ्णे वारिं पिबिस्साम नेव मे त्वं वधिस्ससि ।

[(पैरों के) नीचे जाने के चिन्ह को देख (और) ऊपर आने के चिन्ह को न देख, हम सरकण्डे से जल पीयेंगे और तू हमें नहीं मारेगा।]

भिक्षुओ ! उस कपि-राज ने उस पुष्करिणी पर चढ़ने का एक भी पद-चिन्ह नहीं देखा । उतरने के पद-चिन्ह को उतरा ही देखा । इस प्रकार चढ़ने के पद-चिन्ह को न देख, और उतरने के पद-चिन्ह को देख 'यह पुष्करिणी निश्चित-रूप से अमनुष्य-परिगृहीता है' जान अपने साथ बात-चीत करनेवाली परिपद को कहा—**नळेन वारि पिबिस्साम्**, जिसका मतलब है कि हम तेरी पुष्करिणी से सरकण्डे से पानी पीयेंगे । और फिर बोधिसत्त्व ने ही कहा—**नेव मं त्वं बधिस्ससि**—इस प्रकार नल से पानी पीते हुए सपरिषद् मुझे तू नहीं मारेगा ।

ऐसा कह बोधिसत्त्व ने एक सरकण्डा मँगवा, पारमिताओं का ध्यान करा, सत्य-किरिया कर, मुख से फूँका । सरकण्डा अन्दर कुछ गाँठ भी बाकी न रख एक सिरे से दूसरे सिरे तक खोखला हो गया । इस प्रकार दूसरे दूसरे सरकण्डे भी मँगवा कर फूँक कर दिये । लेकिन इस प्रकार तो खतम नहीं हो सकते थे । इसलिए यहाँ ऐसे नहीं समझना चाहिए । बोधिसत्त्व ने अधिष्ठान किया कि इस पुष्करिणी के चारों ओर उगे हुए सब सरकण्डे एक-छिद्र वाले हो जायँ । बोधिसत्त्वों का हितचिन्तन महान् होने के कारण उनके अधिष्ठान पूरे होते हैं । तब से उस पुष्करिणी के गिर्द जितने भी सरकण्डे उगे वे सभी एक-छिद्र वाले हुए ।

इस कल्प में कल्प-भर तक रहने वाली चार ऋद्धियाँ हैं । कौन सी चार ? (१) चाँद कल्प भर खरगोश के चिन्ह वाला रहेगा । (२) बट्टक जातक^१ में आग बुझने की जगह इस सारे कल्प भर आग नहीं जलेगी । (३) घटिकार के रहने की जगह इस सारे कल्प भर पानी नहीं बरसेगा^२ । (४) इस पुष्करिणी के गिर्द उगने वाले सरकण्डे, इस सारे कल्प-भर एक-छिद्र वाले ही उगेंगे । यह चार कल्प-भर तक रहने वाली ऋद्धियाँ हैं । बोधिसत्त्व ऐसा अधिष्ठान करके

^१ बट्टक जातक (३५)

^२ घटिकार सुत (मज्झिम निकाय)

एक सरकण्डे लेकर बैठे । वे अस्सी हजार वानर भी एक एक सरकण्डा लेकर पुष्करिणी को घेर कर बैठे । बोधिसत्व के सरकण्डे से खँच कर पानी पीने के समय उन्होंने भी किनारे पर बैठे ही बैठे पिया । इस प्रकार उनके पानी पीने पर जल-राक्षस कुछ भी न पाकर असन्तुष्ट हो अपने निवास-स्थान को गया । बोधिसत्व भी अपने अनुचरों सहित जंगल में प्रविष्ट हुए ।

शास्ता ने 'भिक्षुओ ! इन सरकण्डो का एक-छिद्र वाले होना मेरे ही पुराने अधिष्ठान का फल है', कह धर्म-देशना ला, मेल भिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया ।

उस समय जल-राक्षस देवदत्त था । अस्सी हजार वानर बुद्ध-परिषद् । हाँ, उपाय-कुशल कपिराज में ही था ।

पहला परिच्छेद

३. कुरुंग वर्ग

२१. कुरुंगमिग जातक

“जातमेतं कुरुङ्गस्सा. . . .” यह गाथा शास्ता ने, वेळुवन में विहार करते समय, देवदत्त के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

एक समय धर्मसभा में बैठे भिक्षु, देवदत्त की निन्दा करते हुए कह रहे थे; “आवुसो ! देवदत्त ने तथागत के मारने के लिए धनुर्धर नियुक्त किये, शिला फेंकी, धनपालक (हाथी) को छोड़ा,—इस प्रकार सब तरह से तथागत के वध का प्रयत्न करता है।” बुद्ध ने आकर, बिछे आसन पर बैठ, भिक्षुओं से पूछा—“भिक्षुओ ! इस समय क्या बात-चीत हो रही है ?” “भन्ते ! देवदत्त, आपके वध के लिए प्रयत्न करता है, सो हम बैठे उसकी निन्दा कर रहे हैं।” शास्ता ने “भिक्षुओ ! देवदत्त केवल अब ही मेरे वध का प्रयत्न नहीं कर रहा है, पहले भी किया है, लेकिन (वह) समर्थ नहीं हुआ” कह अतीत की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व, कुरुङ्गमृग (की जून में उत्पन्न) हो, एक अरण्य में फल खाकर रहते थे। एक बार, वह फलदार सेपण्ण वृक्ष के सेपण्ण फल खाते थे। एक ग्रामीण, अटारी पर से शिकार खेलनेवाला शिकारी, फल-दार वृक्षों के नीचे मृगों के पद-चिन्ह देख, उन वृक्षों के ऊपर अटारी बाँध, उसपर से फल खाने के लिए

आये मृगों को शक्ति (आयुध) से बीध, उनका मास बेचकर गुजारा करता था। उसने एक दिन, उस वृक्ष के नीचे जा बोधिसत्व के पद-चिन्ह को देखा। उस सेपण्णी-वृक्ष पर अटारी बाँध, प्रातःकाल ही (खाना) खा, शक्ति ले, बन में प्रवेश कर, उस वृक्ष पर चढ़ अटारी पर जा बैठा। बोधिसत्व भी प्रातःकाल ही अपने निवास-स्थान से निकल सेपण्णि फलों को खाने की इच्छा से उस वृक्ष के नीचे एक दम न जा, 'कभी कभी अटारी बाँध शिकार खेलने वाले शिकारी, वृक्षो पर अटारी बाँधते हैं' (सोच) कही इस तरह की कुछ गड़बड़ (= उपद्रव) तो नहीं है (सोचते हुए) बाहर ही खड़े रहे। शिकारी ने बोधिसत्व को न आता जान, अटारी पर बैठे ही बैठे, सेपण्णी-फलों को बोधिसत्व के आगे फेंका। बोधिसत्व ने 'यह फल आ आ कर मेरे सामने गिरते हैं। शायद ऊपर शिकारी है' (सोच) बार बार ऊपर देखते हुए, शिकारी को देख, न देखे की ही तरह हो, कहा—'हे वृक्ष ! पहले तू लटका कर गिराते हुए की तरह, फलों को सीधे ही गिराता था। लेकिन, आज तूने अपना वृक्ष-स्वभाव छोड़ दिया। सो, जब तूने वृक्ष-स्वभाव छोड़ दिया, तो मैं भी (तुझे छोड़) दूसरे वृक्ष के नीचे जा अपना आहार खोजूँगा।" यह कहकर, यह गाथा कही—

**आतमेतं कुरुङ्गस्स यं त्वं सेपण्णि ! सेट्थसि,
अञ्ज सेपण्णिं गच्छामि न मे ते रुच्चते फलं ।**

[हे सेपण्णि ! यह जो तू (मेरे आगे) विशेष रूप से (फल) फेंक रहा है, उससे कुरुङ्ग (मृग) को मालूम हो गया है। इसलिए मैं अब दूसरे सेपण्णि-वृक्ष के नीचे जाऊँगा। मुझे तेरे फल अच्छे नहीं लगते]

आतं का अर्थ है प्रकट हो गया। एतं = यह। कुरुङ्गस्स = कुरुङ्ग मृग को। यं त्वं सेपण्णि ! सेट्थसि का अर्थ है कि हे सेपण्णि-वृक्ष ! यह जो तू (मेरे) आगे आगे फलों को बिखेर कर, श्रेष्ठता = विशेषता धारण कर रहा है, फल-बिखेरने वाला हो रहा है, वह सब कुरुङ्ग मृग को मालूम हो गया है। न मे ते रुच्चते फलं = "इस प्रकार फल देते हुए के, तेरे फल मुझे अच्छे नहीं लगते। तू ठहर ! मैं दूसरी जगह जाता हूँ" कह चला गया।

शिकारी ने अटारी पर बैठे ही बैठे शक्ति फेंक कर कहा—“जा । तू इस बार बच गया ।” बोधिसत्व ने रुक कर, खड़े हो कहा—“मैं तो अब जैसे तैसे बच गया, लेकिन तू आठ महा नरकों^१ से, सोलह उस्सदनरकों^१ से, पाँच प्रकार के बन्धन आदि दण्डों से, नहीं बचेगा ।” इतना कह भाग कर, जिघर इच्छा थी, उधर चला गया । शिकारी भी उतर कर, यथारुचि चला गया ।

बुद्ध ने, “भिक्षुओ ! देवदत्त केवल अब ही मेरे बध का प्रयत्न नहीं कर रहा है, पहले भी किया है, लेकिन (वह) सफल नहीं हुआ” कह इस घर्मोप-देश को लाकर, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया । उस समय अटारी पर से शिकार खेलने वाला शिकारी (अब का) देवदत्त था । (और) कुरुङ्गमृग तो मैं था ही ।

२२. कुक्कुर जातक

“ये कुक्कुरा . . .” इस गाथा को नास्ता ने, जेतवन में विहार करते समय, वाति(-सम्बन्धियो) के वारे में कहा ।

क. वर्तमान कथा

वह (कथा) तो बारहवे परिच्छेद के भद्रसाल-जातक^१ में आयेगी । यहाँ तो (वर्तमान-)कथा की स्थापना के बाद की अतीत की कथा कही गई है—

^१ सञ्जीव, कालसूत्र, संघात, रौरव, महारौरव, तपन, प्रतापन तथा अवीचि—यह आठ महानरक हैं । इनके अतिरिक्त और भी नरक हैं, जिनमें से कुछ ‘उस्सद-नरक’ कहलाते हैं ।

^१ भद्रसाल जातक (४६५)

ख. अतीत कथा

“पूर्व समय में, (राजा) ब्रह्मवत्त के वाराणसी में राज्य करने के समय, बोधिसत्व, किसी वैसे कर्म के फलस्वरूप कुत्तो में पैदा हो, सैकड़ों कुत्तों को साथ लिये, महा श्मशान में रहते थे ।

एक दिन राजा उजले-घोड़ों वाले, सब अलङ्कारों से अलंकृत रथ पर चढ़, उद्यान में जा, वहाँ दिन भर खेल, सूर्यास्त होने पर, (वापिस) नगर में प्रविष्ट हुआ । रथ को, उन्होंने जैसे का तैसा कसा ही, राजाङ्गण में खड़ा कर दिया । रात को वर्षा होने से, वह भीग गया । महल के ऊपर रहने वाले पारिवारिक कुत्ते उतर कर, रथ के चर्म और चमड़े की रस्सी खा गये । अगले दिन राजा को खबर दी गई कि “देव ! कुत्तो ने मोरी में से घुसकर, रथ के चर्म और चमड़े की रस्सी खा डाली है ।” राजा ने कुत्तो पर क्रोधित हो आज्ञा दी कि “जहाँ-जहाँ कुत्ते दिखाई दे उन्हें मार डालो ।” उस समय से कुत्तो पर बड़ी विपत्ति आई । वे जहाँ जहाँ दिखाई दे, वहाँ वहाँ मारे जाते हुए, भाग कर श्मशान में बोधिसत्व के पास पहुँचे । बोधिसत्व ने पूछा—“तुम बहुत सारे इकट्ठे हाँकर आये हो, क्या कारण है ?” उन्होंने उत्तर दिया—“अन्तःपुर में कुत्तो के रथ के चर्म और चमड़े की रस्सी खा लेने से क्रुद्ध हो राजा ने (सभी) कुत्तो के मारने की आज्ञा दी है । बहुत कुत्तो का नाश हो रहा है । महा-भय उत्पन्न हुआ है ।” बोधि(-सत्त्व) ने सोचा—“पहरे के स्थान में, बाहर के कुत्तो को तो (ऐसा करने का) मौका नहीं । राज-महल के अन्दर रहने वाले पारिवारिक कुत्तों की ही यह करनी होगी । लेकिन अब चोरो को तो कुछ (दण्ड) नहीं । अचोर मर रहे हैं । क्यों न मैं राजा को (असली) चोर दिखाकर, (अपने) जाति-संघ को जीवन-दान दिलवाऊँ ?” उसने कुत्तो को सान्त्वना दे, “तुम मत डरो । मैं ‘अभय-दान’ ले आऊँगा । जब तक मैं राजा से मिल (आऊँ), तब तक तुम यही रहो ।” (कह) पारमिताओं का विचार कर, मैत्री-भावना को आगे कर, अधिष्ठान किया—कि मेरे ऊपर रोड़ा, मुद्गर वा अन्य कोई चीज कोई न फेंके । (और यह अधिष्ठान कर) उसने, अकेले ही नगर के अन्दर प्रवेश किया । सो, उसे देखकर, किसी एक जने ने भी, उसपर क्रोध नहीं किया । राजा कुत्तो के बध की आज्ञा देकर, अपने न्यायासन पर बैठा था । बोधिसत्व,

वहीं पहुँच, उछल कर, राजा के आसन के नीचे चले गये। राज-पुरुष उसको निकालने को तैयार हुए। लेकिन, राजा ने रोक दिया। बोधिसत्व ने थोड़ी देर साँस ले, राज्यासन के नीचे से निकल, राजा को प्रणाम कर पूछा—
“क्या आप कुत्तों को मरवाते हैं ?” “हाँ ! मैं (मरवाता हूँ)।” “राजन ! उनका क्या अपराध है ?” “उन्होंने मेरे रथ के ऊपर का चमड़ा और चमड़े की रस्सी खा ली।” “मालूम है, किन कुत्तों ने खाई है ?” “नहीं जानता।”

“देव ! ‘इन्होंने चर्म खाया है’, इसे ठीक से न जान, जहाँ जहाँ (कुत्ते) दिखाई दें, उन सभी को मरवाना उचित नहीं।”

“क्योंकि, रथचर्म को कुत्ते ने खाया था, इसलिए मैंने आज्ञा दे दी कि जहाँ जहाँ (कुत्ते) दिखाई दें, उन सभी को मार डालो।”

“तो, क्या मनुष्य, सभी कुत्ते को मारते हैं ? या ऐसे भी कुत्ते हैं, जो नहीं मारे जाते ?”

“हैं, हमारे घर के कुत्ते नहीं मारे जाते।”

“महाराज ! अभी तो आपने कहा, “क्योंकि, रथचर्म को कुत्तों ने खाया, इसलिए मैंने आज्ञा दे दी कि जहाँ जहाँ (कुत्ते) दिखाई दें, उन सबो को मारो”, और अभी आप कहते हैं कि “हमारे घर के कुत्ते मारे नहीं जाते।” ऐसा होने पर, क्या आप पक्षपाती हो, अगति^१ को नहीं प्राप्त हो रहे ? अगति को प्राप्त होना अनुचित है। यह राज-धर्म नहीं। राजा को बात की तह में जाने के विषय में तुला की सदृश निष्पक्ष होना चाहिए। सो, घर के कुत्ते तो मारे नहीं जाते, दुर्बल कुत्ते ही मारे जाते हैं। यदि ऐसा है, तो यह सब कुत्तों का घात करना नहीं है, केवल दुर्बल कुत्तों का घात करना है।” यह कह, बोधिसत्व ने मधुरस्वर से, “महाराज ! यह जो आप कर रहे हैं सो (राज-)धर्म नहीं” कहते हुए, यह गाथा कही—

ये कुक्कुरा राजकुलमिह बद्धा,
कोलेट्यका वण्ण बलूपपन्ना,

^१ छन्द, दोष, भय तथा मूढ़ता के वशीभूत हो अकर्तव्य करना (अंगुत्तर निकाय, अलुक्कनिपात तथा दीघनिकाय, सिंगालोवाद सुत्त)।

ते मे न वज्रभा मयमस्म वज्रभा,
नायं सघच्चा दुब्बलघातिकायं ॥

[जो वर्ण और बल से युक्त, राज-कुल में पले, राज्य-कुल के कुत्ते हैं, सो तो मारे नहीं जाते, (केवल) हम ही मारे जाते हैं। यह (सब) कुत्तों का मारना नहीं है। (केवल) दुर्बल कुत्तो का मारना है]

येकुक्कुरा—जो कुत्ते। जैसे धारोष्ण पेशाब भी गन्दा मूत्र (कहलाता है); उसी दिन पैदा हुआ शृगाल भी पुराना (=जर) शृगाल (कहलाता है); कोमल गडुच (=गलोचि) बेल भी गन्दी-लता (कहलाती है); स्वर्ण-वर्ण काय भी 'गन्दा-शरीर' (कहलाता है); इसी प्रकार सौ वर्ष का कुत्ता भी **कुक्कुर** कहलाता है। इसलिए, बूढ़ो, बड़े बड़े शरीर वालों को भी 'कुक्कुर' ही कहा गया है। **वद्धा**—वर्धिता (=पले)। **कोलेय्यका**—राजकुल में पैदा हुए, पले। **वण्णबलूपपप्पन्ना**—शरीर-वर्ण और काय-बल से युक्त। **ते मे न वज्रभा**—सो यह स्वामियों वाले, आरक्षा वाले (कुत्ते) बध्य नहीं हैं। **मयमस्म वज्रभा** हम, जिनका कोई स्वामी नहीं, कोई हिफाजत करने वाला नहीं; हम ही बध्य हैं। **नायं सघच्चा** सो ऐसा होने पर, तो यह सब (कुत्तों) का मारना नहीं है, "दुब्बल घातिकायं" दुर्बलो का घात करने से यह (केवल) दुर्बलों को मारना है। राजाओं को चोरो का निग्रह करना चाहिए, अचोरों का नहीं। लेकिन यहाँ चोरो को तो कुछ नहीं, अचोर मारे जाते हैं। ओह ! इस लोक में अनौचित्य होता है। ओह ! अधर्म होता है।

राजा ने बोधिसत्त्व के वचन को सुनकर, पूछा—“पण्डित ! क्या तुम्हें मालूम है कि अमुक (कुत्तो) ने रथ-चर्म खाया है ?”

“हाँ ! जानता हूँ ।”

“किन्होंने खाया है ?”

“तुम्हारे घर (ही) में रहने वाले कुत्तों ने ।”

“यह कैसे मालूम हो, कि उन्होंने खाया है ?”

“उनका खाना मैं साबित करूँगा (=दिखाऊँगा) ।”

“पण्डित ! दिखा ।”

“अपने घर के कुत्तों को भेंगवा, थोड़ा मट्टा और दूब के तिनके भेंगवा लें ।”

राजा ने वैसा किया । महासत्व ने कहा—इस मट्टे में, इन तिनकों को मथ-कर, इन कुत्तों को पिलवा दें । राजा ने वैसा करा, मट्टा पिलवा दिया । जिस ने पिया, उस उस कुत्ते ने चमड़े सहित उल्टी कर दी । राजा ने इसे सर्वज्ञ, बुद्ध के समझाने के समान जान, अति प्रसन्न हो, श्वेत छत्र से बोधिसत्व की पूजा की । बोधिसत्व ने, “धम्मं चर महाराज ! मातापितुसु खत्तिय (=महाराज ! हे क्षत्रिय ! माता पिता के प्रति धर्म का व्यवहार करें)” आदि, तेसकुण जातक^१ में आई हुई दस धर्माचरण सम्बन्धी गाथाओं से राजा को धर्मोपदेश कर, “महाराज ! अब से आप अप्रमादी (हो) रहें” (कह), राजा को पाँचशीलों में प्रतिष्ठापित कर, श्वेत-छत्र राजा को ही लौटा दिया ।

राजा महासत्व (=बोधिसत्व) की धर्म-कथा सुन, सभी प्राणियों को ‘अभय-दान’ दे, बोधिसत्व-प्रमुख सब कुत्तों के लिए अपने भोजन जैसे ही भोजन के नित्य मिलने का प्रबन्ध कर, बोधिसत्व के उपदेशानुसार आचरण कर, आयु रहते दान आदि पुण्य-कर्म कर, मरने पर देवलोक में उत्पन्न हुआ । कुक्कुरोवाद (=कुत्ते के उपदेश) का दस हज़ार वर्ष (तक प्रभाव) रहा । बोधिसत्व भी, जितनी आयु थी, उतना जीवित रहकर, कर्मानुसार (परलोक) गये ।

बुद्ध ने, ‘भिक्षुओ ! तथागत केवल अब ही अपने जाति-सम्बन्धियों का उपकार नहीं करते; पहले भी किया ही है’ कह, इस धर्म-देशना को ला मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिखाया । उस समय का राजा (अब का) आनन्द था । शेष सब बुद्ध-परिपद् थी । लेकिन कुक्कुर में ही था ।

^१ तेसकुण जातक (५२१)

२३. भोजाजानीय जातक

“अपि पस्सेन सेमानो. . . .” यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक प्रयत्न-हीन भिक्षु के बारे में कही।

क. वर्तमान कथा

उस समय शास्ता ने उस भिक्षु को आमन्त्रण कर, ‘भिक्षु ! पूर्व समय में पण्डित लोग सामर्थ्य से बाहर के (कार्य) में भी प्रयत्नवान होते थे। चोट खाकर भी, प्रयत्न न छोड़ते थे’ कह, अतीत की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व, भोजाजानीय नाम के सैन्धव-कुल (सिन्धु पार के घाड़ों के कुल) में उत्पन्न हो, बाराणसी नरेश के, सब अलंकारों से अलंकृत माङ्गलीक अश्व हुए। वह लाख के मूल्य की सोने की थाली ही में नाना प्रकार के श्रेष्ठ रसों से युक्त तीन वर्ष के पुराने चावल का (बना) भोजन खाते थे। चार प्रकार की सुगन्धि से लिपी भूमि पर खड़े होते थे। वह (खड़े होने का) स्थान, लाल कम्बल की कनात से घिरा था। उसके ऊपर, सोने के तारे लगा हुआ कपड़े का चन्दवा (तना) था। चारों ओर सुगन्धित पुष्प-मालायें (लटकती) थीं और सदा सुगन्धित तेल का प्रदीप (जलता) रहता था। ऐसा कोई राजा नहीं है, जो बाराणसी के राज्य की इच्छा न करता हो। एक बार सात राजाओं ने बाराणसी को घेर कर बाराणसी के राजा के पास सन्देश भेजा “या तो हमें राज्य दे दो, अथवा युद्ध करो।” राजा ने अमात्यों को एकत्रित कर, वह समाचार कह, पूछा—“कि तात ! अब क्या करें ?” “(अमात्यों ने उत्तर

दिया) “देव ! पहले तुम्हें युद्ध के लिए नहीं जाना चाहिए । पहले अमुक नाम के अश्वारोह को भेज कर युद्ध कराना चाहिए । उसके असमर्थ रहने पर, (हम) फिर सोचेंगे (=जानेंगे) ।” राजा ने उस (अश्वारोह) को बुलवा कर पूछा, “तात ! क्या सात राजाओं के साथ युद्ध कर सकोगे ?” “देव ! यदि मुझे भोजाजानीय सिन्धव मिले, तो सात राजा तो क्या, मैं सकल जम्बूद्वीप के राजाओं से युद्ध कर सकूंगा ।” “तात ! भोजाजानीय सिन्धव ही, अथवा कोई और हो, जो अच्छा लगे, उसे लेकर युद्ध करो ।”

उसने, ‘देव ! अच्छा’ कह, राजा को प्रणाम किया । फिर प्रासाद से उतर, सिंधुदेशीय भोजाजानीय (घोड़े) को मँगावा, उस पर कवच बाँध, अपने भी सब शस्त्र धारण कर, खड़ग बाँध, सिंधु देशी (=घोड़े) की पीठ पर सवार हुआ । फिर नगर से निकल, बिजली की तरह घूमते हुए, पहले सेना के घेरे को तोड़, एक राजा को जीवित ही पकड़ लिया । फिर नगर को बिना लौटे, (उस राजा को) अपनी सेना को सौंप; फिर जाकर, दूसरे सेना के घेरे को तोड़, दूसरे (राजा) को पकड़ लिया । इस प्रकार उसने पाँच राजाओं को जीवित ही पकड़ लिया । छठे सेना के घेरे को तोड़ कर छठे राजा को पकड़ने के समय भोजाजानीय को चोट आ गई । लहू बह रहा था । कड़ी वेदना हो रही थी । अश्वारोह भोजाजानीय को ‘चोट लगी’ जान, उसे राज-द्वार पर लेटा, साज ढीला कर, दूसरे घोड़े को कसने को तैयार हुआ । बोधिसत्त्व ने अत्यन्त मुख के ढंग से लेटे ही लेटे आँखें खोल, अश्वारोह को देख, सोचा—“यह (अश्वारोह) दूसरे घोड़े को कस रहा है । यह घोड़ा, सातवें सेना के घेरे को तोड़, सातवें राजा को न पकड़ सकेगा । मेरा किया कराया (काम) नष्ट हो जायगा । यह अतुलनीय अश्वारोह भी नाश को प्राप्त होगा । राजा भी पराये हाथ चला जायगा । मुझे छोड़, कोई भी दूसरा घोड़ा, सातवें सेना के घेरे को तोड़, सातवें राजा को नहीं पकड़ सकता ।” (यह सोच) उसने लेटे ही लेटे अश्वारोह को बुलवा, “मित्र अश्वारोह ! मुझे छोड़, सातवें सेना के घेरे को तोड़, सातवें राजा को पकड़ ला सकने वाला, अन्य कोई घोड़ा नहीं है । मैं अपने किये करायें काम को नष्ट न होने दूँगा । मुझे ही उठा कर, कस । ” कह यह गाथा कही—

अपि पस्सेन सेमानो सल्लेहि सल्लली कतो ,

सेय्योव वळवा भोज्जो युञ्ज मञ्जेव सारथि ॥

[शल्य से जखमी हो गये होने के कारण, एक करवट सोया हुआ भी भोजाजानीय-अश्व ही (किसी दूसरे) घोड़े से श्रेष्ठ है। इसलिए हे सारथी ! तू मुझे ही, कस ।]

अपि पस्सेन सेमानो—एक पासे पर सोने वाला होता हुआ भी । **सल्लेहि सल्लली कतो**, शल्य से बिधा रहने पर भी । **सेय्योव वळवा भोज्जो**, वळवा कहते हैं सिन्धव-कुल में अनुत्पन्न साधारण अश्व को । **भोज्ज**—भोजाजानीय सिन्धव । इस साधारण घोड़े की अपेक्षा, शल्य से बिधा हुआ भी भोजाजानीय अधिक श्रेष्ठ है—अच्छा है—उत्तम है । **युञ्ज मञ्जेव सारथि**, क्योंकि जब ऐसा होने पर भी, मैं ही अधिक श्रेष्ठ हूँ, तो हे सारथी ! तू मुझे ही जोड़, मुझे ही कस ।”

सवार ने बोधिसत्त्व को उठा, जखमों को बाँधा; और अच्छे प्रकार कस कर, उसकी पीठ पर जा बैठा । सातवें सेना के घेरे को तोड़, सातवे राजा को जीवित ही पकड़, लाकर राज-सेना को सौपा । बोधिसत्त्व को भी राज-द्वार पर लाया गया । राजा, उसके दर्शन करने के लिए बाहर निकला । महान-सत्त्व ने राजा को कहा—“महाराज ! (इत) सात राजाओं को मारे मत । शपथ करवा कर, छोड़ दे । मुझे और अश्वारोह को जो यश देना है, वह सब अश्वारोह को ही दे । सात राजाओं को पकड़ ला देने वाला योधा नष्ट करने के योग्य नहीं है । आप भी दान दे । शील (=सदाचार) की रक्षा करें । धर्म से और पक्षपात रहित होकर राज्य करें ।” इस प्रकार बोधिसत्त्व के राजा को उपदेश कर चुकने पर, बोधिसत्त्व का साज खोल दिया गया । वह, साज के खुलते ही खुलते चल बसा । राजा ने उसका शरीर-कृत्य करवा, अश्वारोह को महान् यश दे, सात राजाओं से फिर दुबारा द्रोह न करने की शपथ करवा, उन्हें उन उनके स्थान पर भेज दिया । तदनन्तर, राजा, धर्म से तथा पक्षपात-रहित राज्य करते हुए, आयु समाप्त होने पर, कर्मानुसार, (परलोक को) गया ।

बुद्ध ने, हे भिक्षु ! पहले समय में पण्डितों ने सामर्थ्य से बाहर (=अनायतन) बात के लिए भी प्रयत्न किया है । इस प्रकार की चोट (=प्रहार) खाकर भी

प्रयत्न को ढीला नहीं छोड़ा । तू, इस प्रकार के नैर्याणिक (—मोक्षदायक) शासन में प्रन्नजित होकर भी, क्यो प्रयत्न ढीला करता है ?” कह चार (आर्य-) सत्त्यों को प्रकाशित किया । सत्त्यों का प्रकाशन समाप्त होने पर, प्रयत्न-हीन भिक्षु, अर्हत्व-फल में प्रतिष्ठित हो गया । शास्ता ने इस धर्म-देशना को कह, मेल मिला कर, जातक का सारांश निकाल दिखाया । उस समय का राजा (अब का) आनन्द था । अश्वारोह सारिपुत्र, (और) भोजाजानीय सिन्धव (-घोड़ा) तो मैं ही था ।

२४. आजञ्ज जातक

“यदा यदा . . .” यह भी गाथा, बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय (एक) शिथिल-प्रयत्न भिक्षु के ही वारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उस भिक्षु को आमन्त्रित कर—“भिक्षु ! पूर्वं समय में पण्डितों ने सामर्थ्य से बाहर (बात) के लिए भी, जरूम खा कर भी, प्रयत्न किया है” कह, पूर्वं की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्वं समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, पूर्वोक्त अनुसार ही, सात राजाओं ने नगर को घेर लिया । एक रथ-सवार योद्धा ने, दो सहोदर-सैन्धव-घोड़ों को रथ में जोत, नगर से निकल, छः सेना के घेरों को तोड़, छः राजाओं को पकड़ा । उस समय (दो अश्वों में से) ज्येष्ठ अश्व पर प्रहार पड़ा । सारथी रथ को जोड़, हाँकता हुआ राज-द्वार पर आया और

ज्येष्ठ-सहोदर को रथ से खोल, साज्र को ढीला कर, एक पासे पर लिटा, दूसरे घोड़े को कसने को तैयार हुआ। बोधिसत्त्व ने उसे देख, पूर्व प्रकार से ही सोच, सारथी को बुलवा, लेटे ही लेटे यह गाथा कही—

यदा यदा यत्थ यदा यत्थ यत्थ यदा यदा

आजञ्जो कुरुते वेगं हायन्ति तत्थ वाळवा' ॥

[जब जब जहाँ, जब, जहाँ जहाँ, जब जब, आजानीय (घोड़ा) प्रयत्न (—वेग) करता है, उस समय (—वहाँ) साधारण घोड़े (खलुक-अश्व) रह जाते हैं।]

यदा यदा का अर्थ है कि पूर्वाण्ह समय आदि जिस किसी समय पर। यत्थ = जिस स्थान पर, मार्ग में वा सग्राम में। यदा = जिस क्षण में। यत्थ यत्थ = सात सेना के घेरे के नाम के बहुत से युद्ध-मण्डलो में। यदा यदा = जिस जिस समय, प्रहार पड़े रहने के समय, वा न पड़े रहने के समय। आजञ्जो कुरुते वेगं सारथी के चित्त का भुकाव (—अच्छी लगने वाली बात) जानने की सामर्थ्य रखने वाला आजञ्जो = श्रेष्ठ अश्व, शीघ्रता करता है, प्रयत्न करता है, हिम्मत करता है। हायन्ति तत्थ वाळवा = उस वेग (—प्रयत्न) के किये जाते समय, शेष साधारण घोड़े कहे जाने वाले खलुक अश्व रह जाते हैं (—ह्रास को प्राप्त होते हैं)। इसलिए कहा कि इस रथ में मुझे ही जोत।

सारथी ने बोधिसत्त्व को उठा, (रथ में) जोत, (उसे) हाँक, सातवे सेना के घेरे को तोड़, सातवें राजा को पकड़ (—ले), रथ को हाँक, राज-द्वार पर सिन्धव-अश्व को खोला। बोधिसत्त्व एक ही पासे पर लेटे लेटे, पूर्व प्रकार ही राजा को उपदेश दे, मरण को प्राप्त हुए। राजा, उस का शारीरिक-कृत्य करवा, सारथी का सम्मान कर, धर्मानुसार राज्य कर, यथा-कर्म (परलोक) गया।

बुद्ध ने इस धर्म-देशना को कह, चारों (आर्य-सत्त्वों) को प्रकाशित कर, जातक का सारांश निकाल दिखाया। सत्त्वों के प्रकाशन की समाप्ति पर, वह भिक्षु अर्हत्व में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय राजा (अब के) आनन्द स्वधर थे। और अश्व थे सम्यक् सम्बुद्ध।

२५. तित्थ जातक

“अञ्जमञ्जहि तित्थेहि. . .” यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, धर्मसेनापति (—सारिपुत्र) के शिष्य, एक सुनार-पुत्र भिक्षु के बारे में कही।

क. वर्तमान कथा

दूसरों के आशय (—चित्तावस्था) का ज्ञान केवल बुद्धों को ही होता है, अन्यो को नहीं। इसलिए सारिपुत्र ने, अपने में दूसरों की चित्तावस्था जानने की सामर्थ्य न होने के कारण, अपने साथी के चित्त की अवस्था न जान कर, उसे अशुभ कर्मस्थान^१ बताया। उसको वह कर्मस्थान अनुकूल नहीं पड़ा। क्यों? उसने पाँच सौ जन्म तक नियम से सुनार के ही घर में जन्म ग्रहण किया था। सो चिरकाल तक परिशुद्ध सोने को ही देखते रहने का अभ्यास रहने से, अशुभ (कर्मस्थान) उसको अनुकूल नहीं पडा। उसने (अभ्यास करते) चार महीने बिता दिये, (लेकिन) वह निमित्त^२ मात्र भी पैदा नहीं कर सका। धर्मसेनापति, जब अपने साथी को स्वयं ग्रहत्व न दे सके, तो उन्होंने सोचा कि ‘यह निश्चय से बुद्ध-वैनेय है, “मैं इसे तथागत के पास ले चलूँगा।” यह सोच, प्रातःकाल ही वह उसे लेकर तथागत के पास गये।

शास्ता ने पूछा, “सारिपुत्र ! क्यों, एक भिक्षु को लेकर आये हो ?” “भन्ते ! मैंने इसे कर्मस्थान दिया। चार महीने में यह निमित्त-मात्र भी पैदा न कर सका। ‘यह बुद्धवैनेय होगा’ सोच, मैं इसे आपके पास लेकर आया

^१ शरीर की गन्दगियों का ख्याल कर, योगाभ्यास करना।

^२ शरीर के ३२ हिस्सों में से किसी का भी काल्पनिक आकार।

हूँ।” “सारिपुत्र ! तूने अपने शिष्य को कौन सा कर्मस्थान दिया था ?”
 “भगवान् ! अज्ञान-कर्मस्थान।”

“सारिपुत्र ! तेरी (चित्त-)सन्तति में आशयानुशय-ज्ञान नहीं। जा, शाम को आना और अपने शिष्य को साथ ले जाना।”

इस प्रकार स्थविर को अनुज्ञा कर, शास्ता ने उस भिक्षु को सुन्दर निवास-स्थान और चीवर दिलवा, (फिर) उसे साथ ले, भिक्षाचार के लिए प्रवेश कर, प्रणीत भोजन (—खाद्य-भोज्य) दिलवा, महाभिक्षुसंघ सहित विहार को लौट दिन का समय गन्धकुटी में बिताया। शाम को उस भिक्षु को साथ ले, विहार चारिका करते हुए, आम्रवन में, (दिव्य शक्ति से) एक पुष्करिणी; उसमें पद्मों का एक गुच्छा; और उनमें भी एक बड़ा कमल-फूल निर्माण कर, उस भिक्षु को, “भिक्षु ! तू इस फूल को देखते हुए बैठा रह” (कह) बिठा कर, स्वयं गन्धकुटी में प्रविष्ट हुए।

वह भिक्षु, उस फूल को बार बार देखने लगा। भगवान् ने उस फूल को कुम्हला दिया। उसके देखते ही देखते, वह फूल कुम्हला कर कुरूप हो गया। उसके सिरे पर के पत्ते गिरते गिरते थोड़ी ही देर में सब के सब गिर गये। उसके बाद रेणु गिरी। केवल डोडा शेष रह गया। उस भिक्षु को उसे देखते देखते ख्याल आया—“यह पुष्प अभी सुन्दर था, दर्शनीय था। अभी, इसका रंग बदल गया, पत्ते और रेणु गिर पड़े। केवल डोडा रह गया। जब इस प्रकार का यह फूल कुम्हला गया, तो मेरे शरीर को क्या नहीं हो जायगा ?” (यह सोचते सोचते) सभी संस्कारों की अनित्यता का विचार कर, विदर्शना में स्थापित हुआ। शास्ता ने, ‘उसका चित्त विदर्शनारूढ़ हो गया’ जान, गन्ध-कुटी में बैठे ही बैठे, (अपने) तेज को फैला, यह गाथा कही—

उच्छिन्द सिनेहमत्तनो कुमुदं सारदिकं व पाणिना,
 सन्तिमग्गमेव ब्रह्म निब्बाणं सुगतेन देसितं ॥^१

[हाथ से शरद ऋतु के कमल की तरह, अपने राग (—स्नेह) की जड़ उखाड़ फेंको। सुगत द्वारा उपदिष्ट निर्वाण रूपी शान्ति-मार्ग में ही उन्नति करो।]

^१ धम्मपद, महावग्ग (२८५)

उस भिक्षु ने गाथा के अन्त में अर्हत्व प्राप्त कर, 'मैं सब भवों (=संसार) में मुक्त हो गया हूँ' सोच निम्नलिखित गाथाओं में उदान (=प्रीति-वाक्य) कहा—

सो वृत्थवासो परिपुण्ण मानसो,
 क्षीणासवो अन्तिमदेहधारी,
 धिसुद्ध सीलो सुसमाहितिन्द्रियो
 चन्दो यथा राहुमुखा पमुत्तो ।
 समोततं मोहमहन्धकारं
 विनोर्वायि सद्धमलं असेसं,
 आलोकमुज्जोतकरो पभङ्करो
 सहस्सरंसी विय भानुमा नभे ॥

[वह अर्हंत वसित-वास, परिपूर्णमानस, क्षीणास्रव, अन्तिमदेहधारी, विशुद्धशील, सयत (=सुसमाहित-)इन्द्रिय, राहु के मुख से मुक्त हुए चन्द्रमा की तरह होता है ।

मेरा विस्तृत महा मोहान्धकार नष्ट हो गया । मैंने सारे के सारे मूल को हटा दिया, जैसे प्रभास्वर, आलोक को उत्पन्न करने वाला, सहस्र रदमी सूर्य आकाश में (सब अन्धकार को मिटा देता है)]

इस प्रकार, उदान कह, जाकर भगवान् की वन्दना की । स्थविर भी आशास्ता को प्रणाम कर, अपने शिष्य को साथ ले गये । यह बात भिक्षुओं में प्रगट हो गई । वे धर्म-सभा में बैठे बैठे, दश-बल (-धारी) बुद्ध का गुणानुवाद करने लगे—“आवुसो ! सारिपुत्र-स्थविर आशयानुशय ज्ञान न होने के कारण अपने साथी के चित्त की अवस्था नहीं जानते थे । लेकिन शास्ता ने (उसे) जानकर, एक ही दिन में, उस (भिक्षु) को प्रतिसम्भिदा-ज्ञान के साथ अर्हत्व दे दिया । ओह ! बुद्धों की शक्ति (=महानुभाव) !”

बुद्ध ने आ बिछें आसन पर बैठकर, पूछा—“भिक्षुओ ! यहाँ बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो ?” “भगवान् और कुछ नहीं । आपकी ही, धर्मसेनापति की (अपने) शिष्य के आशयानुशय-ज्ञान की बात-चीत ।”

बुद्ध ने, “भिक्षुओ ! इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, यदि इस समय में 'बुद्ध'

होकर, उसका आशय जानता हूँ । मैं पहले भी, उसका आशय जानता ही था” कह पूर्व की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त राज्य करता था । बोधिसत्व उस समय, राजा को अर्थ तथा धर्म सम्बन्धी उपदेश देनेवाले थे । उस समय राजा के माङ्गलिक घोड़े के नहाने के स्थान पर एक खलङ्कु घोड़े को नहला लिया । माङ्गलिक अश्व को दूसरे घोड़े द्वारा नहाये गये तीर्थ (=पट्टन) पर उतारने लगे, तो उसने घृणा से उतरना न चाहा । साईस (=अश्वगोपक) ने जाकर राजा से कहा—‘देव ! माङ्गलिक अश्व तीर्थ पर नहीं उतरना चाहता है ।’

राजा ने बोधिसत्व को भेजा, “पण्डित ! जाकर मालूम कर कि माङ्गलिक अश्व तीर्थ पर उतारने पर क्यों नहीं उतरता ?” बोधिसत्व ने ‘देव ! अच्छा’ कह नदी के तीर पर जाकर, अश्व को देख, उसका निरोगी होना जान सोचा, ‘यह किस कारण से इस तीर्थ पर नहीं उतरता ?’ यह सोचते हुए, उसे सूझा, ‘कि यहाँ पहले किसी और को नहलाया होगा । उसीसे यह घृणा करके तीर्थ पर नहीं उतरता ।’ यह सोच, उसने अश्व-गोपकों से पूछा—“भो ! इस तीर्थ पर पहले किसे नहलाया ?” “स्वामी ! एक दूसरे घोड़े को ।” बोधिसत्व ने “यह (माङ्गलिक अश्व) अपनी शुचिता (=पवित्रता) के कारण यहाँ नहाना नहीं चाहता, इसे अन्य तीर्थ पर नहलाना चाहिए” —इस प्रकार उसका आशय जान, उसने अश्व-गोपको को कहा—“भो अश्वगोपक ! घृत-मधु-शक्कर मिला दूध भी बार बार पीने से (=भोजन करने से) तृप्ति हो जाती है । यह अश्व अनेक बार इस तीर्थ पर नहाया है । सो, इसे किसी दूसरे तीर्थ पर उतार कर नहलाओ, और जल पिलाओ ।” यह कह, यह गाथा कही—

अञ्जमञ्जोहि तित्थेहि अस्सं पायेहि सारथि !

अच्चासनस्स पुरिसो पायासस्स पि तप्पति ॥

[हे सारथी ! इस घोड़े को किसी दूसरे तीर्थ पर (नहलाओ और) जल पिलाओ । आदमी, खीर भी बहुत खाने से तृप्त हो जाता है ।]

अञ्जमञ्जोहि =अन्य से, अन्य से । पायेहि; यह तो पंक्ति है, अर्थ, नहला और पिला । अच्चासनस्स तृतीया (=करणविभक्ति) के अर्थ में षष्ठी । अति अश्नेन =बहुत खाने से । पायासस्सपि तप्पति; घी आदि से अभि-संस्कृत (=छोका हुआ) मधुर खीर से भी तृप्ति हो जाती है । धृति (होती है) सुख (होता है); खाने की इच्छा फिर उत्पन्न नहीं होती । इसलिए यह अश्व भी यहाँ (रोज रोज) नियम से नहाने से ऊब गया होगा । इसे दूसरी जगह नहलाओ ।

उन्होंने उसका कथन सुन, अश्व को दूसरे तीर्थ पर उतारकर (जल) पिलाया और नहलाया । बोधिसत्त्व, अश्व के पानी पी कर नहाने के समय राजा के पास चले आये । राजा ने पूछा—“क्यों तात ! अश्व ने नहाया वा पिया ?” “देव ! हों ।”

“पहले क्यों नहीं (नहाना) चाहता था ?”

“इस कारण से”, सब कह सुनाया ।

राजा ‘अहो ! बोधिसत्त्व की पण्डिताई ! यह ऐसे पशुओं तक के आशय को जानता है ।’ सोच, बोधिसत्त्व को बहुत सम्पत्ति दे, आयु समाप्त होने पर, यथा-कर्म (परलोक) सिधारा ।

बुद्ध ने, “भिक्षुओ ! मैं केवल अश्व ही, इसका आशय नहीं जानता हूँ । पूर्व में भी जानता था” कह, इस धर्म-देशना को लाकर, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया । उस समय का माङ्गलिक अश्व, यह (अश्व का) भिक्षु था । राजा (अश्व का) आनन्द था । लेकिन पण्डित-अमात्य तो मैं ही था ।

२६. महिलामुख जातक

“पुराण चोरान वचो निसम्म . .” यह गाथा, बुद्ध ने बेलुवन में विहार करते समय, देवदत्त के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

देवदत्त, राजकुमार अज्ञातशत्रु को अपने प्रति श्रद्धावान् कर, (अपने लिए) लाभ-सत्कार उत्पन्न करता था । (राज-)कुमार अज्ञातशत्रु, गया-शीर्ष में देवदत्त के लिए विहार बनवा, (वहाँ) प्रति दिन, नाना प्रकार के रसों से युक्त, तीन वर्ष के पुराने सुगन्धित चावलों से बने भोजन की पाँच सौ थालियाँ, लिवा जाता था । लाभ-सत्कार (मिलने) के कारण देवदत्त के अनुयायियों की संख्या बढ़ गई । देवदत्त (अपने) अनुयायियों के साथ विहार में ही रहता । उस समय, राजगृह-निवासी दो मित्रों में से एक तो शास्ता के पास प्रब्रजित हुआ, और दूसरा देवदत्त के । वह एक दूसरे को जहाँ तहाँ मिलते (—देखते) और विहार में जाकर भी मिलते ।

एक दिन देवदत्त के आश्रय में रहने वाले (मित्र) ने, दूसरे से पूछा—
आवुसो ! क्या तुम रोज रोज पसीना बहाते हुए भिक्षा माँगते हो ? देवदत्त गया-शीर्ष विहार में बैठा ही बैठा, नाना प्रकार के रसों से युक्त सुन्दर भोजन खाता है । क्या इस प्रकार का कोई उपाय नहीं है ? तुम किस लिए दुःख भोगते हो ? क्या तुम्हारे लिए, यह अच्छा नहीं है कि तुम प्रातःकाल ही गया-शीर्ष पर आओ, (वहाँ) जल-पान सहित यागु पी, अट्टारह प्रकार का खाद्य

^१ वर्तमान ब्रह्मयोनि पहाड़ (गया) ।

खा, नाना रसों से युक्त सुभोजन करो !” बार बार कहने से, वह जाने का इच्छुक हो गया । उस दिन से, वह गया-शीर्ष पर जाता, और खाकर समय रहते ही बेल्लुवन लौट आता^१ । इस बात को वह देर तक छिपा कर नहीं रख सका कि वह गया-शीर्ष जाता है, और देवदत्त का जुटाया हुआ भोजन खा कर आता है । थोड़े ही समय में, यह बात प्रगट हो गई । उसके साथियों ने उसे पूछा—“आयुष्मान् ! क्या तुम सचमुच, देवदत्त का जुटाया हुआ भोजन खाते हो ?” “ऐसा, किसने कहा ?” “अमुक, अमुक (व्यक्ति) ने (कहा)।” “आवुसो ! मैं सचमुच गया-शीर्ष जाकर, भोजन करता हूँ । लेकिन मुझे, देवदत्त भोजन नहीं देता, दूसरे ही मनुष्य देते हैं ।” “आयुष्मान् ! देवदत्त बुद्धो का विरोधी है, दुश्शील है । (वह) अजातशत्रु को अपने प्रति श्रद्धावान् कर, अधर्म से अपने लिए लाभ-सत्कार उत्पन्न करता है । इस प्रकार के कल्याणकारी शासन में प्रव्रजित होकर भी तू, देवदत्त का अधर्म से पैदा किया हुआ भोजन ग्रहण करता है । आ, तुझे बुद्ध के पास ले चले”, (कह) वे उसे लेकर धर्म-सभा में पहुँचे ।

शास्ता ने देखकर पूछा, “भिक्षुओ ! क्यों इस (आने के) अनिच्छक भिक्षु को लेकर आये हो ?”

“भन्ते ! हाँ, यह भिक्षु आपके पास प्रव्रजित होकर, देवदत्त द्वारा अधर्म से उत्पन्न भोजन ग्रहण करता है ।”

“भिक्षु ! क्या तू सचमुच देवदत्त का अधर्म से कमाया हुआ भोजन ग्रहण करता है ?”

“भन्ते ! देवदत्त, मुझे भोजन नहीं देता, अन्य मनुष्य देते हैं, मैं उसे ही ग्रहण करता हूँ ।”

बुद्ध ने, “भिक्षु ! बहाना मत बना । देवदत्त अनाचारी है, दुश्शील है । इधर प्रव्रजित हो, मेरे सघ (=शासन) में रहता हुआ तू कैसे देवदत्त का भोजन ग्रहण करता है ? तू सदा से ऐसा ही संगति-प्रेमी चला आया है । जहाँ जो संगति मिलती है, उसीमें पड़ जाता है ।” (कह) पूर्व-समय की कथा कही—

^१ कथाकार को शायद यह मालूम नहीं कि बेल्लुवन और गयाशीर्ष में कितना अन्तर है ?

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्व उसके अमात्य थे। उस समय राजा के महिलामुख नाम का एक माङ्गलिक हाथी था, शीलवान् और सदाचार सम्पन्न। किसी को कष्ट नहीं देता था। एक दिन आधीरात के समय, चोरों ने उसकी शाला के समीप आकर, उससे थोड़ी ही दूर पर चोर-मन्त्रणा (—चोरी की बात-चीत) की—“ऐसे सुरंग लगानी चाहिए। ऐसे सेध लगानी चाहिए। ‘सुरंग’ और ‘सेध’ मार्ग-सदृश है, तीर्थ सदृश हैं। उन्हें रूकावट-रहित, बाधा-रहित करके ही सामान चुराना चाहिए। और सामान ले जाते समय (आदमियों को) मारकर ही सामान ले जाना चाहिए। ऐसा करने से कोई उठ (कर पकड़) नहीं सकेगा। चोर को शीलवान् नहीं होना चाहिए। उसे बद-मिजाज, कठोर और जोर जबरदस्ती करने वाला होना चाहिए।” इस प्रकार आपस में सलाह कर, और एक दूसरे को सिखाकर (वे चोर वहाँ से) गये। इसी तरह फिर एक दिन, फिर एक दिन (करके) बहुत दिन तक वे (चोर) वहाँ आकर मन्त्रणा करते रहे। उस (हाथी) ने उनकी बात-चीत सुन, यह समझ कि यह मुझे सिखा रहे हैं, सोचा कि अब से मुझे बद-मिजाज, कठोर और जोर जबरदस्ती करने वाला होना चाहिए। सो, वह वैसा ही हो गया। प्रातःकाल ही आये हथवान को सूँड़ में पकड़, जमीन पर पटक कर मार डाला। दूसरे को भी, तीसरे को भी, जो जो आता सभी को मार डालता। (लोगों ने) राजा को खबर दी कि “‘महिला-मुख’ उन्मत्त हो गया है। जिसे जिसे देखता है, सब को मार डालता है।” राजा ने बोधिसत्व को भेजा—“पण्डित ! जा, मालूम कर, हाथी किस कारण से दुष्ट हो गया है।” बोधिसत्व ने यह देख कि हाथी के शरीर में कोई रोग नहीं है, विचार किया कि किस कारण से यह दुष्ट हो गया ? उसे सूझा कि निश्चय से पास में किसी को बात-चीत करते सुन, यह समझ कर कि ‘यह मुझे ही सिखा रहे हैं’ यह दुष्ट हो गया। यह सोच, उसने हथवानों (—हथियोगोपके) से पूछा—क्या किसी ने हाथी-शाला के समीप रात को कुछ बात-चीत की थी ? “स्वामी ! हाँ ! चोरों ने आकर बात-चीत की थी।” बोधिसत्व ने जाकर राजा को सूचना दी, “देव !

हाथी के शरीर में और कोई विकार नहीं है। चोरों की बात-चीत सुनकर दुष्ट हो गया है।” “तो अब क्या किया जाना चाहिए ?” “सदाचारी (—शीलवान्) श्रमण-ब्राह्मणों को हाथी-शाला में बिठवा, सदाचार सम्बन्धी बात-चीत करवानी चाहिए।” “तो तात ! ऐसा करवाओ।” बोधिसत्व न जाकर, सदाचारी श्रमण-ब्राह्मणों को हाथी-शाला में बिठवाकर कहा— “भन्ते ! सदाचार सम्बन्धी बात-चीत करे।” उन्होंने हाथी से कुछ ही दूर बैठकर सदाचार सम्बन्धी बात-चीत की— “किसी को तंग नहीं करना चाहिए। किसी को मारना नहीं चाहिए। सदाचारी (होकर) तथा शान्ति-मैत्री और करुणा से युक्त होकर रहना चाहिए।” उसने इसे सुन, सोचा, कि यह मुझे ही सिखा रहे हैं। इसलिए अब से मुझे सदाचारी होकर रहना चाहिए। और वह सदाचारी हो गया। राजा ने बोधिसत्व से पूछा— “क्यों तात ! क्या वह शीलवान् हो गया ?” बोधिसत्व ने देव ! हाँ, इस प्रकार का दुष्ट हाथी पण्डितों (की संगति) के कारण, अपने पुराने-स्वभाव में ही प्रतिष्ठित हो गया’ कह, यह गाथा कही—

पुराण चोरान वचो निसम्म,
महिलामुखो पोथयमानुचारि,
सुसञ्जतानं हि वचो निसम्म
गजुत्तमो सब्बगुणेषु अट्ठा ॥

[महिलामुख (हाथी) पुराने चोरों की बात सुन, उनका अनुकरण करने वाला, (लोगों को) मारने वाला हो गया। (और वही) गजुत्तम संयमी मनुष्यों की बात सुन सब गुणों में प्रतिष्ठित हो गया।]

पुराण चोरान = पुराने चोरों की। निसम्म = सुनकर। मतलब है, कि पहले चोरों की बात सुन। महिलामुख हथिनी के जैसा मुँह होने से महिला-मुख, अथवा जैसे महिला आगे से देखने पर सुन्दर लगती है, न कि पीछे से, उसी प्रकार वह भी आगे से देखने पर ही सुन्दर लगने के कारण, उसका नाम महिलामुख पड़ गया। पोथयमानुचारि, पोथ देते हुए अथवा मार देते हुए, अनुकरण किया। अथवा अन्वचारि ही पाठ। सुसञ्जतानं का अर्थ है

सम्यक् संयत = सदाचारी (पुरुषों) का । गजुत्तमो = उत्तम गज = माङ्गलिक हाथी । सब्ब गुणेषु अट्ठा सब पुराने-गुणों में प्रतिष्ठित हो गया ।

राजा ने यह देख 'कि यह पशुओं तक के आशय (= मन की अवस्था) को जानता है', बोधिसत्व को बहुत सा ऐश्वर्य्य (= यश) दिया । फिर वह आयु पर्यन्त जीवित रहकर, बोधिसत्व सहित कर्मानुसार (परलोक) सिंघार ।

शास्ता ने 'भिक्षु ! पहले भी जिस जिस को देखा, तू उस उसकी संगति में पड़ गया । चोरों की बात सुनकर, तू उनका अनुयायी हो गया । धार्मिक लोगों की बात सुनकर धार्मिक लोगों का अनुयायी हो गया'—यह धर्म-देशना कह, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिखाया । उस समय का महिलामुख (अब का) विपक्षी-दल में चला जाने वाला भिक्षु था । राजा (अब का) आनन्द था और अमात्य तो मैं ही था ।

२७. अभिएह जातक

“नालं कबलं पदातवे . . ” यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक उपासक और एक वृद्ध स्थविर के वारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती में दो मित्र रहते थे । उनमें से एक प्रब्रजित होकर (भी) प्रति दिन दूसरे के घर जाता । वह, उसको भिक्षा दे, स्वयं खा, उसके साथ ही विहार आता, और सूर्यास्त होने तक बात-चीत करने के बाद, नगर को वापिस लौटता । दूसरा भी उसे नगर-द्वार तक पहुँचा आता । उनके परस्पर-प्रेम (= विश्वास) की बात भिक्षुओं को मालूम हुई । सो, एक दिन भिक्षु धर्म-सभा में बैठे, उनके परस्पर-प्रेम की बात-चीत कर रहे थे । बुद्ध ने आकर

पूछा—“भिक्षुओ ! इस समय बेटे क्या बात-चीत कर रहे हो ?” उन्होंने कहा, ‘भन्ते ! यह बात-चीत कर रहे थे ।’ शास्ता ने हे भिक्षुओ ! यह दोनों केवल अभी के परस्पर-प्रेमी नहीं हैं, यह पहले भी परस्पर-प्रेमी रहे हैं’ कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

“पूर्वसमय मे बाराणसी मे (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्व (उमके) अमात्य थे । उस समय एक कुत्ता माङ्गलिक हाथी की शाला में जाकर, माङ्गलिक हाथी के खाने के स्थान पर गिरे हुए चावलों को खाता । उसी भोजन पर पलता पलता वह माङ्गलिक हाथी का विश्वास-पात्र बन गया । वह हाथी के पास ही (आकर) खाता । दोनों पृथक् पृथक् न हो सकते । वह हाथी की सूँड़ पकड़ कर, (उसे) इधर उधर करके खेलता । एक दिन एक ग्रामीण-मनुष्य आया और हाथीवान् को मूल्य दे, उस कुत्ते को अपने गाँव ले गया ।

उस समय से वह हाथी कुत्ते को न देखने के कारण, न खाता, न पीता, न नहाता । (लोगो ने) राजा को, इस बात की खबर दी । राजा ने बोधिसत्व को भेजा—“पण्डित ! जा ! मालूम कर कि किस कारण से हाथी ऐसा करता है ?” बोधिसत्व ने हस्ति-शाला मे जा हाथी के दुःखित-चित्त होने को जान, देखा—“कि इसको कोई शारीरिक रोग तो है नहीं ।’ अवश्य ही इसकी किसी न किसी मे मित्रता होगी । मालूम होता है, उस (मित्र) के न दिखाई देने से यह शोकग्रस्त हो गया है ।” (यह सोच), उसने हथवानों से पूछा—“क्या इसकी किसी के साथ दोस्ती है ?”

“स्वामी हौं ! एक कुत्ते के साथ बड़ी पक्की दोस्ती है ।”

“वह कुत्ता अब कहाँ है ?”

“एक आदमी ले गया ।”

“उस (आदमी) का निवास-स्थान जानते हो ?”

“स्वामी ! नहीं जानते ।”

बोधिसत्व ने राजा के पास जाकर, “देव ! हाथी को और कोई पीड़ा

(=आबाधा) नहीं है। उसकी एक कुत्ते से बड़ी दोस्ती है। मालूम होता है, उसीको न देखने से, नहीं खाता है” कह, यह गाथा कही—

नालं कबलं पदातवे न च पिण्डं न कुक्कुसे न धंसितुं
मञ्जामि अभिण्ह दस्सना नागो सिनेहमकासि कुक्कुरे ।

[न कबल (=प्रास) न पिण्ड, न तृण (=कुश) खा सकता है; न ही मलने देता है। मालूम होता है कि निरन्तर मिलते रहने से हाथी और कुत्ते का प्रेम हो गया ।]

नालं=सामर्थ्य नहीं। कबलं, भोजन से पहले दिया जाने वाला कड़ुवा कौल (=प्रास) पदातवे, सन्धि के कारण आकार लुप्त हुआ जानना चाहिए; नहीं तो पादातवे; अर्थ, ग्रहण करने के लिए। न च पिण्डं, खाने के लिए गोले बनाकर दिया जाने वाला भात-पिण्ड भी नहीं ग्रहण कर सकता। न कुक्कुसे, दिये जाने वाले तृण भी नहीं ग्रहण कर सकता। न धंसितुं; नहाते समय शरीर को मलने भी नहीं देता। इस प्रकार जो जो हाथी नहीं कर सकता, वह सब राजा को कह उस (हाथी) के असमर्थ होने के विषय में अपना अनुभव कहते हुए 'मञ्जामि' आदि कहा।

राजा ने उसकी बात सुन, पूछा, “पण्डित ! अब क्या करना चाहिए ?”
“देव ! आप यह मुनादी फिरवा दें कि हमारे माङ्गलिक हाथी के मित्र कुत्ते को कोई मनुष्य ले गया है। जिसके घर, वह कुत्ता दिखाई देगा, उसके यह यह दण्ड (मिलेगा)।”

राजा ने वैसा ही किया। उस समाचार को सुन, उस आदमी ने, उस कुत्ते को छोड़ दिया। कुत्ता जोर से दौड़ कर, हाथी के ही पास आ गया। हाथी ने उसे सूण्ड पर ले, माथे पर रख, रो कर, पीट कर, माथे पर से उतार, उसके खा लेने पर अपने खाया। ‘इसने पशु का भी आशय (=मन की बात) जान लिया’ सोच, राजा ने बोधिसत्व को बहुत ऐश्वर्य दिया।

बुद्ध ने “भिक्षुओ ! यह (दोनों) केवल अब ही परस्पर-प्रेमी नहीं रहे हैं। पहले भी रहे हैं” कह, घर्म-देशना ला, चार आर्य-सत्त्वों के साथ अनुकूलता दिखा, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। [यह चार आर्य-

सत्यो के साथ अनुकूलता दिखाना सभी जातको मे है, लेकिन हम इसे वही वही दिखावेगे, जहाँ इस का कुछ फल है।] उस समय का कुत्ता (अब का) उपासक था। हाथी (अब का) वृद्ध स्थविर था। अमात्य-पण्डित तो मे ही था।

२८. नन्दिविसाल जातक

“मनुञ्जमेव भासेय्य . . .” यह गाथा, शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय, छः वर्गीय भिक्षुओं की कठोर-वाणी के सम्बन्ध मे कही।

क. वर्तमान कथा

उस समय छः वर्गीय भिक्षु कलह करते, शान्ति-प्रिय भिक्षुओ को तंग करते, उनकी निन्दा करते, उन्हे खिजाते, दस आक्रोश-वस्तुओं^१ से गाली देते। भिक्षुओ ने भगवान् से कहा। भगवान् ने छः वर्गीय भिक्षुओ को बुलवा, ‘भिक्षुओ ! क्या यह सच है ?’ पूछ ‘सच है’ कहने पर, उनको धिक्कारते हुए कहा—“भिक्षुओ ! कठोर-वाणी पशुओं तक को अरुचिकर होती है।” पूर्व समय में एक पशु ने, अपने को कठोर-शब्द से पुकारनेवाले के हजार (मुद्रा) हरा दिये।” (यह कह) पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में गन्धार राज्य स्थित तक्षिला (=तक्षशिला) मे गान्धार-नरेश राज्य करते थे। उस समय बोधिसत्व बँल की जून मे पैदा हुए थे।

^१ जाति, नाम, गोत्र, कुल, कर्म, शिल्प (=पेशा), आबाध (=रोग) लिङ्ग क्लेश (=चिरविकार) तथा आपत्ति (=सबोषता)।

सो, बोधिसत्व के तरुण बछड़ा होने की अवस्था ही में, एक ब्राह्मण ने गो-दक्षिणा देने वाले दाता के पास जा, उन्हें प्राप्त कर, नन्दिबिसाल नाम रख, पुत्र की तरह बड़े लाड़-प्यार से यागु-भात इत्यादि खिलाकर पाला। आयु प्राप्त होने पर बोधिसत्व ने सोचा—“मुझे इस ब्राह्मण ने बड़ी कठिनाई से पाला है। सकल जम्बूद्वीप में, मेरे साथ एक धुर में जुतने वाला दूसरा बैल नहीं है। क्यों न मैं अपना बल दिखाकर, इस ब्राह्मण को पालने पोसने का खर्चा दूँ ?”

एक दिन उसने ब्राह्मण को कहा—ब्राह्मण ! जा, गो-धन (बाले) सेठ के पास जाकर, “मेरा बैल एक साथ बैँधी हुई सौ गाड़ियों को (एक साथ) खैच लेता है” कह एक हजार की शर्त लगा।

उस ब्राह्मण ने सेठ के पास जा, बात-चीत चलाई—“इस गाँव में किसके बैल (सबसे) तगड़े हैं ?” उस सेठ ने, ‘अमुक के (बैल तगड़े) हैं, अमुक के (बैल तगड़े) हैं’ कह, (अन्त में) कहा कि सकल नगर में हमारे बैलों के सदृश कोई बैल नहीं।” ब्राह्मण ने कहा—‘मेरा एक बैल, एक साथ बँधे सौ छकड़ों को खीच सकता है।’

सेठ ने कहा, ‘ऐसा बैल कहाँ है ?’

ब्राह्मण ने उत्तर दिया, “मेरे घर है।”

“तो शर्त लगाओ।” “अच्छा ! शर्त लगाता हूँ” कह, उसने एक हजार की शर्त लगाई।

एक सौ छकड़ों को बालू, कङ्कर तथा पत्थरो से भर, (उन्हे) क्रम से खड़ा कर, तमाम अक्षों (= धूरो) को बाँधने के जूये से एक साथ बाँध, नन्दिबिसाल को नहला, सुगन्धि से पाञ्च अङ्गुलियों का चिन्ह कर, गले में माला डाल, अगले छकड़े के धुर में उसे अकेला ही जोड़, अपने आप धुर पर बैठ कहा, “अच्छा ! तो कूट दो कोट।”

बोधिसत्व यह सोच कि ‘यह मुझ अकूट को कूट कह कर पुकारता है’ चारों पैरों को स्तम्भ की तरह निश्चल करके खड़े रहे।

सेठ ने उसी समय ब्राह्मण से (एक) हजार (मुद्रा) धरवा (= मँगवा) लिये।

ब्राह्मण (एक) हजार हार कर, बैल को छोड़, घर जाकर शोकाभिभूत

हो पड़ रहा । नन्दिविसाल ने (घास) चरकर, आकर, ब्राह्मण को शोक-निमग्न देख पूछा—“ब्राह्मण ! क्या सोच रहे हो ?”

“(एक) हजार हारने वाले को मुझे निद्रा कहाँ ?”

“ब्राह्मण ! मैंने इतने चिर तक, तेरे घर में रहते समय क्या कभी कोई भाजन तोड़ा ? क्या कभी किसीको कुचला ? क्या कभी किसी अनुचित स्थान पर गोबर-पेशाब किया ?”

“तात ! नहीं ।”

“तो फिर तू मुझे ‘कूट’ कह कर क्यों पुकारता है ? यह तेरा ही दोष है, मेरा दोष नहीं । जा (इस बार) उससे दो हजार की शर्त लगा । केवल मुझ अकूट (=अदुष्ट) को कूट कह कर न पुकारना ।”

ब्राह्मण ने उसकी बात सुन, जाकर दो हजार की बाजी लगा, पूर्वोक्त प्रकार से ही सौ छकड़ो को एक साथ बाँध, नन्दिविसाल को सजाकर, अगले छकड़े के धुर में जोता । कैसे जोता ? युग को धुर में पक्की तरह बाँध कर, धुर के एक सिरे पर नन्दिविसाल को जोत, धुर के दूसरे सिरे को धुर की रस्सी से लपेट, युग के सिरे और अक्षों के बीच में मुण्ड-वृक्ष का एक दण्ड देकर, उसे रस्मी में पक्की तरह बाँध दिया । ऐसा करने से जुआ, डधर उधर नहीं होता था । (उसे) एक ही बैल खेच सकता था । तब उस ब्राह्मण ने धुर पर बैठ, नन्दिविसाल की पीठ पर हाथ फेर कहा—“अच्छा, तो भद्र ! (ले) ढो भद्र !” बोधिसत्व ने एक साथ बँधे हुए सौ छकड़ों को एक ही भटके में खेच, (सबसे) पीछे खड़ी गाड़ी को, (सबसे) आगे खड़ी गाड़ी की जगह पर ला कर खड़ा कर दिया । गो-धन (वाले) सेठ ने पराजित हो, ब्राह्मण को दो हजार दिये । और दूसरे मनुष्यों ने भी बोधिसत्व को बहुत धन दिया । (वह) सब धन ब्राह्मण का ही हुआ । इस प्रकार बोधिसत्व के कारण, (उसे) बहुत धन मिला ।

बुद्ध ने “भिक्षुओ ! कठोर-वचन किसीको अच्छा नहीं लगता” कह, छः वर्गीय भिक्षुओ को धिक्कारते हुए, शिक्षा-यद (=नियम) बना, अभिसम्बुद्ध हुए रहने के समय ही यह गाथा कही—

मनुञ्जमेव भासेय्य नामनुञ्जं कुदाचनं
मनुञ्जं भासमानस्स गरुम्भारं उवद्धरी,
धनञ्च नं अलभेसि तेन चत्तमनो अहु ॥

[जब बोले मनोज्ञ (-वाणी) ही बोले, अमनोज्ञ कभी न बोले । मनोज्ञ-वाणी बोलने से, (बैल ने) भारी-भार ढो दिया । उस (ब्राह्मण) को धन मिला, जिससे वह अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ ।]

मनुञ्जमेव भासेय्य का अर्थ है कि किसी दूसरे के साथ बोलते हुए, चार प्रकार के दोषों से रहित,^१ मधुर, सुन्दर, चिकनी, मृदु, प्रिय वाणी ही बोले । गरुम्भारं उदद्धरी, नन्दिविसाल बैल ने अप्रिय-वचन बोलने वाले (ब्राह्मण) के भार को न खैच, पीछे प्रिय-वचन बोलने पर (उसी) ब्राह्मण के भारी-भार को खैच दिया, खैच कर, निकाल कर, रास्ते पर चला दिया । 'द' केवल व्यञ्जन सन्धि के कारण है ।

इस प्रकार शास्ता ने 'मनुञ्जमेव भासेय्य . . .' इस धर्म-देशना को लाकर, जातक का साराश निकाल दिखाया । उस समय का ब्राह्मण (अब का) आनन्द था । और, नन्दिविसाल तो मैं ही था ।

२६. कहह जातक

“यतो यतो गरुधुरं . . .” यह गाथा, शास्ता ने, जेतवन में विहार करते समय, यमक प्रातिहार्य^२ के बारे में कही । वह तेरहवें परिच्छेद में 'दिवारोहण' के साथ, सरभमृग जातक^३ में आयेगी ।

^१ दुर्भाषित न हो, अप्रिय न हो, अधर्म न हो तथा असत्य न हो (सुभाषित सूत्र, सुत्तनिपात)

^२ एक ओर से पानी दूसरी ओर से आग निकलना, इस प्रकार की जोड़ी-बार अलौकिक क्रिया ।

^३ ४८३ जातक ।

क. वर्तमान कथा

सम्यक् सम्बुद्ध के यमक प्रातिहार्य^१ कर, देव-लोक में रह, महापवारणा के बाद संकिस्स-नगर-^३द्वार पर उतर, बहुत से अनुयायियों के साथ जेतवन में प्रविष्ट होने पर, धर्म-सभा में बैठे भिक्षु तथागत की गुण-कथा कहने लगे—
“आवुसो ! तथागत असम-धुर है । तथागत जिस धुर को ढोते हैं, उसे ढोने वाला कोई और नहीं । (शेष) छः शास्ता ‘हम ही प्रातिहार्य करेगे’, ‘हम ही प्रातिहार्य करेगे’ कहकर, एक भी प्रातिहार्य न कर सके । अहो ! (हमारे) शास्ता असम-धुर है ।”

शास्ता ने आकर पूछा—“भिक्षुओ ! इस समय बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो ?” “भन्ते ! और कोई (बात-चीत) नहीं, इस तरह से आप ही की गुण-कथा कह रहे हैं ।” शास्ता ने “भिक्षुओ ! अब मेरे खैचे (=ढोये) धुर को कौन खैचेगा ? पूर्वजन्म में पशु-योनि में उत्पन्न हुए रहने पर भी, मुझे अपने ‘सम-धुर’ कोई नहीं मिला’ कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्व वैल की योनि में पैदा हुए । सो उसके स्वामियों ने, उसके तरुण बच्चा ही रहते, उसे एक बूढ़ी के घर में रहने के किराये के स्वरूप में, उस बुढ़िया को दे दिया । उसने यवागु-भात आदि खिलाकर उसका पुत्र की तरह पालन किया । उस (बच्चे) का नाम आर्य्यका-कालक पड़ा । आयु-प्राप्त होने पर, वह सुरमे के रंग का (काला) हो, ग्राम के (अन्य) बेलों के साथ चरने लगा । वह सुशील स्वभाव का था । ग्राम-बालक सीग, कान तथा गले को पकड़ कर लटक जाते । पूँछ तक को पकड़ कर खेल करते । पीठ पर बैठ जाते ।

उसने एक दिन सोचा—“मेरी माता दरिद्र है । उसने मुझे बड़ी कठि-

^१ वेस्सो पटिसम्भिवामग्ग ।

^३ संकिस्सा वसंतपुर, स्टेशन मोटा (E. I. Ry.) जिला क्रूरंजाबाद ।

नाई से पुत्र की तरह पाला है। मैं क्यों न मजदूरी करके इसकी गरीबी दूर करूँ ?” सो, उसके बाद से, वह मजदूरी ढूँढता हुआ विचरने लगा। एक दिन एक सार्थ-वाह-पुत्र के पाँच सौ छकडे एक विषम-तीर्थ (—पट्टन) पर आन (फँसे)। उसके बैल गाड़ियों को न निकाल सके। पाँच सौ गाड़ियों के बैल एक युग में जोलने पर वे, एक भी गाड़ी न निकाल सके।

बोधिसत्व भी ग्राम के गोरुओं के साथ तीर्थ (—पट्टन) के पास ही चरते थे। सार्थ-वाह-पुत्र, गो-शास्त्रज्ञ था। उसने ‘इन बैलों में’ इन गाड़ियों को निकाल सकने वाला कोई वृषभ-आजानीय है वा नहीं?’ सोचते हुए, बोधिसत्व को देख, ‘यह आजानीय (वृषभ) है, यह मेरे शकटों को निकाल सकेगा’ सोच, ग्वालो से पूछा—“इसका स्वामी कौन है? मैं इसे शकटों में जोत कर, शकटों के निकल आने पर स्वामी को मजदूरी (—वेतन) दूँगा।” उन्होंने उत्तर दिया—“इस स्थान पर, इसका स्वामी नहीं है। पकड़ कर जोत लें।” वह, बोधिसत्व को, नाक में रस्सी से बाँध, खँच कर न चला सका। बोधिसत्व, ‘मजदूरी कहने पर जाऊँगा’ सोच न गये। सार्थ-वाह-पुत्र ने उसका अभिप्राय जान कर कहा—‘स्वामी! तुम्हारे पाँच सौ गाड़ियों को खँच कर निकाल देने पर, एक एक गाड़ी की मजदूरी दो कार्पापण करके, एक हज़ार (कार्पापण) दूँगा।’ तब बोधिसत्व अपने आप चले गये। लोगों ने उसे गाड़ियों में जोता। उसने एक ही एक भटके में गाड़ियों को निकाल कर स्थल पर रख दिया। इस प्रकार सब गाड़ियाँ निकाल दी।

सार्थ-वाह-पुत्र ने एक गाड़ी के लिए एक के हिसाब से पाँच सौ (कार्पापणों) की पोटली बनाकर, उसके गले में बाँध दी। बोधिसत्व ‘यह मुझे निश्चित मजदूरी नहीं देता है, सो मैं अब इसे जाने नहीं दूँगा’ सोच, जाकर, सबसे अगली गाड़ी के सामने मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। उसको हटाने के बहुत प्रयत्न करने पर भी न हटा सके।

सार्थ-वाह-पुत्र ने सोचा, ‘मालूम होता है यह अपनी मजदूरी की कमी को पहचानता है’, सो एक कपडे में एक हज़ार की गॉठ बाँध, ‘यह तेरी गाड़ियाँ निकालने की मजदूरी है’ कह, उसे, उसकी गर्दन में लटका दिया।

वह हज़ार की गॉठ लेकर माता के पास गया। ग्राम के लड़के, ‘आर्य-का-कालक’ के गले में यह क्या बँधा है (जानने के लिए) समीप आने लगे। वह

उनका पीछा कर, उन्हें दूर से ही भगा, माता के पास गया। पाँच सौ गाड़ियों को उतारने के कारण लाल हुई आँखों से थकावट प्रगट हुई। उपासिका उसके गले में एक हजार की थैली देख "तात ! यह तुझे कहाँ से मिली ?" पूछ (फिर) ग्राम-दारकों से वह (सब) समाचार जान बोली, "तात ! मे क्या तेरी मजदूरी से जीने की भूखी हूँ ? तूने किस लिए ऐसा कष्ट उठाया है ?" (यह कह) उसने बोधिसत्व को गर्म-जल से नहला, सारे शरीर पर तेल लगा, पानी पिला, अनुकूल भोजन खिलाया। बाद में आयु सम्पूर्ण होने पर वह बोधिसत्व सहित कर्मानुसार (परलोक को) गई।

शास्ता ने, "भिक्षुओ ! तथागत (केवल) अब ही असम-धुर नहीं है, पहले भी असम-धुर ही रहे हैं"—यह धर्म-देशना कह, मेल मिला, अभिसम्बुद्ध होने की ही अवस्था में यह गाथा कही—

यतो यतो गरुधुरं यतो गम्भीर वत्तनी,
तदस्सु कण्हं युञ्जन्ति स्वास्सु तं वहते धुरं ॥

[जहाँ जहाँ पर धुर भारी होती है, जहाँ जहाँ पर मार्ग कठिन होता है; वहाँ वहाँ कृष्ण (=काले बैल) को जोतते हैं। और वह उस धुर को ढो देता है।]

यतो यतो गरुधुरं—जिस जिस स्थान पर धुर भारी होता है; अन्य बैल नहीं उठा सकते। यतो गम्भीर वत्तनी, जो वतें वह वत्तनी; मार्ग का पर्याय-वाची। जिस स्थान पर पाणी-कीचड़ की अधिकता से, वा तट के विषम तरह से टूटा-फूटा रहने से, मार्ग कठिन होता है। तदस्सु कण्हं युञ्जन्ति; अस्सु, केवल निपात है। अर्थ है कि उस समय कृष्ण (बैल) को जोतते हैं। सारांश यह है कि जिस समय धुर भारी होता है, मार्ग गम्भीर होता है, उस समय अन्य बैलों को हटा कर, कृष्ण (-बैल) को ही जोतते हैं। स्वास्सु तं वहते धुरं; यहाँ भी अस्सु तो केवल निपात है। अर्थ है कि वह उस धुर को ढोता (= खींचता) है।

इस प्रकार भगवान ने 'भिक्षुओ ! कृष्ण(-बैल) ही उस धुर को खींचता

(=वहन करता) है' दिखाकर, मेल मिलाकर, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय की वृद्धा (अब की) उत्पलवर्णा थी। आर्य्यका-कालक तो मे ही था।

३०. मुनिक जातक

“मा मुनिकस्स . . .” यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक प्रौढ कुमारी के प्रति आसक्ति (=लोभ) के बारे में कही। वह (कथा) तेरहवें परिच्छेद (=निपात) की बुल्लनारदकस्सप जातक^१ में आयेगी।

क. वर्तमान कथा

बुद्ध ने उस भिक्षु से पूछा, “भिक्षु ! क्या तू सच्चमुच उत्तेजित है ?”

“भन्ते ! हाँ !”

“किस लिए ?”

“भन्ते ! प्रौढ-कुमारी के लोभ के कारण ।”

बुद्ध ने, “भिक्षु ! यह (कुमारी) तेरा अनर्थ-करने वाली है। पूर्व-जन्म में भी तू, इसके विवाह के दिन प्राणो से हाथ धोकर, महा जन-(समूह) का सालन बना” कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधि-सत्व एक गाँवड़े (=गामक) में एक कुटुम्ब के घर गो-योनि में पैदा हुए।

^१ बुल्लनारद जातक (४७७)

उनका नाम महालोहित था, और उनका एक छोटा भाई भी चुल्ललोहित नामक हुआ। इन दोनों भाइयों के कारण ही, उस परिवार का काम-काज उन्नति पर था। उसी कुल में एक कुमारी भी थी। उसे एक नगरवासी कुलपुत्र ने अपने पुत्र के लिए बरा। उस (कुमारी) के माता पिता, 'कुमारी के विवाह के अवसर पर आने वाले आगन्तुकों के लिए सालन की सामग्री रहेगा' सोच, एक सूअर को यवागु-भात खिला खिला कर पालते थे। उसे देख चुल्ललोहित ने अपने भाई से पूछा—“इस परिवार के काम-काज को उन्नत बनाने वाले हम हैं। हम दोनों भाइयों के कारण ही यह उन्नति पर है। लेकिन यह घर वाले हमें तो केवल तृण-पराल आदि ही देते हैं, और सूअर को यवागु-भात खिला कर पालते हैं। किस कारण से इसको यह सब मिलता है?” उसके भाई ने उत्तर दिया “तात ! चुल्ललोहित ! तू इसके भोजन की ईर्ष्या मत कर। यह सूअर अपना मरण-भोजन खा रहा है। 'इस कुमारी के विवाह के अवसर पर आने वाले आगन्तुकों के लिए सालन की सामग्री होगा' सोच, यह (घर वाले) इस सूअर को पोष रहे हैं। अब से कुछ ही दिन के बाद वे लोग आ जायेंगे। तब, तू देखेगा कि (यह) इस सूअर को पैरों से पकड़, घसीटते हुए, सूअर के निवास-स्थान से निकाल, प्राण-नाश कर, आगन्तुकों के लिए सप-व्यञ्जन बनायेंगे।” यह कहकर, उसने यह गाथा कही—

मा मुनिकस्स पिहिय आतुरन्नानि भुञ्जति,
अप्पोत्सुकको भुसं खाद एतं दीघायुलक्षणं ॥

[मुनिक (सूअर के भोजन) की ईर्ष्या (=इच्छा) मत कर। वह मरणान्त भोजन खाता है। (तू) उत्सुकता-रहित होकर भूसे को खा। यह दीर्घायु का लक्षण है।]

मा मुनिकस्स पिहिय =मुनिक (सूअर) के भोजन की इच्छा मत उत्पन्न कर, “यह अच्छा भोजन खाता है” (करके) मा मुनिकस्स पिहिय =मे भी कब ऐसा सुखी होऊँगा; इस प्रकार सोच, मुनिक-भाव की प्रार्थना मत कर। अयं हि आतुरन्नानि भुञ्जति; आतुरन्नानि का अर्थ है मरण भोजन। अप्पोत्सुकको भुसं खाद, उसके भोजन के प्रति उत्सुकता (=प्राणा)-रहित

होकर, अपने को जो भूसा मिला है, उसे खा, एतं दीर्घायुलक्षणं—यह दीर्घायु होने का कारण है ।

उसके थोड़ी देर बाद ही, वे मनुष्य आ गये । (उन्होंने) मुनिक को मार कर, (उसे) नाना प्रकार से पकाया । बोधिसत्व ने चुल्ललोहित से पूछा— “तात ! तूने मुनिक को देखा ?” भाई ! मैंने देख लिया मुनिक को मिलने वाले भोजन का फल । इसके भात (= भोजन) से हमारा तृण-पराल-भूसा लाख दर्जा अच्छा है, दोष-रहित है, दीर्घायु का लक्षण है ।

बुद्ध ने, “हे भिक्षु ! तू इस प्रकार, पूर्वजन्म में भी, इस कुमारी के कारण प्राणों से हाथ धो, लोगों का सालन बना”—यह धर्म-देशना कह, आर्य (सत्यो) को प्रकाशित किया । (आर्य-)सत्यों के (प्रकाशन के) अन्त में उत्कण्ठित भिक्षु श्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ । शास्ता ने भी मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया । उस समय का मुनिक सूअर (अब का) उत्कण्ठित भिक्षु था । तरुण-कुमारी, यह (प्रौढ-कुमारी) ही; चुल्ल-लोहित (अब के) आनन्द; (और) महा-लोहित तो मैं ही था ।

पहला परिच्छेद

४. कुलावक वर्ग

३१. कुलावक जातक

“कुलावका...” यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, बिना कपड़-छान किये पानी पीने वाले भिक्षु के बारे में कही।

क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती से दो मित्र तरुण-भिक्षुओं ने (कोशल) जन-पद में, सुख-पूर्वक रह सकने योग्य किसी स्थान में, यथेच्छा वास किया। फिर सम्भ्यक् सम्बुद्ध को देखने की इच्छा से, वहाँ से निकल, जेतवन की ओर प्रस्थान किया। एक के पास छन्ना (=पानी छानने का कपडा) था, दूसरे के पास नहीं, (इसलिए) दोनों एक ही छन्ने से छान कर पानी पीते थे। एक दिन उन दोनों में विवाद हो गया। छन्ने के स्वामी ने दूसरे (भिक्षु) को छन्ना न दे, अकेले अपने पानी छान कर पिया। दूसरे ने छन्ना न मिलने से, और प्यास भी न सह सकने से, बिना छाने ही पानी पिया। दोनों क्रम से जेतवन पहुँच कर, बुद्ध को प्रणाम कर बैठे।

बुद्ध ने कुशल-समाचार सम्बन्धी वात-चीत करते हुए पूछा, “कहाँ से आये हो?”

“भन्ते ! हम कोशल जन-पद के एक गाँव में रह, वहाँ से निकल, आपके दर्शन करने के लिए आये हैं।”

“क्या मेल-मिलाप पूर्वक आये हो?”

जिस भिक्षु के पास छन्ना नहीं था, उसने कहा, “भन्ते ! इसने रास्ते में मेरे साथ विवाद किया, (और फिर अपत्ता) छन्ना नहीं दिया।”

दूसरे ने कहा, “भन्ते ! इसने जान-बूझ कर, बिना छाने, जीवों सहित जल पिया ।”

“भिक्षु ! क्या तूने सचमुच जान-बूझ कर जीवों सहित जल पिया ?”

“भन्ते ! हाँ, मुझसे बिना छाना पानी पिया गया ।”

शास्ता ने, “भिक्षु ! पूर्वं समय मे देव-नगर मे राज्य करते हुए पण्डितों ने युद्ध मे पराजित हो, समुद्र की सतह पर भागते हुए, ‘हम ऐश्वर्य के लिए प्राण-वध न करेंगे’ सोच, महान् ऐश्वर्य का त्याग कर, गरुड़-बच्चों को प्राण-दान दे, रथ को रोक दिया”, कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

‘पूर्व-समय मे मगध-राज्य के राजगृह नगर में, एक मगध-नरेश राज्य करते थे । जैसे वर्तमान समय के शक्र (= इन्द्र) देव, (अपने) पूर्व-जन्म मे, मगध-राष्ट्र के मचल ग्राम मे पैदा हुए थे, उसी प्रकार बोधिसत्त्व उस समय, उसी मचल ग्राम के एक महान् कुल मे उत्पन्न हुए थे । नामकरण के दिन, उसका नाम मध-कुमार रखा गया । आयु-बढ़ने पर, वह मध-माणवक के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसके माता पिता ने, अपने समान जाति के कुल से, (उसके लिए) एक लडकी ला दी । पुत्र-पुत्रियों सहित उसकी बढ़ती होते होते, वह दानपति हो गया । वह पाँच-शीलो की आरक्षा करता । उस गाँव मे (कुल) तीस ही कुल थे । वे तीसो कुलो के मनुष्य एक दिन गाँव के बीच मे खड़े होकर ग्राम-कृत्य कर रहे थे । बोधिसत्त्व जहाँ खड़े थे, वहाँ के रेत को पाँव से हटा, उस स्थान को रमणीक बनाकर, वहाँ पर खड़े हुए । एक दूसरा आदमी आकर, उस स्थान पर खड़ा हो गया । बोधिसत्त्व दूसरी जगह को रमणीय बनाकर, वहाँ खड़े हो गये । वहाँ भी एक और आदमी आकर खड़ा हो गया । बोधिसत्त्व ने और दूसरा, और दूसरा करते, सभी के खड़े होने के स्थान को रमणीय बनाकर, फिर वहाँ एक मण्डप बनवा दिया । (फिर) मण्डप को हटाकर, एक शाला बनवाई । उसमें पट्टों के आसन बिछवा कर, (पानी) पीने की चाटी रखवाई । कुछ समय बीतने पर, वह तीस के तीस जने, बोधिसत्त्व के समान विचार के हो गये । बोधिसत्त्व उन्हें पाँच शीलो मे प्रतिष्ठित कर, उसके बाद से उनको साथ ले पृथ्य करते विचरते रहे ।

वे भी बोधिसत्त्व के साथ पुण्य करते हुए प्रातःकाल ही उठ कर वसुला, (= वासी) परुष, (= कुल्हाड़ा) तथा मूसल हाथ में ले, चौरस्तों (= चतुसहाय्यो) पर जा, वहाँ मूसल से पत्थरों को उलट रास्ते से हटा देते (= पवट्टेन्ति)। गाड़ियों के अक्षों में बाधक वृक्षों को हटाते। ऊँच-नीच को बराबर करते। पुल बनाते। पुष्करिणियाँ खोदते। शालाये बनाते। दान देते। शील की आरक्षा करते। इस प्रकार प्रायः सभी ग्रामवासी, बोधिसत्त्व के उपदेशानुसार सदाचारी बन गये।

तब उनके ग्राम-भोजक ने सोचा कि पहले जब यह लोग शराब पीते थे, जीव-हिंसा करते थे, तो मुझे इनसे चाटी, कार्षापण के रूप में तथा इण्ड-बलि (= जुमाने) आदि के रूप में धन मिलता था। लेकिन अब यह मध, माणवक शील आरक्षा कराता हूँ, (करके) लोगों को जीव-हिंसा नहीं करने देता। “अच्छा ! अब तुझे पाँच-शील रखाऊँगा !” (कह) क्रुद्ध हो, उसने राजा से जाकर कहा—

“देव ! बहुत से चोर ग्राम-घात आदि करते घूम रहे हैं।” राजा ने उसकी बात सुन आज्ञा दी—“जा, उन्हें (पकड़) ला।” उसने जाकर, सब को बाँध ला कर राजा से कहा—“देव ! चोरों को ले आया।” राजा ने उनके कर्म की परीक्षा किये बिना ही आज्ञा दी कि उन्हें हाथी से रौदवा दो। सब को राजाङ्गण में लिटा कर हाथी को लाया गया।

बोधिसत्त्व ने लोगो को उपदेश दिया—“तुम अपने शील का विचार करो। चुगल-खोर के प्रति, राजा के प्रति, हाथी के प्रति और अपने शरीर के प्रति एक जैसी मैत्री भावना करो।” उन्होंने वैसा ही किया। उन्हें रौदने के लिए हाथी को आगे बढ़ाया गया। आगे बढ़ाया जाने पर भी, वह उनके ऊपर से नहीं जाता था। चिघाड़ मार कर भागता था। दूसरे, तीसरे हाथी को लाया गया। वे भी, वैसे ही भागे।

राजा ने सोचा, ‘इनके हाथ में कोई औपध होगी’, इसलिए आज्ञा दी कि इनकी तलाशी लो। तलाशी लेने वाली ने (कुछ) न देखकर कहा “देव ! नहीं है।” राजा ने सोचा, ‘कोई, मन्त्र जपते होंगे’। (सो आज्ञा दी) पूछो कि क्या कोई जपने का मन्त्र है ? राज-पुरुषो ने पूछा। बोधिसत्त्व ने कहा,

“(मन्त्र) है।” राजपुरुषों ने सूचना दी, “देव ! (यह कहता है) कि (मन्त्र) है।” राजा ने सब को बुला कर कहा—“तुम्हें जो मन्त्र मालूम है, सो कहो।”

बोधिसत्त्व ने कहा—“देव ! हमारे पास दूसरा कोई मन्त्र नहीं है । हम तीस जने जीव-हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, मिथ्या आचार (=व्यभिचार) नहीं करते, भ्रूठ नहीं बोलते, शराब नहीं पीते, मैत्री-भावना करते हैं, दान देते हैं, (ऊँचे-नीचे) रास्तों को बराबर करते हैं, पुष्करिणियाँ खोदते हैं, शालायें बनाते हैं;—यही हमारा मन्त्र है, यही हमारी आरक्षा (=परित) है, और यही हमारी वृद्धि है ।”

राजा ने उन पर प्रसन्न हो, चुगल-खोरके घर की सब दौलत उनको दिलवा चुगल-खोर को उनका दास बना दिया । वह हाथी और ग्राम भी उन्हीं को दे दिया । उस समय से उन्होंने यथेच्छ पुण्य करते हुए, चौरास्ते पर एक बड़ी भारी शाला बनवाने की इच्छा से, बढई को बुलाकर, (उससे) शाला की नीव रखवाई । स्त्रियों (=मातुगाम) के प्रति आसक्ति न होने के कारण, उन्होंने उस शाला (के निर्माण) में स्त्रियों को हिस्सेदार नहीं बनाया । उस समय बोधिसत्त्व के घर में सुधम्मा, चित्ता, नन्दा और मुजाता नाम की चार स्त्रियाँ थीं । उनमें से सुधर्मा ने बढई के साथ मिल, ‘भाई ! इस शाला (के निर्माण) में, मुझे मीरी (=ज्येष्ठकी) कर’ (कह) उसे रिशवत दी । उसने ‘अच्छा’ कह, स्वीकार कर, पहले से ही कर्णिक (=शहतीर के योग्य)-वृक्ष को सुखवाकर, छीलकर, बीघकर, शहतीर बना तैयार करके, वस्त्र से लिपटवा कर, रखवाया । फिर शाला को समाप्त कर, कर्णिका रखने के समय कहा— ‘ओह ! आर्यों ! एक बात याद न रही ।’ “भो ! क्या ?” “कर्णिका (= (=शहतीर) चाहिए” “अच्छा ! ले आयेगे ।” “अब के (ताजे) कटे वृक्ष से न बन सकेगी । पहले से ही काट कर, छील कर, बीघ कर, रक्वी हुई कर्णिका मिलनी चाहिए ।” “तो अब क्या किया जाये ?” “यदि किसीके घर में बेचने के लिए रक्वी हुई कर्णिका हो, तो उसे खोजना चाहिए ।” ढूँढते हुए, उन्हें सुधर्मा के घर में (कर्णिका) मिली, (लेकिन वह उसे) मूल्य देकर न ले सके । “यदि मुझे शाला (के निर्माण) में हिस्सेदार बनाओ, तो दूँगी” कहने पर, उन्होंने कहा कि हम स्त्रियों को हिस्सा (=पत्ति) नहीं देते । तब बढई ने उन्हें कहा—‘आर्यों ! क्या कहते हो ? ब्रह्मलोक को छोड़ और कोई ऐसी

जगह नहीं, जहाँ स्त्रियाँ न हों। (इससे) कर्णिका को ले लो। ऐसा होने पर, हमारा काम सम्पूर्ण हो जायगा।" उन्होंने 'अच्छा' (कह), कर्णिका ले, शाला को समाप्त कर, आसन तथा पटड़े बिछवा, पानी की चाटियाँ रखवा, यागु-भात (का सदा-व्रत) बाँध दिया। शाला को चार-दीवारी से घेर, (उसमें) दरवाजा लगा, चार-दीवारी के अन्दर बालू-रेत बखेर, उसके बाहर ताड़ के वृक्षों की पंक्ति लगाई। शिन्ना ने भी वहाँ उद्यान लगाया। कोई ऐसा फल-फूलदार वृक्ष नहीं होगा, जो उस उद्यान में न हो। नन्दा ने भी उसी स्थान पर पाँच वर्णों के कमलों से आच्छादित, रमणीय पुष्करिणी बनवाई। सुजाता ने कुछ न किया। बोधिसत्त्व मातृ-सेवा, पितृ-सेवा, अपने से बड़ों का आदर, सत्य-भाषण, मृदु-भाषण, चुगल-खोरी-रहित भाषण, मात्सर्य्य (—ईर्ष्या) का न होना, इन सात व्रतों को पूरा कर—

“माता पितृभरं जन्तुं कुले जेट्ठापचायिनं,
सहं सखिल सम्भासं पेसुण्ण्य्यप्पहायिनं
मच्छेर विनये युत्तं सच्चं कोधाभिभुं नरं
तं वे देवा तावतिसा आहु सप्पुरिसो”

[माता पिता की सेवा करने वाले, बड़ों का आदर करने वाले, प्रिय-मृदु बोलने वाले, चुगल-खोरी-रहित बात कहने वाले, मात्सर्य्य के नाश में लगे हुए, सत्य-वादी अक्रोधी नर को ही, त्रयस्त्रिंश (—तावतिस) -लोक के देवता सत्पुरुष कहते हैं]

इस प्रकार प्रशंसा के भागी हो, जीवन समाप्त होने पर, त्रयस्त्रिंश-भवन में देवेन्द्र शक्र होकर, उत्पन्न हुए। उसके साथी भी वही उत्पन्न हुए। उस समय त्रयस्त्रिंश लोक में असुर रहते थे। देवेन्द्र शक्र ने सोचा, 'इनके बराबरी के राज्य से हमें क्या (लाभ)?।' सो, उसने असुरों को दिव्य पान पिलवा कर, उनके बेहोश होने पर, उन्हें पैरों से पकड़वा सुमेरु पर्वत के प्रपात पर से फिकवा दिया। वे असुर-भवन को प्राप्त हुए। असुर-भवन, सुमेरु (—पर्वत) के निचले तल पर (है) और त्रयस्त्रिंश देव-लोक जितना ही

बड़ा है। देवताओं के पारिजात वृक्ष की भाँति, वहाँ असुरों का चित्रपाटली नामक कल्पस्थायी वृक्ष है। उन (असुरों) को चित्रपाटली वृक्ष के पुष्पित होने पर पता लगा कि यह हमारा देव-लोक नहीं है, क्योंकि देव-लोक में तो पारिजात वृक्ष फूलता है। सो, उन्होंने यह जान कि “बूढ़े शक्र ने, हमें बेहोश करके, महासमुद्र की सतह पर फेंक हमारा देव-नगर ले लिया है” निश्चय किया कि हम उसके साथ युद्ध करके अपना देव-नगर लेंगे। खम्भे पर च्यूटियों के चढ़ने की तरह, वे समुद्र पर्वत के साथ साथ चढ़ते हुए (ऊपर) उठे। शक्र ने ‘असुर उठे’ सुन, समुद्र-पृष्ठ पर ही आकर उनसे युद्ध करते हुए, उनसे हार कर, डेढ़ सौ योजन (लम्बे-चौड़े) वैजयन्त रथ में दक्षिण समुद्र के ऊपर ऊपर भागना आरम्भ किया। समुद्र-तल पर वेग से चलता हुआ उसका रथ, सिम्बलि वन के पास से गुजरा। उसके रास्ते में आया सिम्बलि वन, ताड़-के पत्तों की तरह टूट टूट कर, समुद्र-तल पर गिरने लगा। समुद्र-तल पर उलटते पलटते गरुड़-बच्चे महा चीत्कार करने लगे। शक्र ने (अपने सारथी) मातलि से पूछा—“मातलि ! यह अत्यन्त करुणाजनक क्या शब्द है ?”

“देव ! आपके रथ के वेग से न्यूणित होकर गिरते हुए सिम्बलि वन के कारण, मरने के भय से भयभीत गरुड़-पोतक एक साथ चीत्कार कर रहे हैं।”

महासत्त्व ने कहा—“सम्म मातलि। हमारे कारण इन्हे कष्ट न हो। ऐश्वर्य के लिए, हम जीवहिंसा नहीं करते। इनके लिए, हम अपने प्राणों का परित्याग कर, (उन्हे) असुरों को दे देंगे। इस रथ को लौटाओ।” कह, यह गाथा कही—

कुलावका मातलि ! सिम्बलिस्मि,
ईसा मुखेन परिवज्जयस्सु;
कामं चजाम असुरेसु पाणं,
मायिमे विजा विकुलावा अहेसुं ॥

[मातलि ! सिम्बलि वन में जो गरुड़-बच्चे हैं, (उन्हें रथ के) अगले सिरे (=इधामुख) से (हानि पहुँचने से) बचाओ। हम असुरों को अपने प्राण भले ही दे दे। लेकिन इन पक्षियों के घोंसले नष्ट न हों।]

कुलावका = गरुड़ के बच्चे । मातलि ! — यह सारथी का सम्बोधन है । सिम्बलिस्मि — इस शब्द से स्पष्ट है कि देख, यह सिबिम्ल-वृक्षों में लटक रहे हैं । ईसामुखेन परवञ्जयत्सु; इनको ऐसे बचाओ, जिससे यह इस रथ के अगले सिरे (= ईसामुख) से नष्ट न हों । कामं चजाम असुरेसु पाणं— यदि हमारे असुरों को अपने प्राण देने से, इनका कल्याण होता हो तो हम अवश्य ही प्रसन्नता पूर्वक असुरों को अपने प्राण दे देंगे । मायिमे बिजा विकुलावा अहेसुं; लेकिन यह पक्षी (= द्विज) ; यह गरुड़-बच्चे, अपने घोंसलों के विध्वंस, विचूर्ण हो जाने के कारण आश्रय-रहित (= बिना घोंसले के) न हों । हमारा दुःख उनके ऊपर मत डाल । रथ को लौटा । रथ को लौटा । ”

यह शब्द सुन, मातलि-सारथी ने, रथ को रोक दूसरे मार्ग से, देव-लोक की ओर हाँक दिया । असुरों ने रथ को लौटता देख सोचा, “निश्चय से दूसरे चक्रवालों से भी शक्र आ रहे हैं । सेना की सहायता (= बल) मिलने से ही रथ लौटाया गया होगा । ” यह सोच मरने से भय-भीत हो भाग कर असुर-भवन में छिप गये । शक्र भी देव-नगर में प्रवेश कर, दो देव-लोकों के देवताओं सहित नगर के बीच में खड़े हुए । उसी क्षण पृथ्वी फूटी, (और) उसमें से सहस्र योजन ऊँचा वेजयन्त प्रासाद (= महल) निकला । विजय के अन्त में निकलने के कारण, उसका नाम वेजयन्त रक्खा गया । शक्र ने, असुरों का फिर दुबारा आना रोकने के लिए पाँच जगहों पर पहरा (= आरक्षा) स्थापित किया । जिसके बारे में कहा है—

अन्तरा द्विस्रं अयुञ्जपुरानं पञ्चविधा ठपिता अभिरक्खा ,
उरग करोटि पयस्स च हारी मदनयुता चतुरो च महन्ता ॥

[दोनों अयुद्ध-पूरों के बीच में पाँच प्रकार की आरक्षा स्थापित की गई— सर्पों की, गरुड़ों की, कुम्भाण्ड (= दावन राक्षसों) की, यक्षों की तथा चारों महाराजाओं की]

दोनों नगर युद्ध से अजेय होने के कारण अयुद्ध-पुर कहलाये— देवनगर तथा असुर नगर । जब असुर बलावन् होते, तब देवताओं के भाग कर देव-नगर में प्रविष्ट हो द्वारों के बन्द कर लेने पर एक लाख असुर भी उनका कुछ

न कर सकते। जब देवता बलवान् होते, तब असुरों के भाग कर, असुर नगर के द्वार बन्द कर लेने पर, एक लाख शक्र भी (उनका) कुछ न कर सकते। इस-लिए यह दोनों नगर अयुद्ध-पुर कहलाये। इन दोनों (नगरों) के बीच में, शक्र ने पाँच स्थानों पर पहरा (—आरक्षा) स्थापित किया।

‘उरग’ शब्द से नागों का ग्रहण है। वे जल में बल-शाली होते हैं। इस-लिए सुमेरु पर्वत के प्रथम चक्कर में उनका पहरा है ‘करोटि’ शब्द से गरुडों का ग्रहण है। उनका ‘नाम’ ‘करोटि’ इसलिए पड़ा, क्योंकि वह जीवों को खाते हैं। दूसरे चक्कर में उनका पहरा है। ‘पयस्स हारी’ शब्द से कुम्भाण्डों का ग्रहण किया गया है। यह दानव-राक्षस (होते) हैं। तीसरे चक्कर में उनका पहरा है। ‘मदन युत’ शब्द से यक्षों का ग्रहण है। वे विषम-आचरण वाले (तथा) युद्ध-प्रिय होते हैं। चौथे चक्कर में उनका पहरा है। ‘चतुरो च महन्ता’ का अर्थ है चारों महाराजा। पाँचवें चक्कर में उनका पहरा है। सो यदि असुर क्रुद्ध होकर (अथवा) मन बिगाड़ कर देव-पुर पहुँचते, तो उरग उन्हें सुमेरु पर्वत के पाँच प्रकार के घेरों में से जो प्रथम-घेरा है, उससे बाहर निकाल देते। इसी प्रकार बाकी चक्करों में शेष।

इन पाँच स्थानों में पहरा स्थापित करके, देवेन्द्र (शक्र) के दिव्य सम्पत्ति का उपभोग करते समय, सुधर्मा ने च्युत हो (—मर) कर, उस शक्र की ही भार्य्या बन कर जन्म ग्रहण किया। कर्णिका (—शहतीर) दिये रहने के फलस्वरूप, उसके लिए पाँच सौ योजन (लम्बी चौड़ी) सुधर्मा नामक देव-मणि-सभा (-शाला) उत्पन्न हुई, जिसमें दिव्य श्वेत छत्र के नीचे, योजन भर के काञ्चन पलंग के ऊपर बैठ कर, देवेन्द्र शक्र देव मनुष्यों के कर्तव्य-कृत्यों (का सम्पादन) करते थे। चित्रा भी मर कर, उसी की भार्य्या होकर उत्पन्न हुई। उद्यान लगाये रहने के फलस्वरूप इसके लिए चित्र-लता-वन नाम का उद्यान उत्पन्न हुआ। नन्दा भी च्युत होकर, उसीकी भार्य्या होकर उत्पन्न हुई। पुष्करिणी बनवाने के फलस्वरूप इसके लिए नन्दा नाम की पुष्करिणी पैदा हुई।

कोई भी शुभ-कर्म न किया रहने के कारण सुजाता एक अरण्य की किसी कन्दरा में बगुला-पक्षी की योनि में उत्पन्न हुई। शक्र ने, ‘सुजाता नहीं दिखाई देती, वह कहाँ उत्पन्न हुई?’ विचार करते हुए, उसे देखा। वहाँ जाकर

उसे साथ लाया और उसे रमणीय देव-नगर, सुर्घम देवसभा, चित्र-लता-वन और नन्दा पुष्करिणी दिखाई । फिर 'यह शुभ-कर्म करके मेरी स्त्रियाँ होकर उत्पन्न हुईं, लेकिन तू शुभ-कर्म न किये रहने के कारण पशु-पक्षी (=तिरस्चीन) की योनि में उत्पन्न हुईं । अब से सदाचार की रक्षा कर'—यह उपदेश देकर, उसे पाँच शीलों में प्रतिष्ठित किया और उसे वही ले जाकर छोड़ दिया । वह भी उस समय से सदाचार (=शील) की रक्षा करने लगी । कुछ दिनों के बाद 'वह शील की रक्षा कर सकती है, (वा नहीं) ?' जानने के लिए, जाकर उसके सामने मच्छ की योनि में चित-पड़े प्रगट हुए । उसने मृत मच्छ समझ सीस पर प्रहार किया । मच्छ ने पूँछ हिलाई । उसने 'जीता है' समझ, उसे छोड़ दिया । शक्र "साधु साधु" (कह) 'शील को रक्षा कर सकेगी' (सोच) चला गया । वहाँ से च्युत होकर वह बाराणसी में कुम्हार के घर पैदा हुई ।

शक्र ने 'कहाँ पैदा हुई ?' (सोच) 'वहाँ पैदा हुई' जान, सोनहरी खीरों की गाड़ी भरकर, गाँव के बीच में एक बूढ़े के वेप में बैठ चिल्लाना शुरू किया—
"खीरे ले लो, खीरे ले लो ।"

मनुष्यों ने आकर कहा—"तात ! दो ।"

"मैं केवल सदाचारियों को देता हूँ । तुम सदाचार की रक्षा करते हो ?"

"हम शील (-वील) नहीं जानते, मूल्य से दो ।"

"भुझे कीमत की जरूरत नहीं, मैं केवल सदाचारियों को ही देता हूँ ।"

"कौन है यह लाल-बुभक्कड़ (=लालको) !" कहते मनुष्य चले गये ।

सुजाता ने उस समाचार को सुन, 'मेरे लिए लाये गये होंगे' सोच, जाकर कहा—
"तात ! दो ।"

"अम्म ! क्या सदाचार की रक्षा करती हो ?"

"हाँ ! रक्षा करती हूँ ।"

"यह (सब) मैं तेरे ही लिए लाया हूँ" (कह) गाड़ी सहित गृह-द्वार पर छोड़ चला गया । वह भी जीवन पर्यन्त सदाचार की रक्षा कर, वहाँ से च्युत हो, वेपचित्ति असुरेन्द्र की लड़की होकर उत्पन्न हुई । सदाचार (की रक्षा करने) के फलस्वरूप सुन्दरी हुई । असुरेन्द्र ने उसकी उमर होने पर, 'भेरी लड़की अपनी इच्छा के अनुकूल स्वामी ग्रहण करे'—इस इच्छा से—असुरों

को एकत्रित किया। शक्र 'वह कहीं उत्पन्न हुई', देखते हुए, 'वहाँ उत्पन्न हुई' जान, सुजाता यथेच्छा स्वामी को चुनने (का अवसर मिलने) पर, मुझे ही चुनेगी' सोच असुर का रूप बनाकर वहाँ गया। सुजाता को सजाकर, सभा में लाकर कहा गया कि यथारुचि स्वामी को चुनो। उसने देखते हुए शक्र को देख, अपने पूर्व स्नेह के भी कारण 'यह मेरा स्वामी है' (करके) ग्रहण किया। वह उसे देव-नगर में ला, वहाँ उसे ढाई करोड़ नटनियों (नृत्यबालाओं) की मुखिया बना, आयु पर्यन्त रहकर, यथा-कर्म (परलोक) सिधारा।

बुद्ध ने यह धर्म-देशना कह 'हे भिक्षु ! पूर्व समय में देव राज्य करते हुए पण्डितों ने, इस प्रकार अपने जीवन का परित्याग करते हुए भी (जीवाहसा) नहीं की। और तू इस प्रकार के कल्याण-कारी शासन में प्रव्रजित होकर भी छाने बिना, जीव-सहित जल पीयेगा" (कह) उस भिक्षु को भिड़क, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का मातलि (नामक) सारथी (अब का) आनन्द था। शक्र तो मैं ही था।

३२. नच्च जातक

“रुवं मनुञ्जं . . .” यह गाथा बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, एक बहुत सामान रखने वाले भिक्षु के बारे में कही। कहानी पूर्वोक्त देवधम्म जातक^१ के सदृश ही है।

क. वर्तमान कथा

बुद्ध ने उस भिक्षु से पूछा—“भिक्षु ! क्या तू सचमुच बहु-सामान वाला है ?”

^१ जातक (६)

“भन्ते ! हाँ ।”

“भिक्षु ! तू किस लिए बहु-भाण्डिक हो गया ?”

वह इतनी ही बात से क्रुद्ध हो, पहनना-ओढ़ना छोड़ ‘अब इस ढंग से विच-रूंगा’ (कह) बुद्ध के सामने ही नङ्ग-धड़ङ्ग खड़ा हो गया । मनुष्यों ने कहा— “धिक्कार है । धिक्कार है ।” उसने वहाँ से भाग जाकर सन्यास छोड़ दिया । धर्म-सभा में बैठे भिक्षु ‘यह बुद्ध के सम्मुख भी ऐसा करेगा !’ (कह) उस भिक्षु की निन्दा कर रहे थे ।

बुद्ध ने आकर पूछा—भिक्षुओ ! इस समय बैठे क्या बात-चीत कर रहे थे ?

“भन्ते ! वह भिक्षु आपके सामने (और) चारों प्रकार की परिषद् के बीच में लज्जा-भय छोड़ गाँव के बच्चों की तरह नङ्गा खड़ा रह, लोगों के घृणा करने पर, गृहस्थ हो (बुद्ध) शासन से गिर गया (कहते हुए) बैठे उस भिक्षु की निन्दा कर रहे थे ।”

शास्त्रा ने, ‘भिक्षुओ ! न केवल अब ही वह भिक्षु लज्जा और भय के अभाव में शासन रूपी रत्न से पतित हो गया है, किन्तु पूर्व-जन्म में भी उसे स्त्री-रत्न के लाभ से हाथ धोना पड़ा’ कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में, प्रथम कल्प में चीपायों ने सिंह को (अपना) राजा बनाया । मत्स्यों ने आनन्द मत्स्य को । पक्षियों ने सुवर्ण हंस को । उस सुवर्ण हंसराज की लड़की, हंस-बच्ची सुन्दरी थी । उस (हंस-राज) ने उसे वरदान दिया । उसने अपनी इच्छानुकूल स्वामी (चुनने की आज्ञा) माँगी । हंस-राज ने उसे वरदान दे, हिमवन्त(-प्रदेश) के सब पक्षियों को एकत्रित करवाया । नाना प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षी-गण आकर, एक बड़े पाषाण-तल के नीचे इकट्ठे हुए ।

हंस-राज ने लड़की को बुलाया—“आकर, अपनी इच्छा के अनुकूल स्वामी को चुन लो ।” उसने पक्षी-समूह को देखते हुए, मणि के रंग की ग्रीवा तथा चित्रित पंखों वाले मोर को देख कर इच्छा प्रगट की कि यह मेरा स्वामी

हो। पक्षियों ने मोर के पास जाकर कहा—“सम्म मोर ! इस राज-धीता ने इतने पक्षियों के बीच में स्वामी खोजते हुए, तुझे चुना है।”

मोर ने, “तो क्या वह आज भी मेरे बल को न देखती” (कह) अति प्रसन्न हो, लज्जा-भय छोड़कर, उतने बड़े पक्षि-संघ के बीच में पंखों को पसार कर, नाचना आरम्भ कर दिया। नाचते समय वह नंगा (=बिना ढका) हो गया। सुवर्ण हंस-राज ने लज्जित हो, ‘इसको न तो अन्दर की लज्जा है, न बाहर का भय है। इस लज्जा-भय रहित को मैं (अपनी) लड़की न दूँगा’ (कह) पक्षियों के संघ के बीच में यह गाथा कही—

रुदं मनुञ्जं रुचिरा च पिट्ठी
बेलुरियवण्णूपनिभा च गीवा,
व्याम-मत्तानि च पेखुणानि
नच्चेन ते धीतरं नो ददामि ॥

[(यद्यपि तेरा) स्वर मनोहारी है, पीठ सुन्दर है, गर्दन बिलौर के रंग की है, पंखड़ियाँ दो हाथ (=व्याम) भर की हैं; (तो भी) तेरे नाचने के कारण, तुझे लड़की नहीं देता हूँ]

रुदं मनुञ्जं, ‘रुदं’ में ‘त’ का ‘द’ कर दिया गया। रुदं, मनापं का अर्थ है कि उच्चारित शब्द मधुर। रुचिरा च पिट्ठी, तेरी पीठ भी चित्रित तथा शोभासम्पन्न है। बेलुरियवण्णूपनिभा = बिलौर मणि के वर्ण सदृश। व्याम-मत्तानि; एक व्याम (=दो हाथ) भर। पेरवुणानि-पंखड़ियाँ नच्चेन ते धीतरं नो ददामि—“लज्जा-भय छोड़ कर नाचने के कारण ही, तुझे, ऐसे निर्लज्ज को लड़की नहीं देता हूँ” कह, हंस-राज ने उसी परिषद् के बीच में अपने भांजे हंस-बच्चे को लड़की दे दी। मोर हंस-बच्ची को न पा, लज्जित हो, वहाँ से उड़ कर भाग गया। हंस-राज भी अपने निवास-स्थान को चला गया।

बुद्ध ने “भिक्षुओ ! न केवल अब ही यह लज्जा-भय छोड़ने के कारण (बुद्ध-)शासन रूपी रत्न से पतित हुआ है, पूर्व-जन्म में भी स्त्री-रत्न की प्राप्ति से इसे हाथ धोना पड़ा था। यह धर्म-देशना कह, मेल मिला, जातक का सारांश

निकाल दिखाया । उस समय का मोर (अब का) बहुत सामान रखने वाला (भिक्षु) था और हंस-राज तो मैं ही था ।

३३. सम्मोदमान जातक

“सम्मोदमाना . . .” यह गाथा शास्ता ने कपिलवस्तु के समीप निम्नो-धाराम में रहते समय चुम्बट-कलह के बारे में कही । वह कथा कुणाल-जातक^१ में आयेगी ।

क. वर्तमान कथा

उस समय बुद्ध ने रिश्तेदारों को आमन्त्रित कर, “महाराजाओं ! रिश्तेदारों को एक दूसरे से लड़ना-भगड़ना उचित नहीं । पूर्व समय में तिरश्चीन (= पशु-पक्षी) योनि में पैदा हुए भी, एकमत रहने के समय शत्रु को पराजित किया था, और जब विवाद में पड़ गये, तो महाविनाश को प्राप्त हुए’ कह, रिश्तेदार राजाओं के याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधि-सत्त्व (एक) बटेर की योनि में उत्पन्न होकर, अनेक सहस्र बटेरों के साथ जंगल में रहते थे । उस समय बटेरों का एक शिकारी उनके रहने के स्थान पर जाता । वह बटेरों का सा शब्द करता । जब बटेरें इकट्ठी हो जातीं तो उन पर जाल फेंकता; और सिरों पर से दबाते हुए, सब को एक जगह करके, पेटी में

^१ कुणाल जातक (५३६)

भर लेता । घर जाकर, उन्हें बेच , उस आमदनी (=मूल्य) से जीविका चलाता था ।

तब एक दिन बोधिसत्त्व ने उन बटेरो को कहा—‘यह चिड़ीमार हमारी जात-बिरादरी का नाश करता है । मैं एक उपाय जानता हूँ, जिससे यह हमें न पकड़ सकेगा । अब से, जैसे ही यह तुम्हारे ऊपर जाल फेंके, वैसे ही जाल की एक एक गाँठ में सिर रख कर, जाल के सहित उड़कर, उसे यथेष्ट स्थान पर ले जाकर, किसी काँटे-दार झाड़ी के ऊपर डाल दो । ऐसा होने पर, हम नीचे से जहाँ तहाँ से भाग जायेंगे ।’ उन सब ने ‘अच्छा’ कहा । दूसरे दिन ऊपर जाल फेंकने पर, (वे) बोधिसत्त्व के कथनानुसार जाल को उड़ा कर, एक काँटेदार झाड़ी पर फेंक, अपने आप नीचे से, जहाँ तहाँ से निकल भागे ।

चिड़ीमार को झाड़ी में से जाल निकालते ही निकालते विकाल हो गया । वह खाली हाथ ही (घर) लौटा । अगले दिन से लगाकर बटेर (रोज) वैसा ही करते । वह (चिड़ीमार) भी सूर्यास्त होने तक जाल को ही छुड़ाते रह कर, कुछ भी न पा, खाली हाथ ही घर लौटता । तब उसकी भार्या ने क्रुद्ध होकर कहा—“तू रोज रोज खाली हाथ लौटता है । मालूम होता है बाहर किसी और की भी परवरिश कर रहा है ।” चिड़ीमार ने “भद्रे ! मुझे किसी और को पालना पोसना नहीं है । केवल वह बटेर एक मत होकर चुगते हैं । मेरे फेंके जाल को लेकर, काँटे की झाड़ी पर डाल चले जाते हैं । लेकिन वह सदैव एक मत होकर नहीं रहेंगे । तू चिन्ता मत कर । जिस समय वह विवाद में पड़ेंगे, उस समय उन सब को लेकर तुझे हँसाता हुआ घर लौटूंगा ।” कह, भार्या को यह गाथा कही—

सम्मोदमाना गच्छन्ति जालमादाय पक्खिनो,
यदा ते विवदस्सन्ति तदा एहन्ति मे वसं ॥

[(अभी) पक्षी एक राय होने के कारण जाल को लेकर (उड़) जाते हैं; लेकिन जब वह विवाद करेंगे, तभी वह मेरे वश में आ जायेंगे ।]

यदा ते विवदस्सन्ति, जिस समय वह बटेर, नाना मत के, नाना (प्रकार की) राय के, होकर विवाद करेंगे =कलह करेंगे । तदा एहन्ति मे वसं—

उस समय वह सभी मेरे वश में आ जायेंगे । और मैं उन्हें लेकर तुम्हें हँसाता हुआ, आऊँगा (कह) भार्या को आश्वासन दिया ।

कुछ ही दिन के बाद चुगने की भूमि (=गोचर-भूमि) पर उतरता हुआ एक बटेर गलती से (=ख्याल न रहने से) दूसरे के सिर पर से लाँघ गया । दूसरे ने क्रोध से कहा, “मेरे सिर पर से कौन लाँघा ?” “मैं गलती से लाँघ गया । क्रुद्ध मत हो !” कहने पर भी वह क्रोध ही करता रहा । बार बार बोलते हुए, वह एक दूसरे को ताना देने लगे, “मालूम होता है, जैसे तू ही जाल को उठाता है !”

उन्हे विवाद करते देख, बोधिसत्त्व ने सोचा—“विवाद करने वालो का कुशल नहीं । अब यह जाल न उठायेंगे, और महान् विनाश को प्राप्त होंगे । चिड़ीमार को अक्सर मिल जायगा । मैं अब यहाँ नहीं रह सकता । ”(यह मोच) वह अपनी परिषद् (=जमात) को ले दूसरी जगह चला गया । चिड़ी-मार ने भी कुछ दिन के बाद आ, बटेरो की बोली बोल, उनके एकत्र होने पर, उन पर जाल फेका । तब एक बटेर ने दूसरे को कहा, ‘जाल ही उठाते उठाते तेरे सिर के बाल गिर पड़े, ले, अब तो उठा ।’ दूसरे ने कहा—“जाल ही उठाते उठाते तेरे दोनो पंखों की पंखड़ियाँ गिर पड़ी । ले, अब तो उठा ।’ सो उनके ‘तू उठा’, ‘तू उठा’, विवाद करते करते ही, चिड़ीमार जाल को उठा, उन सब को एकत्रित कर, पेटी भर भार्या को प्रसन्न करता हुआ, घर लौटा ।

बुद्ध ने, ‘सो हे महाराजाओ ! वाति-सम्बन्धियों का कलह उचित नहीं है । कलह विनाश का ही कारण होता है’; यह धर्म-देशना लाकर, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया । उस समय का मूर्ख (=अपण्डित) बटेर (अब का) देवदत्त था । और पण्डित-बटेर तो मैं ही था ।

३४. मच्छ जातक

“न मं सीतं न मं उण्हं . . .” यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, पूर्व-भार्य्या के लुभाने के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

उस समय बुद्ध ने उस भिक्षु से पूछा— भिक्षु ! क्या तू सचमुच उत्कण्ठित है ?”

“भगवान् ! सचमुच ।”

“तुझे किस ने उत्कण्ठित किया ?”

“भन्ते ! मेरी पूर्व-भार्य्या के हाथों में माधुर्य्य है । उसे नहीं छोड़ सकता हूँ ।”

तब बुद्ध ने, “हे भिक्षु ! यह स्त्री तेरा अनर्थ करने वाली है । पूर्व-जन्म में भी तू इसके कारण मरते मरते, मेरी शरण आने से मरने से बचा” (कह) पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व उसके पुरोहित थे । मछुओं ने नदी में जाल फेंका । एक महामत्स्य अपनी मछली के साथ रति-क्रीडा करता हुआ आ रहा था । उसके आगे आगे जाँती वह मछली जाल-गन्ध सूँघ कर जाल से हट कर निकल गई । लेकिन वह कामासक्त, लोभी मत्स्य जाल के भीतर ही जा फँसा । मछुओं ने उसे जाल में प्रविष्ट हुआ जान, जाल को उठा, मत्स्य को बिना मारे ही ले जा बालू के ऊपर डाल दिया । (उन्होंने) सोचा इसे अङ्गारों पर पका कर खायेगे ।

इसलिए अङ्गार बनाने लगे और सलाई (=काँटे) को छीलने लगे। मत्स्य ने, 'अङ्गार पर तपने का, काँटे से बिंधने का वा अन्य कोई दुःख मुझे पीडा नहीं देता, लेकिन वह जो मछली सोचेगी कि वह किसी दूसरी मछली के पास चला गया, उसीसे मुझे दुःख होता है, उसीसे मुझे बाधा होती है', (कह) रोते पीटते यह गाथा कही—

न मं सीतं न मं उण्हं न मं जालस्मि बाधनं,
यं च मं मञ्जते मच्छी, अञ्जं सो रतिया गतो' ॥

[न मुझे शीत की पीडा है, न ऊष्णता की पीडा है, न जाल में बँधने की पीडा है। (मुझे दुःख है तो यह है) कि मेरी मछली, मेरे बारे में समझेगी कि वह रति के मारे किसी दूसरी मछली के पास चला गया।]

'न मं सीतं न मं उण्हं . . .' मत्स्यों को पानी से बाहर निकालने के समय शीत लगता है, पानी में जाने पर गरमी लगती है। सो दोनों के बारे में 'न तो मुझे शीत ही पीडा देता है, न गरमी।' (कह) रोता है। (और) जो अङ्गार में पकने का दुःख होगा, उसके बारे में भी 'न मुझे गरमी पीडा देती है' (कह) रोता ही है। न मं जालस्मि बाधनं, और जो मेरा जाल में बँधना हुआ, वह भी मुझे पीडा नहीं देता (कह) रोता है। यं च मं आदि का संक्षेपार्थ यह है— वह मछली मेरे जाल में फँसने और इन मछुओं द्वारा पकड़ लिये जाने की बात न जानकर, मुझे न देखती हुई सोचेगी कि वह मत्स्य कामरति के मारे अब दूसरी मछली के पास चला गया होगा—यह उसका मेरे प्रति बुरा-भाव होना मुझे पीडा देता है (कह) बालू के ऊपर पड़ा पड़ा रोता पीटता है।

उस समय दासो से धिरा हुआ पुरोहित, स्नान करने के लिए नदी के किनारे आया। उसे सब प्राणियों की बोली समझ में आती थी। सो, इस मत्स्य का रोना पीटना सुन कर, उसके मन में यह (विचार उत्पन्न) हुआ— यह मत्स्य कामासक्ति के दुःख से पीड़ित होकर रोता है। इस प्रकार आतुर (=दुःखित) चित्त होकर मरने पर भी, यह नरक में ही उत्पन्न होगा। मैं इसका उद्धार करने वाला होऊँगा।" (यह सोच) मछुओं के पास जाकर कहा—

“भो ! तुमने हमें एक दिन भी सालन (=व्यञ्जन) के लिए मछली नहीं दी ?”

मछ्त्रों ने कहा—“स्वामी क्या कहते हैं ? आपको जो मछली अच्छी लगे, उसे ले जाइये ”

“हमें और किसी मछली से काम नहीं, यही (मत्स्य) दे दो ।”

“स्वामी ! ले जाये ।”

बोधिसत्त्व, उसे दोनों हाथों से ले, नदी के किनारे बैठ “भो ! मत्स्य ! यदि मैं आज तुम्हें न देखता, तो तेरे प्राण जाते रहते । अब से क्लेश (=कामासक्ति) के वशीभूत न होना”—यह उपदेश कर, पानी में छोड़, नगर में प्रविष्ट हुए ।

बुद्ध ने इस धर्म-देशना को कह (आर्य-)सत्यो को प्रकाशित किया । (आर्य-)सत्यो का प्रकाशन समाप्त होने पर उत्कण्ठित भिक्षु श्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ । बुद्ध ने भी मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया । उस समय की मच्छी (अब की) पुरानी भार्य्या थी । मत्स्य (अब का) उत्कण्ठित भिक्षु । (और) पुरोहित तो मैं ही था ।

३५. वट्टक जातक

“सन्ति पक्खा. . ” यह गाथा, बुद्ध ने मगध में चारिका करते समय, दावाग्नि के बुझने के सम्बन्ध में कही ।

क. वर्तमान कथा

एक समय बुद्ध ने मगध में चारिका करते हुए मगध के गामड़े में भिक्षाटन कर, भिक्षाटन से लौटकर, भोजनोपरान्त भिक्षुगण सहित रास्ता लिया ।

उस समय महादावाग्नि उठी । (शास्ता के) आगे पीछे बहुत भिक्षु थे । वह आग भी एक-धुआँ, एक ज्वाला हो फैलती ही चली आ रही थी । कुछ मरने से भयभीत अज्ञ (=पृथञ्जन) भिक्षु 'हम प्रति-अग्नि जलायेगे, जिससे जले स्थान पर दूसरी आग न फैल सकेगी' (सोच) अरणि निकाल कर आग जलाने लगे । दूसरों ने कहा—“आवुसो ! तुम क्या करते हो ? गगनमध्य स्थित चन्द्रमा को (न देखते हुए की तरह), पूर्व दिशा में उगने वाले, सहस्र रश्मिधारी सूर्यमण्डल को (न देखते हुए की तरह), समुद्र के तट पर खड़े होकर समुद्र को (न देखते हुए की तरह), सुमेरु पर्वत के पास खड़े होकर सुमेरु पर्वत को (न देखते हुए की तरह) क्या तुम लोक में सदैव अग्र व्यक्ति, सम्यक् सम्बुद्ध को अपने साथ न जाते देखकर ही कहते हो कि हम प्रति-अग्नि देंगे (=जला-येगे)? क्या तुम बुद्ध-बल को नहीं जानते ? (चलो) बुद्ध के पास चलेंगे ।” आगे पीछे जाते हुए वे सभी इकट्ठे होकर दसबल (-धारी) के पास गये ।

महाभिक्षुमंघ को साथ लिये बुद्ध एक जगह खड़े थे । दावाग्नि (सब को) परास्त करती हुई की भोंति, घोपणा करती आ रही थी ।

जिस स्थान पर तथागत खड़े थे, वहाँ पहुँच, उस स्थान से चारों ओर सोलह करीस^१ भर दूरी के स्थान पर, वह वैसे ही बुझ गई, जैसे तिनकों की मशाल (=उल्का) पानी में डुबोने पर । (बुद्ध के) आसपास से बत्तीस करीस की दूरी में (वह आग) न फैल सकी ।

भिक्षु बुद्ध का गुणानुवाद करने लगे—“अहो ! बुद्धों का सामर्थ्य (=गुण) ! यह अचेतन आग भी बुद्धों के खड़े होने की जगह पर न फैल सकी, (और) पानी में तिनको की मशाल की तरह बुझ गई । अहो ! बुद्धों का प्रताप !”

शास्ता ने उनकी बात-चीत सुनकर कहा—“भिक्षुओ ! यह मेरा अब का बल नहीं है, जिसके कारण यह आग इस भूमि-प्रदेश में पहुँच कर बुझ गई है । किन्तु यह मेरी पुरानी सत्य-क्रिया का बल है । इस प्रदेश में इस सारे कल्प भर आग न जलेगी । यह कल्प भर स्थिर रहने वाली प्रातिहार्य

^१ उतना रकबा जिस में एक करीस बीज (चार अम्मन) बोया जा सके ।

(=अलौकिक क्रिया) है।” आयुष्मान् आनन्द ने शास्ता के बठने के लिए चौतही संघाटी बिछा दी। शास्ता पल्लथी मारकर बैठ गये। भिक्षुसंघ भी तथागत को प्रणाम कर तथा घेरकर बैठ गया। तब बुद्ध ने भिक्षुओं के यह याचना करने पर कि ‘भन्ते ! यह जो (अब की बात) है, सो तो हमें प्रगट है। अतीत की जो बात छिपी हुई है, उसे प्रगट करे।’ पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

“पूर्व समय मे, मगध राष्ट्र के उसी प्रदेश मे, बोधिसत्त्व, बटेर की जून में जन्म ग्रहण कर, माता की कोख से निकल, अण्डे को फोड़, निकलते समय ही, एक बड़े गेद जितना (बड़ा) बटेर हुआ। सो (उसके) माता पिता उसे घोसले मे लिटा, चोच से चोगा ला, उसे पालते थे। उसमे, न तो पर फैला कर आकाश मे उड़ने का सामर्थ्य था; न टाँग उठा कर पृथ्वी पर चलने का सामर्थ्य। उस प्रदेश मे प्रति वर्ष दावाग्नि लग जाती। (आग लग जाने के) समय भी, वह चिल्लाता हुआ, उसी स्थान (=प्रदेश) पर रहा। पक्षी-गण अपने अपने घोसले से निकल, मरने से भयभीत, चिल्लाते हुए भागे। बोधिसत्त्व के माता पिता भी मरने से भयभीत (हो) बोधिसत्त्व को छोड़ (अपने) भाग गये। बोधिसत्त्व ने घोसले मे पड़े पड़े गर्दन उठाकर, फैलती आती आग को देख, सोचा—“यदि मुझ मे परों को फैला कर आकाश-मार्ग से जाने का सामर्थ्य हो, तो उड़कर दूसरी जगह चला जाऊँ; यदि परों पर खड़े होकर जाने का सामर्थ्य हो, तो पैदल दूसरी जगह चला जाऊँ। मेरे माता-पिता भी मरने से भय-भीत (हो) मुझे अकेला छोड़कर, अपने प्राण लेकर भाग गये। अब मुझे किसी की शरण नही। मे त्राण-रहित हूँ; शरण-रहित हूँ। मुझे आज क्या करना चाहिए ?” तब उसके (मन में) यह हुआ—“इस लोक में सदा-चार (१=शीलगुण) है, सत्य है, पूर्व समय में पारमिताओं को पूरा कर बोधि-वृक्ष के नीचे बैठ अभिसम्बुद्धत्व प्राप्त कर, शील-सागाधि-प्रज्ञा-विमुक्ति—विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन से युक्त, सत्य-दया-करण-शान्ति से समन्वित, सब सत्वों के प्रति समान मैत्री-भावना रखने वाले, सर्वज्ञ बुद्ध है, उनके द्वारा साक्षात् किये गये धर्म-तत्व (=गुण) है, मुझ मे भी एक सत्य है (अर्थात्) (मुझ

में भी) एक विद्यमान् स्वाभाविक धर्म दिखाई देता है । इसलिए मुझे चाहिए कि मैं पूर्व समय के बुद्धों, और उनके द्वारा साक्षात् किये गये धर्म-तत्वों का विचार करूँ; और अपने में विद्यमान सत्य-स्वाभाविक धर्म को लेकर सत्य-क्रिया कर अग्नि को वापिस लौटा, आज अपना और शेष (सब) पक्षियों का कल्याण करूँ । इसीलिए कहा गया है—

अस्थि लोके शीलगुणो सच्चं सोचेय्यानुदया,
तेन सच्चेन काहामि सच्चकिरियमनुत्तमं,
आवज्जित्वा धम्मबलं सरित्वा पुब्बके जिने,
सच्च बलमपस्साय सच्चकिरियं अकासहं ॥^१

[लोक में सदाचार (=शील-गुण) है, सत्य (है), शीच (है), दया (है);—मैं उस सत्य से उत्तमतम सत्य-क्रिया को करता हूँ । धर्म-बल तथा पूर्व समय के बुद्धों (=जिनो) का स्मरण कर, और सत्य-बल को देखकर, मैंने सत्य-क्रिया की ।]

सो बोधिसत्त्व ने पूर्व समय में परिनिर्वाण को प्राप्त बुद्धों के गुणों का ध्यान धर, अपने में विद्यमान सत्य-स्वभाव के बारे में सत्य-क्रिया करते हुए यह गाथा कही—

सन्ति पक्खा अपतना सन्ति पावा अवञ्चना,
माता पिता च निक्खन्ता जातवेद ! पटिक्कम ॥

[पङ्क है (लेकिन उनसे) उड़ा नहीं जाता; पैर हैं (लेकिन उनसे) चला नहीं जाता । मेरे माता-पिता (मुझे छोड़) चले गये । इसलिए हे अग्नि पीछे हट जा ।]

सन्ति पक्खा अपतना; मेरे पक्ष हैं; लेकिन इनसे मैं उछल नहीं सकता = आकाश-मार्ग से जा नहीं सकता; इसलिए अपतना । सन्ति पावा अवञ्चना, मेरे पाँव भी हैं, लेकिन मैं उनसे वञ्चना =पाँव से चलना नहीं कर सकता, इसलिए अवञ्चना । माता पिता च निक्खन्ता, जो मुझे अव्यत्र ले जाते, वह

^१ देखो चरिया-पिटक (बटुकपोत चरिया) ।

माता-पिता भी मरने के डर से भाग गये। जातवेद ! यह अग्नि का सम्बोधन है। वह जात (=उत्पन्न) होते ही, बेदियति (=प्रगट होती है) इसलिए 'जातवेद' कहलाती है। पटिक्कम, वापिस जा =लौट जा (कह) जातवेद को आज्ञा देता है।

सो (इस प्रकार) महासत्त्व ने 'यदि मेरा पङ्खों-सहित होना सत्य है, और उनको फैलाकर आकाश में न उड़ सकने (की बात) सत्य है, यदि मेरा पाँव-सहित होना, और उनको उठाकर न चल सकने की तथा माता-पिता की मुझे घोंसले में ही छोड़ कर चले जाने (की बात) सत्य है, स्वभाव-भूत है; तो हे जातवेद ! इस सत्यता के कारण तू यहाँ से लौट जा' कह घोंसले में पड़े ही पड़े सत्य-क्रिया की। उसके सत्य-क्रिया (करने) के साथ ही अग्नि १६ करीप भर स्थान से (दूर) हट गई। लौटती हुई और न बुझती हुई (वह) आग (शेष) जंगल में चली गई; (लेकिन) उस स्थान पर पानी में डाले मशाल की तरह, बुझ गई—

सह सच्चकते मय्हं महा पज्जलितो सिखी,
वज्जेसि सोलस करीसानि उदकं पत्वा यथा सिखी^१ ॥

[मेरे सत्य(-क्रिया) के साथ ही, महाप्रज्वलित आग ने, सोलह करीष (भूमि) को वैसे ही छोड़ दिया, जैसे पानी में पडने पर आग।]

सो यह स्थान इस सारे कल्प के लिए अग्नि से सुरक्षित हो गया; यह कल्प भर स्थिर रहनेवाली प्राति-हार्य हुई। इस प्रकार बोधिसत्त्व सत्य-क्रिया करके, जीवन की समाप्ति पर, कर्मानुसार (परलोक) गये।

बुद्ध ने "भिक्षुओ ! यह जो इस जगल का अग्नि से न जलना है, यह मेरा अब का बल नहीं; किन्तु यह पूर्व-जन्म में बटेर-बच्चा होने के समय का मेरा सत्य-बल है"—यह धर्म-देशना कह (आर्य-)सत्त्यों को प्रकाशित किया। सत्त्यों के अन्त में कोई श्रोतापन्न हुए, कोई सकृद्वागामी हुए, कोई अनागामी हुए, कोई अर्हत् हुए। बुद्ध ने भी मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय के माता-पिता (अब के) माता-पिता ही थे। बटेर राज तो मैं ही था।

^१ देखो चरियापिटक, (घट्टकपोत चरिया)।

३६. सक्रुण जातक

“यं निस्सिता . . .” यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, दग्ध-पर्णशाल (= जिसकी पर्णशाला जल गई थी) भिक्षु के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

एक भिक्षु, शास्ता के पास से कर्मस्थान ग्रहण कर, जेतवन से निकल, कोशल (जनपद) के एक सीमान्त ग्राम के समीप, एक अरण्य में रहता था । (वर्षा-वास) के पहले ही महीने में उसकी पर्णशाला जल गई । उसने मनुष्यों से कहा—“मेरी पर्णशाला जल गई । मैं कष्ट-पूर्वक रहता हूँ ।” मनुष्यों ने कहा—“अभी हमारे खेत सूखे हैं, (उन्हें) पानी देकर (पर्ण-शाला) बना-योगे” पानी दे चुकने पर, “बीज बोकर” बीज बो चुकने पर, “मेंढ बाँध कर,” मेंढ बाँध चुकने पर, “गुडाई करके” (गुडाई कर चुकने पर), “काट कर,” (काट चुकने पर), दौरी करके—इस प्रकार, यह, वह काम दिखाते हुए, उन्होंने तीन महीने गुज़ार दिये । वह भिक्षु तीन महीने तक खुले में कष्ट से रहने के कारण कर्मस्थान के अभ्यास में उन्नति न कर, अर्हत्व (= विशेष) न प्राप्त कर सका । पवारणा^१ के पश्चात्, वह, बुद्ध के पास पहुँच, प्रणाम कर, एक ओर बैठा । शास्ता ने उससे बात-चीत करते हुए पूछा—“भिक्षु ! क्या वर्षा-वास सुख-पूर्वक व्यतीत किया ? क्या कर्मस्थान सफल हुआ ?” उसने वह समा-चार कह, उत्तर दिया कि निवास-स्थान के अनुकूल न होने से मेरा कर्मस्थान सफल नहीं हुआ । बुद्ध ने, “भिक्षु ! पहले समय में तिरश्चीन प्राणी भी अपनी अनुकूलता, अननुकूलता पहचानते थे, तूने क्यों न पहचानी ?” कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

^१ वर्षावास समाप्त कर ।

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में, **बाराणसी** में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्त्व पक्षी-योनि में उत्पन्न हो, पक्षी-गण सहित, अरण्य में, शाखा-टहनियों से युक्त (एक) बड़े वृक्ष के आश्रय में रहते थे। एक दिन उस वृक्ष की एक दूसरे से रगड़ खाती हुई शाखाओं से चूर्ण (सा) गिरने (तथा) धुआँ उठने लगा। इसे देख, बोधिसत्त्व ने सोचा—“यह इस प्रकार रगड़ खाती हुई दो शाखायें आग पैदा करेगी (=फेकेगी), जो गिर कर पुराने पत्तों में लग जायगी, (और) फिर इस वृक्ष को भी जला देगी। हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें यहाँ से भाग कर, अन्यत्र जाना चाहिए।” (यह सोच) उसने पक्षी-गण को यह गाया कही—

यं निस्सिता जगति रुहं विहङ्गमा स्वायं अग्निं पमुञ्चति,
दिसा भजथ वक्कङ्गा । जातं सरणतो भयं ॥

(जिस वृक्ष का पक्षियों ने आश्रय लिया है, सो यह वृक्ष आग छोड़ता है। (इसलिए) हे पक्षियो ! (अन्य अन्य) दिशाओं को जाओ। (हमारे) शरण(-गत) स्थान से ही भय उत्पन्न हो गया।]

जगति रुहं; जगति कहते हैं पृथ्वी को। वहाँ उत्पन्न होने वाला रुक्ख, **जगतिरुह**। **विहङ्गमा**, विहं कहते हैं आकाश को, वहाँ (=आकाश में) गमन करने से पक्षी को **विहङ्गम** कहते हैं। **दिसा भजथ**; इस वृक्ष को छोड़, अन्यत्र भाग कर चारो दिशाओं में विचरो। **वक्कङ्गा**—पक्षियों का सम्बोधन। वे (अपने) उत्तमाङ्ग को, गले को कभी कभी वङ्क (=टेढ़ा) करते हैं, इसलिए ‘वक्कङ्गा’ कहलाते हैं, अथवा उनके दोनो ओर पङ्क वङ्क होने से भी, वह ‘वक्कङ्गा’ कहलाते हैं। **जातं सरण तो भयं**; हमारे आश्रय-स्थान वृक्ष से ही भय पैदा हो गया। **आओ ! अन्यत्र चलो**।

बोधिसत्त्व की बात मानने वाले बुद्धिमान् पक्षी। उसके साथ एक ही उड़ान में उड़ कर अन्यत्र चले गये। लेकिन जो मूर्ख थे वे ‘यह ऐसे ही एक बूँद पानी

में मगर-मच्छ देखा करता है' (सोच), उसकी बात न मान वही रहे। उसके थोड़े ही काल बाद, जैसे बोधिसत्त्व ने सोचा था, वैसे ही आग पैदा होकर, उस वृक्ष में लग गई। धुएँ और ज्वालाओं के उठने पर, धुएँ से अन्धे पक्षी अन्वयत्र न जा सके। (वहीं) आग में गिर कर विनाश को प्राप्त हुए।

बुद्ध ने 'भिक्षु ! पहले समय में तिरश्चीन योनि में पैदा हुए भी, वृक्ष के ऊपर रहते हुए, अपनी अनुकूलता, अननुकूलता को जानते थे। तूने क्यों न पहचानी ?"—यह धर्म-देशना कह, (आर्य-सत्यों को प्रकाशित किया। (आर्य-सत्यों का प्रकाशन समाप्त होने पर, वह भिक्षु श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। बुद्ध ने भी मेल मिला कर, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय बोधिसत्त्व की बात मानने वाले पक्षी (अब) बुद्ध-परिपद हुए। (और) बुद्धिमान-पक्षी तो मैं ही था।

३७. तित्तिर जातक

“ये वद्धमपचायन्ति . . .” यह गाथा बुद्ध ने श्रावस्ती को जाते समय सारिपुत्र स्थविर के लिए शयनासन (=निवास-स्थान) न मिलने के सम्बन्ध में कही।

क. वर्तमान कथा

अनाथपिण्डिक के विहार बनवा कर, दूत भेजने पर, बुद्ध राजगृह से निकल वैशाली पहुँच वहाँ इच्छानुसार विहार कर, श्रावस्ती जाने के विचार से चारिका के लिए निकले। उस समय छः-वर्गीय भिक्षुओं के शिष्य आगे आगे जाकर स्थविरों के शयनासन न ग्रहण किये रहने पर भी, 'यह शयनासन हमारे उपाध्याय के लिए होगा, यह हमारे आचार्य के लिए होगा; यह हमारे लिए होगा' (कह) शयनासन दखल कर लेते थे। पीछे आने वाले स्थविरों

को शयनासन न मिलते । सारिपुत्र के शिष्यों को भी स्थविर के लिए शयनासन ढूँढ़ने पर शयनासन न मिला । स्थविर ने शयनासन न मिलने से, बुद्ध के शयनासन से कुछ ही दूर, एक वृक्ष के नीचे, बैठ कर और चल-फिर कर (रात) बिताई । बुद्ध ने तड़के ही निकल कर खाँसा । स्थविर ने भी खाँसा । “यह कौन है ?” “भन्ते ! मैं सारिपुत्र हूँ ।” “सारिपुत्र ! तू इस समय यहाँ क्या कर रहा है ?” उसने वह (सब) हाल कह दिया । बुद्ध को स्थविर की बात सुन, यह सोचते सोचते कि, ‘जब मेरे जीते जी ही भिक्षु एक दूसरे के प्रति गौरव तथा सम्मान पूर्वक नहीं विचरते, तो मेरे परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने पर यह क्या करेगे’ धर्म-संवेग उत्पन्न हुआ । उन्होंने प्रभात होने पर, भिक्षुसंघ को इकट्ठा करवा भिक्षुओं से पूछा—“भिक्षुओ ! क्या सचमुच छः-वर्गीय भिक्षु आगे आगे जा कर स्थविरों के शयनासन दखल कर लेते हैं ?”

“भगवान् ! सचमुच ।”

तब (भगवान् ने) छः-वर्गीय भिक्षुओं को धिक्कार, धार्मिक कथा कह (सब) भिक्षुओं को सम्बोधित किया—“भिक्षुओ ! प्रथम आसन, प्रथम जल, और प्रथम परोसे के योग्य कौन है ?”

कुछ भिक्षुओं ने कहा—“जो क्षत्रीय कुल से प्रव्रजित हुआ हो ।” कुछ ने, “जो ब्राह्मण-कुल से, जो गृहपति-कुल (= वैश्य-कुल) से ।” औरों ने, “विनय-धर, धर्म-कथित, प्रथम ध्यान के लाभी, द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ ध्यान के लाभी ।” औरों ने कहा—“श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अर्हंत, त्रि-विद्याओ का ज्ञाता, छः अभिज्ञा-प्राप्त ।”

इस प्रकार उन भिक्षुओं के अपनी अपनी रचि के अनुसार अग्र-आसन आदि के योग्यों के कहने के समय, बुद्ध ने कहा—“भिक्षुओ ! मेरे शासन में अग्रआसन आदि प्राप्त करने के लिए न क्षत्रीय-कुल में से प्रव्रजित होना प्रमाण है, न ब्राह्मण-कुल से, न वैश्य-कुल से प्रव्रजित होना प्रमाण है, न विनयधर (होना), न सूत्र-धर (होना), न अभिधर्म का ज्ञाता (होना), न प्रथम-ध्यान आदि का लाभी (होना), न श्रोतापन्न आदि (होना) । हे भिक्षुओ ! इस शासन में प्रणाम, सेवा, हाथ जोड़ना, और अन्य उचित-क्रिया—यह सब बड़प्पन के श्रम से किया जाना चाहिए । अग्रआसन, अग्र-जल और अग्रपरोसा इस ‘बड़प्पन’ के ही क्रम से मिलना चाहिए । यही यहाँ प्रमाण है । इस

लिए इन सब में से जो सबसे बड़ा^१ है, वही यहाँ योग्य है। हे भिक्षुओ ! अब इस समय सारिपुत्र मेरा अग्र-श्रावक है, मेरे बाद धर्म-चक्र प्रवर्तित करने वाला है, मेरे बाद वही शयनासन पाने का अधिकारी है। सो, उसीने शयनासन न मिलने के कारण आज की रात वृक्ष के नीचे बिताई। जब तुम अभी से इस प्रकार अगौरव-युक्त तथा असम्मान-युक्त हो, तो समय बीतने पर क्या करके विचरोगे ?” फिर उनको उपदेश देने के लिए बुद्ध ने, “भिक्षुओ ! पूर्व समय में तिरश्चीन योनि में उत्पन्न हुआओं ने भी हमारे लिए यह उचित नहीं है कि हम एक दूसरे का आदर न कर, सत्कार न कर, अनुचित ढंग से विचरते रहे। हम अपने में से जो बड़ा है, उसे जानकर, उसे प्रणाम (= अभिवादन) आदि करेंगे। सो उन्होंने अच्छी प्रकार परीक्षा कर, यह मालूम किया कि उनमें कौन बड़ा है। उसे प्रणाम आदि करते हुए, देव-पथ को भरते हुए (परलोक) गये” कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में हिमालय के पास एक बड़ा बर्गद था। उसको आश्रय कर, तित्तिर, वानर और हाथी—तीन मित्र विहार करने थे। वे तीनों एक दूसरे का आदर न करने वाले, सत्कार न करने वाले, साथ जीविका न करने वाले थे। तब उनके मन में यह (विचार) हुआ—हमारे लिए इस प्रकार रहना उचित नहीं। जो हम लोगो में बड़ा है, उसे प्रणाम आदि करते हुए रहे। फिर ‘हम में कौन जेठा है?’ इसे सोचते हुए, एक दिन ‘एक ऐसा उपाय है’ (जिससे मालूम हो सके कि कौन जेठा है) सोच, तीनों जने बड़ के नीचे बैठे।

वहाँ बैठने पर तित्तिर और बन्दर ने हाथी से पूछा—“सौम्य हाथी ! तू इस बड़ वृक्ष को किस समय से जानता है ?”

उसने उत्तर दिया—सौम्यो ! जब मैं वच्चा था, तो इस बर्गद के वृक्ष को मैं जाँघ के बीच करके लाँघ जाता था। बीच करके खड़े होने के समय, इसकी फुनगी मेरे पेट को छूती थी। सो, मैं इसे, इसके गाछ होने के समय से

^१ भिक्षुओं में पूर्व प्रब्रजित बड़ा होता है।

जानता हूँ ।” फिर दोनों जनों ने पूर्व प्रकार से बन्दर से पूछा ।

वह बोला—सौम्यो ! जब मैं बच्चा था, तो भूमि पर बैठ कर, बिना गर्दन उठाये, इस बर्गद के पीधे के फुनगी के अंकुरो को खाता था । सो मैं इसे छोटा होने के समय से जानता हूँ । शेष दोनों ने पूर्व प्रकार से ही तित्तिर से पूछा । वह बोला—“सौम्यो ! पहले अमुक स्थान पर एक बड़ा बर्गद का पेड़ था । मैंने उसके फल खाकर इस स्थान पर बीट की । उससे थह वृक्ष पैदा हुआ । सो मैं इसे इसके अनुत्पन्न-काल से जानता हूँ । इसलिए, मैं तुम (दोनों) से जन्म से जेठा हूँ ।”

ऐसा कहने पर बन्दर और हाथी ने तित्तिर पण्डित को कहा—सौम्य ! तू हम मे जेठा है । इसलिए अब से हम तेरा सत्कार करेगे, गौरव करेंगे, मानेंगे, वन्दना करेगे, पूजा करेगे, अभिवादन करेगे, सेवा करेगे, हाथ जोड़ेगे और भी सब उचित-कर्म करेगे ; तथा तेरे उपदेशानुसार चलेंगे । (इसलिए) अबसे तू हमें उपदेश देना और अनुशासन करना ।” उस समय से तित्तर उन्हें उपदेश देने लगा । (उसने) उन्हें (पाँच) शीलो मे प्रतिष्ठित किया । अपने आप भी उसने शील ग्रहण किये । वे तीनों जने पाँच शीलो मे प्रतिष्ठित हो, एक दूसरे का आदर करते, सत्कार करते, साथ जीविका करते हुए रह कर, जीवन के अन्त में देव-लोक गामी हुए ।

उन तीनों का यह समझौता तैत्तिरीय-ब्रह्मचर्य्य कहलाया । भिक्षुओ ! वह तिर्यग् योनि के प्राणी थे । (तो भी) वे, एक दूसरे का गौरव करते, सत्कार करते विहरते थे । तुम इस प्रकार के सु-आख्यात धर्म-विनय मे प्रब्रजित हो कर भी किस लिए एक दूसरे का गौरव न करते, सत्कार न करते विहरते हो ?”

भिक्षुओ ! अब से तुम्हें वृद्ध-पन (=जेठे-पन) के अनुसार अभिवादन, प्रत्युत्थान, (बड़े के सामने खड़े होना), हाथ जोड़ना, कुशल प्रश्न, प्रथम-आसन, प्रथम-जल, प्रथम-परोसा देने की अनुज्ञा करता हूँ । अब से कनिष्ठतर भिक्षु द्वारा ज्येष्ठ-तर का शयनासन दखल नही किया जाना चाहिए । जो दखल करेगा, उसे 'दुष्कृत' की आपत्ति (होगी) । इस प्रकार शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, अभिसम्बुद्ध हो कर (ही) यह गाथा कही—

ये वृद्धमपचायन्ति नरा धम्मस्स कोविदा,
विदुडेव धम्मे पासंसा सम्पराये च सुग्गति ॥

[जो धर्म के ज्ञाता नर, बड़ों की पूजा करते हैं; वे इसी जन्म में प्रशंसा के भागी तथा पर-लोक में सुगति के भागी होते हैं ।]

ये बद्धमपचायन्ति; जाति-वृद्ध, वयो-वृद्ध, गुण-वृद्ध—तीन प्रकार के बड़े होते हैं। उनमें (ऊँची) जाति वाला जाति-वृद्ध, (अधिक) आयु वाला वयो-वृद्ध, गुण (-विशेष) से युक्त गुण-वृद्ध। उनमें से यहाँ 'वृद्ध' शब्द से गुण-सम्पन्न और वयो-वृद्ध का ही मतलब है। अपचायन्ति, बड़ों के सत्कार करने के कर्म से पूजते हैं। धम्मस्स कोविदा, बड़ों की पूजा के काम में दक्ष = हुशियार। विट्ठेव धम्म, इसी जन्म में। पासंसा, प्रशंसा के अधिकारी। सम्पराये च सुगति, इस लोक को छोड़ कर जो गन्तव्य पर-लोक है, वहाँ भी उनकी सुगति ही होती है। सारांश यह है—कि हे भिक्षुओ ! चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण; चाहें वैश्य हों, चाहे शूद्र; चाहे गृहस्थ हों, वा प्रव्रजित; चाहे तिर्यग् योनि के ही प्राणी हों—जो कोई भी प्राणी, अपने से बड़ों की पूजा करने के कर्म में दक्ष, हुशियार होते हैं, गुणसम्पन्नों की, वयो-वृद्धों की पूजा करते हैं, वे इस जन्म में 'बड़ों का आदर करने वाला हूँ'—इस प्रकार की प्रशंसा, स्तुति को प्राप्त करते हैं, और शरीर-भेद होने पर स्वर्ग-लोक में उत्पन्न होते हैं।

इस प्रकार वृद्ध ने 'ज्येष्ठो के सत्कार' करने के कर्म की प्रशंसा कर, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का हस्ति-नाग (अब का) भोग्लान (स्थविर) था। बानर सारिपुत्र था। तित्तिर-पण्डित ती में ही था।

३८. बक जातक

“नाच्चन्त निकतिप्पञ्जो . . .” यह गाथा, शास्ता ने जेनवन में विहार करते समय चीवर बनाने (=बढ़ाने) वाले भिक्षु के बारे में कही।

क. वर्तमान कथा

एक जेतवन-वासी भिक्षु, चीवर सम्बन्धी काटना, रफू करना, . . . बिठाना तथा सीना आदि जो जो कृत्य है, उन सब के करने में दक्ष था । अपने इस दक्ष-पन से वह चीवर बनाता था । इसलिए वह चीवर-वर्द्धक नाम से प्रसिद्ध हुआ । लेकिन यह क्या करता था ? पुराने चिथड़ों में, हुशियारी का हाथ लगा, उनके मूट्टु, सुन्दर चीवर बना, रँगने के बाद, उन्हें कफ दे (—आटे वाले पानी से रँग कर), शङ्ख से रगड़, उज्ज्वल, मनोज्ञ करके रखता था । जो चीवर बनाना नहीं जानते, वह भिक्षु नया कपड़ा लेकर, उसके पास आते और कहते—“हम चीवर बनाना नहीं जानते । हमें चीवर बना दे ।” वह “आवुसो ! चीवर बना कर समाप्त करने में बहुत चिर लगता है । मेरे पास बना बनाया चीवर पडा है । इस कपड़े को रख कर (उस वने बनाये) चीवर को ले जाओ” (कह चीवर) लाकर दिखाता । वह उसके रंग की तड़क-भडक देख, अन्दर के बारे में कुछ न जानते हुए, (कपड़ा) पक्का है, मान, वह चीवर ले, और चीवर-वर्द्धक को नया कपड़ा दे कर चले जाते । थोड़ा मैला होने पर, गरम पानी से धोया जाने पर, वह चीवर अपनी असलियत दिखा देता । जहाँ तहाँ पुराना-पन दिखाई देने लग जाता । वे (भिक्षु) पछताते थे । इस प्रकार आने वालों को पुराने चिथड़ों से ठगने के कारण, वह भिक्षु सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया । जैसे यह जेतवन में वैसे ही एक गाँव में भी एक (और) चीवर-वर्द्धक भिक्षु संसार को ठगता था । उसे मिलने वाले भिक्षुओं ने कहा—“भन्ते ! जेतवन में एक चीवर-वर्द्धक भिक्षु इस प्रकार संसार को ठगता है ।”

उस भिक्षु के मन में हुआ—“मैं उस जेतवन-वासी भिक्षु को ठगूँ ।” सो वह चीथड़ों का अच्छा चीवर बना कर, सुन्दर रंग से रँग कर, उसे पहन जेतवन गया । दूसरे ने उसे देखते ही (चित्त में) लोभ उत्पन्न कर पूछा—“भन्ते ! क्या यह चीवर आपने बनाया है ?”

“आवुसो! हाँ (मैंने बनाया है) ।”

“भन्ते ! यह चीवर मुझे दे दें । आपको दूसरा मिलेगा ।”

“आवुसो ! हम ग्रामवासी हैं । हमे प्रत्यय (—चीवर आदि आवश्यकताये) आसानी से नहीं मिलते । मैं यह चीवर तुझे देकर, स्वयं क्या पहनूँगा ?”

“भन्ते ! मेरे पास नया वस्त्र है। उसे ले जाकर आप अपना चीवर घना ले।” “आवुसो ! मैंने इसमें हाथ की मेहनत (=काम) की है, लेकिन तुम्हारे ऐसा कहने पर, मैं क्या कर सकता हूँ ? ले लें।” (कह) वह चीथडो का चीवर उसे दे, (उससे) नया कपड़ा ले, उसे ठग चल दिया। जेतवनवासी (भिक्षु) को वह चीवर पहन, कुछ दिन के बाद गरम पानी से धोने से पता लगा कि वह चीथडों का चीवर है। उसे देख वह लज्जित हुआ कि ग्रामवासी चीवर-वाले ने जेतवनवासी चीवर-वाले को ठग लिया। उसका ठगा जाना (भिक्षु-)संघ में प्रगट हो गया।

एक दिन धर्म-सभा में बैठे भिक्षु, उस कथा को कह रहे थे। बुद्ध ने आकर पूछा—“भिक्षुओ ! अब बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ?” उन्होंने वह बात कही।

बुद्ध ने “भिक्षुओ ! न केवल अभी जेतवनवासी चीवर वाला श्रीरो को ठगता (रहा) है, पहले भी ठगता रहा है, और न केवल अभी ग्रामवासी (चीवर वाले) ने, इस जेतवनवासी चीवर वाले को ठगा है, पहले भी ठगा है” कह, पूर्व-जन्म की कथा आरम्भ की—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बोधिसत्त्व, एक जगल में एक कमल के तालाब के पास खड़े वृक्ष पर एक वृक्ष-देवता की योनि में उत्पन्न हुए। तब गर्मी के मौसम में एक दूसरे छोटे तालाब में पानी की कमी हो गई। इस तालाब में बहुत सी मछलियाँ रहती थीं। एक बगुला ‘एक तरीके से इन मछलियों को ठग कर खाऊँगा’ सोच, जाकर, पानी के किनारे, चिन्तित सा (मुँह बनाकर) बैठ गया। उसे देख मछलियों ने पूछा—“आर्य ! चिन्तित क्यों बैठे हो ?”

“बैठा, तुम्हारे लिए चिन्ता कर रहा हूँ।”

“आर्य ! हमारे लिए क्या चिन्ता कर रहे हो ?”

“इस तालाब में पानी नपा-तुला है, भोजन की कमी है, गरमी की अधिकाता है; मैं बैठा तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ कि अब यह मछलियाँ क्या करेंगी ?”

“तो आर्य ! (हम) क्या करें ?”

“यदि तुम मेरा कहना करो, तो मैं तुम्हें, एक एक करके, चोच से पकड़, पंच-वर्ण के कमलों से आच्छन्न, एक महातालाब में ले जाकर छोड़ आऊँ।”

“आर्य ! प्रथम कल्प से लेकर (आज तक) मछलियों की चिन्ता (= हित) करने वाला (कोई) बगुला नहीं हुआ। क्या तू हमें एक एक करके खाना चाहता है ?”

“मैं अपने पर विश्वास करने वालों को—तुम्हें—नहीं खाऊँगा। लेकिन यदि मेरी तालाब के होने की बात पर विश्वास न हो, तो मेरे साथ एक मछली को (पहले) तालाब देखने के लिए भेजो।”

मछलियों ने उसकी बात पर विश्वास कर, यह जल और स्थल दोनों जगहों पर समर्थ हैं (सोच) एक कापी महामछली दी; और कहा इसे ले जाओ। उसने उसे ले जाकर, तालाब में छोड़ दिया; और सब तालाब को दिखा कर, फिर (वापिस) लाकर उन मछलियों के पास छोड़ दिया। उसने उन मछलियों से तालाब के सौन्दर्य (सम्पत्ति) की प्रशंसा की। उन्होंने उसकी बात सुन, जाने की इच्छुक हो, (बगुले से) कहा—“अच्छा ! आर्य ! हमे लेकर चलो।”

बगुला पहले उस काणे महामत्स्य को तालाब के किनारे ले जाकर, तालाब दिखा कर, तालाब के किनारे उत्पन्न वरुण-वृक्ष पर जा बैठा। फिर उस (मछली) को शाखाओं के बीच में डाल, चोच से कोंच कोंच कर मारा, और मांस खा (मछली के) काँटों को वृक्ष की जड़ में डाल दिया। फिर जाकर ‘उस मछली को मैं छोड़ आया। अब दूसरी आर्ये’ (कह), इस उपाय से एक एक को ले जा, सब को खाकर, आकर देखा तो वहाँ एक भी बाकी न थी।

केवल एक केकड़ा वहाँ बाकी रह गया था। बगुले ने उसे भी खाने की इच्छा से कहा—भो। कर्कटक। मैं उन सब मछलियों को ले जाकर महा-तालाब में छोड़ आया। आ, तुम्हें भी ले चलूँगा।”

“ले कर जाते हुए, मुझे कैसे पकड़ोगे ?”

“इस कर (=चोच में पकड़ कर) लेकर जाऊँगा।”

“तू ! इस प्रकार ले जाते हुए, मुझे गिरा देगा। मैं तेरे साथ न जाऊँगा।”

“डर मत! मैं तुम्हें अच्छी प्रकार पकड़ कर ले जाऊँगा।”

केकड़े ने सोचा—“इसने मछलियों को (तो) तालाब में ले जाकर नहीं छोड़ा है। यदि मुझे तालाब में ले जाकर छोड़ देगा, तो इस में इसकी कुशल है; यदि नहीं छोड़ेगा, तो इसकी गर्दन छेद कर, इसका प्राण हर लूँगा।”

सो उसने कहा—“सौम्य बगुले ! तू ठीक से न पकड़ सकेगा । लेकिन हमारा जो पकड़ना होता है, वह पक्का होता है । इसलिए यदि मुझे अपने डंक से तू अपनी गर्दन पकड़ने दे, तो तेरी गर्दन को अच्छी तरह पकड़े, मैं तेरे साथ चलूँगा ।” उसने उसकी ठगने की इच्छा को, ‘न जानते हुए’ ‘अच्छा’ कह, स्वीकार किया । केकड़े ने अपने डंक से, लोहार की संडासी की तरह, उसकी गर्दन को अच्छी तरह पकड़ कर कहा—“अब चल ।” वह उसे ले जाकर, तालाब दिखा कर वरुण-वृक्ष की ओर उड़ा ।

केकड़े ने कहा—“मामा ! तालाब तो यहाँ है; लेकिन तू यहाँ से ले जा रहा है ।” बगुले ने कहा—“मालूम होता है कि तू समझता है कि ‘मैं’ प्यारा मामा और तू मेरी बहन का प्रिय-पुत्र है’ कह उठाये फिरते हुए मैं तेरा दास हूँ । देख इस वरुण-रूख के नीचे पड़े (मछलियों के) काँटो के ढेर को । जैसे मैं इन सब मछलियों को खा गया: वैसे ही तुझे भी खाऊँगा ।”

केकड़े ने उत्तर दिया—“यह मछलियाँ अपनी मूर्खता से तेरा आहार हुईं । मैं तुझे अपने को खाने न दूँगा । किन्तु तेरा ही विनाश करूँगा । तू अपनी मूर्खता के कारण नहीं जानता कि तू मुझसे ठगा गया । मरना होगा, तो दोनों मरेंगे । देख, मैं तेरे मिर को काट कर भूमि पर फेंक दूँगा ।” (कह) उसने संडासी की तरह अपने डंक से उसकी गर्दन भींची । बगुले ने चौड़े मुँह, आँखों से आंसू गिराते हुए मरने से भयभीत हो, कहा—“स्वामी ! मुझे जीवन दे । मैं तुझे नहीं खाऊँगा ।”

“यदि ऐसा है, तो उतर कर मुझे तालाब में छोड़ ।”

उसने रुक कर, तालाब पर ही उतर, केकड़े को तालाब के किनारे कीचड़ पर रक्खा । केकड़ा, कैंची से कुमुद की डंठल काटने की तरह, उसकी गर्दन काट कर पानी में धुस गया । वरुण-वृक्ष के देवता ने उस आश्चर्य को देख, साधुकार देते हुए, (तथा) वन को उन्नादित करते हुए, मधुर स्वर से यह गाथा कही—

नाच्चन्त निकतिप्पञ्जो निकत्या सुखमेघति,

आराघेति निकतिप्पञ्जो बको कक्कटकामिव ॥

धूर्त-बुद्धि (आदमी) अपनी अधिक धूर्तता में सदैव सुख नहीं पा सकता । धूर्त-बुद्धि (अपने किये का फल) भोगता है, जैसे बगुले ने केकड़े (के द्वारा) ।

नाचचन्त निकतिप्पञ्जो निकत्या सुखमेधति, निकति कहते हैं ठगी को । निकतिप्पञ्जो, ठगने वाला आदमी (=धूर्त) उस धूर्तता से (=उस ठगी से) ; न अचचन्त सुखमेधति, सदैव सुख में प्रतिष्ठित नहीं रह सकता, अवश्य ही विनाश को प्राप्त होता है । आराधेति =प्राप्त करता है । निकतिप्पञ्जो, धूर्तता सीखा हुआ आदमी=पापी आदमी, अपने किये पाप-कर्म का फल पाता है, भोगता है । कैसे ? बको कक्कटकामिव, जैसे बगुले ने केकड़े से गर्दन छिदवाई; इसी प्रकार पापी पुरुष इस जन्म में, वा अगले जन्म में, अपने किये पाप के फलस्वरूप, भय का भागी होता है । इस अर्थ को प्रकाशित करते हुए, महासत्त्व ने वन को उन्नादित करते हुए धर्मोपदेश किया ।

शास्ता, 'भिक्षुओ ! न केवल अभी ग्रामवासी चीवर-वाले (भिक्षु) ने इसे ठगा, पूर्व जन्म में भी ठगा है' कह, इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिखाया । उस समय का वह बगुला (अव का) जेतवन वासी चीवर-वाला हुआ । केकडा (अव का) ग्रामवासी चीवर-वाला । वृक्ष-देवता तो मैं ही था ।

३६. नन्द जातक

“मञ्जे सोवण्यो रासि . . .” यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में बिहार करते समय, सारिपुत्र स्थविर के शिष्य के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

वह भिक्षु मुभाषी था, बात सह लेने वाला था, और बड़े उत्साह से स्थविर की सेवा करता था । एक समय (सारिपुत्र) स्थविर, शास्ता की आज्ञा ले,

चारिका करते हुए, दक्षिणागिरि^१ जनपद पहुँचे। वहाँ पहुँच कर वह भिक्षु अभिमानी हो गया। स्थविर का कहना नहीं मानता था। 'आवुस ! यह कर' कहने पर स्थविर का विरोधी हो जाता था। स्थविर उसका आशय (=चित्त की बात) न समझते (=जानते)। वह, वहाँ चारिका कर, फिर (वापिस) जेतवन लौट आये। स्थविर के जेतवन-विहार पहुँचने के समय से वह भिक्षु फिर पूर्ववत् हो गया। स्थविर ने शास्ता से निवेदन किया—“भन्ते ! मेरा एक शिष्य एक स्थान पर (रहते समय) सौ (मुद्रा) के खरीदे हुए गुलाम की तरह रहता है, दूसरे स्थान पर (रहते हुए) अभिमानी हो, 'यह कर' कहने पर विरोधी हो जाता है।" शास्ता ने कहा—“सारिपुत्र ! इस भिक्षु का यह स्वभाव अब ही नहीं है, यह पहले भी एक स्थान पर तो सौ (मुद्रा) से खरीदे गुलाम की तरह रहता था; एक स्थान पर प्रतिपक्षी, (प्रति-)शत्रु हो जाता था।” यह कह स्थविर के याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिमत्त्व ने एक कुटुम्ब में जन्म लिया। एक गृहस्थ उसका मित्र था। गृहस्थ अपने बूढ़ा था, लेकिन उसकी स्त्री तरुण थी। उसको स्त्री से एक पुत्र पैदा हुआ। उसने सोचा—(कदाचित्) यह तरुण स्त्री, मेरी मृत्यु के बाद किसी दूसरे पुरुष को लेकर, इस धन को नष्ट कर दे। मेरे पुत्र को न दे। सो, मैं इस धन को पृथ्वी में गाड़ दूँ।” (यह सोच) घर के नन्द नामक नौकर को ले, जंगल में जा, एक स्थान पर धन को गाड़, उसको बता कर कहा—“तात ! नन्द ! मेरे मरने पर, मेरे पुत्र को यह धन बता देना। उसकी ओर से लापरवाह न होना।” (इस प्रकार) उपदेश दे कर मर गया।

क्रम से उसका पुत्र बड़ा हो गया। माता ने कहा—“तात ! तेरे पिता ने नन्द को ले जाकर, धन गाड़ा था। सो, उसे मँगवाकर कुटुम्ब को पाल !” उसने एक दिन नन्द से पूछा—“मामा ! क्या मेरे पिता ने कही कुछ धन गाड़ा है ?”

^१ राजगृह के आस-पास ।

“स्वामी ! हाँ ।”

“वह कहाँ गड़ा है ?”

“स्वामी ! जंगल में ।”

“तो चले” कह, कुदाल टोकरी ले, जहाँ धन गड़ा था, वहाँ पहुँच कर पूछा—“मामा ! धन कहाँ है ?”

नन्द ने धन के ऊपर जा कर, उस पर खडे हो, धन के कारण अभिमानी हो कुमार को गाली दी—अरे ! दासी पुत्र ! चेटक ! यहाँ तेरा धन कहाँ से आया ?”

कुमार ने उसके कठोर वचन को सुन कर, अनसुने की तरह कहा—“तो चले ।”

उसको साथ ले, लौट कर, फिर दो तीन दिन गुजरने पर गया । नन्द ने वैसे ही गाली दी ।

कुमार ने उसके साथ कठोर बात न बोल लौट कर सोचा—“यह दास, ‘इस बार धन बता दूँगा’ कह कर जाता है । लेकिन (वहाँ) जाकर गाली देता है । न मालूम, इसका क्या कारण है ? मेरे पिता का एक कुटुम्बिक मित्र है । उसे पूछ कर, (इसका कारण) मालूम करूँगा ।” (यह सोच) बोधिसत्त्व के पास जा, सब हाल कह, पूछा—“तात ! क्या कारण है ?”

बोधिसत्त्व ने, ‘तात ! जिस स्थान पर खड़ा हो कर नन्द गाली बकता है, उसी स्थान पर तेरे पिता का धन है । इस लिए जब नन्द तुझे गाली दे, तो ‘आ रे ! दास ! क्या गाली बकता है’ कह, उसे खेच, कुदाली ले, उस स्थान को खोद, कुल से प्राप्त धन को निकाल, दास से उठवा कर, “(घर) ले जा” कह, यह गाथा कही—

मञ्जे सोवण्यो रासि सोवण्यमाला च नन्दको ,

यत्थ दासो आमजातो ठितो थुल्लानि गज्जति ॥

[जहाँ पर आम दासी-पुत्र नन्दक खड़ा हो कर कठोर शब्दों की गर्जना करता है, मैं समझता हूँ (वही) स्वर्णमय (आभरणों) का ढेर है, वही सोने की माला (है) ।]

मञ्जे, ऐसा मैं मानता हूँ । सोवण्ययो, सुन्दर वर्ण होने से सोवण्य (वस्तुयें) । वह कौन कौन सी ? चाँदी, मणि, सोना, मूँगा आदि रत्न । इस

स्थान में 'सोवण्ण' से इन सब का मतलब है । उनका ढेर, सोवण्ण का ढेर । सोवण्णमालाच्च, तेरे पिता के पास, जो सुवर्ण माला थी, वह भी मैं मानता हूँ कि यही है । नन्दको यत्थ बासो जिस स्थान पर दास नन्दक खड़ा है; भ्राम-जातो, हाँ (=भ्राम) में दासी हूँ, इस प्रकार दासत्व के भाव को प्रगट करने वाली दासी का पुत्र । ठितो थुल्लानि गज्जति, वह जिस स्थान पर खड़ा हो कर स्थूल (वचन) = कठोर वचन बोलता है, वहीं, मैं समझता हूँ कि तेरा कुल-धन है ।

बोधिसत्त्व ने कुमार को धन लाने का उपाय बताया । कुमार बोधिसत्त्व को प्रणाम कर, घर गये; और फिर नन्द को ले, धन के गड़े होने की जगह गये । और जैसे कहा था, वैसे ही किया । फिर उस धन को ला, कुटुम्ब को पाला । वह बोधिसत्त्व के उपदेशानुसार दान आदि पुण्य कर्म करके, जीवन की समाप्ति पर, यथाकर्म (परलोक) सिधारा ।

बुद्ध ने, 'पहले भी इस (भिक्षु) का यही स्वभाव था' कह, यह धर्मदेशना ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया । उस समय का नन्द (अब का) सारिपुत्र का शिष्य था । लेकिन पण्डित-कुटुम्बिक तो मैं ही था ।

४०. खदिरंगार जातक

“कामं पतामि निरयं. . . .” यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, अनाथपिण्डिक के सम्बन्ध में कही ।

क. वर्तमान कथा

अनाथपिण्डिक ने केवल विहार बनवाने के लिए ही चौवन करोड़ धन, बुद्धशासन के निमित्त त्याग दिया = बिखेर दिया । वह तीन रत्नों (= बुद्ध,

धर्म, संघ) को रत्न समझ, और किसी (रत्न) को रत्न ही न समझ, शास्ता के जेतवन में विहार करने के समय, प्रति दिन तीन बार दर्शनार्थ जाता था। एक बार प्रातःकाल ही जाता, दूसरी बार जल-पान करके जाता, तीसरी बार शाम को जाता। और भी बीच-बीच में जाता ही था। जाते समय 'सामणेर' वा अन्य बच्चे मेरे हाथ की ओर देखेंगे कि क्या ले कर आया है' सोच, वह कभी खाली हाथ नहीं गया। प्रातःकाल जाते समय यवागु लीवा कर जाता, जलपान करके जाते समय घी, मक्खन, मधु, गुड़ आदि और शाम को जाते समय गन्ध, माला, वस्त्र आदि ले कर जाता। इस प्रकार प्रति दिन परित्याग करते करते इसने कितना परित्याग किया, इसका (कोई) माप नहीं। बहुत से व्यापारियों ने भी, हाथ की लिखित देकर, इसमें अट्टारह करोड़ धन ऋण लिया था। महा-सेट्ठी उनसे वह धन नहीं मँगवाता था। और भी, इसका कुलायत अट्टारह करोड़ धन नदी के किनारे गाडा हुआ था। जल-वायु से नदी के कूल के दूटने से वह समुद्र में बह गया। वहाँ वे लोहे की गागरें, जैसी की तैसी मुहर लगी हुई, समुद्र में बहती घूमती थी। और, इस के घर में पाँच सौ भिक्षुओं को नित्यभान बैठा ही था। सेठ का घर भिक्षुसंघ के लिए चौरस्ते पर खोदी गई पुष्करिणी की तरह था। वह सब भिक्षुओं के लिए माता-पिता तुल्य था। सो, उसके घर, सम्यक् सम्बुद्ध भी जाते, अस्सी महास्थविर भी जाते, शेष जाने वाले भिक्षुओं की तो गणना ही न थी। वह घर सात तल्लो का और सात ड्यो-दियो वाला था। उसकी चौथी ड्योढ़ी में एक मिथ्या-धारणा वाली देवी रहती थी। सम्यक् सम्बुद्ध के घर में प्रवेश करते समय वह अपने कोठे (=विमान) पर बैठी न रह सकती थी। बच्चों को साथ ले उतर कर, वह जमीन पर खड़ी होती। अस्सी महास्थविर तथा अन्य स्थविरो के भी प्रविष्ट होते, तथा निकलते समय उसे वैसा ही करना पड़ता। उसने सोचा: जब तक श्रमण गौतम, अथवा उसके श्रावक इस घर में आते-जाते रहेंगे, तब तक मुझे सुख नहीं। मैं नित्य-प्रति ऊपर उतर कर जमीन पर नहीं खड़ी हो सकती, सो मुझे ऐसा (प्रबन्ध) करना चाहिए, जिसमें ये (लोग) इस घर में प्रवेश न करें।

^१ भिक्षु बनने से पूर्व "ब्रह्मचारी" की अवस्था।

सो एक दिन वह लेटे हुए महाकर्मचारी के पास जाकर, (अपना) प्रकाश फैला कर खड़ी हो गई। “यहाँ कौन है ?” पूछने पर उत्तर दिया, “मे चौथी डचोढी मे रहने वाली देवी हूँ ।”

“किस लिए आई है ?”

“क्या तुम सेठ की करनी को नही देखते ? वह अपने भविष्य का कुछ भी ख्याल न कर, धन ले जाकर, केवल श्रमण गौतम की पूजा करता है । धन को न व्यापार में लगाता है, न कर्मान्त (—खेती) में । तुम सेठ को उपदेश करो, जिसमे वह अपने काम मे लगे ; जिससे श्रावको सहित श्रमण गौतम, इस घर में प्रवेश न किया करे ।”

उस (—महाकर्मचारी) ने उसे उत्तर दिया—“मूर्ख देवी ! सेठ जो धन खर्च करता है, वह कल्याणकारी बुद्ध-शासन के लिए खर्च करता है । यदि वह (मेरी) चोटी पकड़ कर मुझे बेच भी देगा, तो भी मैं कुछ न कहूँगा । तू जा ।”

इसी तरह, एक दिन, उसने सेठ के पुत्र को जाकर उपदेश दिया । सेठ के पुत्र ने भी उसे पूर्वोक्त प्रकार से भाड वताई । सेठ को तो वह जाकर, कुछ कह ही न सकती थी ।

सेठ के निरन्तर दान देते रहने से, व्यापार न करने के कारण आमदनी कम हो जाने से, धन में बहुत न्यूनता आ गई । (और) ऐसे ही क्रम से होते रहने से, उसके दरिद्र हो जाने पर, उसके पहनने के वस्त्र, बिस्तर, भोजन आदि भी पूर्व-सदृश न रहे । ऐसा होने पर भी, वह भिक्षुसघ को दान देता, लेकिन हां, अब प्रणीत (आहार) न दे सकता । एक दिन वन्दना करके बैठे उसे, शास्ता ने पूछा—“गृहपति ! तुम्हारे घर से दान दिया जाता है ?”

“भन्ते ! दिया जाता है, लेकिन वह होना है (केवल) कणी का चावल और मट्टा ?”

गृहपति ! ‘मैं रूखा-सूख दान दे रहा हूँ’ सोच सकुचित न हो, प्रसन्न (—पवित्र) चित्त से बुद्धों, प्रत्येक-बुद्धों तथा बुद्ध-श्रावकों को दिया हुआ दान रूखा-सूखा दान नही होता, क्यों ? (उसका) बड़ा फल होने से । चित्त प्रसन्न (—पवित्र) रख सकने वाले का दान ‘रूखा-सूखा-दान’ नही होता— यह इस प्रकार जानना चाहिए—

नस्थि चित्ते पसन्नमिह अप्पिका नाम दक्षिणा,
 तथागते वा सम्बुद्धे अथवा तस्स सावके ॥
 न किरस्थि अनोमवस्सिसु पारिचरिया बुद्धेसु अप्पिका,
 सुक्खाय अल्लोणिकाय च पस्स फलं कुम्मासपिण्डया ॥

[चित्त प्रसन्न हो, तो तथागत—सम्बुद्ध अथवा उसके श्रावक को दी गई दक्षिणा 'थोड़ी' नहीं होती। और न ही अनोमदर्शी आदि बुद्धों की की हुई सेवा (=पारिचरिया) "थोड़ी" होती है। सूखे, अलूणे, कुल्माश-पिण्ड के (ही दान के) फल को देख।]

उसे और भी कहा कि हे गृहपति ! तू अपना 'रूखा-सूखा' दान देता हुआ ही आठ आर्य-पुद्गलों को दे रहा है; लेकिन बेलाम (ब्राह्मण) के जन्म में उत्पन्न होने के समय, सारे जम्बुद्वीप के हलों को रुकवा कर सात रत्न देते हुए, पाँच महा नदियों को एक साथ, एक प्रवाह करने की तरह (चित्त को प्रसन्नता से भर कर) महादान देने के समय, कोई त्रिशरण-गत वा पञ्च-शील रक्षक (=सदाचारी) न मिला। इस प्रकार दान का अधिकारी पुद्गल मिलना भी दुर्लभ है। सो "मेरा दान रूखा-सूखा है" समझ, तू संकुचित मत हो। यह कह बेलामसूत्र^१ कहा।

सो वह देवी (यद्यपि) पहले, सेठ के साथ बात भी न कर सकती थी, (तो भी) अब सेठ के दुर्गति-प्राप्त होने से, ' (शायद) वह मेरी बात मान ले' सोच, आधी रात के समय, (सेठ के) शयनागार में प्रविष्ट हो, (अपना) प्रकाश फैला आकाश में खड़ी हुई।

सेठ ने उसे देख कर पूछा—“यह कौन है ?”

“सेठ ! मैं चौथी डचोड़ी में रहने वाली देवी ।”

“किस लिए आई है ?”

“तुम्हें नेक-सलाह देने की इच्छा से ।”

“अच्छा ! तो कह ।”

“बड़े सेठ ! तू भविष्य की चिन्ता नहीं करता। बेटे-बेटी की ओर नहीं

^१ यह सूत्र त्रिपिटक में नहीं मिला ।

देखता। तूने श्रमण गौतम के शासन के लिए बहुत धन खर्च कर दिया। सो, तू चिरकाल तक धन खर्च करते रहने से तथा (खेती आदि) नवीन कर्मात्तों के न करने से, श्रमण गौतम के कारण निर्धन हो गया। ऐसा होने पर भी तू श्रमण गौतम (का पीछा) नहीं छोड़ता। आज भी श्रमण तेरे घर में आते ही हैं। जो कुछ वह ले गये, सो अब वापिस नहीं मँगवाया जा सकता; वह ले जायें। लेकिन अब से, तू श्रमण गौतम के पास जाना, और उसके श्रावकों को इस घर में आने देना—बन्द कर दे। (चलते चलते जरा) रुक कर भी, श्रमण गौतम को बिना देखे, (अपने) व्यापार और वाणिज्य को करते हुए, (अपने) कुटुम्ब को पाल।”

उसने उसे पूछा—“जो नेक-सलाह तू मुझे देना चाहती है, वह यही है ?”

“हाँ ! यही है।”

“तुम्हें जैसे (—वैसे) सो, हजार (और) लाख देवताओं (के उपदेश) से भी मैं हिलने वाला नहीं। दस-बल (-धारी) के प्रति मेरी श्रद्धा सुमेरु पर्वत की तरह अचल (है), सुप्रतिष्ठित (है)। मैंने कल्याण-कारी (त्रि-)रत्न-शासन के लिए जो धन खर्च किया है, उसे तूने ‘अनुचित’ कहा। तूने बुद्ध-शासन को दोष दिया। इस प्रकार की अनाचारिणी, दुश्शीला और मनहूस के साथ मैं एक घर में नहीं रह सकता। निकल, मेरे घर से, शीघ्र निकल और (किसी) दूसरी जगह जा।”

श्रोतापन्न, आर्य-श्रावक (अनाथपिण्डक) की बात सुन कर, न ठहर सकने के कारण, वह अपने निवास-स्थान पर गई और बच्चों को हाथ से पकड़े हुए, (वहाँ से) निकल आई। (लेकिन) निकल कर, अन्य निवास-स्थान न मिलने के कारण, ‘सेठ से क्षमा माँग. वही रहूँगी’ सोच, नगर-रक्षक देवपुत्र के पास जा, उसे प्रणाम कर, खड़ी हुई।

‘किस लिए आई ?’ पूछने पर, वह बोली—स्वामी ! मैंने बिना सोचे समझे, सेठ को (कुछ) कह दिया। उसने क्रुद्ध हो, मुझे निवास-स्थान से निकाल दिया। सेठ के पास ले जा, उससे क्षमा दिलवा मुझे रहने के लिए स्थान दिल-वाइए (—दीजिए)।

“तूने सेठ को क्या कहा ?”

स्वामी ! मैंने सेठ को कहा कि अब से बुद्ध-उपस्थान (—सेवा), संघ-

उपस्थान मत करो। श्रमण गौतम को घर में मत आने दो।”

“तूने अनुचित कहा। (बुद्ध-)शासन की निन्दा की। मैं तुझे ले कर सेठ के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता।”

वह, उसमे कुछ सहायता न पा, चारों महाराजाओं के पास गई। उनसे भी वैसा ही इतकार मिलने पर शक्र देवेन्द्र के पास जा, वह हाल कह, बड़ी नभ्रता से याचना करने लगी—“हे देव ! निवास-स्थान न मिलने से, मैं बच्चों को हाथ से पकड़े पकड़े, अशरणा हो घूमती हूँ। अपनी कृपा से, मुझे निवास-स्थान दिलवाइए।”

उसने भी कहा—तूने अनुचित किया जो बुद्ध-शासन की निन्दा की ! मैं भी तेरे पक्ष में सेठ के साथ बातचीत तो नहीं कर सकता; लेकिन एक ऐसा उपाय बताता हूँ कि जिससे सेठ क्षमा कर दे।

“अच्छा ! देव ! कहें।”

“मनुष्यों ने तमस्सुक दे कर सेठ के हाथ से अट्टारह करोड़ (की) संख्या में धन लिया है। तू सेठ के मुनीम (=आयुक्तक) का भेप बना, किसी को बिना जनाये, उन लेखों को ले, कुछ यक्षतरुणों के साथ, एक हाथ में लेख और एक हाथ में कलम ले कर, उन (आदमियों) के घर जा; और घर के बीच में खड़े हो, अपने यक्ष-बल (=आनुभाव) से उन्हें डरा, ‘यह तुम्हारे लेख है। हमारे सेठ ने अपने ऐश्वर्य के समय में तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वह निर्धन (=दुर्मति-प्राप्त) हो गया है। तुमने जो कार्पापण लिए है सो दो’ (कह) अपनी यक्ष-पन की सामर्थ्य दिखा कर, वह सब अट्टारह करोड़ सोना वसूल (=साध) कर सेठ के खाली कोठे को भर। दूसरे अचिरवती^१ नदी के किनारे गडा धन, नदी-कूल के टूट जाने से समुद्र में बह गया है, उसे भी अपने सामर्थ्य से लाकर, खाली कोठे भर। और भी, अमुक स्थान पर बिना मलकीयत का अट्टारह ही करोड़ धन है, उसे भी ला कर खाली कोठे भर।^२ इस चौवन करोड़ धन से इन खाली कोठों को भरने से दण्ड-कर्म करके, महासेठ से क्षमा माँगना।”

^१ रापती ।

वह 'देव ! अच्छा' कह, उसके कथन को स्वीकार कर, तदनुसार सब धन लाकर, आधी रात के समय, सेठ के शयनागार में प्रविष्ट हो, (अपना) प्रकाश फैला, आकाश में खड़ी हुई ।

“यह कौन है ?” पूछने पर बोली—“सेठ जी ! मैं तेरी चौथी डचोड़ी में रहने वाली अंधी-मूर्ख देवी हूँ । मैंने अपनी महामोह (भरी) मूढ़ता के कारण, बुद्ध-गुणों को न जानकर, पिछले दिनों में आपसे (जो) कुछ कहा, मेरे उस दोष को क्षमा करे । मैंने देवेन्द्र शक्र के कथनानुसार आपका ऋण वसूल (=साध) कर अट्टारह करोड़ ; समुद्र में बहा हुआ अट्टारह करोड़, जिस किसी स्थान में बिना मलकीयत का अट्टारह करोड़ ;—इस प्रकार चौवन करोड़ लाकर, खाली कोठों को भरने से, दण्ड चुका दिया ; जेतवन बिहार के (निर्माण) में जितना धन खर्च हुआ, उतना एकत्र कर दिया । निवास-स्थान न मिलने से मैं कष्ट पा रही हूँ । सेठ जी ! मैंने अज्ञान से जो (भूल) कर दी, उसे क्षमा करे ।”

अनाथपिण्डक ने, उमकी बात सुन, यह कहती है—‘मैंने दण्ड भुगत लिया, और अपने दोष को स्वीकार करती हूँ सोच विचार किया कि इसे सम्यक् सम्बुद्ध के पास ले चलना चाहिए; इसका ख्याल कर तथागत अपने गुणों को जनायेंगे । सो उसे कहा, “अम्म ! देवी ! यदि तू मुझ से क्षमा प्रार्थना करना चाहती है, तो शास्ता के सम्मुख क्षमा-प्रार्थना करना ।”

“अच्छा ! ऐसा करूँगी ; लेकिन मुझे शास्ता के पास ले चलना ।” उसने 'अच्छा' कह, रात्रि समाप्त होने पर प्रातःकाल ही उसे ले, शास्ता के पास जा, शास्ता को उसका सब किया-कराया कह सुनाया । शास्ता ने, “हे गृहपति ! जब तक पाप-कर्म करने वाले का पाप पकता नहीं है, तब तक वह सुख भोगता है, लेकिन जब उसका पाप-कर्म पकता है (=फल देता है), तब से वह दुःख ही दुःख भोगता है । (इसी प्रकार) जब तक पुण्य-कर्म (=भद्र) करने वाले का पुण्य पकता नहीं, तब तक वह दुःख भोगता है, लेकिन जब उसका पुण्य-कर्म पकता है, तब से वह सुख ही सुख भोगता है” कह, धम्मपद की इन दो गाथाओं को कहा—

पापोपि पस्सति भद्रं याव पापं न पच्चति,

यदा च पच्चति पापं अथ पापो पापानि पस्सति ॥

भद्रोपि पस्सति पापं याव भद्रं न पञ्चति,
यदा च पञ्चति भद्रं अथ भद्रो भद्रानि पस्सति ॥

इन गाथाओं के (कहे जाने के) अन्त में, वह देवी श्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुई। उसने शास्ता के चक्राङ्कित चरणों में गिर कर कहा—“भन्ते ! मैंने राग में अनुरक्त हो, दोष (=क्रोध) से दूषित हो, मोह से मूढ़ हो, अविद्या से अंधी हो, आपके गुणों को न जानने के कारण अप-शब्दों का प्रयोग किया, सो वह मुझे क्षमा करें।” शास्ता से क्षमा माँग, उसने सेठ से क्षमा माँगी।

उस समय अनाथपिण्डक ने शास्ता के सम्मुख अपना गुण वर्णन किया—
“भन्ते ! यह देवी ‘बुद्ध-सेवा आदि मत कर’ (कह) मना करने पर भी, मुझे रोक नहीं सकी, ‘दान नहीं देना चाहिए’ कह रोकने पर भी, मैंने दान दिया ही। भन्ते ! क्या यह मेरा गुण नहीं ?”

शास्ता ने, “हे गृहपति ! तू श्रोतापन्न (है), आर्य-श्रावक (है), अचल श्रद्धा वाला (है), विशुद्ध-दृष्टि (=विचार) है; यदि यह अल्प-शाक्य देवी तुझे (दान देने से) रोकने पर भी, नहीं रोक सकी, तो यह आश्चर्य (की बात) नहीं। आश्चर्य तो यह है कि बुद्ध के अनुत्पन्न हुए रहने पर (भी), (उनके) ज्ञान के अपरिपक्व रहने पर भी, पूर्व समय में पण्डितो ने, कामावचर-लोक के स्वामी मार (=शैतान) के आकाश में खड़े हो कर ‘यदि दान दोगे, तो इस नरक में पकोगे’ (कहते हुए) अस्सी हाथ गहरा अङ्गारों का ढेर दिखाकर ‘दान मत दो’ मना करने पर भी, पद्म की कलि के बीच में खड़े हो कर दान दिया।” यह कह, अनाथपिण्डक के याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मवत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व बाराणसी सेठ के घर में उत्पन्न हो, नाना प्रकार की सुख-सामग्री (=भोगों) में देव-कुमार की तरह परवरिश पा, क्रम से ज्ञान प्राप्त कर, सोलह वर्ष की ही आयु में सब शिल्पों में दक्ष हो गये। वे, पिता के मरने पर,

सेठ का स्थान ग्रहण कर, नगर के चार द्वारों पर चार दान-शालायें, नगर के बीच में एक, अपने निवासस्थान के द्वार पर एक—छः दान-शालायें बनवा कर महा-दान देते, सदाचार की रक्षा करने तथा व्रत (—उपोसथ कर्म) रखते थे । सो एक दिन, प्रातःकाल का जल-पान करने के समय, बोधिसत्त्व के लिए नाना प्रकार के अन्न रसों से युक्त, मनोज्ञ भोजन लाये जाने पर, एक सप्ताह के बाद ध्यान से उठ कर, एक प्रत्येक-बुद्ध, भिक्षा मार्गने के समय का ख्याल कर, 'आज मुझे (भिक्षा के लिए) बाराणसी सेठ के गृह-द्वार पर जाना चाहिए' (सोच), नाग-लता की दातुन कर, अनोतप्त-दह (भील) पर मुँह धो, मनोशिला तल पर खड़े हो (चीवर) पहन, काय-बन्धन (—पट्टी) बाँध, चीवर धारण कर, ऋद्धिमय-मिट्टी का बर्तन (—पात्र) ले, आकाश से आकर, बोधिसत्त्व का भोजन लाये जाने के ठीक समय, (उसके) गृहद्वार पर आकर खड़े हुए ।

बोधिसत्त्व ने उसे देखते ही, आसन से उठ, सत्कार कर सेवक की ओर देखा । (उसको) "स्वामी क्या करूँ ?" पूछने पर कहा—"आर्य्य का पात्र लाओ ।" उसी क्षण पापी मार ने थरथरते हुए उठ कर 'इस प्रत्येक-बुद्ध को आज से सात दिन पहले आहार मिला है, आज न मिलने पर, इसका विनाश हो जायगा सो, मैं इसका विनाश करूँगा और मेठ के दान देने में एकावट डालूँगा' (सोच), उसी क्षण आकर देहली के बीच में अस्सी हाथ गहरा अङ्गारों से भरा गढ़ा बनाया । वह खदिर अङ्गारों से परिपूर्ण, प्रज्वलित, ज्योतिमान् गढ़ा, अवीची महा-नरक सदृश प्रनीत होता था । उसे बना कर, अपने आप आकाश में उहरा । पात्र लेने के लिए जाने वाला आदमी उसे देखते ही भय-भीत हो कर लौटा । बोधिसत्त्व ने पूछा—"तात ! लौट क्यों आया ?"

"स्वामी ! आङ्गन (देहली) में जलते हुए, दहकते हुए अङ्गारों का बड़ा भारी गढ़ा है ।" दूसरा, तदनन्तर तीसरा—इस प्रकार जितने आये, सभी भयभीत होकर भाग गये ।

बोधिसत्त्व ने सोचा—"आज वशवर्ती मार मेरे दान में एकावट डालने के लिए उद्यत हुआ होगा । यह नहीं जानता कि मुझे सौ मार, हजार मार भी (मिलकर) नहीं हिला सकते । आज मालूम करूँगा कि मार में और मुझ में—हम दोनों में—कौन अधिक शक्तिशाली है, कौन अधिक प्रतापवान् है ?" सो उसने जैसी की तैसी परोसी हुई धाली को अपने (सिर पर) ले, घर से निकल,

अङ्गारों के गढ़े के किनारे पर खड़े हो, आकाश की ओर देखते हुए, मार को देख कर पूछा—“तू कौन है ?”

“मे मार हूँ ।”

“यह अङ्गारो का गढ़ा तूने बनाया है ?”

“हाँ, मैंने ।”

“किस लिए ?”

“तेरे दान देने में रुकावट डालने के लिए, तथा प्रत्येक-बुद्ध का जीवन विनाश करने के लिए ।”

बोधिसत्त्व ने, “न तो मैं तुम्हें अपने दान में रुकावट डालने दूँगा, और न मैं तुम्हें प्रत्येक-बुद्ध का जीवन विनाश करने दूँगा । मुझ में और तुझ में—दोनों में—कौन अधिक शक्तिशाली है, इसकी आज परीक्षा करूँगा” (कह) अङ्गारो के ढेर के किनारे खड़े हो, “भन्ते प्रत्येक-वर-बुद्ध ! मैं इस अङ्गारों के गढ़े में मुँह के बल (= सिर नीचे) गिरने पर भी, नहीं रुकूँगा, आप केवल मेरे दिये हुए भोजन को स्वीकार करें ।” (कह) यह गाथा कही—

कामं पतामि निरयं उद्धपादो अर्वांसरो,

नानरियं करिस्सामि हन्व पिण्डं पटिग्गह ॥

[भले ही मैं, सिर नीचे, पैर ऊपर (होकर) इस नरक में क्यों न गिरूँ; लेकिन मैं अनार्य (कर्म) न करूँगा । हन्त ! आप मेरे पिण्ड-पात (= भिक्षा) को स्वीकार करें ।]

गाथा का सारांश यह है—भन्ते प्रत्येक-वर-बुद्ध ! यदि मैं तुम्हें पिण्ड-पात (= भिक्षा) देते हुए, निश्चित रूप से भी इस नरक में पैर-ऊपर सिर नीचे (= निरयं उद्धपादो अर्वांसरो) होकर गिरूँ (= पतामि); तो भी यह जो अदान है, अशील है, आर्यो (= श्रेष्ठ) का अकृत्य तथा अनार्यों का कृत्य होने से, अनर्थ कहलाता (= वुच्चति) है, उस अनार्य (-कर्म) को नहीं करूँगा (= न तं अनरियं करिस्सामि) हन्त (= हन्व) ! इस मेरी दी भिक्षा को ग्रहण करें (= पिण्डं पटिग्गह) । हन्त (= हन्व) केवल निपात है ।

यह कह दृढ़-निश्चय पूर्वक बोधिसत्त्व, भोजन की थाली को ले, अङ्गारों के गढ़े के ऊपर से चले । उसी समय, अङ्गारों के अस्सी हाथ गहरे गढ़े के तल के ऊपर ही ऊपर, (छ पद्यो के अतिरिक्त) एक सातवें महापद्य ने उत्पन्न होकर, बोधिसत्त्व के पैरों को स्पर्श किया । फिर एक महा-तूम्बा भर रेणु उठी । और उसने महासत्त्व के सिर पर से गिर कर, उसके सारे शरीर को स्वर्ण-चूर्ण से आकीर्ण की तरह कर दिया । उसने पद्म की कली में खड़े होकर नाना (प्रकार के) अन्न रसों (से युक्त) भोजन, प्रत्येक-बुद्ध के पात्र में रक्खा । प्रत्येक-बुद्ध, उसे स्वीकार कर, (दान-) अनुमोदन कर, पात्र को आकाश में फेंक, जन (-समूह) के देखते ही देखते, अपने आप भी ऊपर जाकर, नाना प्रकार की बादलों की पक्तियों को मँदित करते हुए से, हिमवन्त को चले गये । मार भी पराजित हो, दुःखित-चित्त अपने निवास-स्थान को चला गया । बोधिसत्त्व पद्म की कली में खड़े ही खड़े, जन(-समूह) को दान-शील आदि की बड़ाई करके, धर्मोपदेश दे, जनसमूह के साथ ही, अपने निवास-स्थान में प्रविष्ट हो जीवित रहते, दानादि पुण्य-कर्म करते हुए, कर्मानुसार (परलोक) गए ।

बुद्ध ने, 'गृहपति ! यह आश्चर्य (की बात) नहीं कि तू दृष्टि (= विचार) सम्पन्न होकर, उस देवी (के उपदेश) से चञ्चल (= कम्पित) नहीं हुआ, पूर्व पण्डितों का कृत्य ही आश्चर्य-कारक है' (कह), इस धर्मदेशना को ला भेल मिला, जातक का माराश निकाल दिखाया । उस समय के प्रत्येक-बुद्ध तो वही परिनिर्वाण को प्राप्त हुए । मार को पराजित कर, पद्म-कली में खड़े हो प्रत्येक बुद्ध को भिक्षा देने वाला **बाराणसी** सेट तो में ही था ।

पहला परिच्छेद

५. अत्यकाम वर्ग

४१. लोसक जातक

“यो अत्यकामस्स . . .” यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, लोसकतिस्स नामक स्थविर के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

यह लोसकतिस्स नामक स्थविर कौन था ? कोशल राष्ट्र में एक स्वकीय कुलनाशक, अनाभी (= जिसे कुछ न मिले), मछुआ-पुत्र भिक्षु । उसने (अपने) पूर्व-जन्म के स्थान से च्युत हो कोशल राष्ट्र में सहस्र धरो वाले मछुआ के एक गाँव में, एक मछुवे की स्त्री की कोख में प्रवेश किया । उसके गर्भ में आने के दिन वे सहस्र परिवार जाल-हाथ में लेकर (मछली) ढूँढ़ने के लिए गए । उन हजार कुलो को नदी और तालाब आदि में एक छोटी सी मछली भी न मिली । उस समय से उन मछुआ की अवनति ही होती रही । उसीके गर्भ प्रवेश करने के समय से लेकर, वह गाँव, सात बार आग से जला, सात बार राजा में दण्डित हुआ । इस प्रकार दिन प्रति दिन (= क्रम से) दुर्गति को प्राप्त हो, उन्होंने मोचा—“पूर्व समय में हमें ऐसा नहीं (होता) था । लेकिन अब प्रति दिन अवनत हो रहे हैं । हमारे अन्दर कोई (एक) मनहूस (हो गया) होगा । हम दो भागों (= वर्गों) में बँट जायें ।” सो, पाँच पाँच सौ कुल एक एक जगह हो गए । तब से, जिस हिस्से में उसके माता पिता थे, उसीकी अवनति होने लगी, दूसरे की उन्नति । उन्होंने फिर उस कुल को भी दो में बाँट, और फिर उस (से अगले कुल) को भी दो में बाँट, इस प्रकार जब तक वह एक (मनहूस) कुल ही अकेला रह गया, तब तक बाँट, “वही कुल मनहूस है”—ऐसा मालूम कर, उसे धपड़ कर निकाल दिया ।

सो उसकी माँ ने बड़ी कठिनाई से दिन काटते हुए गर्भ के परिपक्व होने पर, एक स्थान पर प्रसव किया। अन्तिम शरीर-धारी (व्यक्ति) को नष्ट नहीं किया जा सकता। उसके हृदय में अर्हत्व का उपनिश्रय (=कारण) वैसे ही प्रकाशित रहता है, जैसे घड़े में दीपक। वह उस बालक को पाल, उसके भाग दौड़ कर चल सकने के समय, उसके हाथ में एक खोपड़ी दे 'पुत्र ! एक घर में प्रवेश कर' (कह) उसके एक घर में प्रवेश करने पर, अपने भाग गई। वह उस दिन से, वहाँ अकेला ही भीख माँग, एक स्थान में पड़ा रहता था। न नहाता, न शरीर साफ करना, धूलि-पिशाच की तरह बड़ी कठिनाई से जीवन बिताता। इसी प्रकार, क्रम से सात वर्ष का होकर वह एक गृह-द्वार पर उक्खलि-धोवन फेंकने के स्थान पर पड़े हुए चावल के दानों को, कौए की तरह एक-एक चुग कर खाता था।

श्रावस्ती में भिक्षा-चाग करते समय धर्मसेनापति (=सार्गपुत्र) ने, उसे देख 'इस प्राणी की दशा अत्यन्त करुणाजनक है, यह किस गाँव का रहने वाला है ?' सोच, उसके प्रति मैत्री-भाव की वृद्धि कर, उमंग बनाया—“अरे ! आ।” वह जाकर, स्थविर को प्रणाम कर, खड़ा हो गया। स्थविर ने उसे पूछा—“तू किस गाँव का रहने वाला है ? तेरे माता-पिता कहाँ है ?”

“मन्ते ! मैं प्रत्यय (- श्रावश्यक वस्तु)-रहित हूँ। मेरे माता-पिता 'हम इसके कारण कष्ट पाते हैं' (सोच), मुझे छोड़ भाग गये।”

“तू प्रब्रजित होगा ?”

“मन्ते ! मैं तो प्रब्रजित हो जाऊँ, लेकिन मुझ दरिद्र (=कृपण) को कौन प्रब्रजित करेगा ?”

“मैं प्रब्रजित करूँगा।”

“अच्छा ! तो प्रब्रजित कर लें।”

स्थविर ने उसे खाद्य-भोज्य दे, विहार ले जा, अपने ही हाथ से नहला, प्रब्रजित कर, वर्ष सम्पूर्ण होने पर' उपसम्पन्न किया। वृद्ध होने पर, वह लोसकनिम्स स्थविर कहलाया—अपृथिवान् तथा अल्पलाभी हुआ। असाधारण दान में भी उसे पेट भर खाने को न मिला, उतना ही मिला, जितना जीवित

१ बीस वर्ष से कम आयु रहने पर कोई उपसम्पन्न नहीं हो सकता।

रहने भर के लिए पर्याप्त हो। उसके पात्र में एक ही कड़खी यवागू डालने पर भी, उसका पात्र लबालब भरा प्रतीत होता। सो, मनुष्य 'इसका पात्र भर गया' सोच, उसने आगे यवागू बाँटते। ऐसा भी कहते हैं कि उसके पात्र में यवागू डालने के समय, मनुष्यों के (ही) पात्र से यवागू अन्तर्ध्यान हो जाता। खाद्य आदि के सम्बन्ध में भी ऐसा ही (होता)। आगे चल कर, विदर्शना-भावना (=योग) की वृद्धि करके अर्हत्व (नामक) अग्रफल में प्रतिष्ठित होकर भी वह अल्पलाभी ही रहा। इस प्रकार क्रम से, उसके आयुसंस्कारों के नाश होने पर, उसका परिनिर्वाणदिवस^१ भी आ गया।

धर्ममेनापति ने ध्यान लगा कर, उसके परिनिवृत्त होने की बात जान, 'यह लोसकतिस्स स्थविर आज परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं इन्हें आज यथावश्यकता भोजन दूँ' मोक्ष उसे साथ लेकर, श्रावस्ती में पिण्डपान के लिए प्रवेश किया। उस (लोसकतिस्स) स्थविर के साथ होने के कारण, इतने अधिक मनुष्यों की श्रावस्ती में, स्थविर को किमी ने हाथ पसार कर, प्रणाम तक न किया। स्थविर ने उसे, 'अयुष्मान् ! जा कर आसन-शाला में बैठें' (कह) भेज, अपने को जो आहार मिला था, उसे 'इसे लोसक को दो' कह कर भेजा। ले जाने वाले (आदमी) लोसक स्थविर को भूल (उस आहार को) अपने ही खा गये।

स्थविर के उठ कर विहार को जाने समय, लोसकतिस्स स्थविर ने जाकर, स्थविर की वन्दना की। स्थविर ने रुक कर खड़े ही खड़े पूछा—“आयुष्मान् तुम्हें भोजन मिला ?” “भन्ते ! नहीं मिला।” स्थविर ने संवेग-प्राप्त हो समय की ओर देखा। (भोजन कर सकने) का समय बीत चुका था। स्थविर 'आयुष्मान् ! यही बैठें' कह लोसक स्थविर को आसनशाला में बिठा (अपने) कोशल नरेश के वर गये। राजा ने स्थविर का पात्र लिवा, भोजन का असमय देख, पात्र को चार-मधुर पदार्थों^२ से भरवा (स्थविर को) दिलवाया।

स्थविर, उसे लुं जाकर, 'आयुष्मान् तिस्स ! आओ, इन चतु-मधुरों का

^१ क्षीणाल्मवों के मरने को परिनिर्बृत्त होना कहते हैं।

^२ घी, मक्खन, राब तथा मधुर।

भोजन करो' कह, पात्र को (अपने ही हाथ में) लिए खड़े रहे। लोसक स्थविर के गौरव से, शर्म के मारे नहीं खाते थे। स्थविर ने कहा—“आयुष्मान् तिस्स ! आओ, मैं इस पात्र को लेकर खड़ा रहूँगा। तुम बैठ कर भोजन करो। यदि मैंने इस पात्र को हाथ से छोड़ दिया, तो (कदाचित्) इसमें कुछ न रहे।” सो आयुष्मान् लोसकतिस्स स्थविर ने, अग्नेश्वर धर्मसेनापति के हाथ में पात्र लिए खड़े रहते, चारों प्रकार के मधुर का भोजन किया। स्थविर के ऋद्धि-बल के कारण, वह भोजन समाप्त नहीं हुआ। उस समय लोसकतिस्स स्थविर ने, जितना चाहिए था, उतना पेट भर भोजन किया। और उसी दिन वह उपाधि-रहित निर्वाण-धातु को प्राप्त हुए। सम्यक् सम्बुद्ध ने पास खड़े होकर शरीर की दाह-क्रिया करवाई। (शरीर-)धातु लेकर चैत्य बनाया गया।

उस समय धर्म-सभा में एकत्रित हुए भिक्षु, (आपग में) बैठे बैठे कहने लगे—“आयुष्मानो ! लोसकतिस्स स्थविर अपुण्यवान् (थे), अल्प-लाभी, (थे) इस प्रकार अपुण्यवान्, अल्पलाभी ने किस प्रकार आर्य-धर्म (=अर्हत्त्व) प्राप्त कर लिया ?” बुद्ध ने धर्म-सभा में जाकर पूछा—“भिक्षुओ ! बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो ?” उन्होंने कहा “भन्ते ! यह बात-चीत।” बुद्ध ने, “भिक्षुओ ! इस भिक्षु ने अपने आपको स्वयं ही अल्प-लाभी बनाया, और स्वयं ही अर्हन्तु। पूर्व-जन्म में श्रीरो की प्राप्ति में बाधक होने के कारण, यह अल्प-लाभी हुआ, और अनित्य, दुःख, अनात्म—की विदर्शना युक्त भावना (=योगाभ्यास) के फल स्वरूप आर्यधर्म-लाभी (=अर्हत्त्व) हुआ’ कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व-काल में काश्यप सम्यक् सम्बुद्ध के समय में, एक भिक्षु एक गृहस्थ पर विशेष रूप से निर्भर हो, एक गाँव के निवासस्थान में रहता था। वह स्वभाव से ही सदाचारी (=शीलवान्) था, और योगाभ्यास (=विदर्शना) में लगा रहता था। (उसी समय) एक क्षीणाश्रव स्थविर, अपने कर्तव्यों की अवहेलना न कर, एक एक स्थान में टहरते हुए, क्रम से, उस भिक्षु के उपस्थायक गृहस्थ के ही गाँव में पहुँचे। गृहस्थ ने स्थविर के उठने बैठने (=इर्यापथ) पर ही प्रसन्न हो, (उनका) पात्र ले, (उन्हें) घर में प्रवेश करा, अच्छी प्रकार

भोजन खिना, कुछ धर्म-कथा सुन, स्थविर को प्रणाम कर कहा—“भन्ते ! हमारे समीप के विहार को जायें, हम गाम को आपके दर्शनार्थ आयेगे ।” स्थविर विहार में जा, उसमें रहने वाले स्थविर को प्रणाम कर और (उन्से कुशल क्षेम) पूछ कर एक और बैठे । उस (स्थविर) ने भी उनसे कुशल-क्षेम सम्बन्धी बात-चीत कर, पूछा—“आयुष्मान् ! आज आपको भोजन मिला ?” “हाँ मिला ।” “कहाँ मिला ?” “आपके ग्राम के गृहस्थी के घर में ।” यह कह कर, अपना गयनासन पूछ, (उसे) झाड़ भँवार कर, पात्र चीवर को ठीक मे रख कर, ध्यान-मुख तथा फल-मुख मे (समय) बिताते हुए बैठे ।

उस गृहस्थ ने शाम को गन्ध-माला, (तथा) तेल-प्रदीप लिवा कर, विहार जाकर, निवासिक स्थविर को प्रणाम कर, पूछा—“भन्ते ! यहाँ एक आगन्तुक स्थविर आया है ?”

“हाँ ! आया है ।”

“उस समय कहाँ है ?”

“अमुक गयनासन पर ।”

वह उनके पास जाकर, प्रणाम कर, एक और बैठ, धर्म-कथा सुन, ठण्डा हाँ जानें पर, चैत्य और बोधि (-वृक्ष) की पूजा कर, दिये जला कर, दोनों स्थविरों को (भोजन के लिए) निमन्त्रित कर, लौट आया । स्थानीय स्थविर ने सोचा—“यह गृहस्थ बदल रहा है । यदि यह भिक्षु उस विहार में रहेगा, तो यह (गृहस्थ) मेरी कुछ गिनती न करेगा ।” (उसने) स्थविर के प्रति मन में अमन्तोष उत्पन्न कर, ‘मैंने ऐसा करना चाहिए, जिसमें यह उस विहार में न बस सके’—उस विचार में उपस्थान-बला (सेवा के कृत्य करने) के समय, उनके आने पर, उनमें कुछ बात-चीत न की । क्षीणाश्रव स्थविर ने उनके मन का विचार जान कर ‘यह स्थविर नहीं जानने कि मेरी न तो (भिक्षु-) गण में आसक्ति है, न (गृहस्थ-) कुल में’ सोचते हुए, अपने स्थान पर जाकर, ध्यान-मुख और फल-मुख में समय बिताया ।

अगले दिन स्थानीय भिक्षु अपने नाखून से (हलके में) घटी वजा और नाखून से ही (आगन्तुक भिक्षु) के द्वार पर टक टक कर, (उस) गृहस्थ के घर गया । उसने उसका पात्र ले, उसे बिछे आसन पर बिटा, पूछा—“भन्ते ! आगन्तुक स्थविर कहाँ है ?”

“मुझे नहीं मालूम ! तेरे उस कुलूपक^१ का हाल; घंटी बजाते, द्वार खटखटाते भी मैं उसे नहीं जगा सका। कल तेरे यहाँ का प्रणीत-भोजन खाकर, हृन्नम न कर सकने के कारण पड़ा सोता होगा ! तेरी भी, जब श्रद्धा होती है, तो ऐसी पर ही होती है।”

क्षीणाश्रव स्थविर अपना भिक्षा माँगने का समय (आया) देख, शरीर (पर के चीवर) को मँवार, पात्र चीवर ले, आकाश में उड़ कर अन्यत्र चले गये।

उस गृहस्थ ने स्थानीय स्थविर को घी, मधु तथा शक्कर मिली खीर पिला कर, पात्र पर सुगन्धित-चूर्ण लगाकर, (उसे) फिर भर कर ‘भन्ते ! वह स्थविर मार्ग चलने के कारण थके होंगे। यह (उनके लिए) ले जायें’ कह दिया। दूसरे ने बिना अस्वीकार किये, लेकर जाते हुए सोचा, “यदि वह भिक्षु इस खीर को पीयेगा, तो गर्दन से पकड़ कर निकालने पर भी न जायेगा; यदि मैं इस खीर को (किसी) आदमी को दूँगा, तो मेरा यह कर्म प्रगत हो जायेगा; यदि पानी में उँडेलूँगा, तो पानी के ऊपर घी तैरेगा; यदि भूमि पर फेंकूँगा, तो कीम्रों के डकट्टे होने में पता लग जायेगा। इसे कहाँ फेंकूँ?” सोचने हुए, उसने एक आग जलते खेत को देख, अङ्गारों को हटा कर, (खीर को) वहाँ डाल, ऊपर अङ्गारों में ढक दिया, और विहार को चला गया। (विहार पहुँच कर) उस भिक्षु को न देख, सोचने लगा—‘निश्चय मे, वह क्षीणाश्रव भिक्षु मेरे अभिप्राय को जान कर किसी दूसरी जगह चले गये होंगे। अहो ! मैंने इस पेट के कारण अनुचिन्त किया।’ (यह सोचने से) उसी समय, उसे बड़ा भारी पश्चान्ताप हुआ। तभी से वह मनुष्य प्रेत होकर, थोड़े ही समय बाद मर कर नरक में पैदा हुआ।

लाखों वर्ष नरक की आग में जल कर, वचे कर्म का फल भुगतने के लिए, उसने क्रम से पाँच सौ यक्ष योनियों में उत्पन्न होकर, एक दिन भी पेट भर कर भोजन न पाया। हाँ ! एक दिन गर्भ मैल (= गर्भ से निकला मैल) पेट भर कर मिला। फिर पाँच-सौ जन्मों में कुत्ता हुआ। तब भी एक दिन (किसी

^१ कुलूपक = कुल में आने जाने वाला।

की) उल्टी (बमन) पेट भर कर मिली। बाकी समय में उसको कभी भी पेट भर कर खाने को न मिला। कुत्ते की यॉनि से च्युत होकर, काशी राष्ट्र में एक ग्राम में एक दरिद्र-कुल में उत्पन्न हुआ। उसकी उत्पत्ति के बाद से वह कुल अत्यन्त दरिद्र हो गया। वहाँ, उसे नाभी में ऊपर (पेट भरने के लिए) काञ्जी-का पानी भी नहीं मिला। (उस समय) उसका नाम मित्रविन्दक था। माता पिता ने संतान-दुःख को न सह सकने के कारण, 'निकल मनहूस' कह, उसे धौले मार कर निकाल दिया। वह अशरण हो, घूमता हुआ, वाराणसी पहुँचा।

उस समय बोधिसत्त्व, बाराणसी में लोक-प्रसिद्ध आचार्य्य होकर, पाँच मी शिष्यों को शिल्प सिखाते थे। तब बाराणसी-निवासी, दरिद्र छात्रों को छात्र-वृत्ति दे कर शिल्प सिखाते थे। यह मित्रविन्दक भी बोधिसत्त्व के पास निःशुल्क शिक्षा^१ सीखने लगा। लेकिन वह कठोर (स्वभाव का) तथा उपदेश न मानने वाला था। जिस किसी को मारता रहता। बोधिसत्त्व के उपदेश करने पर भी कहता न मानता। उसके कारण बोधिसत्त्व की ग्रामदनी भी कम हो गई। (अन्य) शिष्यों ने भगडा कर, उपदेश न मान, वहाँ से भाग कर, वह, घूमता घूमता एक प्रत्यन्तग्राम (=सीमा से बाहर के ग्राम) में पहुँच, मजदूरी (वा नौकरी) करके जीने लगा। वहाँ, उसने एक दरिद्र स्त्री के साथ सहवास किया, जिसमें उसे दो बालक पैदा हुए। ग्रामवासियों ने 'तुम हमें अच्छी बुरी खबर देते रहना' (कह) मित्रविन्दक की नौकरी लगा, उसे ग्राम-द्वार पर कुटिया में बसाया। उस मित्रविन्दक के कारण, उन प्रत्यन्त-ग्राम-वासियों को सात बार. राज्य-दण्ड देना पडा, सात बार आग लगी और सात बार तालाब टूटा। उन्होंने सोचा—“इस मित्रविन्दक के आने से पहले, हमारा यह (हाल) नहीं था, लेकिन अब इसके आने के समय से हमारी भवनाति ही हो रही है।” (यह मोच) उन्होंने उसे धौले मार कर निकाल दिया। वह अपने बच्चों को ले, दूसरी जगह जाते हुए, एक अमनुष्य-परिग्रहीत जगल में श्ले गुज्जग। वहाँ अमनुष्यो (=यक्ष आदि) ने, उसकी स्त्री, बच्चा को मार, उनका मास खा लिया।

^१ पुण्य-शिल्प।

वहाँ से भाग कर, वह जहाँ तहाँ घूमता हुआ गम्भीर नामक एक बन्दर-गाह में नौकाये छूटने के दिन ही पहुँचा, (और) नौकर बन कर नौका पर चढ़ गया। नाव सात दिन समुद्र में जाकर, सातवें दिन, कीली से गाड़ दी जैसी-की तरह रुक गई। उन्होंने मनहूस (आदमी चुनने की) तीली (=शलाका) बाँटी। वह सात बार मित्रविन्दक के ही पास निकली। मनुष्यों ने उसे एक बाँसो का गट्टा दे, हाथ से पकड़ समुद्र में फेंक दिया। उसके फेंकते ही नाव चल पड़ी। मित्रविन्दक ने काश्यप सम्यक्सम्बुद्ध के समय में सदाचारमय जीवन व्यतीत किया था। उसके फलस्वरूप, उसे (अब) बाँसों के गट्टे पर, समुद्र में लेटे (=तैरते) जाते हुए, एक स्फटिक-विमान में चार देव-कन्याये मिली। एक सप्ताह तक, वह, उनके पास सुख भोगता हुआ रहा। वह विमान-प्रतिनियाँ, एक सप्ताह तक सुख भोगती थी, एक सप्ताह तक दुःख। दुःख भोगने के लिए जाने के समय, 'जब तक हम लौट कर आये, तब तक यही रहो' कह, वह चली गई। उनके जाने के बाद, बाँसों के गट्टे पर लेटे जाते हुए मित्रविन्दक को, आगे जाने पर रजत-विमान में आठ देव-कन्याये मिली, उससे भी आगे जाने पर, मणि-विमान में सोनह, स्वर्ण-विमान में बत्तीस देव-कन्याये मिली। उनकी भी बात न मान, आगे जाने पर उसने (एक) द्वीप के अन्दर एक यक्ष-नगर देखा। वहाँ एक यक्षिणी (एक) बकरी की शकल में घूमती थी। मित्रविन्दक ने यह न जान कि वह यक्षिणी है, बकरी का मांस खाने के ब्याप में, उसे पैर में पकड़ा। उसने (अपने) यक्ष बल में, उसे उछाल कर फेंका। उसका फेंका हुआ, वह समुद्र तल को लाँघ, बाराणसी की चारदीवारी पर, एक काँटो के भाड़ पर गिर, वहाँ से लुढ़कता लुढ़कता जमीन पर आया।

उस समय उस चारदीवारी पर चरती हुई, राजा की बकरियों को चोर उड़ा ले जाते थे। बकरियों के रखवाले चोरो को पकड़ने के ब्याप से, एक और छिपे रहते थे। मित्रविन्दक ने उलट कर, जमीन पर खड़े होने पर, उन बकरियों को देख सोचा : "मैंने समुद्र के एक द्वीप में एक बकरी के पैर पकड़े, उसका फेंका हुआ, यहाँ आकर गिरा। यदि अब मैं यहाँ एक बकरी के पैर पकड़ूँगा, तो वह मुझे उस पार समुद्र में विमान-देवताओं के पास फेंक देगी।" (सो) ऐसी उल्टी-बात मन में कर, उसने बकरी के पाँव पकड़े। बकरी ने पैर पकड़ते ही "मैं मैं" किया। बकरियों के रखवालो ने इधर उधर में आ,

‘यह इतने दिनों तक राजकीय बकरियाँ खाने वाला चोर है’ (सोच) उसे पकड़, ठोक-पीट, बाँध कर राजा के पाम ले गये ।

उस समय बोधिसत्त्व ने पाँच सौ शिष्यों सहित नगर से निकल, नहाने के लिए जाने समय, मित्रविन्दक को देख, पहचान, उन मनुष्यों से पूछा—“तात ! यह हमारा शिष्य है, इसे किम लिए पकड़ा है ?” “आर्य ! यह बकरी-चोर है । इसने एक बकरी पैर मे पकड़ी थी, इसीलिए इसे पकड़ा है ।”

“तो इसे हमारा ‘दाम’ बना कर, हमें दे दो, हमारे पास जीयेगा ।” वे “आर्य ! अच्छा ।” कह, उसे छोड़ कर चले गये । तब बोधिसत्त्व ने मित्र-विन्दक से पूछा—“तू इतने समय तक कहाँ रहा ?” उसने अपनी सब आपबीती सुनाई । “हितैपियों की वान न मानने वाले इसी प्रकार दुख पाते हैं” कह, बोधिसत्त्व ने यह गाथा कही—

यो अत्यकामस्स हितानुकम्पिनो
 ओवज्जमानो न करोति सासनं,
 अजिया पावमोलुब्ध
 मित्तको विद्य सोचति ॥

[जो (अपना) भला चाहने वाले, हितैपी, के उपदेश देने पर, उस उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता, वह बकरी के पैर पकड़ने वाले मित्र (-विन्दक) की तरह शोक को प्राप्त होता है ।]

अत्यकामस्स :- उन्नति की इच्छा करने वाले का । हितानुकम्पिनो :- हित से अनुकम्पा (दया) करने वाले का । ओवज्जमानो, मूढ़, हितैपी वित्त से उपदेश दिये जाने पर । न करोति सासनं, अनुसार आचरण नहीं करता, वचन :- उपदेश न मानने वाला होता है । मित्तको विद्य सोचति, जिस प्रकार यह मित्रविन्दक बकरी के पैर पकड़ कर सोचता है, कष्ट पाता है, इसी प्रकार सदैव सोचना है । इस गाथा मे बोधिसत्त्व ने धर्मोपदेश किया ।

उम प्रकार उम स्यविर को इतने समय में, केवल तीन ही जन्मों में पेट भर खाने को मिला । यक्ष होने की अवस्था में एक दिन गर्भ-मैल मिला, कुत्ते

के जन्म में एक दिन खाये हुए की उल्टी, और परिनिर्वाण के दिन धर्मसेनापति के प्रताप (= आनुभाव) से चार-प्रकार का मधुर मिला । सो इससे जानना चाहिए कि दूसरे के लाभ (= मिलने की वस्तु) को रोकने में बड़ा दोष है ।

उस समय वह आचार्य्य और मित्रविन्दक भी—दोनों (अपने अपने) कर्मानुसार (परलोक) गये । बुद्ध ने, 'सो हे भिक्षुओ ! इसने अपना अल्प-लाभी-पन और अर्हत्व-प्राप्ति—दोनों अपने ही की' कहा, इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला कर, जातक का साराश निकाल दिखाया । उस समय का मित्र-विन्दक (अब का) लोसक-तिस्स स्थविर था । लोक-प्रसिद्ध (= दिशा-प्रमुख) आचार्य्य तो मैं ही था ।

४२. कपोत जातक

यो अत्थकामस्स' . . यहगाथा, शास्ता ने जेतवन में विहरने समय, एक लोभी भिक्षु के सम्बन्ध में कही । उसके लोभ-पन (की कथा) नौवें परिच्छेद में, 'काक जातक' में आयेगी । उस समय भिक्षुओ ने बुद्ध से कहा— "भन्ते ! यह भिक्षु लोभी है ।" तब बुद्ध ने उसे पृच्छा— "हे भिक्षु ! क्या तू सचमुच में लोभी है ?" "भन्ते ! हाँ ।" बुद्ध ने, "हे भिक्षु ! तू पूर्व-जन्म में भी लोभी था । लोभ के कारण (तूने) जान गँवाई और तेरे कारण पण्डितों को भी अपने निवासस्थान में वञ्चित होना पड़ा" कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय,

^१काक जातक १४०, १४६, ३६५; नौवें परिच्छेद में कोई काक जातक नहीं ।

बोधिसत्त्व कबूतर की योनि में पैदा हुए । उस समय बाराणसी निवासी पुण्येच्छा से, जगह जगह पर पक्षियों के मुख-पूर्वक वास करने के लिए छोके लटकाते थे । बाराणसी के सैठ के रसोइये ने भी अपने रसोई-घर में एक छोका लटका रखा था । बोधिसत्त्व वहीं रहता था । वह प्रातःकाल ही निकल, चुगने की जगहों पर चुग, शाम को वहाँ आकर, रहने हुए समय बिताता था । एक दिन एक कौवे ने बड़े जोर से (उड़ते) जाते हुए, खट्टे-भीठे मत्स्य-मांस के छोके की गन्ध सूँघ कर, उसमें लोभ उत्पन्न कर, सोचा "मुझे यह मत्स्य-मांस कैसे मिलेगा ?" कुछ दूर पर बैठ कर विचारते हुए, उसने शाम को बोधिसत्त्व को आकर रसोई में प्रवेश करने देखा, सोचा—'इस कबूतर के ज़रिये (मुझे) मत्स्य-मांस मिलेगा ।' अगले दिन प्रातःकाल ही बोधिसत्त्व के निकल कर चुगने के लिए जाने के समय (उमके) पीछे पीछे हो लिया ।

तब बोधिसत्त्व ने उमसे पूछा—“मौम्य ! तू किम लिए हमारे साथ साथ फिरता है ?”

“स्वामी ! मुझे आपकी (जीवन-)चर्या अच्छी लगती है । अब से मैं आपकी सेवा में रहूँगा ।”

“मौम्य ! तुम्हारा चुगना दूसरा होता है, हमारा दूसरा, तुम्हारा हमारी सेवा में रहना कठिन है ।”

“स्वामी ! तुम्हारे चोगा लेने के समय, मैं भी चोगा लेकर, तुम्हारे साथ ही (वापिस) लौटूँगा ।”

“अच्छा ! तुम्हें केवल प्रमाद-रहित रहना चाहिए”—बोधिसत्त्व ने कौवे को उपदेश दिया ।

उसे उपदेश दे बोधिसत्त्व चुगने के समय चुगने जाते, तृण-बीज आदि खाने, और कौआ उसी समय में जा, गोबर का पिंड ले, उसमें से कीड़े खा, पेट भर, बोधिसत्त्व के पास आकर कहता—“स्वामी ! तुम देर तक चुगते हो । अधिक खाना उद्भिन्न नहीं ।” वह, बोधिसत्त्व के चोगा ले, शाम को वापिस लौटने पर, उमके साथ ही रसोई में प्रवेश करता । रसोइये ने यह देख कि हमारा कबूतर (एक) दूसरे साथी को भी लाया है, उम कौवे के लिए भी छोका टाँग दिया । उम समय से दोनो जने (वही) रहने लगे ।

एक दिन सैठ के लिए बहुत सा मत्स्य-मांस लाया गया । रसोइये ने उसे

लेकर, रसोई-घर में जहाँ तहाँ लटका दिया। कौवा उसे देख, (मन में) लोभ पैदा कर, और वह 'कल चुगने न जाकर, मुझे यह (मत्स्य-मांस) ही खाना चाहिए' सोच, रात को छटपटाता हुआ लेट रहा। अगले दिन बोधिसत्त्व ने चुगने के लिए जाते समय कहा—“सौम्य ! काक ! आ ।”

“स्वामी ! आप जाये। मुझे पेट में दर्द है ।”

“सौम्य ! कौवा को, पहले कभी पेट-दर्द नहीं हुआ है। वे (भूख के मारे) रात्रि के तीन पहरों में से एक एक पहर में मूर्च्छित होते हैं। केवल दीपक की बत्ती निगलने पर, उन्हें मुहूर्त भर के लिए तृप्ति होती है। तू इस मत्स्य-मांस को खाना चाहता होगा। आ, जो मनुष्य के खाने की चीज है, उसका खाना तेरे लिए अनुचित है। ऐसा मत कर, मेरे साथ चुगने के ही लिए चल ।”

“स्वामी ! (चल) नहीं सकता ।”

“अच्छा ! तो तू अपने कर्म का प्रगट करेगा। लोभ के वशीभूत मत हो, प्रमाद-ग्रहीत रह ।” उसे उपदेश दे, बोधिसत्त्व चुगने के लिए गया। रसोइया नाना प्रकार की मत्स्य-मांस की चीजे बना, भाप निकलने के लिए बरतनो को थोड़ा खोल, कड़खी को बरतनो पर रख, (अपने) पानीना पोछता हुआ, बाहर जाकर खड़ा हो गया।

उसी समय कौवे ने, छींके में से सिर निकाल, रसोई-घर को देखते हुए, रसोइए को बाहर निकला जान, सोचा—“अब, यह मेरे लिए मन भर कर मांस खाने का समय है। मैं बड़ा बड़ा मांस खाऊँ, या मांस का चूरा ? मांस का चूरा खाने में पेट जल्दी नहीं भरा जा सकता। (इसलिए) एक बड़े (से) मांस के टुकड़े को, छींके पर ले जाकर, वहाँ रख, पड़ा पड़ा खाऊँगा ।” (यह सोच) छींके में से उड़, उस कड़खी पर जा लगा। कड़खी ने 'किली किली' शब्द किया। रसोइये ने उस शब्द को सुन, 'यह क्या है ?' (करके) प्रविष्ट हो, उस कौवे को देख, 'यह दुष्ट-कौवा मेरा, सेठ के लिए बनाया मांस खाना चाहता है। मैं सेट्टी की नोकरी करके, जीता हूँ; इस मूर्ख की नहीं। मुझे इससे क्या ?' (कह) दरवाजा बन्द कर, कौवे को पकड़, (उसके) सारे शरीर से पर नोच, कच्चे अदरक, निमक तथा जीरे को कूट, (उसे) खट्टे मट्ठे में मिला, (उससे) उसके सारे बदन को चोपड़, उस छींके में फेंक दिया। वह अत्यन्त पीड़ा अनुभव करता हुआ, छटपटाता पड़ा रहा। बोधिसत्त्व ने

शाम को आ, उमे पीड़ा-ग्रस्त देख, 'लोभी कौवे ! मेरी बात न मान, अपने लोभ के कारण तू इस दुःख में पड़ा' कह यह गाथा कही—

यो अत्यकामस्स हितानुकम्पिनो
 ओबज्जमानो न करोति सासनं,
 कपोतकस्स वचनं अकत्वा
 अमित्तहत्थत्थगतोव सेति ॥

[जो भला चाहने वाले, हितैषी, के उपदेश देने पर, उस उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता, वह कबूतर का वचन न मान कर अमित्त के हाथ में पड कर (दुःख भोगने वाले) की तरह, (दुःखिन हो) भोता है ।]

कपोतकस्स वचनं अकत्वा = कबूतर की हित की बात न मान कर ।
 अमित्तहत्थत्थगतो व सेति; अमित्तो के = अनर्थ करने वालो के = दुःख उत्पादन करने वाले आदमियों के, हाथ में पड कर, इस कौवे की तरह, (वह) आदमी, महान् दुःख को प्राप्त हो, चिन्ता करना हुआ सोता है ।

बोधिमत्त्व, यह गाथा कह कर, 'अब मैं इस जगह नहीं रह सकता' सोच, अन्यत्र चला गया । कौवा वही मर गया । रसोइए ने उसे छीके सहित, उठा कर कूड़े पर फेंक दिया ।

बुद्ध ने भी, 'भिक्षु ! तू अब ही लोभी नहीं है, पूर्व-जन्म में भी लोभी रहा है । (और) नेरे उम लोभ के कारण, पण्डितो को अपना घर छोड़ना पड़ा है" — इस धर्म-देशना को ला, (आर्य-)सत्यो को प्रकाशित किया । (आर्य-)सत्यो के (प्रकाशित होने के) अन्त में, उस भिक्षु ने अनागामी फल प्राप्त किया । शास्ता ने मेल मिला कर, जातक का साराश निकाला । उस समय का कौआ, (अब का) लोभी-भिक्षु था । (और) कबूतर तो मैं ही था ।

४३. वेळुक जातक

“यो अत्यकामस्स” यह गाथा शास्ता ने जेतवन मे विहरते समय एक भी बात न मानने वाले भिक्षु के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

सो भगवान् ने उस भिक्षु से, ‘भिक्षु ! क्या तू सचमुच बात न मानने वाला है ?’ पूछ, उसके ‘भन्ते ! सचमुच’ कहने पर, ‘भिक्षु ! तू केवल अब ही बात न मानने वाला, नहीं है, पूर्व-जन्म में भी बात न मानने वाला ही रहा है । और बात न मानने के स्वभाव के ही कारण, (तूने) पण्डितों की बात न मान, सर्प के मुंह में पड कर, जीवन गँवाया’ कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्राह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व ने, काशी राष्ट्र में एक महा-सम्पत्तिशाली कुल में उत्पन्न हो, जब होश सँभाला, तो काम-भोगों में हानिर्या देख, और नैऋत्म्य में लाभ देख, काम भोगों को छोड़, हिमवन्त में प्रविष्ट हो, ऋषि-प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित हुआ । (प्रब्रजित हो) वह योगाभ्यास कर, पाँच अभिज्ञा तथा आठ समापत्तियाँ प्राप्त कर, ध्यान-मुख में समय बिताने लगा । आगे चल कर, पाँच सौ तपस्वियों का नेता बन, गण का शास्ता होकर रहने लगा ।

(एक दिन) एक विपैले साँप का बच्चा, अपने स्वभाव से धूमता धूमता एक तपस्वी के आश्रम के पास आया । तपस्वी ने, उस (सर्प के बच्चे) में पुत्र-स्नेह उत्पन्न कर, उसे एक बाँस की फोफी में सुला, पालना शुरू किया । बाँस (वेळु) की पोरी में सोने के कारण, उसका नाम वेळुक, और वेळुक को

पुत्र-स्नेह से पालने के कारण, उम तपस्वी का नाम वेळुक-पिता ही पड़ गया । तब बोधिसत्त्व ने यह मुन कि एक तपस्वी विपैले सर्प को पालता है, उसे बुला, 'क्या तू सचमुच विपैले सर्प को पालता है ?' पूछ, उसके 'हाँ, सचमुच' कहने पर, उममे कहा—“विपैले सर्प का विश्वास नहीं किया जा सकता । उसे मत पाल ।”

तपस्वी ने कहा—“आचार्य ! वह मेरा पुत्र है । मैं उसके बिना नहीं रह सकता ।”

“अच्छा ! तो इमीमे तेरे प्राणों का नाश होगा ।” तपस्वी ने न बोधिसत्त्व की बात मानी, (और) न ही विपैले-सर्प को छोड़ा ।

उमके कुछ ही दिन बाद सभी तपस्वी फल-मूल (ढूँढ़ने) के लिए गये । वहाँ फल-मूल की मुलभता देख, दो तीन दिन वहीं रह गये । वेळुक-पिता भी उन्हीं के साथ जाते समय, विपैले सर्प को, बाँस की पोरी में सुला, ढक कर गया । दो तीन दिन के बाद तपस्वियों के साथ लौट कर, उसने 'वेळुक को खाद्य दूंगा' (सोच), बाँस की पोरी को उघाड़ 'आ पुत्र ! क्या तू भूखा है ?' (कह) हाथ पमारा । विपैले सर्प ने दो तीन दिन आहार न मिलने से क्रुद्ध हो, तपस्वी को हाथ पर डँसा ; जिसमे तपस्वी वहीं मर गया । तपस्वी को मार, विपैला सर्प जगल में चला गया । (अन्य) तपस्वियों ने उमे देख, बोधिसत्त्व को सूचना दी । बोधिसत्त्व ने उसका शरीर-कृत्य करवा, ऋषियों के मध्य बैठ ऋषियों को उपदेश देते हुए यह गाथा कही—

यो अत्यकामस्स हितानुकम्पिनो,
ओघज्जमानो न करोति सासनं ।
एवं सो निहतो सेति,
वेळुकस्स यथा पिता ॥

[जो (अपना) भला चाहने वाले, हितैषी के उपदेश देने पर, उस उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता, वह वेळुक के पिता की तरह नाश को प्राप्त होता है ।]

एवं सो निहतो सेति, जो ऋषियों के उपदेश को ग्रहण नहीं करता, वह, जैसे यह तपस्वी विपैले सर्प के मुँह में पड़, विकृत-भाव को प्राप्त हो, विनष्ट

हो सोना है, वैसे ही, महाविनाश को प्राप्त हो, नष्ट हो सोता है। यही अर्थ है। इस प्रकार बोधिसत्त्व, ऋषि-गण को उपदेश दे, चारों ब्रह्मविहारो की भावना कर, आयु का अन्त होने पर, ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ।

बुद्ध ने भी, 'भिक्षु ! तू केवल अब ही बात न मानने वाला नहीं है, पूर्व-जन्म में भी तू बात न मानने वाला ही था। और बात न मानने के स्वभाव के ही कारण, तू विपैले-सर्प के मुँह में पड़, विकृत-भाव को प्राप्त हुआ'—यह धर्म-देशना ला, मेल मिला कर, जातक का सारांश निकाला। उस समय का वेणुक-पिता (अब का) बात न मानने वाला भिक्षु था। शेष परिषद् (अब की) बुद्ध परिषद् थी। गण का शास्ता तो मैं ही था।

४४. मकस जातक

“सेय्यो अमित्तो” यह गाथा, शास्ता ने मगध (देश) में विचरते समय, एक ग्राम के मूर्ख, गँवार मनुष्यों के सम्बन्ध में कही।

क. वर्तमान कथा

एक समय, तथागत श्रावस्ती में मगध राष्ट्र जा कर, वहाँ विचरते हुए, एक ग्राम में पहुँचे। वह गाँव अधिकतर अत्यन्त मूर्ख मनुष्यों से ही भरा पड़ा था। सो एक दिन उन अत्यन्त मूर्ख मनुष्यों ने इकट्ठे हो कर (आपस में) सलाह की—“भो ! जंगल में जाकर काम करते समय, हमें मच्छर काटते हैं। उससे हमारे काम में विघ्न पड़ता है। हम सब, धनुष और आयुध लेकर चलें। चलकर, मच्छरों से युद्ध कर, सब मच्छरों को बेध कर, छेद कर मार डालें।” यह सलाह कर, जंगल में जा, वहाँ मच्छरों को बेधने के ख्याल से एक

दूसरे को बेध कर, प्रहार कर, दुखी हो, आकर, गाँव के अन्दर, मध्य में, तथा बाहर—सभी जगह—पड़ रहे ।

भिक्षुसंघ सहित शास्ता ने उस गाँव में भिक्षा के लिए प्रवेश किया । अवशिष्ट पण्डित (=बुद्धिमान्) मनुष्य भगवान् को देख, ग्राम-द्वार पर मण्डप बना, बुद्ध-सहित भिक्षुसंघ को महादान दे, शास्ता को प्रणाम कर, बैठे । शास्ता ने जहाँ तहाँ पड़े हुए मनुष्यों को देख कर, उन उपासको से पूछा—
“यह बहुत में मनुष्य रोगी (जल्मी) है । इन्होंने क्या किया है ?”

“भन्ते ! यह मनुष्य ‘मच्छरों से युद्ध करेगे’ (विचार) जाकर, एक दूसरे को आहन कर अपने ही जल्मी हो गये ।” शास्ता ने, ‘न केवल अग्नी अत्यन्त मूर्ख मनुष्यों ने मच्छरों को मारने के लिए जाकर अपने को घायल किया है, पूर्व समय में भी ‘मच्छर को मारेगे’ मोच, यह एक दूसरे को मार देने वाले मनुष्य थे’ कह, उन मनुष्यों के याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में (राजा) ब्रह्मवत्स के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व व्यापार करके (अपनी) रोजी चलाते थे । उस समय काशी देश के एक सीमान्त के ग्राम में बहुत से बढई रहते थे । वहाँ एक बूढ़ा बढई वृक्ष छीलता था । उसकी ताँबेकी थाली के तल सदृश खोपड़ी पर, एक मच्छर ने बैठ कर, उसके सिर को अपने डक में ऐसे बाँधा, जैसे कोई शक्ति (आयुध) से चोट करता हो । उसने अपने पास बैठे हुए पुत्र को कहा—‘तात ! मरे सिरको एक मच्छर, शक्ति से चोट करने की तरह काट रहा है, उसे हटा ।’

“तात ! सबर करे । एक (ही) प्रहार से उसे मारूँगा ।” उस समय बोधिसत्त्व भी अपने लिए सौदा ढूँढ़ते हुए, उस गाँव में पहुँच, उस बढई-शाला में बैठे थे । सो, उस बढई ने पुत्र को कहा—“तात ! इस मच्छर को हटा ।” उसने ‘तात ! हटाता हूँ’ कह, तेज कुल्हाड़े को उठा, पिता की पीठ की ओर खड़े हो, “मच्छर को मारूँगा” (मोच) पिता के सिर के दो टुकड़े कर दिये । बढई वही मर गया । बोधिसत्त्व ने उसके उस कर्म को देख कर सोचा—
“बुद्धिमान् शत्रु भी अच्छा है । वह दण्ड से भयभीत होकर भी मनुष्यों को नहीं मारेगा ।” यह मोच, यह गाथा कही—

सेय्यो अमित्तो मतिया उपेतो,
नत्वेव भित्तो मतिविप्यहीनो,
मकसं वधिस्तन्ति हि एळमूगो
पुत्तो पितु अविभवा उत्तमङ्गं ॥

[बुद्धिमान् शत्रु (=अमित्र) भी अच्छा है । मूर्ख मित्र अच्छा नहीं ।
जड़-मति पुत्र ने “मच्छर को मारूँगा” सोच पिता के सिर को फाड़ दिया ।]

सेय्यो = प्रवर = उत्तम । मतिया उपेतो = प्रजा से युक्त । एळमूगो =
लार-मुख = मूर्ख । पुत्तो पितु अविभवा उत्तमङ्गं अपनी मूर्खता के कारण
पुत्र हो कर भी, “मच्छर को मारूँगा” (करके) पिता के सिर के दो टुकड़े कर
दिये । इसलिए मूर्ख-मित्र की अपेक्षा बुद्धिमान् शत्रु भी अच्छा है ।

यह गाथा कह, बोधिसत्त्व, उठ कर, यथा-कर्म गये । बटई के रिश्तेदारों
ने उमका शरीर-कृत्य किया ।

शाम्ना ने, ‘उपागको ! पूर्व समय में भी मच्छर को मारेंगे’ (करके)
एक दूसरे को मार डालने वाले मनुष्य थे—यह धर्म-देयाना लाकर, मेल मिला
कर, जानक का मार्ग निकाला । उस समय गाथा कह कर चले जाने वाला
व्यापारी तो मैं ही था ।

४५. रोहिणी जातक

“सेय्यो अमित्तो. . .” यह गाथा शाम्ना ने जेतवन में विहार करते
समय, अनाथपिण्डक मेठ की एक दामी के वारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

अनाथपिण्डक की एक रोहिणी नाम की दामी थी । (एक दिन) उसकी बूढ़ा

माता, उस (दासी) के धान कूटने के स्थान पर आकर लेट गई। मक्खियाँ, उसे घेर कर, सूई के बीधने की तरह काटने लगी। उसने लड़की (=दासी) को कहा—“अम्म ! मुझे मक्खियाँ काटती हैं। इन्हे हटा।” उसने “अम्म ! हटाती हूँ” कह, ‘मूसल उठा कर माता के शरीर पर (बैठी) मक्खियों को मार कर नष्ट करूँगी’ (सोच) माता को मूसल का प्रहार दे, (उसे) मार डाला। उसे (मरा) देष, ‘माता मर गई’ (सोच) रोना आरम्भ किया। वह बात सेठ को कही गई। सेठ ने उमका शरीर-कृत्य करवा, विहार जा कर, वह सब बात शास्ता को कही। शास्ता ने, गृहपति ! न केवल अभी इसने, ‘माता के शरीर की मक्खियों को मारूँगी’ (सोच) उसे, मूसल से मार डाला है, पूर्व (-जन्म) में भी मार डाला है कह, सेठ के याचना करने पर, पूर्वजन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व (एक) सेठ के कुल में उत्पन्न हुए थे। पिता की मृत्यु पर वह श्रेष्ठी के पद पर आरूढ हुए। उसकी भी रोहिणी नाम की दासी थी। उसने भी अपने धान कूटने के स्थान पर, आकर लेटी माता के, ‘अम्म ! मेरी मक्खियाँ हटा’ कहने पर, इसी प्रकार मूसल का प्रहार दे, माता के जीवन का नाश कर, रोना शुरू किया। बोधिसत्त्व ने इस वृत्तान्त को सुन, ‘बुद्धिमान शत्रु भी अच्छा है’ सोच, यह गाथा कही—

सेय्यो अभित्तो मेघावी यञ्चे बालानुकम्पको,

पस्स रोहिणिकं जम्मि मातरं हन्त्वान सोचती ॥

[मूर्ख दयालु (=मित्र) की अपेक्षा बुद्धिमान् शत्रु अच्छा है। मूर्ख रोहिणी को देखो। माता को मारकर (अब) सोचती है।]

मेघावी = पण्डित = ज्ञानी = बुद्धिमान् । यञ्चे बालानुकम्पको—इसमें ‘य’ में लिङ्ग-परिवर्तन कर दिया। ‘चे’ निपात है। अर्थ यही है कि जो मूर्ख मित्र है, उसकी अपेक्षा बुद्धिमान (आदमी) शत्रु होने पर भी, सौ गुना,

हजार गुना अच्छा है। अथवा 'यं', प्रतिषेधार्थ निपात है; तो इसका अर्थ हुआ कि मूर्खमित्र नहीं। जस्मिं = जड़-बुद्धि। मातरं हन्त्वान सोचति, 'मखियो को मारूंगी' करके माता को मार, अब यह मूर्खा, अपने आप ही रोती है, पीटती है। इस कारण से, 'इम लोक में बुद्धिमान् शत्रु भी अच्छा है' कह, बोधिसत्त्व ने बुद्धिमान की प्रशंसा करते हुए, इस गाथा से धर्मोपदेश किया।

शास्ता ने, 'गृहपति ! न केवल अभी इसने 'मखियो को मारूंगी' (सोच), माता को मार डाला है, पहले भी मारा था'—यह धर्म-देशना लाकर, मेल मिला कर, जातक का साराश निकाला। उस समय, माता ही माता थी, लड़की ही लड़की, और महाश्रेष्ठी तो मैं ही था।

४६. आरामदूसक जातक

"न वे अनत्यकुसलेन . . ." यह गाथा शास्ता ने कोसल (देश) के एक गामड़े के बाग-बिगाड़ने वाले के वारे में कही।

क. वर्तमान कथा

शास्ता कोसल में विचरते हुए एक गाँव में पहुँचे। वहाँ एक गृहस्थ ने भगवान् को निमन्त्रित कर, अपने उद्यान में बिठा, बुद्ध-सहित भिक्षु-संघ को (भोजन-)दान देकर कहा—“भन्ते ! इम उद्यान मे यथारुचि विहार करे।”

भिक्षुओं ने उठ कर, माली को (साथ) ले, उद्यान में घूमते हुए एक अर्राँगन जैसी जगह को देख कर माली से पूछा—“उपासक ! इम उद्यान में और (सब) जगह घनी छाया है। लेकिन इस जगह कोई वृक्ष वा गच्छ नहीं है। इसका क्या कारण है ?”

“भन्ते ! इस बाग के लगाने के समय, एक गँवार लड़का पानी सींचते हुए, इस जगह के पौदों को उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ों की गहराई के अनुसार पानी सींचता था। सो वह पौदे कुम्हला कर मर गये। इसी कारण से यह स्थान आँगन (सा) हो गया।”

भिक्षुओं ने शास्ता से जाकर, यह बात कही। शास्ता ने, “भिक्षुओ ! न केवल अभी वह गँवार लड़का बाग-बिगाड़ने वाला है, पहले भी वह बाग-बिगाड़ने वाला था” कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मवत् के राज्य करते समय, बाराणसी में उत्सव (नक्षत्र) की घोषणा की गई। उत्सव-भेरी के शब्द सुनने के बाद में, सभी नगर निवासी उत्सव की मस्ती में घूमने लगे। उस समय राजा के उद्यान में बहुत से बन्दर रहते थे। माली ने सोचा—“नगर में उत्सव की घोषणा हुई है। इन बानरों को ‘पानी सींचो’ कह कर, मैं उत्सव में खेलने जाऊँगा।” उसने ज्येष्ठ बानरों के सर्दार के पास जाकर पूछा—“सौम्य बानर-राज ! इस उद्यान से तुम्हें भी बहुत फायदा है। तुम इसके फल-फूल-पत्ते खाते हो। नगर में उत्सव उद्घोषित हुआ है। मैं उत्सव में खेलने जाना चाहता हूँ। जब तक मैं लौट कर आऊँ, क्या तुम तब तक इस उद्यान के पौदों में पानी सींच सकते हो ?”

“अच्छा ! सींचेंगे।”

“तो आलस्य-रहित रहना,” (कह) वह (उन्हें) पानी सींचने के लिए चरसा और लकड़ी के बरतन देकर चला गया। चरसा और लकड़ी के बरतन लेकर, बानर पौदों में पानी सींचने लगे। तब उन्हें बानरों के सर्दार ने कहा—“बानरो ! जल रक्षणीय है। तुम पौदों में पानी सींचते समय (उन्हें) उखाड़ उखाड़ कर, (उनकी) जड़े देख कर, गहरी जड़ वाले पौदों में बहुत पानी सींचो, जिनकी जड़े गहरी नहीं हैं, उनमें थोड़ा। पीछे हमें पानी मिलना दुर्लभ हो जायगा।”

उन्होंने ‘अच्छा’ कह स्वीकार कर, वैसा ही किया। उस समय एक बुद्धिमान् मादमी ने उन बानरों को राजोद्यान में वैसा करते देख, पूछा—“बानरो !

तुम किस लिए पौदों को उखाड़ उखाड़, उनकी जड़ (की गहराई) के अनुसार पानी सींच रहे हो ?”

उन्होंने जवाब दिया—“हमारे सर्दार ने हमें, ऐसा ही करने को कहा है।” उमने उन (बानरो) की बात सुन, ‘अहो ! मूर्ख (लोग) उपकार करने का मन करके, अपकार ही करते हैं’ (सोच) यह गाथा कही—

न वे अनत्यकुसलेन अत्यचरिया सुखावहा,

हापेति अत्यं दुम्भेधो कपि आरामिको यथा ॥

[उपकार(=अनर्थ)=करने में अचतुर आदमी का उपकार(=अर्थ) करना भी सुखदायक नहीं होता। माली-बन्दर की तरह, मूर्ख आदमी, काम की हानि ही करता है।]

वे, निपात मात्र हैं। अनत्यकुसलेन, अनर्थ=अनायतन में दक्ष, अथवा आयतन=कारण (=मतलब की बात) में अदक्ष। अत्यचरिया (=उन्नति) वृद्धि-क्रिया। सुखावहा, इस प्रकार के अनर्थ करने में दक्ष (आदमी) से शारीरिक-मानसिक सुख नामक अर्थ की चरिया सुख-कारक नहीं होती, मतलब है कि प्राप्त नहीं की जा सकती। किस वजह से ? सर्व प्रकार में ही हापेति अत्यं दुम्भेधो, मूर्ख आदमी, उपकार करूँगा (करके) उपकार का नाश कर, अपकार ही करता है। कपि आरामिको यथा, आराम (=बाग) में नियुक्त, बाग का रक्षक बन्दर, उपकार करूँगा (करके) अपकार ही करता है। इस प्रकार जो अर्थ-कुशल नहीं है, वह भलाई का काम (=अत्यचरिया) नहीं कर सकता, वह निश्चय में अपकार ही करता है।

इस प्रकार, उस बुद्धिमान् आदमी ने, इस गाथा से, ज्येष्ठ बानरो के सर्दार की निन्दा की (और) अपनी परिषद् को लेकर उद्यान में निकल आया। शास्ता ने, “भिक्षुओ ! न केवल अभी यह गँवार लड़का बाग-बिगाड़ने वाला हुआ है, पहले भी बाग-बिगाड़ने वाला ही हुआ है” (कह) इस धर्म-देशना को लाकर, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का बानरों का सर्दार (अब का) बाग-बिगाड़ने वाला लड़का था; और बुद्धिमान् आदमी तो में ही था।

४७. वारुणी जातक

“न वे अनल्पकुसलेन . . .” यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक शराब बिगाड़ देने वाले के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

एक शराब का व्यापारी अनाथपिण्डिक का मित्र तेज शराब बनाकर, हिरण्य, सोना आदि लेकर बेचता था । (एक दिन) वह बेचते बेचते, बहुत ग्राहकों के इकट्ठे हुए रहने के समय, अपने शिष्य को, “तात ! तू (इनसे) मूल्य ले ले कर शराब दे” कह, (अपने) नहाने चला गया । शागिर्द ने लोगों को शराब देते हुए देखा कि (लोग) बीच बीच में नमक की डली मँगवा कर, खाते हैं । यह देख, उसने ‘शराब अलूनी होगी’ (सोच) ‘इसमें निमक डालूंगा’ (करके) शराब की चाटी में नालिका^१ भर कर निमक डाल, लोगों को शराब दी । उन्होंने मुँह भर कर थूक, (कर) पूछा—“यह तूने क्या किया ?”

“तुम्हें शराब पीते पीते निमक मँगवाते देखकर, (इसमें) निमक मिला दिया ।”

“ऐसी अच्छी शराब को खराब कर दिया । मूर्ख कहीं का” कह, उसकी निन्दा करते, उठ कर चले गये ।

शराब के व्यापारी ने आकर, एक को भी न देख, पूछा—“शराब के पीने वाले कहाँ चले गये ?”

शागिर्द ने सब हाल कहा । उसके मालिक ने, ‘मूर्ख ! तूने इतनी अच्छी शराब बिगाड़ दी’ कह, उसकी निन्दा कर, यह वृत्तान्त अनाथपिण्डिक से कहा ।

^१ अनाज का एक नाप ।

अनाथपिण्डक ने 'कहने के लिए बात है' सोच, जेतवन जा, शास्ता को प्रणाम कर, यह बात कही। शास्ता ने, 'गृहपति ! न केवल अभी यह शराब बिगाड़ने वाला हुआ है, पहले भी यह शराब बिगाड़ने वाला था" (कह) उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में (राजा) ब्रह्मवत्स के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व, वाराणसी के सेठ थे। उनके आश्रित एक शराब का व्यापारी जीविका करता था। वह तेज शराब बनाकर शागिर्द को 'इसे बेच' कह कर, (अपने) नहाने चला गया। उसके जाते ही शागिर्द ने शराब में निमक डाल कर, इसी प्रकार शराब खराब कर डाली। सो उसके गुरु ने आकर, वह हाल मालूम कर श्रेष्ठी को कहा। श्रेष्ठी ने उपकार करने में अदक्ष मूर्ख (लोग) उपकार करेगे (करके) अपकार ही करते हैं, (कह) यह गाथा कही—

न चे अनत्यकुसलेन प्रत्यक्षरिया मुत्वावहा,
हापेति अत्थं दुस्सेधो कोण्डञ्जो वारुणि यथा ॥

[उपकार (—अनर्थ) करने में अदक्ष आदमी का उपकार (—अर्थ) करना भी मुखदायक नहीं होता। कोण्डञ्ज (नामक) अन्तेवासिक के शराब बिगाड़ देने की तरह, मूर्ख आदमी अर्थ (—काम) की हानि कर डालता है।]

कोण्डञ्जो वारुणिं यथा, जैसे इस कोण्डञ्ज नामक अन्तेवासिक ने 'अच्छा करता हूँ' (करके) निमक डाल कर, शराब बिगाड़ दी, खराब कर दी, विनाश कर दी। इस प्रकार सभी अनर्थ-कुशल अर्थ (—काम) को बिगाड़ डालते हैं। बोधिसत्त्व ने इस गाथा में धर्मोपदेश दिया।

शास्ता ने भी, "गृहपति ! न केवल अभी यह शराब बिगाड़ने वाला हुआ है, पहले भी यह शराब बिगाड़ने वाला ही था" कह, मेल मिला, जानक का सारोश निकाल दिया। उस समय का शराब-बिगाड़ने वाला, अब का भी शराब-बिगाड़ने वाला हुआ। लेकिन वाराणसी का श्रेष्ठी तो मैं ही था।

४८. वेदम्भ जातक

“अनुपायेन यो अर्थं . . .” यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय (एक) वान न मानने वाले भिक्षु के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

उस भिक्षु को, शास्ता ने, “भिक्षु ! न केवल अभी तू बात न मानने वाला है, पहले भी तू वान न मानने वाला ही था । उसी कारण से, बुद्धिमानों की बात न मान, तेज तलवार से दो टूक हो रस्ते पर गिरा । और तेरे एक के कारण एक हजार आदमियों के प्राण की हानि हुई ।” कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, एक गाँव में, एक ब्राह्मण वैदर्भ नामक मन्त्र जानता था । वह मन्त्र बेश-कीमत था, महामूल्यवान् था । नक्षत्रों का योग होने पर, उस मन्त्र का जप कर, आकाश की ओर देखने से सात रत्नों की वर्षा होती थी । उस समय बोधिसत्त्व उस ब्राह्मण के पाम विद्या सीखते थे । मो एक दिन वह ब्राह्मण किसी भी काम से, बोधिसत्त्व को (साथ) लेकर, अपने ग्राम से निकल चैतिय राष्ट्र^१ (की ओर) गया । रास्ते में, एक जगल की जगह में, पाँच सौ ‘पिसनक चोर’ मुसाफिरों पर डाका डालते थे । उन्होंने बोधिसत्त्व और वैदर्भ ब्राह्मण को पकड़ लिया । यह चोर, ‘पिसनक चोर’ क्यों कहलाते थे ? वह दो जनों को पकड़ कर, उनमें

^१ वर्तमान पूर्वी बुन्देलखण्ड ।

से एक को धन लाने के लिए भेजते थे, इसलिए पेसनक (= प्रेषनक = भेजने वाले) चोर कहलाते थे। वे, पिता-पुत्र को पकड़ कर, पिता को कहते, 'तू हमारे लिए धन लाकर, पुत्र को ले जाना, इसी प्रकार माँ-बेटी को पकड़ कर, माँ को भेजते, ज्येष्ठ-कनिष्ठ भाइयो को पकड़ कर ज्येष्ठ भाई को भेजते, (श्रीर) गुरु-शिष्य को पकड़ कर शिष्य को भेजते। सो, उस समय भी, उन्होंने वैदर्भ-ब्राह्मण को पकड़े रख कर, बोधिसत्त्व को भेजा।

बोधिसत्त्व ने आचार्य्य को प्रणाम कर, कहा—“मैं एक दो दिन में धन जाऊँगा। आप डरियेगा नहीं। श्रीर मेरा कहना करना। आज धन वर्षाने का नक्षत्रयोग होगा। आप दुःख को न सह सकने के कारण, मन्त्र का जाप कर, धन मत बरमाना। यदि बरसाओगे, तो तुम श्रीर यह पाँच सौ चोर—मृभी—नाश को प्राप्त होंगे।” इस प्रकार आचार्य्य को उपदेश (= सलाह) देकर, वे धन लाने के लिए चले गये। चोरो ने सूर्यास्त होने पर ब्राह्मण को बांध कर डाल दिया। उसी समय पूर्व दिशा की ओर से परिपूर्ण चन्द्रमण्डल उगा। ब्राह्मण ने तारो की ओर देखते हुए धन बरसाने के नक्षत्र-योग को देख, सोचा—“मैं किस लिए दुःख अनुभव करूँ? क्यों न मन्त्र का जाप करूँ श्रीर रत्नो की वर्षा वर्षाकर चोरो को धन देकर, सुख पूर्वक चला जाऊँ।” उसने चोरो को सम्बोधित किया—“चोरो ! तुमने मुझे किस लिए पकड़ रक्खा है ?”

“आर्य ! धन के लिए।”

“यदि, धन की आवश्यकता है, तो शीघ्र ही मुझे बन्धन से खोल, सिर से नहला, नवीन वस्त्र पहना, सुगन्धियो का लेप कर, फूल-मालाये पहिना कर, बिठाओ।” चोरो ने उसकी बात सुन, वैसा ही किया।

ब्राह्मण ने नक्षत्र-योग जान, मन्त्र जाप कर आकाश की ओर देखा। उसी समय आकाश से रत्न गिरे। चोर उस धन को इकट्ठा कर, (अपने अपने) उत्तरीय में गठरी बाँध, भागे। ब्राह्मण भी उनके पीछे ही पीछे गया। तब उन चोरो को दूसरे पाँच सौ चोरो ने पकड़ लिया।

“हमें किस लिए पकड़ा है ?” पूछने पर, उत्तर मिला, “धन के लिए पकड़ा है।” “यदि धन की आवश्यकता है, तो इस ब्राह्मण को पकड़ो। यह, आकाश की ओर देख कर धन वर्षावेगा। हमें भी यह धन इसी ने दिया है।”

चोरों ने उन चोरों को छोड़ कर ब्राह्मण को पकड़ा, और कहा—“हमें भी धन दो।” ब्राह्मण ने कहा—“मैं तुम्हें धन दूँ, लेकिन धन बरसाने का नक्षत्रयोग (श्रव) एक वर्ष बाद होगा। यदि धन से मतलब है, तो सबर करो, मैं तब धन की वर्षा बरसाऊँगा।” चोरो ने क्रुद्ध होकर, ‘अरे। दुष्ट ब्राह्मण ! श्रीरों के लिए अभी धन वर्षा कर, हमें अगले वर्ष तक प्रतीक्षा कराता है’ कह, (वही) तेज तलवार से ब्राह्मण के दो टुकड़े कर, (उसे) रास्ते पर डाल दिया। (फिर) जल्दी से उन चोरो का पीछा कर, उनके साथ युद्ध किया; और उन सब को मार कर, धन ले फिर (आपस में) दो हिस्से हो, एक दूसरे से युद्ध किया; और ढाई सौ जनो को माग। इस प्रकार जब तक (केवल) दो जने बाकी रह गये, तब तक एक दूसरे को मारते रहे।

इस प्रकार उन (एक) सहस्र आदमियों के वितण्ड होने पर, उन दोनों जनो ने उपाय से धन को लाकर, एक ग्राम के समीप, जंगल में छिपाया। (उन दोनों में से) एक खड्ग लेकर धन की हिफाजत करने लगा। दूसरा, चावल लेकर, भात पकवाने के लिए गाँव में गया। लोभ विनाश का मूल ही है। धन के पास बैठे हुए ने सोचा—“उमके आने पर धन के दो हिस्से करने होंगे। क्यों न मैं, उसे आते ही खड्ग के प्रहार से मार दूँ।” सो वह खड्ग को तैयार कर, बैठा, और उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। दूसरे ने भी सोचा—“उस धन के दो हिस्से (करने) होंगे। सो, मैं, भात में विष मिला कर, उस आदमी को खिलाऊँ, इस प्रकार उसका प्राण नाश कर, सारे धन को अकेला ही ले लूँ।” उसने भात के तैयार हो जाने पर, अपने खा, शेष भात में विष मिला, (उसे) लेकर वहाँ गया। उसके भात उतार कर रखते ही, दूसरे ने खड्ग से दो टुकड़े करके, उसे छिपी जगह में छोड़, अपने भी उस भात को खा, वही प्राण गँवाये।

इस प्रकार, उस धन के कारण सभी विनाश को प्राप्त हुए। बोधिसत्त्व भी एक दो दिन में धन लेकर आ गये। (उन्होंने) वहाँ आचार्य्य को न पा, और बिचरे धन को देख (सोचा)—‘आचार्य्य ने मेरी बात न मान धन बरमाया होगा। और सब विनाश को प्राप्त हुए होंगे।’ (यह सोच) महा-मार्ग से चले। चलते चलते आचार्य्य को, सड़क पर दो टुकड़े हुए पडा देख, ‘मेरा कहना न मान कर मरा’ (सोच) लकड़ियाँ चुन, चिता बना. आचार्य्य का दाह-कर्म

किया और उसे वन-पुष्पो से पूजा । आगे चलकर, पाँच सौ मरे हुए, उससे आगे ढाई सौ, इसी प्रकार क्रम से आखीर में दो जनों को मरा देख कर, सोचा— “यह दो कम एक हजार (जने) विनाश को प्राप्त हुए । दूसरे दो जने (भी) चोर होंगे. और वे भी सँभल न सके होंगे । वे कहाँ गये ?” सोचते हुए उनके धन लेकर जंगल में घुसने के मार्ग को देख, जाकर, गठरी बँधी धन की राशि को देखा । वहाँ एक को भात की थाली को परोस कर, मरा पाया । तब इन्होंने ‘यह यह किया होगा’—यह सब जान, ‘वह (दूसरा) आदमी कहाँ है?’ सोचते हुए उसे भी जंगल में फेंका पडा देख, सोचा—हमारे आचार्य्य ने मेरी बात न मान, अपने बात न मानने के स्वभाव के कारण, अपने भी प्राण गँवाये, और दूसरे हजार जनो का भी नाश किया । अनुचित मार्ग से अपनी उन्नति चाहने वाला, हमारे आचार्य्य की तरह महाविनाश को ही प्राप्त होता है । यह सोच, यह गाथा कही—

अनुपायेन यो अर्थं इच्छति सो विहङ्गति,
चेता हिनसु वेदव्यसं सब्बे ते व्यसनमज्झगु ॥

[जो अनुचित मार्ग से अर्थ (---धन) चाहता है, वह विनाश को प्राप्त होता है । चैनिय-देय के चोरों ने वेदव्यसं ब्राह्मण को मार डाला । (और) वे सब भी मरण को प्राप्त हुए ।]

सो विहङ्गति, अनुचित रीति में, अपना अर्थ, वृद्धि, मुक्त चाहता है (करके) अनुचित समय पर प्रयत्न करने वाला आदमी मरता है, दुःख पाता है, महाविनाश को प्राप्त होता है । चेत्या, चैनिय-राष्ट्र वामी चोर । हिनसु वेदव्यसं, वेदव्यसं नाम वाला होने के कारण, वेदव्यसं नाम पड जाने वाले ब्राह्मण को मार दिया । सब्बे तेव्यसनमज्झगु वे भी सारे के सारे, एक दूसरे को मार कर दुःख (=व्यसन) को प्राप्त हुए ।

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने ‘जैसे हमारे आचार्य्य अनुचित स्थान में प्रयत्न करके, धन वर्षा कर अपने प्राण नाश को प्राप्त हुए, और दूसरों के भी विनाश के कारण हुए; इसी प्रकार और भी जो कोई अनुचित रीति से अपनी उन्नति

की इच्छा करके, प्रयत्न करेये, वे सब के सब अपने विनाश को प्राप्त होंगे, तथा औरों के विनाश के कारण बनेंगे' (कह) बन को उल्लासित कर देवताओं के "साधु-साधु" कहते समय, इस गाथा से धर्मोपदेश कर, उस धन को उपाय से अपने घर भेगवा लिया । (फिर) वे दानादि पुण्य करते हुए, जितनी आयु थी, उतने समय तक जीवित रह कर, जीवन के अन्त में, स्वर्ग-मार्ग को पूर्ण करते (परलोक) गये ।

शास्ता ने भी, 'भिक्षु ! न केवल अभी तू बात न मानने वाला है, पहले भी तू बात न मानने वाला ही रहा है, और (अपने) बात न मानने के स्वभाव के कारण महाविनाश को प्राप्त हुआ है' (कह) यह धर्म-देखना ला, जातक का सारांश निकाला । "उम समय का वैदर्भ ब्राह्मण (अब का) वान न मानने वाला भिक्षु था । शिष्य तो मैं ही था ।"

४६. नकखत्त जातक

"नकखत्तं पतिमानन्तं . . ." यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करने समय, एक 'आजीवक' के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती की एक लड़की, दीहात (=जनपद) के एक कुल-पुत्र ने अपने पुत्र के लिए पक्की की । 'अमुक-दिवस (आकर) ले जाऊंगा—इस प्रकार दिन का निश्चय कर, उस दिन के आने पर, उसने अपने कुल-विश्वासी 'आजीवक' से पूछा—“भन्ते ! आज हम एक मङ्गल करेंगे । क्या तसत्र अच्छा है ?”

'उस समय के नगे साधुओं का एक सम्प्रदाय ।

उसने 'यह मुझे बिना पूछे, पहले दिन निश्चय करके, अब मुझे पूछता है' (सोच) क्रुद्ध हो, 'अच्छा, इसे सबक सिखाऊँगा' (करके) कहा—'आज नक्षत्र अच्छा नहीं। आज मङ्गल-कर्म मत करना। यदि आज मङ्गल-कर्म करोगे, तो महाविनाश होगा।'

उस कुल के आदमी, उस (आजीवक) की बात पर विश्वास कर, उस दिन न गये। नगर-वासियों ने सब मङ्गल-क्रिया (समाप्त) कर, उनको न आते देख, 'उन्होंने आज का दिन निश्चय किया, और वे नहीं आये। हमारा बहुत खर्चा हुआ। हमें उनमें क्या? हम अपनी लडकी (किसी) दूसरे को दे देंगे' (सोच) उस किण्ण कराये मङ्गल-कर्म से लडकी दूसरे को दे दी।

जब पहले के लोगो ने अगले दिन आकर कहा—'हमें लडकी दे। उन श्रावस्तीवासियों ने, 'तुम दीहानी गृहस्थी पापी-मनुष्य हो। दिन का निश्चय कर (हमारा) अनादर कर नहीं आये। जिस रास्ते से आये हो, उसी रास्ते से चले जाओ। हमने, लडकी, दूसरो को दे दी है' (कह) उनका मखौल उडाया। वे, उनके साथ भगडा करके, जिस रास्ते आये थे, उसी रास्ते लौट गये।

उस आजीवक द्वारा, उन मनुष्यों के मङ्गल-कर्म में बाधा डाल दी जाने की बात भिक्षुओं को मालूम हुई। वे भिक्षु धर्म-सभा में बैठे बात-चीत कर रहे थे—'आवुओं! (उस) आजीवक ने (अमुक) कुल के मङ्गल-कर्म में बाधा डाल दी।' शास्ता ने आकर पूछा—'भिक्षुओं! बैठे क्या बात-चीत कर रहे थे?'

उन्होंने कहा—'यह (बातचीत)।'

(शास्ता ने) 'भिक्षुओं! न केवल अभी वह आजीवक उस कुल के मङ्गल-कर्म में विघ्न डालने वाला है, पूर्व समय में भी इमने उन पर क्रुद्ध होकर, उनके मङ्गल-कर्म में बाधा डाली थी'—कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, दीहातियों (=जनपदवासियों) ने नगरवासियों की लडकी पक्की करके, दिन का निश्चय कर, अपने कुल के विश्वासी आजीवक से पूछा—'भन्ते! आज हमारी एक मङ्गल-क्रिया है। क्या नक्षत्र अच्छा है?' उसने, 'यह अपनी

शुचि अनुसार दिन निश्चित करके, अब मुझे पूछते हैं' (सोच) क्रुद्ध हो 'आज इनके मङ्गल-कर्म में बाधा डालूंगा' (निश्चय कर) कहा—'आज नक्षत्र अच्छा नहीं। यदि (मङ्गल-कर्म) करोगे, तो महाविनाश को प्राप्त होंगे।'

वे उसकी बात पर विश्वास कर, न गये। जनपदवासियों ने उनको न आता देख, 'वे आज दिन निश्चित करके नहीं आये। हमें उनसे क्या?' (सोच) औरों को लड़की दे दी। नगरवासियों ने अगले दिन आकर लड़की माँगी। जनपदवासियों ने (उत्तर दिया)—'तुम नगरनिवासी निर्लेज्ज गृहस्थ हो। दिन निश्चित करके (भी) लड़की को नहीं लेने। तुम्हें न आता देख, हमने (लड़की) दूसरे को दे दी।'

"हम आजीवक को पूछ कर, उसके नक्षत्र अच्छा नहीं है, कहने के कारण नहीं आये। (अब) हमें लड़की दो।"

"हमने तुम्हारे न आने के कारण, लड़की दूसरे को दे दी। हम दी हुई लड़की को वापिस कैसे ले।" इस प्रकार उनके आपस में एक दूसरे के साथ कलह करते समय, एक नगरनिवासी बुद्धिमान् आदमी किमी काम से दीहान (=जन-पद) में आया। उन नगरनिवासियों को 'हम आजीवक को पूछ कर, (उसके) 'नक्षत्र अच्छा नहीं है' कहने के कारण, नहीं आये' कहने मुन 'नक्षत्र से क्या प्रयोजन? क्या लड़की का मिलना ही नक्षत्र नहीं है?' कह, यह गाथा कही—

नक्खत्तं पतिमानेत्तं अत्थो बालं उपच्चगा,

अत्थो अत्थस्स नक्खत्तं किं करिस्सन्ति तारका ॥

["नक्षत्र देखते रहने वाले मूर्ख आदमी का काम नष्ट हो जाता है (=जाता रहता है)। मतलब की सिद्धि (=अर्थ) ही मतलब का नक्षत्र है। तारे क्या करेंगे?"]

पतिमानेत्तं, देखते हुए के, अब नक्षत्र होगा, अब नक्षत्र होगा, इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए के। अत्थो बालं उपच्चगा, इस नगरनिवासी मूर्ख ने लड़की की प्राप्ति नामक मतलब की बात (=अर्थ) गाँवा दी। अत्थो अत्थस्स नक्खत्तं, जिस मतलब को खोजता है, उसकी प्राप्ति ही, उस मतलब का नक्षत्र है। किं करिस्सन्ति तारका—दूसरे आकाश के तारे क्या करेंगे? मतलब,

किस अर्थ को साधेंगे ? नगरवासी भगड़ा करके लड़की को बिना पाये ही चले गये ।

शास्ता नं भी, भिक्षुओ ! न केवल अभी, यह आजीवक इस कुल के मङ्गल-कार्य में बाधा डालता है, (इसने) पहले भी बाधा की थी—यह धर्म-देशना लाकर मेल मिला जातक का सारांश निकाला । उस समय का आजीवक अब का आजीवक ही था । उस समय के कुल भी, यह अब के कुल ही थे । उस समय गाथा कह कर खड़े होने वाला बुद्धिमान् आदमी तो मैं ही था ।

५०. दुग्धेध जातक

“दुग्धेधानं . . .” यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन में विहार करने समय, लोकोपकार के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

वह (कथा) बाग्द्वे परिच्छेद की महाकण्ह जातक^१ में आयेगी ।

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने समय, बोधिसत्त्व ने उस राजा की पटरानी की कोख में जन्म ग्रहण किया । माता की कोख में निकलने पर, नाम ग्रहण के दिन (उसका) नाम ब्रह्मदत्त कुमार रक्खा गया । जब वह (कुमार) सोलह वर्ष का हो गया; तो तक्षिला जा विद्या

^१ जातक (४६६)

सीख कर, तीनों वेदों^१ तथा अष्टारह विद्याओं^२ में पूर्णता प्राप्त की। तब उसके पिता ने उसे उप-राज (युवराज) बना दिया।

उस समय वागणमी-निवासी देवताओं के भक्त थे। (वे) देवताओं को नमस्कार करते थे और बहुत सी भेड़, बकरी, मुर्गे, सूअर आदि को मार, नाना प्रकार के पुण्य-गन्धों तथा रक्त-भास के साथ बलिर्कर्म करते थे।

बोधिमत्त्व ने सोचा—“इस समय लोग देवताओं की भक्ति में बहुत प्राण-बध करने हैं। साधारण लोग अधिकांश तौर पर, अधर्म में ही नियुक्त हैं। मैं पिता के मरने पर, राज्य प्राप्त कर किसी को भी बिना कष्ट दिये, ढंग (—उपाय) में ही किसी को प्राण-बध न करने दूँगा।” उसने एक दिन रथ पर चढ़ नगर में निकल कर देखा कि एक बड़े भारी बरगद के वृक्ष के नीचे बहुत से लोग एकत्रित हुए हैं, और उस वृक्ष में रहने वाले देवता में, पुत्र, पुत्री, यश, धन आदि जो जो चाहते हैं, सो सो माँगते हैं। वह रथ से उतर कर उस वृक्ष के पास गया। गन्धपुष्प में उसकी पूजा की। जल में उसका अभिषेक किया। और उसकी प्रदक्षिणा की। इस प्रकार उस देवता का भक्त बन, उसे नमस्कार किया। (फिर) रथ पर चढ़ नगर में प्रविष्ट हुआ।

उस समय से, इसी प्रकार, बीच बीच में वहाँ जाकर देवता के भक्त की तरह पूजा करता। कुछ समय के बाद पिता की मृत्यु होने पर, उसने राज्य-पद पर प्रतिष्ठित हो, चार अगतियों से बच, दस राज-धर्मों के विरुद्ध न जा, धर्मपूर्वक राज्य करते हुए, सोचा—“मेरी इच्छा पूरी हुई। मैं राज्य पर प्रतिष्ठित हुआ। अब मने, जो पहले एक वान सोची थी, उसे पूरा करूँगा।” (यह सोच) अमात्यों, तथा ब्राह्मण गृहपति आदि को एकत्रित करवा, (उन्हें) सम्बोधित किया — “भो ! क्या आप जानते हैं कि मुझे राज्य क्यों मिला ?”

^१ (१ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद,) २ स्मृति, ३ व्याकरण, ४ छन्दो-विहित, ५ निरुक्त, ६ ज्योतिष, ७ शिक्षा, ८ मोक्ष-ज्ञान, ९ क्रियाविधि, १० धनुर्वेद, ११ हस्तिशिक्षा, १२ कामतन्त्र, १३ लक्षण, १४ पुराण, १५ इतिहास, १६ नीति, १७ तर्क तथा १८ वैद्यक—यह अष्टारह विद्यायें हैं।

“देव ! नहीं जानते हैं ।”

“क्या मुझे, (कभी) अमुक बड़ वृक्ष को, गन्ध आदि से पूजते तथा हाथ जोड़ कर नमस्कार करते हुए देखा है ?”

“देव ! हाँ (देखा) है ।” “उम समय मैंने मिन्नत मानी थी कि यदि मुझे राज्य मिलेगा, तो मैं तुम्हारे (निमित्त) बलि-कर्म करूँगा । मुझे यह राज्य, इन्ही देवता के प्रताप से मिला है । गो मैं अब इनका बलि-कर्म करूँगा । तुम देर न करो, शीघ्र ही देवता के बलि-कर्म की तैयारी करो ।”

“देव ! क्या क्या (चीजे) लें ।”

मैंने देवता की प्रार्थना करते हुए, यह मिन्नत मानी थी कि जो मेरे राज्य में हिंसा (—प्राण-घात) आदि पाँच दुःशीलकर्म तथा दस अकुशल कर्म करने में लगे रहते हैं, उन्हें मार कर, उनकी आत्मा की बलि, रक्त-मांस आदि से बलि-कर्म करूँगा । सो तुम यह मुनादी करवा दो—“हमारे राजा ने उप-राज रहते समय ही यह मिन्नत मानी थी, कि यदि मुझे राज्य मिलेगा, तो जो मेरे राज्य में दुःशील होंगे, उन सब को मार बलि-कर्म करूँगा । सो, नगरवासी जान लें कि अब वह पाँच प्रकार, तथा दस प्रकार के दुःशील कर्म करने वाले एक हजार जनो को मरवा कर, उनके हृदय मांस आदि लिवा कर, उसमें देवता का बलि-कर्म करने का इच्छुक है । (यह कह कर) जो अब से लगा कर दुःशील कर्मों में अनुरक्त रहेंगे, उनके एक सहस्र जने मार कर, यज्ञ करके मिन्नत से मुक्त होऊँगा ।” इस अर्थ का प्रकाश करते हुए यह गाथा कही—

दुष्मेधानं सहस्तेन यज्ञो मे उपयाचितो,
इदानीं खो हं यजिस्सामि बहू अघम्मिको जनो ॥

[मैंने एक सहस्र दुर्बुद्धि (मनुष्यों) की (बलि देकर), यज्ञ करने की मिन्नत मानी थी । सो मैं अब यज्ञ करूँगा, (क्योंकि) अघात्मिक जन (तो) बहुत हैं ।]

“दुष्मेधानं सहस्तेन . . .” यह काम करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, (यह) न जानने से, अथवा दस प्रकार के अकुशल कर्मों में लगे रहने से, दुष्ट-मेधा वाले = दुर्मेधा, उन दुर्बुद्धि = प्रजा-रहित = मूर्ख मनुष्यों को

गिन कर, एक हज़ार । यज्ञो मे उपयाचितो, मने देवता के पास जाकर मिश्रत मानी कि इस प्रकार यज्ञ करूँगा । इदानी खो हूँ यजिस्सामि, सो मैं मिश्रत (के प्रताप) से राज्य प्राप्त कर लेने के कारण अब यज्ञ करूँगा । क्यों ? क्योंकि अभी बहुत अधार्मिक जन हैं । इसलिए अभी उनका बलि-कर्म करूँगा ।”

अमात्यों ने बोधिसत्त्व का बचन सुन, “देव ! अच्छा कह, वारह योजन के बाराणसी नगर मे मुनादी फिरवा दी । मुनादी की आज्ञा सुनकर, एक भी दुःशील-कर्म (=कुकर्म) करने वाला आदमी न रहा । सो जब तक बोधिसत्त्व राज्य करते रहे, तब तक एक आदमी भी पाँच वा दस प्रकार के कुकर्मों मे से किसी एक कर्म को भी करना न दिखाई दिया । इस प्रकार बोधिसत्त्व किसी एक भी आदमी को कष्ट न दे, सकल राष्ट्रवासियों से सदाचार की रक्षा करवाते हुए, अपने आप भी दान आदि पुण्य करते हुए, जीवन के अन्त मे अपनी परिपद् को ले देव-नगर की पूर्ति करते हुए (परलोक को) गये ।

शास्ता ने भी, ‘भिक्षुओ ! न केवल अभी तथागत लोक का उपकार करते है, पहले भी किया ही है’ (कह) इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला जानक का साराश निकाल दिया । उस समय की परिपद् (अब की) बुद्धपरिपद् थी । बाराणसी-राजा तो मैं ही था ।

पहला परिच्छेद

६. आसिंस वर्ग

५१. महासीलव जातक

“भ्रासिसेधेव पुरिसो” यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, (एक) हिम्मत्-हार भिक्षु के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

बुद्ध ने उसे पूछा—भिक्षु ! क्या तूने सचमुच हिम्मत् हार दी ?

“भन्ते ! हों” कहने पर “हे भिक्षु ! तूने इस प्रकार के कल्याणकारी शासन में प्रव्रजित होकर, किस लिए हिम्मत् हार दी ? पूर्व समय में बुद्धिमानों ने राज्य गँवा कर भी, अपने वीर्य (=प्रयत्न) में स्थित रह, (अपने) नष्ट हुए यश को भी फिर पैदा कर लिया” (कह) पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिमत्त्व (उस) राजा की पटरानी की कोख से उत्पन्न हुए । उसके नामकरण के दिन, (उसका) नाम सीलव कुमार रक्खा गया । सोलह वर्ष की आयु होने पर (वह) सब शिल्पों में पारङ्गत हो गया । पिता के मरने के बाद राज्य पर प्रतिष्ठित हो, महामीलव नामक राजा हुआ । वह अत्यन्त धार्मिक राजा था । नगर के चार द्वारों पर चार (दानशालायें), बीच में एक, प्रवेश-द्वार पर एक, इस प्रकार छह दान-शालायें बनवाकर वह दरिद्र यात्रियों को दान देता हुआ सदाचार की रक्षा करता था । उपोमथ (=व्रत) रक्खता । शान्ति, मैत्री और दया से युक्त, (वह) गोद में बैठे पुत्र को सन्तुष्ट करने की

तब सभी प्राणियों को मनुष्ट करता हुआ, धर्म-पूर्वक राज्य करता । उसके एक अमात्य ने अन्त पुर में दूषित कर्म किया । आगे चलकर, उसका पता लग गया । अमात्यो ने राजा से कहा । राजा ने ख्याल रखते हुए, अपने आप प्रत्यक्ष रूप से मालूम करके, उस अमात्य को बुलाकर कहा—“हे अन्ध मूर्ख ! तूने अनुचित किया है । अब तू मेरे राज्य में रहने के योग्य नहीं है । अपने धन और स्त्री-पुत्र को लेकर दूमरी जगह चला जा ।” यह कह, उसे देश से निकाल दिया ।

वह काशी राज्य (--राष्ट्र) को पार कर, कोशल नरेश की सेवा में रहता हुआ, क्रम से राजा का आतङ्गिक विश्वासपात्र हो गया । उमने एक दिन कोशल-नरेश को कहा—“देव ! वाराणसी का राज्य मकली-रहित शहद के छत्ते जैसा है । राजा, अत्यन्त कोमल स्वभाव है । थोड़ी सी ही सेना से वाराणसी राज्य जीता जा सकता है ।”

राजा ने उसकी बात सुन मोचा—“वाराणसी राज्य महान् है । यह कहना है कि थोड़ी ही सेना से जीता जा सकता है । कहीं यह चर-पुरुष^१ तो नहीं ?” यह सोच कर उसे कहा—“मालूम होता है, तू चर-पुरुष है ?”

“देव ! मैं चर-पुरुष नहीं हूँ । यदि मेरा विश्वास न हो, तो मनुष्यों को भेज कर (काशी-नरेश के) प्रत्यन्त-ग्रामों को नाश करवाओ । (गाँव वालों) के उन आदमियों को पकड़ कर, अपने पास लाने पर, (वह राजा) उन आदमियों को धन देकर छोड़ देगा ।”

राजा ने, “यह बड़ी निर्भीकता के साथ बोल रहा है, अच्छा, परीक्षा कलेंगा” सोच, अपने आदमियों को भेज कर प्रत्यन्त के ग्रामों को नाश करवाया । लोगों ने चोरो को पकड़ कर वाराणसी-नरेश को दिखाया । राजा ने उन्हें देख पूछा—“तात ! किस लिए गाँव का नाश करते हो ?”

“देव ! जीविका का कोई उपाय न होने से ।”

“तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आये ? अब आगे से ऐसा मत करना” कह, उन्हें धन देकर शिवा किया । उन्होंने जाकर कोशल-नरेश को वह समाचार

कहा । इतने से भी आक्रमण करने की हिम्मत न होने के कारण, उसने फिर मध्य-जनपद का नाश करवाया । उन चोरो को भी राजा ने वैसे ही धन देकर छोड़ दिया । इतने पर भी उसने न जाकर, फिर (आदमियों को) भेज कर अन्दर-शहर लुटवाया । राजा ने उन चोरो को भी धन देकर ही लौटा दिया । तब कोशल-नरेश यह जान, कि बाराणसी का राजा अत्यन्त धार्मिक है, बाराणसी राज्य को लेने के लिए सेना लेकर निकला ।

उस समय बाराणसी-नरेश सीलव महाराज के पास एक हज़ार अभेद्य—शूरतर—महायोधा ऐसे थे, जो सामने से मस्त हाथी के आगे पर भी (पीछे) न लौटने वाले थे, सिर पर बिजली के गिरने पर भी न डरने वाले थे, सीलव महाराज की मरजी होने पर सारे जम्बूद्वीप का राज्य जीत सकते थे । उन्होंने 'कोशल-नरेश आता है', सुन कर, राजा के पास आकर कहा—“देव ! कोशल-नरेश बाराणसी लेने के इरादे से आ रहा है । हम जायें, और अपने राज्य की सीमा लॉघते ही, उसे पीट कर पकड़ लायें ।”

‘तात ! मेरे कारण दूसरो को कष्ट न होना चाहिए । जिन्हे राज्य लेना हो, वह राज्य ले ले । मत जाओ ।’ (कह) उन्हें रोक दिया ।

कोशल-राजा ने गीमा लॉघ, जनपद के बीच में प्रवेश किया । अमात्यों ने फिर भी जा कर राजा को वैसे ही कहा । राजा ने पहले ही की तरह मना किया । कोशल-राजा ने नगर के बाहर खड़े होकर सीलव महाराज के पाम सन्देश भेजा कि ‘या तो राज्य दे, अथवा युद्ध करे ।’

राजा ने उसे मुन प्रत्युत्तर भेजा—‘मेरे साथ युद्ध (करने की आवश्यकता) नहीं । राज्य ले लें ।’

फिर भी अमात्यों ने राजा के पास आकर कहा—“देव ! हम कोशल-नरेश को नगर में प्रविष्ट न होने दे ? उसे नगर के बाहर ही पीट कर पकड़ लें ?”

राजा ने पहले ही की तरह उन्हें मना किया । (फिर) नगर-द्वारो को खूलवा कर, हज़ार अमात्यों सहित (अपने) महानल पर मिहासन के बीच में बैठा ।

कोशल-नरेश बड़ी मेना-मवारी के साथ बाराणसी में प्रविष्ट हुआ । उसने एक भी विरोधी-शत्रु को न देख, राजा के निवास (स्थान) के द्वार पर जा, अमात्यो से घिरे हुए, खुले द्वार वाले राज-महल में अलकृत-सजे महातल पर

चढ़ कर बैठे निरपराध सीलव महाराजा को उसके सहस्र मन्त्रियों सहित पकड़वा कर (अपने आदमियों को) कहा—“जाओ, अमात्यों सहित इस राजा को, (इनके) हाथ पीछे कम करके बाँध कर, कच्चे श्मशान में ले जाओ। (वहाँ ले जा कर) गले तक गहरे गढ़े खोद कर, जिसमें एक भी हाथ न हिलाया जा सके, वैसे रेत भर कर गाड़ी। रात को शृगाल आकर, जो इनके साथ करना योग्य है, सो करेगे।”

मनुष्य चोर-राजा की आज्ञा सुन, अमात्यो सहित राजा को, पीछे बाहें कड़ी करके बाँध कँद कर ले गये। उस समय भी सीलव महाराज ने चोर-राजा के प्रति द्वेष-भाव तक नहीं किया। उन बाँध कर लिए जाते अमात्यों में से, राजा की बात के विरुद्ध जाने वाला, एक भी (अमात्य) न था। इतनी सुविनीत थी वह राजा की परिपद। सो वह राजपुरुष अमात्यों सहित सीलव राजा को कच्चे श्मशान में ले गये। (वहाँ) ले जा, गले तक गढ़े खोद, सीलव महाराज को बीच में (और उनके) दोनों ओर शेष अमात्यों को, इस प्रकार सब को गढ़ों में उतार, रेत से भर, ऊपर से घन से कूट कर चले गये। सीलव महाराज ने अमात्यो को सम्बोधित करके उपदेश दिया—“तात ! चोर-राजा के प्रति क्रोध न कर मैत्री-भावना ही करो।”

सो आधी रात के समय, मनुष्य मांस खाने के लिए शृगाल आ गये। उन्हें देख, राजा और अमात्यो ने, सब ने एक साथ ही शोर मचाया। शृगाल डर के मारे भाग गये। (लेकिन) टहर कर, उन्होंने पीछे किसी को न आते देखा। सो वह फिर लौट आये। इन्होंने भी वैसे ही शोर मचाया। इस प्रकार तीन बार भाग कर, फिर देखते हुए, उनमें से किसी एक को भी पीछे न आते देख, ‘यह दण्डित होंगे’ (सोच), वीर बन कर लौटे। फिर उनके शोर मचाते रहने पर भी नहीं भागे। स्यारो का सर्दार (=ज्येष्ठ शृगाल) राजा के पास पहुँचा; और बाकी दूसरो के पास। होशियार राजा ने उसे अपने समीप आने दिया, और (गीदड़ को) काटने का मौका देते हुए की तरह, गरदन को उठाया। जब स्यार गरदन काटने आया, तो उसको ठोड़ी की हड्डी से खींच कर यन्त्र में फँसायीं की तरह, जोर से पकड़ लिया। हाथी के बल समान बल-शाली राजा की ठोड़ी की हड्डी द्वारा खींच कर गरदन से पकड़े जाने पर, स्यार (जब) अपने को छुड़ा न सका, तो वह मरने से भयभीत होकर, जोर से चिल्ला

उठा। बाकी स्यार उसकी उस चिल्लाहट को सुन कर 'उसे किसी आदमी ने पकड़ लिया होगा' समझ आमात्यो के पास न फटक सकने के कारण सब के सब भाग गये। राजा की ठोडी से अच्छी तरह करके पकड़े स्यार के इधर उधर भटकते मारने से, रेत ढीली हो गई। उस शृगाल ने भी मरने से भयभीत हो, चारों पाँव से राजा के ऊपर रेत उछाली। राजा ने रेत ढीला हुआ जान, शृगाल को छोड़ दिया। (फिर वह) हाथी के समान शक्तिशाली (राजा) के इधर उधर हिलते डोलते, दोनों हाथों को निकाल, गढ़ के मुँह की मुँडेर पर लटक, वायु से छिन्न हुए बादल की तरह (बाहर) निकल आया। निकल कर, (उसने) आमात्यो को आशवासन दे, रेत हटा, सब को निकाला। (अब) आमात्यो सहित वह, कच्चे श्मशान में खड़ा हुआ।

उस समय मनुष्य एक मृत-मनुष्य को कच्चे श्मशान में छोड़ने आकर, उसे दो यक्षो की सीमा के बीच में छोड़ गये। उन यक्षो ने उस मृत-मनुष्य को (आपम में) बाँट न सकने पर सोचा—“इसे हम नहीं बाँट सकने। यह मीलव राजा धार्मिक है। यह इसे हम बाँट कर देगा। इसके पास चले।” (सो उन्होंने) उस मृत-मनुष्य का पाँव से पकड़ घसीटते घसीटते राजा के पास ले जा कर कहा—“देव ! इसे हम बाँट कर दे।

“यक्षो ! मैं इसे तुम्हें बाँट कर तो दे दूँ, लेकिन मैं अप्रगुण्ड हूँ। पहले, नहाऊँगा।”

यक्षों ने अपने बल से चोर-राजा के लिए रक्वा हुआ, सुगन्धित जल, लाकर, राजा को नहाने के लिए दिया। नहा कर खड़े हुए को, मँभाल कर रक्वे हुए चोर-राजा के वस्त्र लाकर दिये। उन वस्त्रों को पहने खड़े हुए को, चार प्रकार की सुगन्धि की पेटिका लाकर दी। सुगन्धि का लेप करके खड़े हुए को, सोने की पेटिका में, मणि-निर्मित पत्ती में रक्वे हुए नाना प्रकार के फूल लाकर दिये। फूलों को पहन कर खड़े होने पर पूछा—“और क्या करें ?” राजा ने कहा कि भूख लगी है। उन्होंने जाकर चोर-राजा के लिए सम्पादित नाना प्रकार के अग्रस भोजन लाकर दिये। नहाकर, (सुगन्धि में) अनुलिप्त, अलकृत, प्रसन्न चित्त, राजा ने नाना प्रकार के भोजन खाये। यक्ष, चोर-राजा के लिए रक्वा हुआ सुगन्धित जल, सोने की सुराही और मोने के कसोरे सहित ले आये। फिर इस के पानी पी, कुल्ला कर, हाथ

धोने पर, उन्होंने चोर-राजा के लिए तैयार किया, पाँच प्रकार की सुगन्धियों से सुगन्धित पान लाकर दिया। उसको खा चुकने पर पूछा—“अब क्या करें ?” “जाकर चोर-राजा के सिरहाने रक्खी माङ्गलिक-खड्ग लाओ।” वह भी जाकर ले आये। राजा ने तलवार ले, उस मृत-मनुष्य को सीधा खड़ा रखवा, माथे के बीच में तलवार से प्रहार कर, दो टुकड़े कर, दोनों यक्षों को बराबर बराबर बाँट दिया ! (उन्हें) दे, तलवार धो, तैयार हो खड़ा हुआ। उन यक्षों ने मनुष्य-मांस खा कर, प्रसन्न हो, मनुष्य-चित्त हो, राजा से पूछा—“महाराज ! तेरे लिए और क्या करें ?”

“तुम अपने प्रनाप से मुझे तो चोर-राजा के शयनागार में उतार दो, और इन अमात्यों को इनके अपने अपने घर पहुँचा दो।” उन्होंने ‘देव ! अच्छा’ (कह) स्वीकार कर, वैसा ही किया।

उस समय चोर-राजा (अपने) शयनागार में शय्या पर पड़ा सो रहा था। राजा ने उस साँते हुए प्रमादी के पेट में तलवार की नोक चुभाई। उसने डर के मारे उठ, दीपक के प्रकाश में सीलव महाराज को पहचान, शय्या से उठ, होश सँभाल, खड़े हो राजा से पूछा—‘महाराज ! इस प्रकार की रात्रि में, पहले से युक्त, बन्द दरवाजों वाले भवन में, पहरेदारों की आज्ञा के बिना, तुम इस प्रकार तलवार बाँध, अलकृत-मज कर, इस शयनागार में कैसे आये ? राजा ने, जैसे आया था, सब बिस्तार से कहा। चोर-राजा ने पुलकित-चित्त हो, “महाराज ! मैं मनुष्य ही कर भी आपके गुणों को नहीं जानता, और यह दूसरो का रक्त-मांस खाने वाले, अति कठोर यक्ष आपके गुण जानते हैं। हे नरेन्द्र ! मैं अब से आप ऐसे शीलवान् (—सदाचारी) के प्रति द्वेष न रखूँगा” (कह) तलवार ले कर शपथ ली। (फिर) राजा से क्षमा माँग, उसे महाशय्या पर सुलाया। अपने आप छोटी चारपाई पर लेटा। उसने सुबह होने पर, सूर्य के उदय होने के वक्त, मुनादी फिरवाई और सब सैनिकों तथा अमात्य-ब्राह्मण-गृहपतियों को एकत्रित करवा, उनके सम्मुख, आकाश में पूर्ण चन्द्र को उठा कर (दिखाने की) तरह सीलव-राजा के गुणों को कहा। (फिर) सभा के बीच में राजा से क्षमा माँग, (उसे) राज्य सौंप, ‘अब से आपके (राज्य) में चोरो की गड़बड़ी (की देख भाल करने) का भार मुझ पर रहा। मैं पहरेदारी

करूँगा । आप राज्य करे' (कह) चुगल-खोर को दण्ड दे कर, अपनी सेना-सवारी ले, अपने ही देश को चला गया ।

सीलव महाराजा ने भी, अलंकृत-सजे हुए (हो), श्वेतछत्र के नीचे, सरभ भृग के पैरों सदृश पैरो वाले सोने के सिंहासन पर बैठ, अपनी सम्पत्ति को देखते हुए सोचा—“यह इस प्रकार की सम्पत्ति, हजार अमात्यो का जीवन प्रतिलाभ; यदि मैं प्रयत्न (वीर्य) न करता, तो यह कुछ भी न होता । प्रयत्न के बल से, मैंने इस नष्ट हुए यश को प्राप्त किया, सहस्र अमात्यो को जीवन-दान दिया । (इसलिए) बिना निराश हुए प्रयत्न ही करना चाहिए । किया गया प्रयत्न इसी प्रकार फलदायक होता है ।” यह सोच उदान (=हर्ष वाक्य) स्वरूप नीचे की गाथा कही—

आसिसेथेव पुरिसो न निब्विन्वेय्य पण्डितो,

पस्सामि वोहं अत्तानं यथा इच्छि तथा ब्रू ॥

[पुरुष आशा लगाये रखे । बुद्धिमान् आदमी निराश न हो । मैं अपने को ही देखता हूँ । जैसी इच्छा की थी, वैसा ही हुआ ।]

आसिसेथेव, मैं इस प्रकार प्रयत्न करके इस दुःख से मुक्त हो जाऊँगा, अपने प्रयत्न से ऐसी आशा लगाये ही रखे । न निब्विन्वेय्य पण्डितो, बुद्धिमान् = उपाय करने में दक्ष (आदमी) उचित स्थान पर प्रयत्न करता हुआ, “मैं इस प्रयत्न का फल नहीं पाऊँगा” इस प्रकार की उत्कण्ठा न करे, आशा-छेद-कर्म न करे; यही अर्थ है । पस्सामि वोहं अत्तानं, इसमें ‘वो’ निपात मात्र है; मैं आज अपने को देखना हूँ । यथा इच्छि तथा ब्रू, मैंने गढ़े में गड़े हुए इच्छा की कि मैं उस दुःख से मुक्त होकर फिर राज्य लाभ करूँ । सो मैंने यह सम्पत्ति प्राप्त कर ली । जैसी मैंने इच्छा की थी, वैसा ही मुझे हो गया । इस प्रकार बोधिसत्त्व ‘अहो ! वन ! भो ! सदाचारियों का प्रयत्न फल लाता है’ (कह) इस गाथा से हर्ष-वाक्य कह, जीवन रहते पुण्य कर, यथा-कर्म (परलोक) गये ।

बुद्ध ने भी इस धर्म-वेशना को नाकर, (आर्य-मन्यो को प्रकाशित किया । सत्यो (के प्रकाशन) के अन्त में (वह) हिम्मत-हार भिक्षु अर्हत्व में प्रतिष्ठित

हुआ। शास्ता ने मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय का दुष्ट अमात्य (अब का) देवदत्त था। सहस्र अमात्य (अब की) बुद्ध परिषद् थी। सीलव महाराज तो मैं ही था।

५२. चूल जनक जातक

“वायमेथेव पूरिसो . . .” यह गाथा (भी) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, हिम्मत्त-हार भिक्षु के ही बारे में कही।

क. वर्तमान कथा

मो, उसके विषय में जो कथनीय है, वह सब महाजनक जातक^१ में आयेगा।

ख. अतीत कथा

जनक राजा ने श्वेत-छत्र के नीचे बैठे यह गाथा कही—

वायमेथेव पूरिसो न निम्बिन्देय्य पण्डितो,

पस्सामि बोहं अत्तानं उदका थलमुग्गतं ॥

[पुरुष प्रयत्न करे। बुद्धिमान् आदमी निराश न हो। मैं अपने को ही देखता हूँ कि मैं जल में स्थल पर आ गया।]

वायमेथेव, प्रयत्न करे ही। उदका थलमुग्गतं, जल से स्थल पर उत्तीर्ण (हुआ), अपने को स्थल पर प्रतिष्ठित देखता हूँ।

^१ जातक (५३६)

इस अवसर पर भी हिम्मत-हार भिक्षु ने ग्रहत्व प्राप्त किया । जनक राजा, सम्यक्-सम्बुद्ध ही थे ।

५३. पुण्यपाति जातक

“तथैव पुण्यपातियो” यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय जहरीली शराब के सम्बन्ध में कही ।

क. वर्तमान कथा

एक समय श्रावस्ती में शराबियों (--सुराधूर्तों) ने इकट्ठे होकर आपस में मलाह की—“हमारे पास शराब के लिए पैसा नहीं रहा । अब (पैसा) कहाँ में मिले ?” एक अत्यन्त धूर्त ने कहा—“चिन्ता मत करो । एक उपाय है । कौन सा उपाय ? अनाथपिण्डक अँगुली में अँगूठी पहनता है । बारीक वस्त्र धारण करता है । तब राजा की सेवा में जाता है । हम शराब की बाटी में बेहोशी की दवा मिला, (शराब की) दूकान लगा कर बैठ, अनाथ-पिण्डक के आने के समय ‘महाश्रेष्ठी इधर पधारें’ (कह) उसे बुलावेंगे, (और) उसको शराब पिला, उसके बेहोश हो जाने पर, उसकी अँगुली की अँगूठी और वस्त्र उतार, उसमें शराब पीने के लिए पैसे जुटावेंगे ।” उन्होंने ‘अच्छा’ कह स्वीकार कर, पैसा कर चुकने पर, श्रेष्ठी के आने के समय, उसके रास्ते पर जाकर कहा—“स्वामी ! जरा इधर आये । हमारे पास, अत्यन्त सुन्दर शराब है । (उसमें से) थोड़ी पी जायें ।” श्रोतापत्र प्रायः-श्रावक (अनाथ-पिण्डक) क्या शराब पीता ? आवश्यकता न रहने पर भी, उसने इन धूर्तों की परीक्षा कहेगा (मोच) उनकी दूकान पर जा, उनकी क्रिया देख, ‘इन्होंने यह शराब इस मतलब से बनाई है’ जान, ‘अब से, इन्हें यहाँ से भगाऊँगा’ विचार कर, कहा—“अरे ! दुष्ट धूर्तों ! तुम शराब की बाटी में दवाई

मिला कर, आने वालो को पिला कर, बेहोश करके उन्हें लूटने के विचार से दूकान सजा कर बैठे हो। खाली डम शराब की प्रशंसा भर करते हो। किमी एक की भी, उठा कर पीने की हिम्मत नहीं होती। यदि यह चिना-मिलाई (शराब) होनी, तो (पहले) तुम ही पीते।" धूर्तो को लनाड़, अपने घर जा, 'धूर्तो की करनी तथागत से कहूँगा' (सोच), जेतवन जाकर, (तथागत से) निवेदन की। वुद्ध ने 'हे गृहपति ! अब तो वह धूर्त तुम्हें ठगना चाहते थे; पूर्व समय में पण्डितों को भी ठगना चाहते थे' कह, उसके याचना करने पर, पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मवत्त के राज्य करने समय, बोधि-मत्त्व बाराणसी के श्रेष्ठी हुए। उस समय भी इन धूर्तों ने, इसी प्रकार सलाह कर, शराब में मिलावट मिला, बाराणसी श्रेष्ठी के आने के समय, रास्ते पर जाकर, इसी प्रकार कहा। एक ने आवश्यकता न रहने पर भी, उनकी परीक्षा करने की इच्छा से, जाकर उनकी करनी देख, 'यह ऐसा करना चाहते हैं' जान 'यहाँ से इन्हें भगाऊँगा' सोच, कहा—“धूर्तो ! शराब पीकर राज-कुल जाना अनुचित है। राजा को देख कर, लौटने समय (शराब को) जानूँगा। तुम यहीं बैठे रहना।” राजा की सेवा में जाकर लौट आया। धूर्तों ने कहा—“स्वामी ! इधर आये।” उसने वहाँ जाकर, दवाई मिलाई हुई (शराब की) बाटियों को देख, कहा—“अरे ! धूर्तो ! तुम्हारी करनी मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी शराब की बाटियाँ जैसी की तैसी भरी ही रक्खी हैं। तुम केवल शराब की प्रशंसा भर करते हो, लेकिन पीते नहीं। यदि यह अच्छी (शराब) होती, तो तुम भी पीते। लेकिन इसमें विष मिला होगा” इस प्रकार उनके मनोरथ को छिन्न-भिन्न करते हुए यह गाथा कही—

तथैव पुष्पापातियो अञ्जायं वत्तते कथा,

आकारकेन जानामि न चायं भट्टिका सुरा ॥

[(शराब की) बाटियाँ, वैसी ही भरी हैं (जैसी पहले थी)। सो यह

शराब की प्रशंसा (=कथा) दूसरे ही मतलब से है । मे रंग डंग से जानता हूँ कि यह शराब अच्छी नहीं है ।]

तथैव, मैंने इन्हें जैसा जाने समय देखा, यह शराब की बाटियाँ, अब भी वैसी ही भरी है । अञ्जायं वत्तते कथा, यह जो तुम्हारी शराब की प्रशंसा की बात है, वह अन्य है -- असत्य है -- भूट है । यदि यह शराब अच्छी होती, तो तुम भी पीते, (केवल) आधी बाटिये वाकी वचनी । लेकिन तुम मे से किसी एक ने भी शराब नहीं पी । आकारकेन जानामि, सो मैं इस बात से जनता हूँ । न चायभट्टिका सुरा, यह शराब अच्छी नहीं, इसमें विष मिला हुआ होगा ।

इस प्रकार धूर्तों को ले, जिसमें वद्व फिग वैसा न करे, उनको लनाड, छोड़ दिया । वह जीवन रहते, दानादि पुण्य करके यथा-कर्म (परलोक) गया ।

बुद्ध ने यह धर्म-देशना कह, जातक का साराय निकाल दिया । उस समय के धूर्त (अब के) धूर्त थे । लेकिन उस समय ब्राह्मणमी का भेठ मैं ही था ।

५४. फल जातक

“नायं बख्खो बुरारूहो . . .” यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, एक फल (पहचानने में) द्विगियार उपासक के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

एक श्रावस्ती-वासी गृहस्थ ने, बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-सघ को निमन्त्रित कर, अपने आराम में बिठा, यवागु-न्वाजा दे, (अपने) माली को आज्ञा दी, कि वह भिक्षुओं के साथ वाग में घूम, उन आर्य्यों को आम आदि नाना प्रकार के फल

दे। वह 'अच्छा' (कह) स्वीकार कर, भिक्षु-सघ को साथ ले, उद्यान में फिरते हुए, वृक्ष को देख कर ही जान लेता कि यह कच्चा फल है, यह अच्छी तरह पका नहीं, यह अच्छी तरह पका है। जिसे वह जैसा कहता, वह वैसा ही निकलता। भिक्षुओं ने जाकर तथागत से निवेदन किया—“भन्ते ! यह माली फल (पहचानने में) दक्ष है। पृथ्वी पर खड़े ही खड़े वृक्ष को देख कर ही, जान लेता है, 'यह फल कच्चा है, यह अच्छी तरह नहीं पका, यह अच्छी तरह पका है' जिसे, वह जैसा कहता है, वह वैसा ही निकलता है।” बुद्ध ने, 'हे भिक्षुओं ! केवल यह माली ही फल (पहचानने में) दक्ष नहीं, पूर्व समय में पण्डित (जन) भी फल (पहचानने में) दक्ष थे' कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में (गजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व (एक) श्रेष्ठी-कुल में उत्पन्न हुए। उन्होंने आर्य-प्राप्त होने पर, पाँच सौ गाड़ियाँ ले, वाणिज्य करने हुए। एक समय जंगल में से गुजरने वाले माहमार्ग में, जंगल के मुख-द्वार पर खड़े हो, सभी मनुष्यों को एकत्रित करवा कहा—“इस जंगल में विष-वृक्ष होते हैं, विष-पत्र, विष-पुष्प, विष-फल, तथा विष-मधु होते हैं। यदि कोई ऐसा पत्र, फल या फल हो, जिसे तुमने पहचाने न खाया हो, उसे बिना मुझे पूछे मत खाना।” वह 'अच्छा' (कह) स्वीकार कर जंगल में प्रविष्ट हुए। जंगल में प्रविष्ट होने ही, एक ग्राम-द्वार पर एक किम्फल नामक वृक्ष था। उस (वृक्ष) के तने, शाखा, पत्ते, फूल, फल, सब ग्राम की तरह के थे। न केवल रंग और आकार में, किन्तु गन्ध और रस में भी। (इस वृक्ष के) कच्चे पक्के फल, आम के फल के सदृश ही थे। लेकिन खाने पर हलाहल विष की तरह, उसी समय प्राणों का नाश कर देते थे। आगे आगे जाने वाले कुछ लोभी आदिमियों ने 'यह आम के वृक्ष हैं' समझ, फल खाये। कुछ ने 'कारवान के सरदार को पूछ कर खायेंगे' हाथ में लिये खड़े रहे। उन्होंने सार्थवाह (कारवान के सरदार) के आने पर पूछा—“आर्य ! इन आम के फलों को खायें ?” बोधिसत्त्व ने यह जान कि यह आम का वृक्ष नहीं है, 'यह आम-वृक्ष नहीं, यह किम्फल वृक्ष है, मत खाओ' (कह) मना किया। जिन्होंने खाये थे, उनकी भी उल्टी करा, उन्हें चतु-सधुर पिला अच्छा किया। (इससे)

पहले, मनुष्य उस वृक्ष के नीचे निवास कर, 'यह आम्रफल है' (करके) उन विष-फलों को खा, (अपने) प्राण गँवाते । अगले दिन ग्रामवासी निकल, मृत-मनुष्यो को देख, उन्हें पाँव से पकड़, छिपे हुए स्थान पर फेंक, गाड़ियो सहित, जो कुछ उनके पास होता, सब ले जाते ।

उस दिन भी उन्होंने अरुणोदय के समय ही निकल 'बैल मेरे होंगे, गाड़ी मेरी होगी, सामान मेरा होगा' (करके) जल्दी से उस वृक्ष के नीचे पहुँच, मनुष्यो को निरोगी देख पूछा—'तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि यह वृक्ष आम्र-वृक्ष नहीं है ?' उन्होने कहा—'हम नहीं जानते । हमारा ज्येष्ठ सत्यर्थाह जानता है ।' मनुष्यो ने बोधिसत्त्व से पूछा—'हे पण्डित ! तूने कैसे जाना कि यह वृक्ष आम्र का वृक्ष नहीं है ?' उसने दो बातों से जाना कह, यह गाथा कही—

नायं रक्खो दुरारूहो न पि गामतो आरका,
आकारकेन जानामि नायं सावुफलो दुमो ॥

[न तो यह वृक्ष चढने मे दुष्कर है, न ही गाँव से दूर है । इन दो बातों से मैं जानता हूँ कि यह स्वादु फलों का वृक्ष नहीं ।]

नायं रक्खो दुरारूहो, यह विष-वृक्ष चढने में दुष्कर नहीं है, उछल कर, जैसे मीठी रक्खी हो, वैसे चढा जा सकता है । न पि गामतो आरका, ग्राम से दूर भी नहीं है, अर्थात् ग्राम के समीप ही है । आकारकेन जानामि, इस दो प्रकार की बात से मैं इस वृक्ष को पहचानता हूँ कि नायं सावुफलो दुमो, यदि यह मधुरफल आम्र-वृक्ष हो, तो इस प्रकार आसानी से चढ सकने योग्य (तथा) ग्राम के पास ही लगे इस (वृक्ष) पर एक भी फल न रहे । फल खाने वाले मनुष्य, इसे नित्य ही घेरे रहे । इस प्रकार मैंने अपने ज्ञान से परीक्षा करके जाना कि यह विष-वृक्ष है । इस प्रकार जन (-समूह) को धर्मोपदेश कर, उसने सकुशल मार्ग ग्रहण किया ।

बुद्ध ने भी, 'हे भिक्षुओ ! इस प्रकार पहले भी पण्डित (-जन) फल (पहचानने में) दक्ष हुए है" (कह) इस धर्म-देशना को कह, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया । उस समय की परिपद् (अब की) बुद्ध परिषद् ही थी । लेकिन सत्यर्थाह मैं ही था ।

५५. पंचावुध जातक

“यो अलीनेन चित्तेन” यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय (एक) हिम्मत-हार भिक्षु के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

उस भिक्षु को बुद्ध ने बुलाकर, पृच्छा—‘हे भिक्षु ! क्या तू सचमुच हिम्मत-हार बैठा ?’ उसके ‘भगवान् ! सचमुच’ कहने पर, ‘हे भिक्षु ! पूर्व समय में बुद्धिमान् लोग हिम्मत करने की जगह हिम्मत करके राज-सम्पत्ति के लाली हुए ।’ कह (शास्ता ने) पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मवत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व, उसकी पटरानी की कोख से उत्पन्न हुए । उसके नामकरण के दिन, एक सौ आठ ब्राह्मणों की सब कामनायें पूरी कर, उनसे उसके लक्षण (= चिन्ह) पूछे गये । चित्त (देखने में) दक्ष ब्राह्मणों ने, उसकी चित्त-सम्पत्ति को देख कहा—“महाराज ! कुमार पुण्यवान् है । तुम्हारे बाद राज्य प्राप्त करेगा । पाँच शस्त्रों के चलाने में प्रसिद्ध हो, जम्बूद्वीप में अग्र-पुरुष होगा ।” ब्राह्मणों की बात सुन, कुमार का नाम रखने वालों ने, उसका नाम पञ्चावुधकुमार रक्खा । सो उसके होश सँभालने पर, सोलह वर्ष का होने पर, राजा ने बुलाकर, कहा— तात ! शिल्प सीख ।

“देव ! किस के पास सीखूँ ?”

“तात^१ जा, गान्धार देश के तक्षशिला नगर में लोक-प्रसिद्ध आचार्य के पास जा कर सीख । यह उस आचार्य का भाग (= फीस) देना” (कह) हज्जार (मुद्रा) देकर भेजा ।

उसने वहाँ जाकर शिल्प सीख, आचार्य के दिये हुए पाँच शस्त्र ले, आचार्य को प्रणाम कर, लक्षशिला' नगर से निकल, पंच हथियार बंद (हो) बाराणसी का रास्ता लिया। मार्ग में वह, श्लेषलोम यक्ष से प्रधिकृत एक जङ्गल (के द्वार) पर पहुँचा। सो उमे जगल के द्वार पर देख, मनुष्यो ने रोका—“भो ! माणवक ! इस जगल में मत प्रविष्ट हो। इस जंगल में श्लेषलोम (नामक) यक्ष है। वह जिम किसी मनुष्य को देखता है, उसे मार डालता है।”

बोधिसत्त्व अपने को जाँचते हुए, निर्भीन केशरसिंह की तरह, जगल में घुस ही गया। उसके जगल में प्रवेश करने पर, उस यक्षने (अपने) ताड़ जितना (ऊँचा) हो, घर जितना (बड़ा) मिर, बरतनों जितनी (बड़ी बड़ी) आँखें, और कन्दल की कली जितने बड़े दाँत बना, श्वेतमुख, चितकबरे पेट और नीले हाथ पाँव वाला हो, अपने आपको बोधिसत्त्व को दिखाकर कहा—“कहाँ जाता है ? टहर, तू भेरा आहार है।” बोधिसत्त्व ने, “यक्ष ! मैंने (अपने सामर्थ्य का) अन्दाजा लगा कर यहाँ प्रवेश किया है। तू सँभल कर मेरे समीप आना, मे तुझे विप में बुझे हुए तीर से बंध कर यहीं गिरा दूँगा” (कह) धमका, हाताहन विप से बुझा हुआ तीर चढ़ा कर छोड़ा। वह (जाकर) यक्ष के रोमों में ही चिपक गया। उसके बाद दूसरा... इस प्रकार पचास तीर छोड़े। मत्र, उसके रोमों में ही चिपक रहे। यक्ष, उन सभी तीरों को तोड़- मरोड़, अपने पैरों के नीचे गिरा, बोधिसत्त्व के समीप आया।

बोधिसत्त्व ने फिर भी, उसे डरा कर खड्ग निकाल कर प्रहार किया। तैतिम अगुल लम्बा तनवार रोमों में ही चिपक रही। तब उस पर बरछो से प्रहार किया। वह भी रोमों में ही चिपक गयी। उसका भी 'चिपक-रहना' जान मुद्गर से प्रहार किया। वह भी रोमों में चिपक रहा। उसका भी चिपक रहना जान, “हे यक्ष ! क्या तने मुझ पञ्चावध-भुमार का नाम पहले नहीं सुना ? मैंने तेरे अधिकृत जंगल में प्रवेश करने हुए धनुष आदि का भरोसा कर प्रवेश नहीं किया, मैंने अपना ही भरोसा कर प्रवेश किया है। सो आज मैं

¹ वर्तमान शाहजी की डेरी, जिला रावल्पिंडी।

तुझे मार कर चूर्ण-विचूर्ण करूँगा ।” यह निश्चय प्रगट कर, ऊँचा शब्द करते हुए, दाहिने हाथ से यक्ष पर प्रहार किया । हाथ (भी) रोमों में चिपक गया । बायें हाथ से प्रहार किया । वह भी चिपक गया । दाये पैर से प्रहार किया । वह भी चिपक गया । बायें पैर से प्रहार किया, वह भी चिपक गया । ‘सिर से टक्कर मार कर, उसे चूर्ण-विचूर्ण करूँगा’ (सोच) सिर से प्रहार किया । वह सिर भी रोमों में चिपक गया ।

वह पाँच जगह चिपका हुआ, पाँच जगह बँधा हुआ, लटकता हुआ भी, निर्भय ही रहा । यक्ष ने सोचा—‘यह एक पुरुष-सिंह है, पुरुष-आजानीय है, साधारण आदमी नहीं । मेरे सदृश नाम वाले यक्ष के पकड़ने पर भी डरता तक नहीं । मैंने इस मार्ग पर हत्या करते हुए, इससे पहले, एक भी ऐसा आदमी नहीं देखा । यह क्यों नहीं डरता ?’ सो उसने, उसे खाने की रुचि न होने के कारण, उससे पूछा—“माणवक ! तू मरने से किस लिए नहीं डरता ?” “यक्ष ! मैं क्यों डरूँगा ? एक जन्म में एक बार मरना तो निश्चित ही है । और मेरी कोख में (एक) वज्र-आयुध है । यदि मुझे खायेगा, तो तू उस आयुध को न पचा सकेगा । वह आयुध, तेरी आँतों के टुकड़े टुकड़े कर, तुझे मार डालेगा । इस प्रकार (यदि मरेगा) तो दोनों मरेगा । इस कारण से (भी) मैं नहीं डरता हूँ ।” यह बोधिसत्त्व ने अपने अन्तर के ज्ञान-आयुध के बारे में कहा ।

यह सुन यक्ष ने सोचा—“यह माणवक सत्य कहता है । मेरी कुक्षि इसके शरीर का मूंगे के बीज जितना मास का टुकड़ा भी हज़म न कर सकेगी । मैं इसे छोड़ दूँ ।” (यह सोच) मरने के भय से भयभीत उसने बोधिसत्त्व को छोड़ते हुए कहा—“माणवक ! तू पुरुष-सिंह है । मैं तेरा मास नहीं खाऊँगा । आज तू राहु-मुख से मुक्त चन्द्रमा की तरह मेरे हाथ से छूट कर, जाति-सुहृद-मण्डल को प्रसन्न करता हुआ जा ।”

बोधिसत्त्व ने कहा—यक्ष ! मैं तो जाऊँगा ही, लेकिन तू पूर्व जन्म में भी कुकर्म करके, क्रूर, रक्त-पाणी, दूसरों का रक्त-मांस खाने वाला होकर उत्पन्न हुआ, यदि इस जन्म में भी कुकर्म ही करेगा, तो अन्धकार से अन्धकार में जायेगा । अब मुझसे भेट होने के बाद से, तू कुकर्म नहीं कर सकता । प्राण-घात-कर्म नरक में, पशुयोनि में, प्रेत योनि में, असुर योनि में उत्पत्ति का कारण

होता है। मनुष्य योनि में उत्पन्न होने पर आयु कम करने वाला होता है। इस प्रकार पाँचों प्रकार के कुकर्मों के दुष्परिणाम और पाँचों प्रकार के सुकर्मों के शुभ-परिणाम कह, बहुत सी बातों से यक्ष को डरा, धर्मोपदेश कर, दमन कर, विषयों से पृथक् कर, पाँचों शीलों में प्रतिष्ठित कर, उसीको उस जंगल का बलि-प्रतिग्राहक देवता बना, प्रमाद रहित रहने का उपदेश कर, जंगल से निकलते हुए, जंगल के द्वार पर रहने वाले मनुष्यों को यह (वृत्तान्त) कह, पाँचों हथियार बाँध बाराणसी गया। वहाँ माता पिता को देख, आगे चल कर राज्य पर प्रतिष्ठित हो, धर्मानुसार राज्य करते हुए, दानादि पुण्य करते हुए, यथा-कर्म (परलोक) गया।

शास्ता ने भी इस धर्म-देशना को ला अभिसम्बुद्ध होने की अवस्था में यह गाथा कही—

यो अलीनेन चित्तेन अलीनमनसो नरो,
भावेति कुशलं धम्मं योगक्खेमस्स पत्तिया;
पापुणे अनुपुब्बेन सम्बसंयोजनक्खयं ॥

[जो कोई उत्साही पुरुष यांगक्षेम (—अहंत्व, निर्वाण) की प्राप्ति के लिए उत्साह-युक्त चित्त में, शुभ कर्म करता है; वह क्रमानुसार सर्व संयोजनों के क्षय को प्राप्त होता है।]

सो इसका संक्षेपार्थ यह है जो कोई आदमी अलीनेन, उत्साह-युक्त चित्तेन स्वभाव में ही उत्साही होकर, (और भी) उत्साही हो, दोष-रहित होने से कुशल (—शुभ)—सैतिस बोधिपाक्षक^१—धर्मों की भावना करता है,

^१चार स्मृति-उपस्थान (१.कायानुपस्सना, २.वेदनानुपस्सना, ३.चित्तानुपस्सना, ४.धम्ममानुपस्सना) २.चार सम्यक् प्रयत्न (१.संवरणप्यधान, २.पहलणप्यधान, ३.भावणप्यधान, ४.अनुरक्खणप्यधान), ३.चार ऋद्धिपाद (१.छन्द, २.वीर्य्य, ३.चित्त, ४.वीमंसा), ४.पाँच बल तथा पाँच इन्द्रियाँ (१.श्रद्धा, २.वीर्य्य, ३.स्मृति, ४.समाधि, ५.ज्ञान), ५.सात बोधि-अङ्ग (१.स्मृति, २. धर्म-विचय, ३.वीर्य्य, ४.प्रोति, ५.प्रध्वत्थि, ६.समाधि, ७.उपेक्षा), ६.आर्य्य अष्टांगिक मार्ग

चारों योगों से क्षेमकर निर्वाण की प्राप्ति के लिए, विशाल चित्त से विदर्शना में अनुयुक्त होता है, वह इस प्रकार सब संस्कारों में अनित्यता, अनात्मता, तथा दुःखपन को मान, नई विदर्शना से आरम्भ करके, उत्पन्न बोधिपाक्षिक घर्मों की भावना (=अभ्यास) करते हुए, क्रमानुसार एक भी संयोजन बाकी न छोड़, सब संयोजनों* का क्षय करने वाले, चतुर्थ मार्ग के अन्त में उत्पन्न होने के कारण, 'सब संयोजनों के क्षय' कहे जाने वाले, अर्हत्व को प्राप्त होते हैं।

इस प्रकार बुद्ध ने अर्हत्व को धर्म-देशना में प्रधान स्थान दे, आगे चार आर्य-सत्यो को प्रकाशित किया। सत्यों (के प्रकाशन) के अन्त में, वह भिक्षु अर्हत्व को प्राप्त हुआ। शास्ता ने भी मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय का यक्ष (अत्र का) अंगुलिमाल था। पञ्चावधुकुमार नाम वाला (तो) में ही था।

५६. कंचनकखन्ध जातक

“यो पट्टेन चित्तेन . . .” यह गाथा, शास्ता ने श्रावस्ती में विचरते हुए, एक भिक्षु के बारे में कही।

क. वर्तमान कथा

एक श्रावस्तीवासी कुल-पुत्र शास्ता की धर्म-देशना मुन (त्रि-)रत्न शासन में अत्यन्त श्रद्धा से प्रव्रजित हुआ। उसके आचार्य्य उपाध्यायो ने

(१सम्यक् दृष्टि, २सम्यक् संकल्प, ३सम्यक् वाचा, ४सम्यक् कर्मान्त, ५सम्यक् ध्यायाम, ६सम्यक् आजीविका, ७सम्यक् स्मृति, ८सम्यक् समाधि)

* संयोजन इस हैं

कहा—“हे आयुष्मान् ! शील (=सदाचार) एक प्रकार का होता है, दो प्रकार का, तीन प्रकार का, चार प्रकार का, पाँच प्रकार का, छः प्रकार का, सात प्रकार का, आठ प्रकार का, नौ प्रकार का, दस प्रकार का, इस तरह कई प्रकार का होता है। यह गौण-शील है, यह मध्यम-शील है, यह महा-शील है, यह प्रातिमोक्ष-संवर-शील है, यह इन्द्रिय-सवर-शील है, यह भाजीविका-परिशुद्ध-शील है, यह प्रत्यय-प्रतिसेवन-शील है, इसे शील कहते हैं।” उसने सोचा—“यह बहुत से शील है। मैं इतने शीलों को अपने ऊपर ले, उनके अनुसार आचरण न कर सकूँगा। यदि शीलों के अनुसार आचरण न करूँ, तो प्रब्रजित होने का ही क्या फल ? मैं गृहस्थ होकर दानादि पुण्य कर्म करूँगा, स्त्री-बच्चों का पालन करूँगा।” यह सोच उसने कहा—“भन्ते ! मैं शील न रख सकूँगा। शील न रख सकने वाले के लिए प्रब्रज्या का क्या अर्थ ? मैं गृहस्थ होऊँगा। अपना पात्र चीवर ले ले।”

उन्होंने कहा—“आयुष्मान् ! यदि ऐसा है, तो बुद्ध को प्रणाम करके जाओ।” (यह कह) वे, उसे धर्म-मभा में बुद्ध के पाम ले गये। बुद्ध ने देखते ही पूछा—“भिक्षुओ ! क्यों इस अनिच्छुक भिक्षु को लेकर आये हो ?”

“भन्ते ! यह भिक्षु, ‘मैं शील नहीं रख सकूँगा’ (कह) पात्र-चीवर लौटाता है। सो हम उसे लेकर आये हैं।”

“भिक्षुओ ! तुम किस लिए इस भिक्षु को बहुत से शील कहते हो ? यह जितने रख सकेगा, उतने रखेगा। अब से तुम इसको कुछ न कहो। इसमें जो करना उचित है, उसे मैं देखूँगा।” (यह कह) “हे भिक्षु ! आ, तुझे बहुत से शीलों में क्या ? तू केवल तीन शील रख सकेगा ?” “भन्ते ! रख सकूँगा।” “तो तू, अब मे कान्त-द्वार (=शारीरिक), वर्चा-द्वार (=वाणी के), मनो-द्वार (=चिन्त के)—इन तीन द्वारों की रक्षा कर। शरीर में, वाणी से, मन से पाप-कर्म मत कर। जा, गृहस्थ मत बन। इन तीन ही शीलों को रख।” इनने से वह भिक्षु सन्तुष्ट-चित्त हो, “भन्ते ! अच्छा, मैं तीनों शीलों की रक्षा करूँगा” (कह) शास्ता को प्रणाम कर, आचार्य्य उपाध्याय के साथ ही चला गया।

उसे उन तीन शीलों की पूति करते ही मालूम हो गया कि आचार्य्य, उपाध्यायो का बताया हुआ भी शील इतना ही था, लेकिन वह अपने बुद्ध न

होने के कारण मुझे समझा न सके । सम्यक्-सम्बुद्ध ने अपने सुबुद्ध होने के कारण, धर्म-राजा होने के कारण, उतना ही शील, तीन ही द्वारों में डाल कर, मुझे स्वीकार करा दिया । शास्ता ने मेरी बाँह पकड़ ली । (इस प्रकार) विदर्शना (भावना) की वृद्धि कर, कुछ ही दिनों में अर्हत्व को प्राप्त हुआ ।

उस समाचार को सुन धर्म-सभा में बैठे भिक्षु (आपस में) बातचीत करने लगे—“आयुष्मानो ! ‘शील न रख सकूँगा’ करके गृहस्थ होने के लिए तैयार भिक्षु को; शास्ता ने सब शीलों को तीन ही हिस्सों में बाँट, वे शील उससे स्वीकार करा, उसे अर्हत्व-पद लाभ करा दिया ।” (यह कह) ‘अहो ! बुद्ध आश्चर्य्य-कारक-मनुष्य होते हैं’ कहते हुए बुद्ध-गुणों की प्रशंसा करने लगे । शास्ता ने आकर पूछा—“भिक्षुओ ! यहाँ बैठे क्या बात-चीत कर रहे थे ?” “यह बात-चीत” कहने पर, “भिक्षुओ ! बहुत भारी वजन भी हिस्से करके देने पर, हलका प्रतीत होता है; पूर्व समय में भी बुद्धिमान् बड़ा सा सोने का ढेर पाकर, उठाने में असमर्थ हो, बाँट कर उठा कर ले गये” कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व एक गाँव में कृषक हुए । वह एक दिन एक ऐसे खेत में, जहाँ पहले ग्राम बसा हुआ था, खेती करते थे । पूर्व समय में, उस गाँव में एक घनी श्रेष्ठी, जाँघ तक गहरे, चार हाथ चौड़े (गढ़े) में सोने का ढेर गाड़ कर मर गया था । उससे बोधिसत्त्व का हल टकरा कर रुक गया । उसने ‘जड़े होगी’ समझ, रेत को हटा कर उसे देखा । उसे फिर भी रेत से ढक, दिन भर हल चलाता रहा । सूर्यास्त होने पर, हल, जोत आदि को एक ओर रख, ‘सोने के ढेर को ले जाऊँगा’ सोच, उसे उठा कर न ले जा सका । तब, उसने एक ओर बैठ ‘इतना पेट भरने के लिए होगा’, ‘इतना गाड़ कर रखूँगा’ ‘इतना कर्मान्त (—व्यापारादि) में लगाऊँगा ।’ ‘इत्ना दानादि पुण्य कर्मों के लिए होगा’—इस प्रकार चार हिस्से किये । उसके इस प्रकार बाँटने पर, वह सोने का ढेर हलका सा हो गया । वह उसे उठा कर, घर ले जा कर, चार हिस्सों में बाँट कर, दान आदि पुण्य-

कर्म करके यथा-कर्म (परलोक) गया। भगवान् ने इस धर्म-देशना को कह, अभिसम्बुद्ध हुए रहने के समय, यह गाथा कही—

यो पहट्ठेन चित्तेन पहट्ठमनसो नरो
भावेति कुसलं धम्मं योगक्खेमस्स पत्तिया,
पापुणे अणुपुब्बेन सञ्च संयोजनक्खयं ॥

[जो प्रसन्न-चित्त नर, सन्तुष्ट चित्त से योग-क्षेम (=निर्वाण) की प्राप्ति के लिए शुभ-धर्म की भावना करता है, वह क्रम से सब संयोजनों के क्षय को प्राप्त होता है ।]

पहट्ठेन, नीवरण (=चित्तमल) रहित होने से, पहट्ठमनसो, उसी नीवरण-रहित होने से, प्रसन्न-चित्त = सोने की तरह से चमक वार समुज्ज्व-लित = प्रभा-युक्त चित्त होकर—यही अर्थ है ।

इस प्रकार बुद्ध ने अर्हत्व को मिररे पर रख, देशना को समाप्त कर, मेल मिला, जातक का साराज निकाल दिया। उस समय सोने का ढेर प्राप्त करने वाला मनुष्य में ही था ।

५७. वानरिन्द जातक

“यस्सेते चतुरो धम्मा . . . ” यह गाथा, बुद्ध ने बेलुवन में विहार करते समय, देवदत्त द्वारा किये गये बध करने के प्रयत्न के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

उसी समय बुद्ध ने देवदत्त बध करने का प्रयत्न करता है' मुन हे भिक्षुओ !

न केवल अभी देवदत्त मेरे वध करने का प्रयत्न करता है, (उसने) पहले भी किया था, लेकिन त्रास मात्र भी उत्पन्न नहीं कर सका' कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व वानर योनि में उत्पन्न हो, बड़ा हो, घोड़े के बच्चे जितना (बड़ा) हुआ। वह शक्ति-सम्पन्न हो, अकेला घूमता हुआ, नदी के किनारे रहने लगा। उस नदी के बीच में एक द्वीप था, जिसमें आम, पनस आदि नाना प्रकार के फलों के वृक्ष लगे हुए थे। बोधिसत्त्व हाथी की तरह शक्तिशाली होने से, नदी के इस किनारे में उछल कर, द्वीप के इस ओर नदी के बीच में पड़े एक पत्थर पर जाकर, गिरता, वहाँ से उछल कर, उस द्वीप में जाकर गिरता। वहाँ, नाना प्रकार के फल खा कर, शाम को उसी ढग से वापिस लौट कर, अपने निवास-स्थान पर रह कर, अगले दिन फिर वैसा ही करता। इसी प्रकार वहाँ रहता था।

उस समय स्त्री सहित एक मगरमच्छ, उसी नदी में रहता था। उसकी स्त्री ने, बोधिसत्त्व को आरपार जाने देख, बोधिसत्त्व के हृदय-मांस में दोहद उत्पन्न कर, मगरमच्छ ने कहा—“आर्य ! इस वानरेन्द्र के हृदय-मांस में दोहद (—खाने की बलवती इच्छा) उत्पन्न हुआ है।”

मगरमच्छ ‘अरी ! अच्छा, मिलेगा’ कह ‘आज शाम को उसे द्वीप से लौटते ही पकड़ूँगा’ (मोच) पापाण के ऊपर जाकर पड रहा।

बोधिसत्त्व ने दित भर चर कर शाम को द्वीप में खड़े ही खड़े, पत्थर को देख सोचा—“क्या कारण है ? आज पत्थर कुछ ऊँचा दिखाई दे रहा है ?” उसने पहले ही पानी और पत्थर का अन्दाज अच्छी तरह लगा लिया था। सो उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ—“आज इस नदी का पानी न घट रहा है, न बढ़ रहा है; लेकिन यह पत्थर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कही (आज) यहाँ मेरे पकड़ने के लिए मगरमच्छ तो नहीं पड़ा है ?” ‘अच्छा ! उसकी परीक्षा कहूँगा’ सोच, उस ने, वही खड़े ही खड़े, पत्थर के साथ बात-चीत करने की भाँति, ‘अरे ! पापाण !’ पुकार कर, उत्तर न मिलने पर तीन बार ‘अरे !

पापाण !' पुकारा । पापाण क्या उत्तर देता ? लेकिन फिर भी उस वानर ने पूछा—“अरे ! पापाण ! क्या आज मुझे उत्तर न देगा ?”

मगरमच्छ ने सोचा—‘और दिनों यह पत्थर निश्चय से इस वानरेन्द्र को प्रत्युत्तर देता रहा है। आज मैं इसे उत्तर दूँगा’ मोच, पूछा “अरे वानर ! क्या है ?”

“तू कौन है ?”

“मैं मगरमच्छ हूँ ।”

“यहाँ तू किस लिए लेटा है ?”

“तेरे हृदय-माम की इच्छा से ।”

बोधिसत्त्व ने, ‘और मेरे लिए जाने का रास्ता नहीं है, आज मुझे इस मगरमच्छ को धोखा देना चाहिए’ सोच उसे कहा—“सौभ्य ! मगरमच्छ ! मैं अपने को तुझे समर्पित करूँगा । तू मुख खोल कर, अपने समीप आने के समय मुझे ग्रहण करना ।” मगरमच्छ के मुँह खोलने के समय, उसकी आँखें बन्द हो जाती हैं । उसने उस बात का ख्याल न कर, मुँह खोला । उसकी आँखें मुंद गईं । वह मुँह खोल कर, आँखें मीच कर पड़ रहा । बोधिसत्त्व वैसा जान, द्वीप से उछल, जाकर मगरमच्छ के मस्तक पर गिर, वहाँ से उछल, बिजली की तरह चमकता हुआ, दूसरे किनारे जा खड़ा हुआ । मगरमच्छ ने वह आश्चर्य देख, ‘इस वानरेन्द्र ने अनीव आश्चर्य किया’ मोच, कहा—“अरे ! वानरेन्द्र ! इस लोक में जिन आदमी में चार बाते होती हैं, वह अपने शत्रु को जीत लेता है, वह चारों बातें तेरे अन्दर हैं ।” यह कह गाथा कही—

यस्सेते चतुरो धम्मा वानरिन्द्र ! यथा तव,

सच्चं धम्मो धिती चागो दिट्ठं सो अतिवसति ॥

[वानरेश्वर ! जैसे यह तुझ में है, वैसे जिन आदमी में यह चार बातें होती हैं—सत्य, धर्म, धृति और त्याग—वह शत्रु को जीत लेता है ।]

यस्त, जिस किसी आदमी को, एते, अब कहे जाने वाले, प्रत्यक्ष ही निर्देश किये गये । चतुरो धम्मा, चार गुण, सच्चं, सत्य-वाणी, ‘तेरे पास आऊँगा’ कह कर, उसे असत्य (=मूषा) न कर, जो तू आया, वह तेरी सत्य-वाणी है ।

धम्मो, विचार-बुद्धि, ऐसा करने पर, ऐसा होगा, यह तेरी विचार-बुद्धि । धृति, कहते हैं अखण्ड प्रयत्न को, सो वह भी तुझ में है । चाणो, आत्म-परित्याग, तू तो अपना आत्मसमर्पण कर, मेरे पास आया; यदि मैं तुझे ग्रहण न कर सका, तो उसमें मेरा ही दोष है बिट्ठं, शत्रु । सो अतिबलति, जिस आदमी में, जैसे यह तुझ में है, उसी प्रकार चारों घर्म (=गुण) विद्यमान होते हैं, वह आदमी जैसे तू आज मुझे लौंघ कर चला गया, उसी प्रकार, अपने शत्रु को लौंघ जाता है, जीत लेता है ।

इस प्रकार मगरमच्छ बोधिसत्त्व की प्रशंसा कर, अपने निवास-स्थान को-गया । शास्ता ने, 'हे भिक्षुओ ! न केवल अभी देवदत्त मेरे बघ के लिए प्रयत्न शील हुआ, पहले भी हुआ, कह, यह घर्म-देशना ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया ।' उस समय का मगरमच्छ (अब का) देवदत्त था । उसकी भार्य्या (अब की) चिञ्चा भाणविका; और वानरेन्द्र तो मैं ही था ।

५८. तयोधम्म जातक

“यस्सेते . . . ” यह गाथा भी, बुद्ध ने वेळुवन में विहार करते समय, बघ करने का प्रयत्न करने वाले के ही बारे में कही ।

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मवत्त के राज्य करने समय, देवदत्त बानर योनि में उत्पन्न होकर, हिमवन्त प्रदेश में बानरो के समूह का नायक होने की अवस्था में, अपने (वीर्य्य) से उत्पन्न बानर-पीतको को, दाँत में काट कर खस्सी कर डालता, ताकि कही वह समूह का नायकत्व न करे । उस समय

बोधिसत्त्व ने, उसी (के वीर्य) से एक बन्दरी की कोख में गर्भ धारण किया । वह बन्दरी 'गर्भ हुम्ना' जान, गर्भ की रक्षा के लिए एक दूसरे पर्वत पर चली गई । गर्भ परिपक्व होने पर, उसने बोधिसत्त्व को जन्म दिया । वह बड़ा होने पर, होश आने पर शक्तिधारी हुम्ना ।

उसने एक दिन माँ से पूछा—“माँ ! मेरा पिता कहीं है ?”

“तात ! भ्रमुक पर्वत पर बानरों के समूह का नेतृत्व करता हुम्ना रहता है।”

“माँ ! मुझे उसके पास ले चल ।”

“तात ! तू पिता के पास नहीं जा सकता; क्योंकि तेरा पिता इस डर से कि कहीं यह समूह का नेतृत्व न करें, अपने (वीर्य) से उत्पन्न हुए बानर-भोतकों को, दाँत से काट कर, खस्सी कर डालता है ।”

“माँ ! मुझे, उसके पास ले चल, मैं देखूँगा ।”

वह पुत्र को लेकर, उसके पास गई । उस बानर ने अपने पुत्र को देख, सोचा—बड़ा होकर यह मुझे नेतृत्व न करने देगा, अभी इसे नष्ट करना योग्य है । सो गले मिलने के वहाने से, इसे जोर से भीच कर मार डालूँगा । यह सोच 'तात ! आ, इतने समय तक कहीं रहा ?' कह, बोधिसत्त्व को गले लगाने हुए की तरह दबाया । बोधिसत्त्व, हाथी के सदृश बल वाला था । उसने भी उसे दबाया । सो उसकी हड्डियाँ टूटने वाली सी हो गई । तब उसने सोचा—यह बड़ा हो, मुझे मार डालेगा, किस उपाय से इसे, उससे पहले ही मार डालूँ ? तब उसे म्याल आया—“यह पाम ही राक्षस-गृहीत तालाब है । वहाँ इसे राक्षस को खिलवा दूँ ।” सो उसने उसे कहा—“तात ! मैं बूढ़ा हो गया । यह बानर-समूह तुझे सोपूँगा । आज ही तुझे राजा बनाऊँगा । भ्रमुक स्थान पर एक तालाब है, उसमें दो कुम्हिनियाँ हैं, तीस उत्पल हैं, पाँच पद्म हैं । जा, वहाँ से फूल ले आ ।” उसने 'तात ! अच्छा लाऊँगा' कह, जाकर, सहसा (तालाब में) उतरे बिना चारों ओर पैरों के चिन्हों को देखने हुए, केवल उतरते पैरों के चिन्हों को देखा, चढ़ते पैरों के चिन्हों को नहीं ।

‘यह तालाब राक्षस-गृहीत तालाब होगा, मेरा पिता अपने असमर्थ होने के कारण, राक्षस से मुझे मरवा देना चाहता होगा, मैं इस तालाब में बिना उतरे ही फूल ले जाऊँगा ।’ वह सूखी जगह पर जा, वहाँ से दौड़ कर आ, छलांग मार कर दूसरी ओर जाते हुए, पानी के ऊपर ही ऊपर से दो फूलों को तोड़ कर ले,

दूसरी ओर जा गिरा। दूसरी ओर से इस ओर आते हुए, उसी उपाय से दो (और) फूल ले लिये। इस प्रकार दोनों ओर ढेर लगाते हुए, फूल तो ले लिये, लेकिन (वह) राक्षस की सीमा के भीतर नहीं उतरा। तब 'अब इससे अधिक न उछल सकूंगा' सोच, उसने उन फूलों को लेकर एक स्थान पर एकत्रित करना आरम्भ किया। उसे देख, उस राक्षस ने सोचा 'मैंने इतने समय तक इससे पूर्व ऐसा बुद्धिमान्, आश्चर्यकर मनुष्य नहीं देखा। (इसने) जितनी आवश्यकता थी, उतने फूल भी ले लिये, और मेरी सीमा के भीतर भी नहीं आया।' उसने पानी को दो ओर फाड़ कर, पानी में से ऊपर निकल, बोधिसत्त्व के पास आ, 'हे वानरेन्द्र ! इस लोक में जिस आदमी में यह तीन गुण होंते हैं, वह अपने शत्रु को जीत लेता है, वह तीनों गुण तुझ में हैं' (कह) बोधिसत्त्व की प्रशंसा करते हुए यह गाथा कही—

यस्स एते तयो धम्मा वानरिन्द ! यथा तव,

दक्खियं सूरियं पञ्जा विट्ठं सो अतिवत्तति ॥

[वानरेश्वर ! जैसे यह तुझ में है, वैसे जिस आदमी में यह तीन बातें होती हैं—दक्षता, शौर्य, और प्रज्ञा—वह शत्रु को जीत लेता है ।]

दक्खियं दक्षता = भय आने पर उसके नाश करने के उपाय के ज्ञान से युक्त पराक्रम। **सूरियं**, शौर्य, निर्भयता का पर्यायवाची। **प्रज्ञा**, प्रज्ञापन-प्रस्थापन = उपाय—प्रज्ञा का पर्यायवाची।

इस प्रकार उस उदक-राक्षस ने, इस गाथा से बोधिसत्त्व की स्तुति कर, (उसे) पूछा—“यह फूल किस लिए ले जा रहा है ?”

“मेरे पिता मुझे राजा बनाना चाहते हैं, सो उसके लिए ले जा रहा हूँ।” “तेरे जैसे उत्तम आदमी को (अपने से) फूल उठा कर ले जाना शोभा नहीं देता। मैं ले चर्लूंगा” कह, उछल कर, (वह) उसके पीछे पीछे हो लिया।

उसके भ्रिता ने दूर से ही उसे देख सोचा—“मैंने इसे भेजा था कि यह राक्षस का भोजन बनेगा, लेकिन यह राक्षस से फूल उठवा कर ला रहा है। अब मैं नष्ट हुआ।” यह सोच, हृदय के सात टुकड़े हो वह वहीं मर गया। शेष वानरो ने एकत्र हो बोधिसत्त्व को राजा चुन लिया।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का यूथ (=बानर-समूह) पति (अब का) देवदत्त था। यूथपति का पुत्र तो मैं ही था।

५६. भेरिवाद जातक

“धमे धमे. . .” यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय (एक) बात न मानने वाले भिक्षु के वार में कही।

क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उस भिक्षु को पूछ कि हे भिक्षु! क्या तू सचमुच (किमी का) कहना नहीं मानता है, उसके ‘भगवान्’। सचमुच’ कहने पर, उसे ‘हे भिक्षु! न केवल अब ही तू बात नट्टी मानता है, (किन्तु) पहले भी तू बात न मानने वाला ही था’, कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व (एक) भेरी बजाने वाले के कुल में उत्पन्न हो, एक गाँव में रहते थे। उसने ‘बाराणसी में नक्षत्र (=उत्सव) की घोषणा हुई है’ मुन, ‘ममज्ज-मण्डल (=नृत्य-मण्डली) में भेरी बजा कर धन (कमा कर) लाऊँगा’ (सोच) पुत्र के साथ, वहाँ गया, और भेरी बजा कर, बहुत धन प्राप्त किया। उसे ले, अपने ग्राम को (वापिस) लौटने समय, चोर-जगल में पहुँच, (उसने) पुत्र को निरन्तर भेरी बजाने से मना किया—“तात ! निरन्तर न बजा कर, ऐश्वर्य्य-शालियों के रास्ता चलने के समय, बीच बीच में भेरी बजाने की तरह

भेरी बजा। वह पिता के मना करने पर भी, 'भेरी शब्द से ही चोरों को भगा-ऊंगा' (कह) निरन्तर ही बजाता रहा। चोरों ने पहले तो भेरी का शब्द सुन ऐश्वर्य्य-शालियो की भेरी होगी' समझ, भाग गये। लेकिन लगातार भेरी का शब्द सुन 'यह ऐश्वर्य्य-शालियो की भेरी नहीं हो सकती' (सोच) आकर, उन दो ही जनों को देख लूट लिया। बोधिसत्त्व ने 'कठिनाई से मिला हुआ धन, लगातार (भेरी) बजाने वाले ने नष्ट कर दिया' कह, यह गाथा कही—

धमे धमे नातिधमे अति धन्तं ही पापकं,
धन्तेन सतं लद्धं अतिधन्तेन नासितं ॥

[(भेरी) बजाये, लेकिन बहुत न बजाये। लगातार (भेरी) बजाता बुरा है। (भेरी) बजाने से सी (मुद्राये) मिली, बहुत बजाने से वह नष्ट हो गई।]

धमे धमे, ध्वनि करे, न ध्वनि न करे, भेरी बजाये, न बजाना न करे। नाति धमे, सीमा का उल्लंघन कर, निरन्तर ही न बजाये, किस लिए ? अति धन्तं ही पापकं निरन्तर भेरी बजाना अब हमारे लिए बुरा मिद्ध हुआ। धन्तेन सतं लद्धं, नगर में भेरी बजाने से सी कार्षापण मिला। अतिधन्तेन नासितं, लेकिन अब मेरे पुत्र ने मेरी बात न मान, जो जगल में लगातार बजाया, उसमें सब नष्ट हो गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना कह, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय का पुत्र (अब का) वान न मानने वाला भिक्षु था, लेकिन पिता में ही था।

६०. संखधमन जातक

“धमे धमे” यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, (एक) बात न मानने वाले के ही वारे में कही ।

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मबल के राज्य करने के समय बौधिमत्त्व ने (एक) शङ्ख बजाने वाले कुल में उत्पन्न हो, बाराणसी में नक्षत्र की घोषणा होने पर, पिता को (साथ) ले, शङ्ख बजा कर, धन कमा, (वापिस) आने के समय, चोर-जगल में पिता को निरन्तर शङ्ख बजाने से मना किया । वह 'शङ्ख-शब्द में चोरों को भगाऊँगा' सोच, निरन्तर ही उसे फूँकना रहा । चोरों ने पहली तरह ही, आकर (उन्हें) लूट लिया । बौधिमत्त्व ने भी पहली ही तरह गाथा कही—

धमे धमे नातिधमे अति धत्तं हि पापकं,

धन्तेनाधिगता भोगा ते तातो विधमी धमं ॥

[(शङ्ख) बजाये, लेकिन बहुत न बजाये । लगानार (शङ्ख) बजाना बुरा है । (शङ्ख) बजाने में जो भोग प्राप्त किये, उन्हें तात ने अधिक बजा बजा कर विध्वंस कर दिया ।]

ते तातो विधमी धमं, वे शङ्ख बजाने में जो भोग मिले थे, उन्हें मरे पिता ने फिर फिर (शङ्ख) फूँकने में विधमि, विध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया ।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को कह, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया । उस समय का पिता (अब क)वान न मानने वाला भिक्षु था (श्रीर) पुत्र तो मैं ही था ।

पहला परिच्छेद

७. इत्थि वर्ग

६१. असातमन्त जातक

“असा लोकित्थियो नाम . . .” यह गाथा असाता ने जेतवन में विहार करते समय (एक) असाकन चिन्त भिक्षु के वारं में कही।

क. वर्तमान कथा

उम (भिक्षु) की कथा उम्मवन्ति जातक^१ में आयेगी। बुद्ध ने उस भिक्षु को “हे भिक्षु! स्त्रियां, असाध्वी, असनी, पापी, निष्कण्ट होती हैं, तू इस प्रकार की पापी स्त्री (-जाति) के प्रति क्यों असाकन हुआ है?” कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मवत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व गान्धार देश (राष्ट्र) में, तक्षशिला में ब्राह्मणकुल में जन्म ग्रहण कर, बालिग होने पर तीनों वेदों तथा सब शिल्पों में सम्पूर्णता प्राप्त कर, लोक-प्रसिद्ध आचार्य्य हुआ। उस समय बाराणसी में एक ब्राह्मण कुल में, पुत्र की उत्पत्ति के दिन, निरन्तर प्रज्वलित आग रक्खी गई। जब वह ब्राह्मण-कुमार १६ वर्ष का हुआ, तब उसके माता-पिता ने कहा—“पुत्र! हमने तेरी उत्पत्ति के दिन, आग जलाकर रख दी थी। यदि ब्रह्म-लोक जाने की इच्छा है, तो उस आग को लेकर, जगल में जा, अग्नि-देवता को नमस्कार करता हुआ

^१ उम्मवन्ति जातक (५२७)

ब्रह्म-लोक-परायण हो। यदि गृहस्थ होना चाहता है, तो तक्षशिला जाकर वहाँ लोक-प्रसिद्ध आचार्य्य से शिल्प सीख (घर आ) कुटुम्ब का पालन-पोषण कर।" माणवक (= ब्रह्मचारी) ने 'मैं जंगल में प्रविष्ट हो, अग्नि की परिचर्या न कर सकूँगा, मैं कुटुम्ब ही पालूँगा' विचारा। माता-पिता को नमस्कार कर, आचार्य्य की एक हजार की फीस^१ के साथ वह तक्षशिला, गया, और शिल्प सीख कर वापिस लौट आया। उसके माता-पिता को उसके गृहस्थ होने की इच्छा नहीं थी। वह चाहते थे कि वह बन में (जाकर) अग्नि-देवता की परिचर्या करे। सो, उसकी माता ने उसे स्त्रियों के दोष दिखा कर, जंगल को भेजने की इच्छा में मोचा—“यह आचार्य्य पण्डित है, व्यक्त है। वह मेरे पुत्र को स्त्रियों के दोष बता सकेगा।” (यह मोच) पूछा—“तात ! तू ने शिल्प सीखा ?

“अम्मा ! हाँ।”

“अमान-मन्त्र भी तूने सीखे ?”

“अम्मा ! नहीं सीखे।”

“तात ! यदि तूने ‘अमान-मन्त्र’ नहीं सीखे, तो तूने क्या सीखा ? जा, सीख कर आ।”

वह ‘अच्छा’ कह, फिर तक्षशिला की ओर चल दिया।

उस आचार्य्य की भी, एक सौ बीस वर्ष की बूढ़ी माता थी। वह, उसे अपने हाथ में नहला, खिला, पिला, उसकी सेवा करता था। अन्य मनुष्य उसे बैसा करते देख, घृणा करने। उसने मोचा—“मैं जंगल में प्रवेश कर, वहाँ माता की सेवा करता रहूँ।” सो, उसने, एक एकान्त जंगल में, पानी मिलने की जगह पर, पर्णशाला बनवाई। वहाँ घी चावल आदि भोगवा कर अपनी माता को ले आया, और उसकी सेवा करना हुआ रहने लगा।

वह माणवक भी तक्षशिला में पहुँच, वहाँ आचार्य्य का न देख ‘आचार्य्य ! कहाँ है ?’ पूछा। उस समाचार को सुन कर वहाँ गया, और (आचार्य्य) को प्रणाम कर खड़ा हुआ। उस आचार्य्य ने (पूछा)—“तात ! किस लिए

^१फीस (आचार्य्य-भाग)।

बहुत जल्दी (लौट) आया ?”

“आपने मुझे ‘असात-मन्त्र’ नहीं सिखाया न ?”

“तुम्हें किस ने कहा कि ‘असात-मन्त्र’ सीखना चाहिए ?”

“आचार्य्य ! मेरी माता ने ।”

बोधिसत्त्व ने सोचा—“असात-मन्त्र तो कोई मन्त्र नहीं है । इसकी माता, इसे स्त्रियों के दोषों को विदित करा देना चाहती होगी ।”

“सो, अच्छा तात ! तुम्हें असात-मन्त्र दूँगा” (कह) उसने कहा—“आज से आरम्भ करके, तू मेरे स्थान पर, मेरी माता को नहलाते, खिलाते, पिलाते, उसकी सेवा करना । हाथ, पैर, सिर और पीठ दबाते (= मलते) हुए, ‘आर्य्ये ! बूढ़ी होने पर भी तेरा शरीर ऐसा है, तो जवानी में (यह शरीर) कैसा रहा होगा ?’ (कह) शरीर दबाने के समय, हाथ पैर आदि के वर्ण की प्रशंसा करना । और, जो कुछ तुम्हें मेरी माता कहे, वह बिना लज्जा के, बिना छिपाये, मुझे कहना । ऐसा करने से असात-मन्त्रों की प्राप्ति होगी, न करने से नहीं होगी ।” उसने ‘आचार्य्य ! अच्छा’ कह, उसकी बात मान, उस समय से आरम्भ करके, जैसा जैसा कहा था, वैसा वैसा किया ।

उस माणवक के बार बार प्रशंसा करने पर, उस अन्धी, जराजीर्ण के मन में काम उत्पन्न हो गया—“यह माणवक मेरे साथ रमण करना चाहता होगा ।” उसने एक दिन अपने शरीर-वर्ण की प्रशंसा करने वाले माणवक से पूछा—“मेरे साथ रमण करना चाहता है ?”

“आर्य्ये ! मैं रमण करने की इच्छा तो करूँ, लेकिन आचार्य्य का भय है ।”

“यदि, मुझे चाहता है, तो मेरे पुत्र को मार डाल ।”

“मैंने आचार्य्य के पास इतना शिल्प सीखा, कैसे, मैं केवल कामासक्ति के कारण उनको मारूँगा ?”

“अच्छा, त्वे यदि तू मेरा परित्याग न करे, तो मैं ही उसे मार दूँगी ।”

सो स्त्रियाँ, ऐसी असाध्वी, पापी, निकृष्ट होती हैं । वैसी उमर में भी चित्त में रागोत्पत्ति के कारण, काम का अनुकरण करती हुई, ऐसे उपकारी पुत्र को मारने को तैयार हो गई । माणवक ने बोधिसत्त्व को वह सब बात कह दी । ‘माणवक ! तूने अच्छा किया, जो मुझे बता दिया’ (कह) माता का आयु-संस्कार देख, वह ‘आज ही मर जायगी’ जान, (माणव को) कहा—“माण-

वक ! आ, उसकी परीक्षा करें ।” (यह कह) उसने एक गूलर का वृक्ष छील कर, अपने जितना (बड़ा) काठ का पुतला बनाया । उसे सिर सहित ढक कर, अपने सोने की जगह पर लम्बा लिटा दिया, और रस्सी बाँध कर, अपने शिष्य को कहा—‘तात ! कुल्हाड़ा ले जा कर, मेरी माता को इशारा कर ।’

माणवक ने जाकर कहा—“आर्ये ! आचार्य्य, पर्णशाला में अपनी शय्या पर सोये है, मैंने रस्सी की निशानी बाँध दी है । यदि सामर्थ्य हो, तो इस कुल्हाड़े को ले जाकर मार ।”

“तू मुझे छोड़ेगा नहीं न ?”

“किम लिए छोड़ूँगा ?”

उसने कुल्हाड़े को ले, काँपती हुई उठ कर, रस्सी के साथ साथ जा, हाथ से छू कर, ‘यह मेरा पुत्र है’ करके, काठ के पुतले के मुँह पर से कपड़े हटा, कुल्हाड़े को ले, ‘एक ही प्रहार से मारूँगी’ मोच, गरदन पर ही मारा । ‘टन’ करके शब्द हुआ । उसे पता लग गया कि लकड़ी है ।

बोधिसत्त्व के, ‘माँ ! क्या करती है ?’ पूछने पर, ‘मैं ठगी गई’ जान वह वही गिर कर मर गई । अपनी पर्ण-शाला में पड़ी रहने पर भी, उस क्षण, उसको मरना ही था । बोधिसत्त्व ने उसका मृत होना जान, शरीर-कृत्य कर, आदाहन (=आग) बुझा, वन-पुष्पां से पूजा कर, माणवक सहित पर्णशाला के द्वार पर बैठ, (माणवक) को कहा—“तात ! असात-मन्त्र कोई पृथक मन्त्र नहीं है । स्त्रियाँ असाध्वी (=असाता) होती हैं । तेरी माता ने तुझे असात-मन्त्र सीख कर आ, (करके) जो मेरे पास भेजा है, वह स्त्रियों के दोष जानने के ही लिए भेजा है । सो तूने अब प्रत्यक्ष ही, मेरी माता के दोष देख लिए हैं । इसलिए तू जान ले कि स्त्रियाँ असाध्वी, पापिनी होती हैं ।” इस प्रकार उपदेश कर, उसे बिदा किया । वह माणवक भी आचार्य्य को प्रणाम कर, माता-पिता के पास गया । उसकी माता ने पूछा—“असात-मन्त्र सीखे ?”

“अम्म ! हाँ ।”

“तो अब क्या करेगा ? प्रब्रजित हो, अग्नि-परिचर्या करेगा, वा गृहस्थ मे रहेगा ?”

“माता ! मैंने प्रत्यक्षतः स्त्रियों के दोष देख लिए, मुझे अब गृहस्थी बनने

से काम नहीं, मैं प्रब्रजित होऊँगा" (कह) माणवक ने अपने अभिप्राय को प्रकाशित करते हुए, यह गाथा कही—

असा लोकित्थियो नाम बेला तासं न विज्जति,
सारत्ता च पगब्भा च सिखी सब्बघसो यथा,
ता हित्वा पब्बजिस्सामि विवेकमनुब्रूहयं ॥

[लोक में स्त्रियाँ असाध्वी होती हैं । उनका कोई समय नहीं होता । जैसे दीपक की शिखा सब को जला देने (—खा लेने) वाली होती है; वैसे ही वह रागानुरक्त तथा प्रगल्भ होती है । मैं उन्हें छोड़, अपनी शान्ति (—विवेक) की वृद्धि करता हुआ प्रब्रजित होऊँगा ।]

असा, अमनियाँ ==पापिनियाँ, अथवा 'सान' कहने है मुख को, सो वह उनमें नहीं । जो उनमें अनुरक्त हो, उसे वह मुख नहीं देती, इसलिए भी असाता, दुःखदायिनी, यह अर्थ है । इस अर्थ की प्रमाणिकता के लिए यह सूक्त उद्धृत करना चाहिए—

"माया चेसा मरीची च सोको रोगो चुपह्वो,
खरा च बन्धना चेता मच्चुपासो गुहासयो
तासु यो विस्ससे पोसो सो नरेसु नराधमो ॥

[वे माया हैं, मरीचि हैं, शोक हैं, रोग हैं, उपद्रव हैं, कठोर हैं, बन्धन हैं, मृत्यु-पाश हैं, गुह्य-आशय हैं । जो मनुष्य उनका विश्वास करे, वह नरो में अधम नर है ।]

लोकित्थियो, लोक (—समार) में स्त्रियाँ । बेला तासं न विज्जति, अम्मा ! उन स्त्रियों को कामासक्ति होने पर, बेला (—समय), संवर (—संयम), मर्यादा, सन्तुष्टि नहीं । सारत्ता च पगब्भा च, पञ्चकामो में अनुरक्त होने पर, एक तौ इनकी कोई बेला नहीं होती, वैसे ही काय-प्रगल्भता, वाक्-प्रगल्भता, और मन की प्रगल्भता—इन तीन से युक्त होने के कारण प्रगल्भ । इनमें काय-संयम, वाक्-संयम अथवा मन का संयम नहीं । लोभी, (तो यह) कौश्यों के समान होती है । सिखी सब्बघसो यथा, अम्म ! जैसे ज्वाला-शिखा वा 'शिखी' कहलाने वाली अग्नि, गुंह (गूथ) आदि गन्दगी भी, घी, शहद,

शक्कर आदि शुद्ध चीज भी, इष्ट भी तथा अनिष्ट भी, जो जो पाती है, सभी खा लेती है; और इस लिए सब्बघसो (=सब को खाने वाली) कहलाती है, उसी प्रकार यह स्त्रियाँ भी, चाहे हथवान्, ग्वाले आदि हीन जाति, हीन पेशे के लोग हों, चाहे क्षत्रिय आदि उत्तम-पेशे वाले लोग हों, ऊँच-नीच का विचार किये बिना, जिसे दुनिया में 'मज्जा' कहते हैं, उस कामाचार की इच्छा होने पर, जिस किसी को पाती है, उसी का सेवन करती है। इसलिए वह सर्वभक्षक अग्नि-शिखा के समान होती है। इसलिए जैसे सर्व-भक्षक अग्नि-शिखा है वैसा ही इन्हे जानना चाहिए। ता हित्वा पण्डजिस्सामि, मैं उन पापिनी, दुःख की कारण स्त्रियों को छोड़, अरण्य में प्रविष्ट हो, ऋषियों की रीति से प्रब्रज्या लूंगा। विवेकमनुब्रूह्यं, शारीरिक-शान्ति (=एकान्त), मानसिक शान्ति (=एकान्त) और चित्त के मेल (=उपधियों) से मुक्ति—यह तीन प्रकार का एकान्त कहा गया है। सो यहाँ शारीरिक-एकान्त और मानसिक एकान्त से अभिप्राय है।

माँ ! मैं प्रब्रजित होकर कसिण-कर्म (=योगाभ्यास) करके, आठ समा-पत्तियाँ और पाँच अभिजायें प्राप्त कर, (जन-)समूह से शरीर को पृथक् कर, और चित्त के मेलो (=क्लेशो) से चित्त को पृथक् कर, इस एकान्तता (=विवेक) को बढ़ाते हुए ब्रह्म-लोक-परायण होऊँगा। बस, मुझे गृहस्थी नहीं चाहिए।

इस प्रकार स्त्रियों की निन्दा कर, माता-पिता को प्रणाम कर, प्रब्रजित हो, उक्त प्रकार से एकान्त (=विवेक) की वृद्धि करते हुए ब्रह्म-लोक-गामी हुआ।

बुद्ध ने भी भिक्षुओं ! इस प्रकार स्त्रियाँ, असाध्वी, पापिनी, दुःखदायिनी होती हैं, (कह) स्त्रियों के दोषो (=अगुण) का वर्णन कर, (आर्य-)सत्त्यों को प्रकाशित किया। (आर्य-)सत्त्यों के प्रकाशन के अन्त में वह भिक्षु श्रोता-पत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ। शास्ता ने मेल मिला, जातक का सारांश दिखाया। उस समय की माता (अब की) कापिलानी, पिता (अब के) महाकाश्यप थे, शिष्य (अब के) आनन्द; (और) आचार्य्य तो मैं ही था।

६२. श्रंडभूत जातक

‘यं ब्राह्मणोति . . ’ यह गाथा (भी) जेतवन में विाहर करते समय (एक) आसक्त चित्त भिक्षु के ही बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उसे ‘भिक्षु ! क्या तू सचमुच आसक्त है’ पूछा । ‘सचमुच’ कहने पर ‘भिक्षु ! स्त्रियाँ (सँभाल कर) रक्खी नही जा सकती । पूर्व समय में पण्डित लोग (= बुद्धिमान्) स्त्रियों को (उनके) गर्भ से ही सँभाल कर रखने की कोशिश करते हुए भी, न रख सके’ कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मवत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व, उसकी अग्र पटरानी की कोख में जन्म ग्रहण कर, वयस्क होने पर, सभी शिल्पों में सम्पूर्णता प्राप्त कर, पिता के मरने पर, राज्य पर प्रतिष्ठित हो, धर्म पूर्वक राज्य करने लगा । वह पुरोहित के साथ जूआ खेला करता था, और खेलते समय इस घूत-गीत (जुये के गीत) को कह कर चाँदी के तखते पर सोने के पासे फेंकता था—

सब्बा नदी बङ्कुगता, सब्बे कट्टमया वना ,
सस्त्रियो करे पापं, लभमाना निवातके ॥

[सभी नदियाँ टेढ़ी हैं. सभी बनो में लकड़ी है । मौका मिलने पर सभी स्त्रियाँ पाप-कर्म करती हैं ।]

इस प्रकार खेलते हुए राजा सदैव जीतता, पुरोहित की हार होती । क्रम से घर की सम्पत्ति नाश होती देख, पुरोहित सोचने लगा—इस प्रकार तो इस

घर का सब धन नष्ट हो जायगा, मैं एक ऐसी स्त्री को ढूँढ़ कर घर में रखूँ, जो दूसरे पुरुष के पास न जाये।” फिर उसे यह ख्याल आया—“मैं किसी ऐसी स्त्री को, जिसने पहले किसी दूसरे पुरुष को देखा हो, (सँभाल कर) न रख सकूँगा। इस लिए मैं एक स्त्री को उसके गर्भ से आरम्भ करके, रख कर, उसकी आयु होने पर, उसे अपने वश में कर, (और) उसे एक ही पुरुष वाली रख, उसके गिर्द कड़ा पहरा लगा, राजा के कुल से धन ले आऊँगा।” वह भ्रङ्ग-विद्या में हुशियार था। सो, उसने एक दरिद्र गभिणी स्त्री को देख, ‘लडकी उत्पन्न करेगी’ जान, उसे बुला, खर्चा दे, घर में रक्खा। फिर उसके प्रसूत होने पर, उसे धन दे, प्रेरित कर, वह लडकी किन्हीं दूसरे आदमियों को न देखने देकर, स्त्रियो के ही हाथ में दे, उसका पालन-पोषण करा, बड़ी होने पर, उसे अपने वश में कर लिया। जब तक वह (लडकी) बढती रही, तब तक वह राजा के साथ जूझा नहीं खेला, लेकिन लडकी को अपने वश में कर लेने पर, पुरोहित ने राजा से कहा—महाराज ! जूझा खेले। राजा ने ‘अच्छा’ कह, पूर्व प्रकार से ही खेला। पुरोहित ने राजा के गा कर पास फेंकने के समय कहा—“भेरी माणविका के अतिरिक्त।” उस समय में पुरोहित जीतता, राजा की हार होती।

बोधिसत्त्व ने सोचा ‘इसके घर में एक पुरुष-वाली एक स्त्री होनी चाहिए।’ पता लगाने पर ‘ऐसी स्त्री है’ जान, इसके सदाचार को तुडवाऊँगा, (सोच) एक धूर्त को बुलाकर पूछा—“पुरोहित की स्त्री का शील तोड़ सकता है ?”।

“देव ! तोड़ सकता हूँ।” सो राजा ने उसे धन दे ‘जन्दी कर’ कह, भेजा।

उसने राजा से धन ले, गन्ध, धूप, चूर्ण, कपूर आदि खरीद, उस (पुरोहित) के घर के समीप सब मुगन्धियो की दूकान लगाई। पुरोहित का घर सात तलों का तथा सात ड्योडियो वाला था। सभी ड्योडियो पर स्त्रियों का ही पहरा था। ब्राह्मण को छोड़ कर और कोई आदमी घर में नहीं घुस सकता था। कूडा फेंकने की टोकरी भी, देख कर ही अन्दर आने जाने दी जाती। उस माणविका को, केवल वह पुरोहित ही देख सकता था। (हाँ), उसकी एक स्त्री परिचारिका थी। वह परिचारिका गन्ध, पुष्प, खरीद कर ले जाती हुई, उस धूर्त की दूकान के समीप से ही जाती। उस (धूर्त) ने ‘यह उसकी परिचारिका है’ अच्छी तरह जान, एक दिन उसे आती देख, दूकान से उठ, जा कर,

उसके पैरों में गिर, दोनों हाथों में पैरों को जोर से पकड़, 'माँ ! इतने समय तक तू कहाँ रहती' कह, रोना (आरम्भ) किया ।

शोष लगे हुए धूर्तों ने भी एक और खड़े हो कहा—“हाथ, पैर, मुँह की बनावट और रंग-रूप (==आकल्प) में माता-पुत्र एक ही जैसे हैं ।” उनको कहते सुन, उस स्त्री ने अपने में अविश्वास कर, 'यह मेरा पुत्र (ही) होगा' (सोच) स्वयं भी रोना शुरू कर दिया । वे दोनों काँद कर, रो कर एक दूसरे को गले लगा कर खड़े हुए । तब उस धूर्त ने पूछा—“माँ ! तू कहाँ रहती है ?”

“तात ! मैं किन्नर-नीला से रहने वाली, श्रेष्ठ-सुन्दरी, पुरोहित की तरुण-स्त्री की सेवा-मुश्रूपा करती हुई रहती हूँ ।”

“माँ ! अब कहाँ जा रही है ?”

“उसके लिए फूल-माला आदि लेने ।”

“माँ, तुम्हें और जगह जाने की क्या जरूरत है ? अब से तू मेरे ही पास से ले जाया कर” (कह) बिना मूल्य लिये ही, बहुत से पान-पत्र आदि तथा नाना प्रकार के फूल दिये ।

माणविका ने उसे बहुत से गन्ध-पुष्प आदि लाते देख, पूछा—“अम्म ! क्या आज हमारा ब्राह्मण प्रसन्न है ?”

“ऐसा क्यों कहती है ?”

“इनकी अधिकता देख कर ।”

“ब्राह्मण ने अधिक मूल्य नहीं दिया, मैं इन्हें अपने पुत्र के पास से लाई हूँ ।”

उस समय से, ब्राह्मण का दिया हुआ मूल्य अपने पास रख कर, उसी (पुत्र) के पास से गन्ध फूल आदि ले जाती थी । कुछ दिन व्यतीत होने पर, धूर्त बीमारी का बहाना बना पड़ रहा । उसने उसकी दूकान के दरवाजे पर जा, उसे न देख, पूछा—“मेरा पुत्र कहाँ है ?”

“तेरे पुत्र को बीमारी हो गई है ।”

उसने, जहाँ वह लेटा हुआ था, वहाँ जाकर, उसकी पीठ मलते हुए पूछा—“तात ! तुम्हें क्या बीमारी है ?” वह चुप रहा । “बेटा ! कहता क्यों नहीं ?”

“माँ ! प्राण निकलने को आये, तो भी तुम्हें नहीं कह सकता ।”

“तात ! यदि मुझसे नहीं कहेगा, तो किसे कहेगा ?”

“माँ ! मुझे और कोई रोग नहीं है । तुझसे उस माणविका (के सौन्दर्य)

की प्रशंसा सुन, मैं आसक्त हो गया हूँ । वह मिलेगी, तो जीता रहूँगा, नहीं मिलेगी, तो यही मर जाऊँगा ।”

“तात ! यह भार मुझ पर रहा । तू, इसके लिए चिन्ता मत कर” (कह) उसे आशवासन दे, बहुत से गन्ध फूल आदि ले, माणविका के पास जाकर, उसे कहा—“अम्म ! मुझसे तेरी प्रशंसा सुन, मेरा पुत्र (तुझ पर) आसक्त हो गया है । इस विषय में क्या करूँ ?”

“यदि (उसे) ला सके, तो मेरी और से छुट्टी ही है ।”

उसकी बात सुन, वह उस दिन से, उस घर के कोने कोने से बहुत सा कूड़ा इकट्ठा करके, फूल लाने की टोकरी में डाल कर ले जाती; और पहरेदार स्त्री के उस टोकरी को देखने लगने पर, (वह कूड़ा) उसके ऊपर फेंक देती । वह धवरा कर दूर हट जाती । (यदि कोई) दूसरी पहरेदार स्त्री कुछ कहती तो उसके ऊपर भी, वह उसी प्रकार कूड़ा उलट देती । तब से (चाहे) वह कुछ लाती, वा ले जाती, कोई उसकी तलाशी (—परीक्षा) करने की हिम्मत न करती । सो उम्र समय, वह उस धूर्त को फूलों की टोकरी में लिटा, माणविका के पास लिवा ले गई । धूर्त माणविका के सतीत्व का नाश कर, एक दो दिन प्रासाद में ही रहा । पुरोहित के बाहर जाने पर, दोनों रमण करते; उसके आने पर धूर्त छिप रहता । एक दो दिन के बीतने पर उसने कहा—“स्वामी ! अब तुझे जाना चाहिए ।”

“मैं ब्राह्मण को, एक थप्पड़ मार कर जाना चाहता हूँ ।”

अच्छा ! ऐसा हो; कह, उसने धूर्त को छिपा कर, ब्राह्मण के आने पर कहा—“आर्य ! मैं चाहती हूँ कि तुम बीणा बजाओ, और मैं नाचूँ ।”

“भद्रे ! अच्छा, नाचो” (कह) वह बीणा बजाने लगा ।

“तुम्हारे देखने, नाचने लज्जा आती है, तुम्हारा मुँह वस्त्र से बाँध (-ढक) कर नाचूँगी ।”

“यदि लज्जा लगती है, तो वैसा कर ले ।”

माणविका ने घना वस्त्र ले, उसकी आँखें ढँकते हुए, मुँह पर (कपड़ा) बाँध दिया । ब्राह्मण मुँह बँधवा कर, बीणा बजाने लगा । उसने थोड़ी देर नाच कर कहा—“आर्य ! जी चाहता है कि तुम्हारे मिर पर एक थप्पड़ मारूँ ।”

स्त्री के लोभ में फँसे हुए ब्राह्मण ने, किसी (भीतरी) बात को न जान कहा—
“मार”। माणविका ने धूर्त को इशारा किया।

उसने हलके से आ, ब्राह्मण की पीठ के पीछे खड़े हो (उसके) सिर पर, कोहनी से प्रहार दिया। ब्राह्मण की आँखें गिरने वाली सी हो गईं। सिर में फोडा पड़ गया। उसने दर्द से पीड़ित होकर कहा—“अपना हाथ ला।” ब्राह्मण तरुणी ने अपना हाथ उठा कर, उसके हाथ में रख दिया। ब्राह्मण बोला—
‘हाथ तो कोमल है; लेकिन प्रहार कड़ा है।’ ब्राह्मण को मार कर, धूर्त छिप रहा। धूर्त के छिप रहने पर, ब्राह्मण तरुणी ने ब्राह्मण के मुँह पर से कपड़ा खोल, तेल लेकर, सिर में चोट की जगह पर मला। ब्राह्मण के बाहर जाने पर, उस स्त्री ने, फिर, उस धूर्त को टोकरी में लिटाया, और बाहर ले गई। उसने राजा के पास जा, सब हाल कह सुनाया।

राजा ने अपनी सेवा में आये ब्राह्मण को कहा—“(आओ) ब्राह्मण !
जुआ खेले।”

“महाराज ! अच्छा।” राजा ने झूठ-मण्डल तैयार करवा, पहली ही तरह मे जुए का गीत गा कर पाँसा फेंका। ब्राह्मण ने माणविका के तप के खण्डन हुए रहने की बात न जानते हुए कहा—“मेरी माणविका के अतिरिक्त।” ऐसा कहने पर भी, वह हार ही गया। राजा ने जान कर कहा—“ब्राह्मण !
“अतिरिक्त” क्या कह रहे हो ? तुम्हारी माणविका का सतीत्व भ्रष्ट हो गया। तुम समझते थे, कि शुरु गर्भ से (सँभाल) कर, रखने से, सात जगहों पर पहरा लगा कर रखने से, तुम स्त्री को सँभाल कर रख सकोगे ? स्त्री को गोद में लेकर, (साथ) लिए फिरने से भी, उसे (सँभाल) कर रक्खा नहीं जा सकता। ऐसी कोई स्त्री नहीं है, जो एक ही पुरुष वाली हो। तेरी माणविका ने ‘मैं नाचना चाहती हूँ’ (कह) वीणा बजाते रहने पर तेरा मुँह कपड़े से बाँध, अपने जार को तेरे सिर में कोहनी से प्रहार देने के लिए प्रेरित किया। अब क्या “अतिरिक्त” कहते हो ? यह कह, यह गाथा कही—

यं ब्राह्मणो अवावेसी वीणं सम्मुखवेडितो,
अण्डभूता भता भरिया, तामु को जातु विस्से ॥

[जिसके कारण ब्राह्मण ने मुँह पर पट्टी बाँध कर, वीणा बजाई, वह गर्भ

से आरम्भ करके पाली गई, भार्या थी। ऐसी स्त्रियों का कौन विश्वास करे।]

यं ब्राह्मणो अवादेसि वीणं सम्मुखवेठितो, जिस कारण से ब्राह्मण घने कपड़े से मुँह बँधवा कर वीणा बजाता था, वह उस कारण को न जानता था। उसे भी ठगने की इच्छा से, उसने ऐसा किया। ब्राह्मण ने उस स्त्री का अत्यन्त-मायावी होना न जान, स्त्री का विश्वास कर समझा कि यह मुझसे लजाती है। सो, उस (ब्राह्मण) के अज्ञान को प्रगट करने के लिए राजा ने ऐसा कहा। यही, यहाँ अभिप्राय है। अण्डभूता भता भरिया, अण्ड कहते हैं बीज को। बीजभूता अर्थात् माता की कोख से निकलते ही लाई गई। भता अथवा पाली गई। वह कौन ? भार्या, प्रजापती, पाद परिचारिका। भोजन, वस्त्रादि भरना पडने से, टूटे संयम वाली होने से, अथवा लोक-धर्मों से भरी होने से भार्या। तामु को जातु विस्तसे, जातु—सम्पूर्णतः, कोख से आरम्भ करके भी पाली गई भार्याओं के इस प्रकार विकृत आचरण करने पर, कौन बुद्धिमान् आदमी, उनका सम्पूर्णतः विश्वास करे ? अर्थात्, 'यह मेरे प्रति निर्विकार है' ऐसा कौन विश्वास करे ? पाप कर्म का आमन्त्रण-निमन्त्रण करने वालो के रहने पर, स्त्री की रक्षा नहीं की जा सकती।

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने ब्राह्मण को धर्मोपदेश किया। ब्राह्मण ने बोधिसत्त्व का धर्मोपदेश सुन, घर जाकर, माणविका से पूछा—“तूने इस प्रकार का पाप-कर्म किया ?

“आर्य ! ऐसा किसने कहा ? नहीं किया, प्रहार मैंने ही दिया, किसी और ने नहीं। यदि विश्वास न हो, तो 'मैं तुम्हें छोड़, किसी दूसरे पुरुष के हस्त-स्पर्श को नहीं जानती'—ऐसी सत्य-क्रिया कर अग्नि में प्रविष्ट हो, तुम्हें विश्वास कराऊँगी। ब्राह्मण ने 'ऐसा हो' (कह) लकड़ी का बड़ा ढेर लगवा, उसमें आग दे, उसे ब्रूलवा कर कहा—“यदि अपने पर विश्वास है, तो अग्नि में प्रविष्ट हो।”

माणविका ने अपनी परिचारिका को पहले से ही सिखा-पढ़ा रक्खा था—अम्म ! तू अपने पुत्र से कह, कि वह मेरे अग्नि प्रवेश करने के समय, वहाँ जाकर मेरा हाथ पकड़ ले। उसने जाकर वैसा कहा। धूर्त आकर परिषद् के बीच में खड़ा हो गया। ब्राह्मण को ठगने की इच्छा से माणविका ने जन (समूह)

के बीच में खड़े होकर कहा—“ब्राह्मण ! मैं तुम्हें छोड़ किसी अन्य पुरुष के हस्त-स्पर्श को नहीं जानती हूँ । मेरे इस सत्य (के बल) से, यह अग्नि मुझे न जलाये ।” यह कह, वह आग में घुसने को तैयार हुई ।

उसी क्षण उस धूर्त ने, “देखो ! इस पुरोहित-ब्राह्मण के काम को; इस प्रकार की माणविका को आग में जलाना (—प्रवेश कराना) चाहता है” कहते हुए, उस माणविका को हाथ से पकड़ लिया । उसने हाथ छोड़ा पुरोहित से कहा—“आर्य ! मेरी सत्य-क्रिया टूट गई । अब मैं आग में प्रवेश नहीं कर सकती । कैसे ? आज मैंने यह सत्य-क्रिया की कि अपने स्वामी को छोड़ कर, मैं किसी के हस्त-स्पर्श को नहीं जानती । और, अब मुझे इस आदमी ने हाथ से पकड़ लिया ।”

ब्राह्मण जान गया कि इसने मुझे धोका दिया है । सो, उसने उसे पीट कर, निकलवा दिया ।

यह स्त्रियाँ ऐसी असद्विमिणी होती हैं । कितना बड़ा भी पाप-कर्म हो, उसे करके, अपने स्वामी को ठगने के लिए, ‘नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ’ करके प्रति दिन शपथ खाती हैं । (इस प्रकार) यह अनेक चित्तों वाली होती हैं । इसी-लिए कहा गया है—

चोरीनं बहुबुद्धीनं यामु सच्चं सुदुल्लभं,
थीनं भावो दुराजानो मच्छस्सेवोदके गतं ॥
मुसा तासं यथा सच्चं सच्चं तासं यथा मुसा,
गावो बहुतिणस्सेव ओमसन्ति वरं वरं ॥
चोरियो कठिना हेता वाळा चपलसक्खरा,
न ता किञ्चि न जानन्ति थं मनुस्सेसु वञ्चनं ॥

[ऐसी स्त्रियाँ—जो चोर हैं, अति-बुद्धि हैं, जिनमें सत्य का मिलना दुर्लभ है,—उनका भाव, जल में गई मछली (के पद-चिन्ह) की तरह दुर्ज्ञेय है । उनको भूठ वैसा ही है, जैसा सत्य (और) उनको सत्य वैसा ही है, जैसा भूठ । वह बहुत तृण के होने पर, गौवों के अच्छा ही अच्छा (खाने की तरह), नये नये (आदमी)के साथ रमती है । यह चोर, कठोर, हिंस्र-प्राणी सदृश, चपलता में कङ्कर सदृश (स्त्रियाँ) मनुष्यों के ठगने (की सब विधियों) को जानती हैं ।]

शास्ता न 'इस प्रकार स्त्रियाँ सँभाल कर नहीं रखी जा सकती'—यह धर्मदेशना ला, (आर्य-सत्यो का प्रकाश किया। सत्यों (के प्रकाशन) के अन्त में आसक्त-चित्त (=उत्कण्ठित) भिक्षु खोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। शास्ता ने भी मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय बाराणसी-नरेश में ही था।

६३. तत्क जातक

“कोधना अकतञ्जू च . . .” यह गाथा (भी) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, (एक) आमवन-चित्त भिक्षु के ही सम्बन्ध में कही।

क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उसे, 'भिक्षु ! क्या तू मचमुच उत्कण्ठित है' पूछा। उसके 'हाँ ! सचमुच' कहने पर स्त्रियाँ अकृतज्ञ होती हैं, मित्रों में फूट डालने वाली होती हैं, तू किस लिए उनके प्रति चञ्चल हुआ है ?' कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधि-सत्त्व ऋषि-प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित हो, गङ्गा के किनारे आश्रम बना, समापत्तियाँ और अभिञ्जा की प्राप्ति कर, ध्यान में रत हो, सुख पूर्वक रहते थे। उस समय बाराणसी के श्रेष्ठी की (एक) दुष्ट-कुमारी नामक चण्ड (स्वभाव) की, कठोर (स्वभाव) की लडकी थी। वह दामों को, नौकरों को गाली देती थी, मारती थी। एक दिन, उसे लेकर, (वे) गङ्गा पर खेलने के

लिए गये। उनके खेलते ही खेलते मूर्यास्त का समय हो गया। बादल आ गये। आदमी, बादलों को देखकर, इधर उधर भाग गये। श्रेष्ठी की लड़की के दासों, नौकरो ने सोचा—“आज हमें इससे छुट्टी पानी चाहिए (=इसकी पीठ देखनी चाहिए)।” (यह सोच) वह, उसे जल के भीतर ही छोड़, स्थल पर चले आये। वर्षा (=देव) बरसी। सूर्य भी अस्त हो गया। अंधेरा छा गया। उन्होंने उस (लड़की) के बिना ही घर लौट कर, “वह कहाँ है?” पूछने पर कहा—“गङ्गा से तो पार हो गई थी, फिर हम नहीं जानते कि कहाँ चली गई।” रिश्तेदारो को ढूँढने पर भी पता नहीं लगा।

वह चीखती-चिल्लाती, पानी में बहती बोधिसत्त्व की पर्ण-शाला के समीप पहुँची। उसने उसका शब्द मुन सोचा—‘यह स्त्री का शब्द है, मैं इसे बचाऊँगा।’ (और) उसने तिनको की मशाल ले, नदी के किनारे जा, उसे देख, ‘डर मत, डर मत’ (कहा)। तब आशवासन दे, (अपने) हाथी सदृश बल से, नदी को तैरते हुए, जाकर, उसे उठा लाया; और आग बना कर दी। शीत दूर हो जाने पर मधुर फल-फूल लाकर दिये। उनके खा चुकने पर पूछा—“कहाँ की रहने वाली है? कैसे गङ्गा में गिर पडी?” उसने वह हाल कह दिया। उसे ‘तू यही रहे’ (कह) दो तीन दिन पर्णशाला में रखा; और स्वयं खुले में रहे। दो तीन दिन के बाद कहा—“अब जा।” वह ‘इस तपस्वी का ब्रह्मचर्य तोड़, इसे साथ लेकर जाऊँगी’ (सोच) न गई। समय व्रीतते वीतने स्त्री-माया और स्त्री-लीला दिखा, उसने, उस तपस्वी का ब्रह्मचर्य नष्ट कर, उसके ‘ध्यान’ का लोप कर दिया। वह उसे लेकर जंगल में ही रहने लगा। तब उसने उसे कहा—“आर्य! हमें जंगल में रहने से क्या (लाभ)? आवादी की जगह पर चले।” वह उसे लेकर एक सीमान्त के ग्राम में गया। और वहाँ मट्टा बेंच कर जीविका कमा, उसे पालने लगा। तत्र बेंच कर जीविका करने से, उसका नाम तत्र-पण्डित पड़ गया। ग्राम-वासियों ने उसे खर्चा दे, ‘हमें उचित अनुचित बताते हुए यहाँ रहे’ (कह) ग्राम-द्वार पर एक कुटिया बनवा, उसमें बसाया। *

उस समय चोर पर्वत से उतर कर, आस-पास लूट-मार किया करते थे। एक दिन उन्होंने उस गाँव को लूटा, और ग्राम-वासियों से ही उनका सामान उठवा कर, जाते समय, उस श्रेष्ठी की लड़की को भी अपने निवास-स्थान को

ले गये ।' (वहाँ जा) बाकी सब जनों को तो छोड़ दिया; लेकिन चोरों के सरदार ने उसके रूप पर मुग्ध हो, उसे अपनी भार्य्या बना लिया। बोधिसत्त्व ने पूछा—“अमुक नामक कहाँ रही ?”

“चोरों के सरदार ने पकड़ कर, अपनी भार्य्या बना ली ।” यह सुन कर भी बोधिसत्त्व ‘वह भेरे बिना वहाँ नहीं रहेगी, भाग कर आ जायगी’ (सोच) उसकी प्रतीक्षा करता रहा। श्रेष्ठी की लड़की ने भी सोचा—“मैं यहाँ सुख से रह रही हूँ। कही वह तत्र-पण्डित किसी काम से यहाँ आकर, मुझे यहाँ से ले न जाये, और मैं इस सुख से वञ्चित हो जाऊँ। सो मैं उसे चाहती हूँ (करके) उसे बुलवा कर, मरवा दूँ ।” (यह सोच) उसने एक आदमी को बुला कर संदेशा भेजा—“मैं यहाँ दुखी हूँ। तत्र-पण्डित आकर मुझे ले जाये ।”

उसने उस संदेश को सुन, उस पर विश्वास कर लिया, और जाकर ग्राम के द्वार पर पहुँच खबर भेजी। उसने बाहर आ, उसे देख, कहा—“भार्य्या ! यदि हम इस समय भागेगे, तो चोरो का सरदार हमारा पीछा कर, हम दोनो को मार देगा। इस लिए रात को भागेगे।” (यह कह) उसे लिवा, खिला कर कमरे में बिठाया। ग्राम को चोरो के सरदार के आकर, शराब पी कर, मस्त होने पर पूछा—“स्वामी ! यदि इस समय अपने प्रतिद्वन्दी को देख पाओ, तो क्या करो ?”

“यह करूँगा—यह करूँगा” ।

“तो क्या वह दूर है ? क्या वह कमरे में नहीं बैठा है ?” चोरों के सरदार ने मशाल ले, वहाँ जा कर, उसे देख, पकड़, घर के बीच में गिरा कर, कुहनी आदि से यथेच्छ पीटा। वह पिटते समय, और कुछ न कह कर, केवल इतना ही कहता—‘कोधना, अकतञ्जु च पिसुणा भित्तदूभिका (= क्रोधी, अकृतज्ञ, चुगलखोर, मित्रो में फूट डालने वाली)। चोर ने उसे पीटा, बाँध कर डाल दिया, और अपने खा कर सो रहा। उठने पर, शराब का नशा उतरने पर, फिर उसे पीटना शुरू कर दिया।

वह भी केवल वह चार शब्द ही कहता रहा। चोर ने सोचा—“यह इस प्रकार पीटे जाने पर भी, और कुछ न कह कर, केवल वह चार शब्द ही कहता है। मैं इसे पूछूँ ?” उसने उस (लड़की) को सोया जान, उससे पूछा—

“भो ! तू इस प्रकार पीटे जाने पर भी किस लिए केवल यह चार शब्द ही कहता है ?”

तक्र-पण्डित ने ‘तो मुन’ (कह) वह सब वान गुरू से कही। “मैं पहले वन में रहने वाला एक ध्यानी, तपस्वी था। सो मैंने इसे गङ्गा में बही जाती हुई को निकाल कर, पाला। इसने मुझे प्रलीभन दे, ध्यान से च्युत किया। मैं जंगल छोड़, इसका पालन-पोषण करता हुआ सीमान्त के ग्राम में रहने लगा। सो इसने चोरो द्वारा यहाँ लाने पर ‘मैं दुख से रह रही हूँ, मुझे आकर ले जाओ’ मेरे पास संदेश भेज, (मुझे यहाँ बुला) अब तुम्हारे हाथ में फँसा दिया। इस वजह (=कारण) से, मैं ऐसा कहता हूँ।”

चोर मोचने लगा—“जिसने इस प्रकार के गुणवान्, उपकारी (आदमी) के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया, वह मेरे साथ क्या उपद्रव न करेगी ? इसे हटाना चाहिए।” उसने तक्र-पण्डित को आश्वासन दे, उसे जगा, तलवार ले ‘चल, इस पुरुष को ग्राम-द्वार पर माँहूँगा’ कह, उसके साथ ग्राम से बाहर जा, ‘इसे हाथ में पकड़’ (कह) उस (पुरुष) को, उसके हाथ में पकड़ते हुए, तलवार लेकर तक्र-पण्डित को मारते हुए की तरह, उसी के दो टुकड़े कर दिये। (फिर) सिर से नहा कर, कुछ दिन तक तक्र-पण्डित को प्रणीत भोजन से संतर्पित कर पूछा—“अब कहाँ जायेगा ?”

तक्र-पण्डित ने कहा—“मुझे गृहस्थ से मतलब नहीं। ऋषि-प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित हो, उसी जंगल में रहूँगा।”

“तो मैं भी प्रब्रजित होऊँगा।” दोनों जने प्रब्रजित हो, उस अरण्य में जा कर, पाँच अभिञ्जा और आठ समापत्तियाँ प्राप्त कर, जीवन के अन्त में ब्रह्म-लोकगामी हुए। शास्ता ने यह दो कथाये कह, मेल मिला, अभिसम्बुद्ध होने की अवस्था में यह गाथा कही—

कोधना अकतञ्जू च पिसुणा च विभेदिका,
ब्रह्मचरियं चर भिक्षु ! तो सुखं न विहाहिसि

[भिक्षु ! (जिस पर तू आसक्त है) वह क्रोधी है, अकृतज्ञ है, चुगलखोर है, (मित्रों में) फूट डालनेवाली है। भिक्षु ! तू ब्रह्मचर्य्य पालन कर। इससे तेरे (ध्यान-)मुख का नाश न होगा।]

भिक्षु ! यह स्त्रियाँ फोषणा, आये क्रोध को रोक नहीं सकती । अकतञ्जु च, बड़े से बड़े उपकार को भी भूल जाती है (=नहीं जानती) । पिसुया च, प्रेम को शून्य करने वाली ही बात-चीत करती हैं । विरोदिका, मित्रों में फूट डालती हैं, भेद उत्पन्न करने वाली बात-चीत ही करना इनका स्वभाव है । यह ऐसे दुर्गुणों (=पापकर्मों) से युक्त है । तुझे इनसे क्या ? ब्रह्मचरियं चर भिक्षु ! यह जो मैथुन-रहित परिगुद्ध ब्रह्मचर्य है, उसे चर (=पालन कर) । सो सुखं न विहाहिंसि, सो तू इस ब्रह्मचर्य वास करते हुए, अपने ध्यान-सुख, मार्ग-भुव, फल-सुख से च्युत न होगा । इस सुख को नहीं छोड़ेगा । इस सुख से हीन न होगा (=परिहायिस्मसि) न परिहाहिंसि, यह भी पाठ है, अर्थ वही है ।

शास्ता ने इस धर्मदेशना को ला, (आर्य-सत्यो का प्रकाशन किया । सत्यो के (प्रकाशन के) अन्त में आसक्त (=उत्कण्ठित) भिक्षु श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ । शास्ता ने जातक का साराश निकाल दिया । उस समय का चोरो का सरदार (अब का) आनन्द (स्थविर) था । तक्र-पण्डित तो मैं ही था ।

६४. दुराजान जातक

“मासु नन्दि इच्छति मं . . .” यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक उपासक के सम्बन्ध में कही ।

क. वर्तमान कथा

एक श्रावस्ती-वासी उपासक त्रिशरण तथा पाँच-शील में प्रतिष्ठित था । उसकी बुद्ध में, धर्म में, तथा संघ में श्रद्धा थी । लेकिन उसकी भार्या दुःशीला

पापिन थी। जिस दिन मिथ्या-आचार (=पर पुरुष का सेवन) करती, उस दिन सौ (मुद्रा) से खरीदी हुई दासी की तरह रहती, जिस दिन मिथ्या-चार न करती, उस दिन स्वामिनी की तरह चण्ड, कठोर (स्वभाव की) होती। वह (पुरुष) उमका कारण न समझ सकता था। उससे अत्यन्त तंग आकर, वह (कभी कभी) बुद्ध की सेवा में न जाता। सो एक दिन, वह गन्धपुष्प आदि ले, आकर, वन्दना करके बैठा। शास्ता ने पूछा—“उपासक ! तू सात आठ दिन से बुद्ध की सेवा में क्यों नहीं आता ?”

“भन्ते ! मेरी घर वाली एक दिन सौ (मुद्रा) से खरीदी दासी की तरह रहती है, एक दिन स्वामिनी की तरह चण्ड, कठोर (स्वभाव वाली)। मैं उसके मन की बात (=भाव) नहीं जान सकता। सो मैं उससे तंग आ कर बुद्ध की सेवा में नहीं आता।”

उसकी बात सुन, शास्ता ने “उपासक ! स्त्रियों के मन की बात दुर्ज्ञेय होती है। पूर्व-जन्म में भी पण्डितों ने तुझे यह बात कही है, लेकिन वह जन्मान्तर की बात होने से, तू उसे नहीं जान सकता” (कह) उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मवत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व लोक-प्रसिद्ध आचार्य्य होकर पाँच सौ ब्रह्मचारियों (=माणवकों) को विद्या पढ़ाते थे। सो एक दूर देश का ब्राह्मण तरुण उसके पास विद्या सीखने के लिए आया। वह एक स्त्री पर आसक्त हो, उसे भार्य्या बना, वहीं बाराणसी में रहते समय ही, दो तीन दिन आचार्य्य की सेवा में नहीं गया। उसकी वह भार्य्या दु शीला पापिन थी। मिथ्याचार करने के दिन दासी की तरह रहती और न करने के दिन स्वामिनी की तरह चण्ड, कठोर (स्वभाव) की। वह उसके मन की बात न जानने के कारण, उससे परेशान हो, व्याकुल-चित्त हो आचार्य्य की सेवा में न गया। सात आठ दिन के बाद उसके आने पर आचार्य्य ने पूछा—“माणवक ! क्यों, दिखाई नहीं देते ?” उसने उत्तर दिया—“आचार्य्य ! मेरी भार्य्या एक दिन (तो मुझे) चाहती है, दासी की तरह नम्र होती है, लेकिन दूसरे दिन स्वामिनी की तरह चण्ड, कठोर (स्वभाव की)

होती है। मैं उसके मन की बात नहीं जान सकता। उससे तंग परेशान हो, व्याकुल-चित्त (हो) मैं आपकी सेवा में नहीं आया।

आचार्य्य ने—“माणवक ! यह ऐसा ही है। स्त्रियाँ अनाचार करने के दिन तो स्वामी का अनुकरण करती हैं, दासी की तरह नम्र होती हैं; न करने के दिन अभिमान के मारे, स्वामी की कद्र (=गिनती) नहीं करती। इस प्रकार, यह स्त्रियाँ अनाचारिणी, दुःशीला होती हैं। उनके मन की बात जाननी दुष्कर है। उनके चाहने वाली होने पर भी, और न चाहने वाली होने पर भी, आदमी को उनके साथ उपेक्षा का ही व्यवहार करना चाहिए” (कह) उसे उपदेश स्वरूप यह गाथा कही—

मा सु नन्दि इच्छति मं मा सु सोचि न इच्छति,
थीनं भावो दुराजानो मच्छस्सेवोदके गतं ॥

[‘मुझे चाहनी है’ (सोच) प्रसन्न न हो, ‘मुझे नहीं चाहती है’ (सोच) शोक न करे। पानी में मछलियों की चाल की भाँति, स्त्रियों के मन की बात जाननी दुष्कर है।]

“मासु नन्दि इच्छति मं ‘मु’ निपात-मात्र है। ‘यह स्त्री मुझे चाहती है, मेरी कामना करती है, मुझसे स्नेह करती है’ सोच सन्तुष्ट न हो। मा सु सोचि न इच्छति, ‘यह मेरी चाह नहीं करती’ सोच कर, शोक न करे, उसके इच्छा करने पर प्रसन्नता, न इच्छा करने पर शोक—दोनों में न पड़ कर, बीच का ही बर्ताव रखे। यही स्पष्ट किया गया है। थीनं भावो दुराजानो, स्त्रियों का भाव (=मन की बात) स्त्री-माया से छिपा रहने के कारण दुर्ज्ञेय होता है। जैसे क्या ? मच्छस्सेवोदके गतं, जिस प्रकार पानी से ढँक रहने के कारण मछली का गमन दुर्ज्ञेय होता है, जिससे वह मछुओं के आने पर, पानी से अपने गमन को छिपा कर भाग जाती है, अपने को पकड़ने नहीं देती; इसी प्रकार स्त्रियाँ बड़े बड़े दुःशील-कर्म करके भी ‘हम ऐसा नहीं करती’ (कह) अपने किये कर्मों को स्त्री-माया में ढँक स्वामियों को उगती हैं। इस प्रकार यह स्त्रियाँ पापिन, दुराचारिणी होती हैं। उनके प्रति बीच का भाव (=मध्यस्थ भाव) रखने वाला ही सुखी रहता है।

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने शिष्य को उपदेश दिया। उस समय से वह उसके प्रति मध्यस्थ-भाव रखने लगा। उसकी भार्या भी, यह जान कि आचार्य ने मेरे दुःशील भाव को जान लिया, उस समय से अनाचार-विरत हो गई। उस उपासक की उस स्त्री ने भी यह समझ, कि सम्यक् सम्बुद्ध ने मेरा दुराचार-भाव जान लिया, उस समय से पाप-कर्म नहीं किया।

शास्ता ने भी इस धर्म-देशना को ला (आर्य-) मत्स्यो को प्रकाशित किया। सत्यो (के प्रकाशन) के अन्त में, (वह) उपासक स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ। शास्ता ने मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय के स्त्री-पुरुष (=पत्नी-पति) ही अब के स्त्री-पुरुष हुए। आचार्य तो, मैं ही था।

६५. अनभिरत जातक

“यथा नदी च पत्न्यो च . . . ” यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, उसी तरह के उपासक के सम्बन्ध में कही।

क. वर्तमान कथा

वह खोज करके, उसकी दुःशीलता की बात मालूम कर, भगड़ कर, चित्त-व्याकुलता के कारण सात आठ दिन तक सेवा में नहीं गया। एक दिन विहार जाकर तथ्यागत को प्रणाम कर बैठते (तथागत के) “किस लिए सात-आठ दिन तक नहीं आया” पूछने पर, उसने कहा—“भन्ते ! मेरी भार्या दुःशीला है। उसीसे, व्याकुल-चित्त होने के कारण नहीं आया।”

शास्ता ने ‘उपासक ! यह स्त्रियाँ अनाचारिणी हैं’ (करके) उन पर क्रोध न कर, उनके प्रति मध्यस्थ-भाव ही रखना चाहिए, यह बात, तुम्हें पहले

भी पण्डितों ने कही। लेकिन तू जन्मान्तर से छिपे रहने के कारण उस बात को नहीं देखता' (कह) उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व पूर्व प्रकार से ही, लोक-प्रसिद्ध आचार्य्य हुए। सो उसके शिष्य ने भार्य्या का दोष देख, व्याकुल चित्त रहने के कारण, कई दिन न जा कर, एक दिन आचार्य्य के पूछने पर, वह बात निवेदन की। आचार्य्य ने, "तात ! स्त्रियाँ सब के लिए हैं। 'यह दुःशीला है' (करके) पण्डित लोग उनपर क्रोध नहीं करते" कह, उपदेश-स्वरूप यह गाथा कही—

यथा नदी च पन्थो च पाणागारं सभा पपा,
एवं लोकिन्धियो नाम नासं कुञ्भन्ति पण्डिता ॥

[जैसे नदी, महामार्ग, शराबखाने, धर्मशालायें तथा प्याऊ, सब के लिए आम होते हैं, वैसे ही लोक में स्त्रियाँ सब के लिए साधारण होती हैं। पण्डित (=बुद्धिमान्) लोग, उनके विषय में क्रोध नहीं करते।]

यथा नदी—जैसे अनेक तीर्थों वाली नदी, नहाने के लिए आने वाले चाण्डाल आदि तथा क्षत्रिय आदि—सभी के लिए आम होती है, उसपर सभी को नहाना मिलना है। पन्थो, आदि में भी, जैसे महामार्ग सब के लिए आम है। उसपर सभी चल सकते हैं। पाणागार=शराब खाना भी सबके लिए आम होता है, जो जो पीना चाहते हैं, वह सब उसमें प्रवेश कर सकते हैं। पुण्येच्छुओ द्वारा जहाँ तहाँ बनाई गई धर्म-शालाएँ (=सभा) भी सबके लिए आम होती हैं, उसमें सभी प्रवेश कर सकते हैं। महामार्ग पर पानी की चाटियाँ रख कर बनाये प्याऊ भी सबके लिए आम होते हैं, वहाँ सभी पानी पी सकते हैं। एवं लोकिन्धियो नाम, इसी प्रकार हे तात ! लोक में स्त्रियाँ भी सब के लिए आम हैं। इसी प्रकार आम (=सार्वजनिक) होने से वह नदी, महामार्ग, पाणागार (=शराबघर) सभा (=धर्मशाला) (तथा) प्याऊ के सदृश है। इसलिए नासं कुञ्भन्ति पण्डिता, सो इन स्त्रियों

के प्रति, यह पापिन हैं, अनाचारिणी हैं, दुस्शीलिनी हैं, सबके लिए आम हैं, सोचकर, पण्डित लोग, दक्ष लोग, बुद्धिमान् लोग क्रोध नहीं करते ।

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने (अपने) शिष्य को उपदेश दिया । वह उस उपदेश को सुन मध्यस्थ (-भाव का) हो गया । उस की भार्य्या ने भी यह जान कि आचार्य्य ने मुझे जान लिया, उस समय से फिर पापकर्म नहीं किया । उस उपासक की भार्य्या ने भी, 'शास्ता ने मुझे जान लिया' सोच उस समय से फिर पाप-कर्म नहीं किया ।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला (आर्य्य-) सत्यो को प्रकाशित किया । सत्यो (के प्रकाशन) के अन्त में (वह) उपासक स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ । शास्ता ने भी मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया । उस समय के स्त्री-पुरुष ही अब के स्त्री-पुरुष (==पति-पत्नी) हैं, लेकिन आचार्य्य-ब्राह्मण तो मैं ही था ।

६६. मुदुलक्खण जातक

“एका इच्छा पुरे आसि . . .” यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय चित्त के विकार के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती निवासी एक कुल-पुत्र शास्ता की धर्म-देशना सुन, (त्रि) रत्न शासन में श्रद्धापूर्वक प्रब्रजित हुआ । वह शिक्षार्थों को आचरण में ला, योगाभ्यास करता, कर्मस्थानों में लगा रहता था । एक दिन श्रावस्ती में भिक्षा के लिए घूमते हुए एक अलंकृत-सजी स्त्री को देख, (उसे) 'सुन्दर'

मान, उसकी इन्द्रियाँ चञ्चल हो गईं। उसके दिल में विकार पैदा हो गया; मानो दूध वाले वृक्ष को बसूले से छील दिया गया हो। उस समय से, विकार के वशीभूत हुए उसको न शारीरिक आनन्द था, न मानसिक। उसकी दशा वैसी ही हो गई, जैसे भ्रान्त मृग की। उसका आचरण (बुद्ध) शासन के अनुकूल न रहा। केदा, नाखून, लोम (रोम) लम्बे हो गये, तथा चीवर मैले-कुचैले रहने लगे। उसकी इन्द्रियों (—आकृति) में विकृति देख कर उसके मित्रों ने पूछा—“आयुष्मान ! तुझे क्या है ? तेरी आकृति पूर्ववत् नहीं है ?”

“आयुष्मानो ! (शासन में) मेरी रुचि नहीं।”

तब, वे उसे शास्ता के पास ले गये।

शास्ता ने पूछा.—“भिक्षुओ ! इस अनिच्छुक भिक्षु को लेकर क्यों आये ?”

“भन्ते ! इस भिक्षु की (शासन में) रुचि नहीं रही।”

“भिक्षु ! क्या सचमुच ?”

“भगवान् ! सचमुच।”

“तुझे किसने उत्कण्ठित कर दिया ?”

“भन्ते ! मैं ने भिक्षा के लिए घूमते हुए एक स्त्री को (अपनी) इन्द्रियों को चञ्चल करके देखा। उस से भरे मन में विकार पैदा हो गया। उसीसे मैं उत्कण्ठित हूँ।”

शास्ता ने, “भिक्षु ! इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, यदि तू इन्द्रियों को चञ्चल कर विपक्षी-आलम्बन,^१ को ‘सुन्दर’ मानकर देखने में चित्त के विकार द्वारा चलायमान हो गया। पूर्व समय में पाँच अभिज्ञा तथा आठ समापत्ति लाभी, ध्यानबल से चित्त के मैल का नाश कर, विगुद्ध-चित्त, गगन तल चारी बोधिसत्त्व भी, इन्द्रियों को चञ्चल कर, अपने से विपक्षी आलम्बन (—स्त्री) को जब देखते थे, ध्यान से गिर, विकार से विकृत होने पर, बड़े

^१ स्त्री के लिए पुरुष, तथा पुरुष के लिए स्त्री विपक्षी-आलम्बन (opposite sex) है।

दुःख के भागी होते। क्या सुमेरुपर्वत को उखाड़ डालने वाली हवा, हाथी जितने छोटे-पर्वत को; महाजम्बू वृक्ष को उखाड़ देने वाली हवा, टूटे तट के किनारे उगी भाड़ी को; महासमुद्र को सुखा देने वाली हवा, छोटे से तालाब को कुछ समझती है? इसी प्रकार उत्तम बुद्धि विशुद्ध-चित्त बोधिसत्त्वों की भी अज्ञानी बना देने वाले चित्त के विकार क्या तुमसे लज्जा करेंगे? विशुद्ध-सत्त्व भी विकृत हो जाते हैं। उत्तम यशस्वी लोग भी अयश को प्राप्त होते हैं' (कह) पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने समय, बोधिसत्त्व, काशी राष्ट्र के एक महाधनी ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए थे। विज्ञान प्राप्त कर सब शिल्पों में पारङ्गत हो, काम-सुख को छोड़, ऋषि प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित हो, योगाभ्यास करने लगा। अभिञ्जा तथा समापत्तियाँ उत्पन्न कर ध्यान-सुख से सुखी (हो) हिमवन्त प्रदेश में रहने लगा। वह एक समय निमक-खटाई खाने के लिए, हिमवन्त से उतर बाराणसी में पहुँच, राज-उद्यान में टहरा। अगले दिन शारीरिक कृत्य समाप्त कर, लालरग के वल्कल के वस्त्र पहन, एक कन्धे पर अजिन-चर्म रख, जटा-मण्डल बाँध, भोली-बैहगी ले, बाराणसी में भिक्षा माँगते हुए राजा के गृह-द्वार पर पहुँचा। राजा ने उस की चरिया-विहरण से ही प्रसन्न हो, उसे बुलवा महामूल्यवान् आसन पर बिठा, प्रणीत खाद्य-भोज्य से सन्तुष्ट किया; उसके अनुमोदन^१ कर चुकने पर, उस से उद्यान में ही रहने की प्रार्थना की।

उसने स्वीकार कर. राजा के घर में भोजन खा, राज-कुल को उपदेश देते हुए, उस उद्यान में सोलह वर्ष वितायें। एक दिन राजा, उपद्रवी सीमान्त देश को शान्त करने के लिए जाते समय, (अपनी) मृदुलक्षण नामक अग्र-महिषी को 'आर्य्य की सेवा प्रमाद-रहित होकर करना' कह, चला गया। राजा के जाने के बाद से, बोधिसत्त्व अपनी मरजी के समय, घर जाते। सो एक दिन

^१ पुण्यानुमोदन ।

मृदुलक्षणा, बोधिसत्त्व के लिए भोजन तैयार कर 'आज आर्य्य देर कर रहे हैं' (सोच) सुगन्धित जल से नहा, सब अलंकारों से अलंकृत हो, महातल पर छोटी सी शय्या बिछवा, बोधिसत्त्व के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई लेट रही ।

बोधिसत्त्व भी अपना समय हुआ देख, ध्यान से उठ, आकाश-मार्ग से ही राजा के घर पहुँचे । मृदुलक्षणा वल्कल-चौर का शब्द सुन 'आर्य्य आ गये' समझ, जल्दी से उठी । शीघ्रता से उठने के कारण उस का बारीक वस्त्र खसक गया । तपस्वी ने छज्जे पर से आते हुए, देवी का विपक्षी आलम्बन इन्द्रियो को चंचल करके 'सुन्दर' (—शुभ) मानकर देखा । उसके दिल में विकार पैदा हो गया, जैसे दूध-वाले वृक्ष को बसूले से छील दिया गया हो । उसी समय उसके ध्यान का लोप हो गया । उसकी दशा ऐसी हो गई, जैसी बिना पर के कीवे की । उसने खड़े ही खड़े आहार ग्रहण किया और बिना खाये चित्त के विकार से कम्पित हो, प्रासाद से उतरा; और उद्यान में जा, पर्णशाला में प्रवेश कर, तखते के शयनासन के नीचे आहार को रख, (अपने) असदृश-आलम्बण^१ से बँध कर, राग-अग्नि से जलते हुए, निराहार रहने के कारण सूखते हुए, सात दिन तखते के बिछौने पर पड़े ही पड़े (बिता दिये) ।

सातवे दिन, राजा सीमान्त को शान्तकर, लौट आया । नगर की प्रदक्षिणा कर, बिना घर गये ही (पहले) 'आर्य्य को देखूँगा' (सोच) उद्यान में जा, पर्णशाला में प्रवेश कर, उमें लटे देखा । राजा ने सोचा—“कोई रोग हो गया होगा ।” सो उसने पर्णशाला की सफाई करा, (उसके) पैर दबाने हुए पूछा—“आर्य्य ! क्या तकलीफ है ?”

“महाराज ! मुझे और कोई रोग नहीं है; लेकिन चित्त के विकार के कारण मैं आसक्त हो गया हूँ ।”

“आर्य्य ! चित्त किस पर आसक्त हो गया है ।”

“महाराज ! मृदुलक्षणा पर ।”

^१ विपक्षी-आलम्बन (opposite sex) ।

“आर्य ! ‘अच्छा, मैं आपको मृदुलक्षणा देता हूँ’ कह, तपस्वी को ले जा, घर में प्रवेश कर, देवी को सब अलंकारों से अलंकृत कर तपस्वी को दिया। (लेकिन) देते हुए मृदुलक्षणा को इशारा किया, कि तुझे अपने बल से आर्य (के सदाचार) की रक्षा करनी चाहिए। ‘अच्छा ! देव ! रक्षा करूँगी।’ देवी को लेकर तपस्वी राज-भवन से उतरा।

उसने महाद्वार से निकलने के समय (ही) कहा—‘आर्य ! हमें एक घर लेना चाहिए। जाये राजा से घर माँग ले।’ तपस्वी ने जाकर (एक) घर माँगा। राजा ने एक ऐसा खाली पडा घर—जिसमें लोग आकर पाखाना कर जाते थे—दिलवाया। वह देवी को ले कर, वहाँ चला गया। देवी ने उसमें प्रविष्ट होने की अनिच्छा प्रगट की।

‘क्यों नहीं प्रवेश करती ?’

‘(स्थान) गन्दा होने से’,

‘अब क्या करूँ ?’

‘इसे साफ कर’ (कह) राजा के पास ‘जा कुदाली ला, टोकरी ला’ (कह) भेजा। अशुचि और कूड़ा फेकवा, फिर गोबर मँगवा कर लिपवाया। तदनन्तर ‘जा चारपाई ला, दीपक ला, बिछौना ला, चाटी ला, घड़ा ला’—इस प्रकार एक एक मँगवा कर, फिर पानी आदि लाने के लिए कहा। उसने घड़ा ले, पानी ला, चाटी को भर, स्नान करने के लिए पानी रख, बिछौना बिछाया।

बिछौना पर इकट्ठे बैठते समय उसने, उसे दाढी से पकड़, घसीट, नीचा दिखा, अपने सामने किया—“तुझे अपने श्रमण होने का, ब्राह्मण होने का ख्याल नहीं ?” तब उसे अक्ल आई। इतनी देर तक वह अज्ञानी ही रहा। चित्त के विकार ऐसा अज्ञान फैलाने वाले हैं। “भिक्षुओ ! कामच्छन्द नीवरण अन्धा बना देनेवाला है, अज्ञानी बना देनेवाला है।” आदि (सूक्त पाठ) यहाँ कहना चाहिए। उसने अक्ल (=स्मृति) आने पर सोचा—“यह तृष्णा अधिक होने पर, मुझे चारों नरकों में से सिर न उठाने देगी। आज ही इसे राजा को सोपकर मुझे हिमवन्त में प्रवेश करना चाहिए।” (यह सोच) उसने, उसे ले, राजा के पास जा, “महाराज ! मुझे तेरी देवी से मत-लब नहीं। केवल इसी के कारण मेरी तृष्णा बढ़ी” (कह) यह गाथा कही—

एका इच्छा पुरे आसि अलद्धा मृदुलक्षणं,
यतो लद्धा अळारक्खी इच्छा इच्छं विजायथ ॥

[मृदुलक्षणा मिलने से पहले, केवल एक ही इच्छा थी; लेकिन जबसे यह विशालाक्षी मिली है, तब से (एक) इच्छा से (दूसरी) इच्छा पैदा हो रही है ।]

महाराज ! इस तेरी मृदुलक्षणा देवी के मिलने से पुरे (=पहले) 'अहो ! मुझे यह मिल जाये'—ऐसी एक ही इच्छा थी, एक ही तृष्णा उत्पन्न हुई। यतो, लेकिन जब से मुझे यह अळारक्खी = विशालनेत्रा = शोभन-लोचना लद्धा (= मिली); तब से उस मेरी एक इच्छा ने घर की तृष्णा, सामान की तृष्णा, उपभोग-सामग्री की तृष्णा (करके) और और नाना प्रकार की इच्छाये पैदा कर दी, उत्पन्न कर दी। इस प्रकार मेरी यह बढ़ती हुई इच्छा, मुझे अपाय (= नरक) से सिर उठाने न देगी। यह मुझे बस है, तुम ही अपनी देवी को ग्रहण करो, मैं तो हिमवन्त को जाऊँगा ।

उसी समय उसका खोया ध्यान उत्पन्न हो गया, और वह आकाश में बैठकर, राजा को उपदेश दे, आकाश मार्ग से ही हिमवन्त को चला गया। फिर आवादी की ओर नहीं आया। (वहाँ) ब्रह्म-विहारों की भावना कर, ध्यान प्राप्त (हो) ब्रह्म-लोक में उत्पन्न हुआ।

शास्ता ने इस धर्म देशना को ला, (आर्य) सत्यो को प्रकाशित किया। सत्यो (के प्रकाशन) के अन्त में, वह भिक्षु अहर्त्वं में प्रतिष्ठित हुआ। शास्ता ने भी मेल मिला, जातक का साराण निकाल दिया। उस समय का राजा (अब का) आनन्द, मृदुलक्षणा (अब की) उत्पलवर्णा और ऋषी तो मैं ही था।

६७. उच्छ्रंग जातक

“उच्छ्रङ्गे देव ! मे पुत्रो . . .” यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक दीहाती (=जानपदिक) स्त्री के सम्बन्ध मे कही ।

क. वर्तमान कथा

एक समय, कोसल देश (=राष्ट्र) मे तीन जने एक जंगल के पास, खेती करते थे । उस समय जंगल के अन्दर (कुछ) चोर, लोगो को लूट कर भाग गये । (चोर पकड़ने वालो ने) चोरों को ढूँढते हुए उन्हें न पाया । वहाँ आकर, ‘तुम जंगल मे डाका डालकर, अब यहाँ किसान बने हो’ (कह) ‘यह चोर है’ (समझ), उन्हें बाँध कर, कोमल-नरेश को दे दिया । उस समय एक स्त्री, ‘मुझे वस्त्र (=ग्राच्छादन) दो, मुझे वस्त्र दो’ कहती आकर, रोती, पीटती बार बार राज-भवन के पाम से गुजरती । राजा ने उसका शब्द सुनकर कहा—दो, इसे कपड़ा । (लोग) वस्त्र लेकर गये । वह उसे देख बोली—‘मुझे यह चादर (=वस्त्र) नहीं चाहिए । मुझे स्वामी रूपी चादर चाहिए ।’ लोगो ने जाकर राजा से निवेदन किया—“यह ऐसी चादर नहीं चाहती, यह स्वामी रूपी चादर चाहती है ।” राजा ने उसे बुलवा कर पूछा—“तू स्वामी रूपी चादर माँगती है ?”

“देव ! स्त्री की चादर (उसका) स्वामी ही है । बिना स्वामी के, (हजार मुद्रा)के मूल्य की चादर पहनने पर भी स्त्री नंगी ही है ।” इस अर्थ के समर्थन के लिए यह, सूक्त कहना चाहिए—

नग्ना नदी अनोविका नगं रट्ठं अराजिकं,
इत्थीपि विधवा नग्ना यस्सापि दस भातरो ॥

[बिना पानी के नदी नग्न होती है, बिना राजा के राष्ट्र नग्न होता

है। विधवा स्त्री नग्न होती है, चाहे उसके दस भाई क्यों न हों।]

राजा ने उसपर प्रसन्न हो पूछा—“यह तीनों जने तेरे क्या लगते हैं ?”

“देव ! एक मेरा स्वामी है, एक भाई है, एक पुत्र है।”

राजा ने पूछा—“मैं तुम्ह पर सन्तुष्ट हूँ। इन तीनों में से एक को देता हूँ, किसे चाहती है ?” वह बोली—“देव ! मैं जीती रही, तो मुझे एक स्वामी भी मिल सकेगा, पुत्र भी मिल सकेगा; लेकिन माता-पिता के मर गये होने से भाई का मिलना दुर्लभ है। मुझे भाई (ही) दे।” राजा ने सन्तुष्ट हो, तीनों को छोड़ दिया। ‘उस एक के कारण, तीनों जने दुःख से मुक्त हो गये’—यह बान भिक्षु-सघ में प्रगट हो गई। सो एक दिन धर्म-सभा मे एकत्रित हुए भिक्षु, उसकी प्रशंसा कर रहे थे—“आवुसो ! इस एक स्त्री के कारण तीन जने दुःख से मुक्त हो गये।” शास्ता ने आकर पूछा—“भिक्षुओ ! इस समय बैठे क्या वातचीत कर रहे थे ?” (भिक्षुओ के) ‘यह वान’ कहने पर, शास्ता ने ‘भिक्षुओ ! न केवल अभी इस स्त्री ने उन तीन जनो को दुःख मे छुड़ाया पहने भी छुड़ाया था’ कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय तीन जने जंगल के किनारे पर खेती करते थे. पूर्वोक्त प्रकार ही। तब राजा के यह पूछने पर कि तीनों जनो में से किये (छुड़ाना) चाहती है, वह बोली, “देव ! क्या तीनों को नही (दे) सकते है ?”

“हाँ ! नही (दे) सकता।”

“यदि तीनों को नही दे सकते, तो मुझे (मेरे) भाई को दे।”

“पुत्र या स्वामी को ले, तुम्हें भाई से क्या ?” कहने पर “देव ! यह (दोनों) सुलभ है; लेकिन भाई दुर्लभ है” कह, यह गाथा कही—

उच्छ्रय देव ! मे पुत्रो पथे धावन्तिया पति,
तञ्च देसं न पस्सामि यतो सोदरियमानये ॥

[देव ! पुत्र तो गोद में है, और पति रास्ते चलती को मिल सकता है;

लेकिन वह देश नहीं दिखाई देता, जहाँ से भाई (=सहोदर) लाया जा सके ।]

उच्छङ्गे देव ! मे पुत्रो, देव ! मेरा पुत्र तो मेरे पल्ले में है, जैसे जंगल में जाकर, पल्ला करके, साग चुन चुन कर, उसमें डालने से पल्ले में साग सुलभ होता है; इसी प्रकार स्त्री के लिए पुत्र भी, पल्ले में साग की तरह सुलभ ही होता है। इसी से कहा, उच्छङ्गे देव ! मे पुत्रो, पथे धावन्तिया पति, रास्ता पकड़ कर, अकेली जाती हुई स्त्री को भी पति सुलभ है, जो जो देखता है, वही बन जाता है। इसी लिए कहा है, पथे धावन्तिया पति । तच्च बेसं न पस्सामि यतो सोदरियमानये—क्योंकि (अब) मेरे माता पिता नहीं हैं, इसलिए मैं माना की कोख नामक वह दूसरा देश नहीं देखती, जहाँ से समान-उदर में पैदा होने के कारण, सहोदर कहलाने वाला भाई ले आऊँ। इसलिए मुझे भाई ही दो।

राजा ने 'यह सत्य कहती है' सन्तुष्ट चित्त हो, तीनों जनों को बंधनागार में मँगावाकर, दे दिया। वह तीनों जनों को ले कर चली गई।

शास्ता ने भी 'भिक्षुओ ! न केवल अभी, पूर्व जन्म में भी इसने इन तीनों जनों को दुख से मुक्त किया था।' (कह) यह धर्म-देशना ला, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। पूर्व-जन्म में चारो जने, अबके चारों जने ही (थे) लेकिन राजा, उस समय मैं था।

६८. साकेत जातक

*
“यस्मि मनो निवसति . . .” यह (गाथा) शास्ता ने साकेत के समीप अंजन वन में विहार करते समय, एक ब्राह्मण के सम्बन्ध में कही।

क. वर्तमान कथा

भिक्षुसंघ सहित भगवान् साकेत (समीपवर्ती अंजन वन) में प्रवेश करते थे। उस समय, एक साकेत नगरवासी बृद्ध ब्राह्मण ने नगर से बाहर जाते समय, (नगर-) द्वार के बाहर बुद्ध को देखा, और (उनके) पाँव में गिर, पैरों को जोर से पकड़ कर बोला—“तात ! क्या माता-पिता के बूढ़े होने पर, पुत्र को उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए ? तो फिर किस लिए इतनी देर तक तूने अपने को हम से छिपाये रक्खा ? खैर, मैंने तो देख लिया, आ अब अपनी) माता को देखने के लिए चल।” यह कह, वह शास्ता को अपने घर ले गया। भिक्षुसंघ सहित शास्ता वहाँ जाकर बिछे आसन पर बैठे। ब्राह्मणी भी आकर शास्ता के पैरों में गिर कर रोने लगी—“तात ! इतने समय तक कहाँ रहे ? क्या माता-पिता के बूढ़े होने पर, उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए ?”(यह कहकर) उसने (अपने) लड़के लड़कियों से भी ‘आओ ! भाई को प्रणाम करो’ (कहके) प्रणाम करवाया। दोनों ने सन्तुष्ट चित्त हो बड़ा दान दिया। शास्ता ने भोजन के बाद, उन दोनों जनों को जरा-सुत्त^१ का उपदेश दिया। सूत्र (के उपदेश) के अन्त में, दोनों जने अनागामि-फल में प्रतिष्ठित हुए। शास्ता, आसन से उठ अञ्जन वन को ही लौट गये। घर्म-सभा में बैठे हुए भिक्षुओं ने बात चलाई—“आवुसो ! ‘तथागत के पिता शुद्धोवन (हे), माता महामाया (हैं) यह जानकर भी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने ‘तथागत हमारे पुत्र हैं’ कहा। शास्ता ने भी इसे सहन कर लिया; क्या कारण है ?” शास्ता ने उनकी बात सुन, ‘भिक्षुओ ! वे दोनों जने अपने पुत्र को ही पुत्र कहते थे’ (कह) पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

“भिक्षुओ ! पूर्व समय में, यह ब्राह्मण लगातार पाँच सौ जन्मों तक मेरा पिता हुआ, पाँच सौ जन्मों तक चाचा (=चुल्ल पिता), पाँच सौ जन्मों

^१ जरासुत्त (सुत्त निपात ४.६)।

तक ताया (=महापिता), यह ब्राह्मणी भी लगातार पाँच सौ जन्मों तक माता, पाँच सौ जन्मों तक चाची (=चुल्ल माता), पाँच सौ जन्मों तक ताई (=महामाता) हुई। इस प्रकार मैं डेढ़ हजार जन्म तो ब्राह्मण के हाथ में पला, और डेढ़ हजार जन्म ब्राह्मणी के हाथ में। इस प्रकार तीन हजार जन्मों को कह, बुद्ध होने की अवस्था में, यह गाथा कही—

यस्मि मनो निवसति चित्तं वापि पसीदति,
अदिट्ठपुब्बके पोसे कामं तस्मिम्पि विस्ससे ॥

[जिस (आदमी) पर मन ठहर जाता है, अथवा चित्त प्रसन्न होता है, पहले न देखा रहने पर भी, उसमें विश्वास कर लिया जाता है।]

यस्मि मनो निवसति, जिस आदमी को देखते ही, उसपर मन ठहर जाता है, चित्तं वापि पसीदति, जिसको देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाता है, मृदु हो जाता है। अदिट्ठपुब्बके पोसे, साधारणतः जिसे इस जन्म में नहीं देखा है, ऐसे आदमी में कामं तस्मिम्पि विस्ससे, अनुभूत-पूर्व स्नेह के कारण, वैसे आदमी में भी सम्पूर्ण विश्वास हो जाता है।

इस प्रकार शास्ता ने इस धर्मदेशना को ला, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय ब्राह्मण और ब्राह्मणी, यह दोनो ही थे, और पुत्र भी मैं ही था।

६६. विसवन्त जातक

“धिरत्थु तं विसं वन्तं . . .” यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, धर्मसेनापति सारिपुत्र के सम्बन्ध में कही।

क. वर्तमान कथा

स्थविर के खाजा खाने के दिनों में, मनुष्य, सघ के लिए बहुत सा खाजा लेकर, विहार आये। भिक्षुसंघ के ले लेने पर, बहुत सा (खाजा) बाकी बच गया। लोग कहने लगे, “भन्ते ! जो (भिक्षु) गाँव में गये हुए हैं, उनका (हिस्सा) भी ले ले।” उस समय स्थविर का (एक) बालक—शिष्य गाँव में गया था ? (लोगों ने) उसका हिस्सा ले, उसके न आने पर, बहुत देर होती है (सोच) वह हिस्सा स्थविर को दे दिया। स्थविर ने जब उसे खा लिया, तो वह लड़का आया। सो स्थविर ने उससे कहा—“आयुष्मान् ! मैंने तेरे लिए रक्खा हुआ खाद्य खा लिया।”

वह बोला—“भन्ते ! मधुर (चीज) किसे अप्रिय लगती है ?”

महास्थविर को खेद हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि “अब इस के बाद (कभी) खाजा न खायेगे।” उसके बाद में सारिपुत्र स्थविर ने कभी खाजा नहीं खाया। उनके खाजा न खाने की बात भिक्षु-संघ में प्रगट हो गई। धर्म-सभा में बैठे भिक्षु उसकी चर्चा कर रहे थे। शास्ता ने पूछा—“भिक्षुओ ! इस समय बैठे क्या बात कर रहे हो ?”

“यह (कथा)” कहने पर, (शास्ता ने) “भिक्षुओ ! एक बार छोड़ी हुई चीज को सारिपुत्र, प्राण छोड़ने पर भी (फिर) ग्रहण नहीं करता” (कह) पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में (राजा) ब्रह्मवन्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व एक विप-वैद्य के कुल में उत्पन्न हो, वैद्यक से जीविका चलाते थे। (एक बार) एक दीहाती को साँप ने डँस लिया। उसके रिश्तेदार देर न कर, जल्दी से वैद्य को बुला लाये। वैद्य ने पूछा—दवा के जोर से विप को दूर करूँ ? अथवा जिस साँप ने डँसा है, उसे ब्लाकर, उसी से डँसे हुए स्थान से विप निकलवाऊँ ?

(लोगों ने कहा)—“सर्प को बुलाकर, विप निकलवाओ।”

उसने साँप को बुलाकर पूछा—“इसे तू ने डँसा है ?”

“हाँ ! मैंने ।”

“अपने डैसे हुए स्थान से तू ही विष को निकाल ।”

“मैंने एक बार छोड़े हुए विष को फिर कभी ग्रहण नहीं किया; सो मैं अपने छोड़े विष को नहीं निकालूँगा ।”

उसने लकड़ियाँ मँगवा कर, आग बनाकर कहा—“यदि ! अपने विष को नहीं निकालता, तो इस आग में प्रवेश कर ।”

सर्प बोला—“आग में प्रविष्ट हो जाऊँगा, लेकिन एक बार छोड़े अपने विष को फिर नहीं चाटूँगा ।” यह कह, उसने यह गाथा कही—

धिरत्यु तं विसं वन्तं यमहं जीवितकारणा,
वन्तं पच्चावमिस्सामि मतम्मे जीविता वरं ॥

[धिक्कार है, उस विष को, जिसे जीवन की रक्षा के लिए, एक बार उगल कर मैं फिर निगलूँ । ऐसे जीवन से मरना अच्छा है ।]

धिरत्यु, निन्दार्थक निपात है । तं विसं, उस विष को । यमहं जीवित कारणा (=जिसे मैं (अपने) जीवन की रक्षा के लिए) वन्तं विसं (=उगले हुए विष को) पच्चावमिस्सामि (=निगलूँगा), उस उगले हुए विष को धिक्कार है । मतम्मे जीविता वरं, उस विष को फिर न निगलने के कारण, जो आग में प्रविष्ट होकर मरना है, वह मेरे जीवित रहने की अपेक्षा अच्छा है ।

यह कह, वह अग्नि में प्रविष्ट होने के लिए तैयार हुआ । वैद्य ने उसे रोक, रोगी को श्रौषध तथा दवाई से निरोग कर दिया । फिर सर्प को सदाचारी बना, ‘अब से किसी को दुःख न देना’ (कह) छोड़ दिया ।

शास्ता ने भी “भिक्षुओ ! एक बार छोड़ी हुई (चीज) को सारिपुत्र, प्राण छोड़ने पर भी फिर ग्रहण नहीं करता”—यह धर्मदेशना ला, मेल मिला, जातक का शौराश निकाल दिया । उस समय का सर्प (अब का) सारिपुत्र था, वैद्य तो मैं ही था ।

७०. कुदाल जातक

“न तं जितं साधु जितं . . .” यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, चित्तहृत्य सारिपुत्र स्थविर के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

वह श्रावस्ती का एक कुल-पुत्र था । उसने एक दिन हल चला कर, लौटते हुए, विहार में एक स्थविर के पात्र में से उत्तम स्निग्ध, मधुर भोजन पाकर मोचा—‘हम अपने हाथ से, रात दिन, नाना प्रकार के काम करते हुए भी, इस प्रकार का भोजन नहीं पाते । हमें भी प्रब्रजित होना चाहिए ।’ (सोच) वह प्रब्रजित हुआ । महीने आध महीने में ही, अनुचित ढँग से विचार करने के कारण, क्लेश (=चित्त विकार) के वशीभूत हो, वह भिक्षु-आश्रम छोड़ गया । पीछे भोजन के अभाव से कष्ट पा फिर आकर, प्रब्रजित हुआ और अभिघर्म सीखा । इसी प्रकार, ६ बार भिक्षु-आश्रम छोड़ प्रब्रजित हुआ; और सातवीं बार प्रब्रजित होने पर (अभिघर्म के) सातों प्रकरणों का ज्ञाता हो, बहुत से भिक्षुओं को धर्म बँचवाते, (उसने) अर्हंत पद को प्राप्त किया । तब उसके मित्रों ने उसकी हँसी की—“आयुष्मान् ! चित्त ! पूर्व की भाँति, अब तेरे चित्त में विकार वृद्धि नहीं पाता ?”

“आवुसो ! अब इसके बाद मेरे गृहस्थ होने की सम्भावना नहीं रही ।” सो, उसके अर्हंत होने की बात धर्म-सभा में चली—‘आवुसो ! इस प्रकार अर्हंत पद की योग्यता रख कर भी, आयुष्मान् चित्तहृत्य सारिपुत्र छः बार गृहस्थ हुए । अहो ! पृथक्-जन होने में कितना बड़ा दोष है !’ शास्ता ने

‘जो न मुक्त है, न मुक्ति के मार्ग पर स्थिरता के साथ आरूढ़ है ।

आकर 'भिक्षुओ ! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे थे' पूछ 'यह बातचीत' कहने पर, कहा—भिक्षुओ ! पृथक्जन का चित्त हलका (= लघुक) होता है, उसका निग्रह करना दुष्कर होता है, किसी आलम्बन (= विषय) में जाकर आसक्त हो जाता है, एक बार आसक्त होने पर, (उसे) जल्दी छुड़ाया नहीं जा सकता । इस प्रकार के चित्त का संयम (= दमन करके) रखना अच्छा है; संयत रहने पर ही वह सुख का कारण होता है ।

दुस्मिगहस्स लहुनो यत्थकामनिपातिनो,

चित्तस्स दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावहं ॥^१

[निग्रह करने में दुष्कर, लघुक, जहाँ चाहे वही गिर पड़ने वाले चित्त को संयम में रखना अच्छा है । चित्त का संयम सुख का कारण होता है ।]

उसका निग्रह दुष्कर होने के कारण ही, पूर्व समय में एक पण्डित, एक कुदाली के लोभ के मारे उसे न छोड़ सकने के कारण छः बार गृहस्थ हुए और सातवीं बार प्रव्रजित हो, ध्यान उत्पन्न कर, उस लोभ का निग्रह कर सके । यह कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व (एक) कुंजड़े (तरकारी बेचने वाले) के कुल में उत्पन्न हो, बालिग हुए । उनका नाम हुग्रा कुदाल-पण्डित । वह कुदाल से ज़मीन खोद कर, उसमें साग, लौकी, कद्दू (तथा अन्य) सब्जी-तरकारी बोककर, और उन्हें बेच कर भी, दरिद्र जीवन व्यतीत करना था । उसके पास एक कुदाली को छोड़ कर, धन नाम की, और कोई चीज़ नहीं थी । उसने एक दिन सोचा—“मुझे गृहस्थ में रहने से क्या लाभ ? (घर से) निकल कर प्रव्रजित हो जाना चाहिए ।” तब एक दिन उस कुदाली को एक जगह छिपा कर, वह ऋषि-प्रव्रज्या के अनुसार प्रव्रजित हुग्रा, (पीछे) उस कुदाल की याद

^१ धम्मपद, (चित्तवग्ग) ।

आने पर, लोभ को शान्त न कर सकने के कारण, उस खुण्डी कुदाली के लिए (वह फिर) गृहस्थ बन गया। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी (बार करके) छः बार उस कुदाली को छिपा, निकल कर प्रब्रजित हो फिर गृहस्थ हुआ। लेकिन सातवीं बार उसने सोचा—“मैं इस खुण्डी कुदाली के लिए बार बार गृहस्थ बना, अब इस बार उसे महानदी में फेंक कर प्रब्रजित होऊँगा।” तब उसने नदी के किनारे जा ‘यदि इस के गिरने की जगह देखूँगा, तो शायद फिर आकर निकालने का मन हो’ (सोच) कुदाल को बेट से पकड़, हाथी समान बल से, सिर के ऊपर तीन बार घुमा, आँखें मीच, नदी के बीच में फेंक दिया; और तीन बार सिंह नाद किया—“मैं ने जीत लिया। मैं ने जीत लिया।”

उस समय बाराणसी नरेश सीमान्त देश (के उपद्रव) को शान्त कर, लौट रहे थे। उन्होंने नदी पर सिर से नहा, सब अलङ्कारों से अलंकृत हो, हाथी के कन्धे पर बैठ कर जाते समय, बोधिसत्त्व के उस शब्द को सुनकर (सोचा)—“यह पुरुष कहता है, ‘मैं ने जीत लिया;’ इसने किसे जीत लिया ?” ‘उसे बुलाओ’ (कह) बूलवा कर पूछा—“भो ! पुरुष ! मैं तो संग्रामविजेता हूँ। अभी विजय करके आ रहा हूँ। तू ने किसे जीता है ?”

बोधिसत्त्व ने, “महाराज ! तुम्हारा हजार-संग्राम, लाख-संग्राम जीतना भी वास्तविक जीतना नहीं, क्योंकि तुमने चित्त के विकारों को नहीं जीता। मैं ने अपने अन्दर के लोभ का दमन करते हुए चित्त-विकारों को जीता हूँ” कहते हुए महानदी की ओर देखा। उसी समय जल (-कमिण) के ध्यान से उत्पन्न होनेवाला ध्यान उत्पन्न हो गया। योगबल सम्पन्न हो, उन्होंने आकाश में बैठ, राजा को धर्मापदेश देते हुए यह गाथा कही—

न तं जितं साधु जितं यं जितं अब्रवीयति,

तं खो जितं साधु जितं यं जितं नाब्रवीयति ॥

[वह जीत अच्छी जीत नहीं, जिस जीत की फिर हार हो। वही जीत अच्छी जीत है, जिस जीत की फिर हार न हो।]

न तं जितं साधुजितं यं जितं अब्रवीयति, शत्रुओ मे जिस देश को जीत लिया हो, यदि शत्रु फिर उस देश को जीत ले, तो वह जीत अच्छी जीत नहीं।

क्योंकि उसे फिर (दूसरा) जीत ले जा सकता है। दूसरा अर्थ 'जित' कहते हैं 'जय' को। शत्रुओं के साथ युद्ध करके जो जय प्राप्त की गई है, यदि वह फिर उनके जीतने से पराजय हो जाय, वह (जय) अच्छी नहीं; शोभा का कारण नहीं। किस लिए ? क्योंकि (वह) फिर पराजय (के रूप में बदली जा सकती) है। तं खो जितं साधु जितं यं जितं नावजीयति, लेकिन जो शत्रुओं को जीतकर, उनसे फिर नहीं हारता है, अथवा एक बार प्राप्त की गई जो जय फिर पराजय (के रूप में बदल) नहीं सकती वही जय अच्छी जय है, शोभा का कारण है। क्योंकि (वह) फिर हार में नहीं बदली जा सकती। इसलिए महाराज ! हजार बार भी, लाख बार भी संग्राम में विजयी होने पर, तुम संग्राम-योद्धा नहीं हो। क्योंकि तुमने अपने चित्त के विकारों को नहीं जीत पाया। जो एक बार भी अपने अन्दर के चित्त-विकारों को जीत लेता है, वही उत्तम संग्राम-विजयी है। (इस प्रकार) आकाश में बैठे ही बैठे, इस बुद्ध-नीला से राजा को धर्मोपदेश दिया। श्रेष्ठ संग्राम-विजेता का भाव यहाँ दिखाया गया है—

यो सहस्सं सहस्सेन सङ्ग्रामे मानुसे जिने,
एकं च जेय्यमत्तानं स वे सङ्ग्रामजुत्तमो^१ ॥

[जो एक (आदमी) सहस्र जनों को लेकर, संग्राम में सहस्र जनों को जीत लेता है, और एक सिर्फ अपने को जीतता है। तो अपने आप को जीतने वाला ही, उत्तम संग्राम-विजेता है।]

यह सूत्र (उक्त विचार का) समर्थक है। यह धर्म सुनते ही, राजा के चित्त का क्रियात्मक विकार नष्ट हो गया; और उसका चित्त प्रब्रज्या की ओर झुका। राजा की सेना के चित्त का विकार भी, उसी तरह नष्ट हो गया।

राजा ने बोधिसत्त्व से पूछा—'अब आप कहाँ जायेंगे ?'

"महाराज ! हिमवन्त में जा, ऋषि प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित होऊँगा।"

'तो मैं भी प्रब्रजित होऊँगा' (कह) वह बोधिसत्त्व के साथ ही निकल पड़ा।

^१ धम्मपद (सहस्य वग्ग ८.३)

सेना, ब्राह्मण गृहपति, सब श्रेणियों^१, (तथा) उस स्थान पर एकत्र हुआ सभी जन-समूह, राजा के साथ ही निकल पड़ा। बाराणसी-वासियों ने सोचा—

“कुदाल पण्डित की धर्म-देशना सुन, हमारा राजा, प्रब्रज्या का इच्छुक हो, सेना सहित ही चला गया है, हम यहाँ (रहकर) क्या करेंगे ?” (यह सोच) बारह योजन की बाराणसी के सभी निवासी निकल पड़े। (उसकी) बारह योजन की परिषद् (=मंडली) हुई। उसे ले, बोधिसत्त्व हिमवन्त में प्रविष्ट हुए।

देवेन्द्र शक्र का (सिंह-) आसन गर्म हो गया। उसने ध्यान लगाकर देखा कि कुदाल-पण्डित ने महा अभिनिष्क्रमण (गृहत्याग) किया है, और (उसके साथ) बहुत जन-समूह है” फिर (सोचा) कि उन्हें निवास स्थान मिलना चाहिए। उसने विश्वकर्मा को बुला कर कहा—“तात ! कुदाल-पण्डित ने महाअभिनिष्क्रमण किया है। (उन्हें) निवास स्थान मिलना चाहिए। तू हिमवन्त प्रदेश में जाकर समतल भूमि पर तीस योजन लम्बा और पन्द्रह योजन चौड़ा आश्रम बना।” उसने ‘देव ! अच्छा’ कह, जाकर, वैसा (आश्रम) बना दिया। यहाँ यह मक्षिप्त वृत्तान्त है। विस्तार, हृत्स्थिपाल जातक^२ में आयेगा। यहाँ और वहाँ एक ही वर्णन है।

विश्वकर्माने आश्रम में पर्णशालाये बनाई, फिर कुशब्द वाले मृगों, पक्षियों तथा अमनुष्यों (=भूत प्रेत, आदि) को दूर कर, उस उस तरफ एक एक पगडण्डी बना, अपने निवास स्थान को चला गया। कुदाल पण्डित भी, उस परिषद् को साथ ले, हिमवन्त में प्रविष्ट हुए, और उन्होंने (वहाँ) शक्र के दिये हुए आश्रम पर जा, विश्वकर्मा के बनाये हुए प्रब्रजित परिष्कारों को ग्रहण किया। फिर पहले अपने आपको प्रब्रजित कर, अपने अनुयायियों (=परिषद्) को प्रब्रजित करा, आश्रम (को) उनमें बाँट दिया। (उस समय) सातराज्य खाली हो गये। तीस योजन (की दूरी का) आश्रम भर गया। कुदाल पण्डित ने शेष कसिण (योगाभ्यासों) का भी अभ्यास किया, ब्रह्मबिहारों^३ की भावना की और परिषद् को भी कसिण (= योगा-

^१ भिन्न भिन्न शिल्पियों के समुदाय।

^२ जातक (५०६)

^३ मंत्रों, कल्पना, मुदिता तथा उपेक्षा-भावना।

भ्यास के साधन) बतलाये। सभी (लोग) समापत्ति (समाधि) प्राप्त कर, ब्रह्मबिहारों की भावना करते, ब्रह्मलोक परायण हुए। लेकिन जिन्होंने उनकी सेवा सुश्रूपा की थी, वे देवलोकगामी हुए।

शास्ता ने, 'भिक्षुओ ! इस प्रकार इस चित्त के विकृत हो जाने पर— विकार में आसक्त हो जाने पर, उसका मुक्त करना आसान नहीं होता। लोभ का त्याग दुष्कर होता है, इस प्रकार के पण्डितों को भी (लोभ) अज्ञानी बना देता है' (कह) यह धर्मदेशना ला, (आर्य- सत्त्यों को प्रकाशित किया। सत्त्यों (के प्रकाशन) के अन्त में, कोई स्त्रोतापन्न हुए, कोई सकृदागामी हुए, कोई अनगामी हुए, किन्हीं ने अर्हत् पद को प्राप्त किया।

शास्ता ने भी मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का राजा (अब का) आनन्द था। परिषद् (अब की) बुद्ध परिषद्। कुदाल पण्डित तो मैं ही था।

पहला परिच्छेद

८. वरणा वर्ग

७१. वरणा जातक

“दो पुब्बे करणीयानि..” यह (शाया) शास्ता ने जेतवन में बिहार करते समय, कुटुम्बियपुत्र तिस्स स्थविर के सम्बन्ध में कही।

क. वर्तमान कथा

एक दिन परस्पर मित्र तीस कुलपुत्र गन्ध-पुष्प-वस्त्र आदि ले, ‘शास्ता की धर्मदेशना सुनेंगे’ (करके) बहुत से लोगो सहित, जेतवन में गये। (वहाँ) नागमालक तथा शालमालक आदि (शालाओ) में कुछ देर बैठे। जब शाम के समय शास्ता सुरभि-गन्ध से मुवासित-गन्धकुटी से निकल कर, धर्म-सभा में जा, अलकृत बुद्धामन पर बैठे, तब अनुयायियों सहित धर्म-सभा में जा शास्ता की सुगन्धित पुष्पो से पूजा की, तथा चक्र से अंकित तले और पुष्पित पद्म से सुशोभित तलवाने चरणों में प्रणाम कर, एक ओर बैठ, धर्मो-पदेश सुना। उनको ऐसा विचार हुआ—‘जैसे जैसे हम भगवान् द्वारा उपदिष्ट धर्म को जानते हैं, उससे तो हमें प्रब्रजित होना चाहिए।’ फिर उन्होंने तथागत के धर्म-सभा में निकलने के समय, पास जाकर, प्रणाम कर प्रब्रज्या की याचना की। शास्ता ने उनको प्रब्रज्या दी।

उन्होंने आचार्य्य उपाध्यायो को सन्तुष्ट कर, (उनसे) उपसम्पदा प्राप्त की, और पाँच वर्ष तक (उनके) पास रह, दोनों मातृका^१ (==शीर्षक)

^१ भिक्षु-प्रातिभोक्ष तथा भिक्षुणी-प्रातिभोक्ष।

कण्ठस्थ की, हलाल-हराम (कप्पिय-अकप्पिय) को जाना, तीनों प्रकार की अनुमोदनाओं^१ को सीखा। फिर चीवरों को सी, रंग कर, योगाभ्यास (=श्रमणधर्म) करने की इच्छा से आचार्य्य उपाध्यायों से आज्ञा ले, शास्ता के पास जा, प्रणाम कर, एक ओर बैठ यह याचना की—“भन्ते। हम संसार (=भव) के प्रति विरक्त हैं, जाति-जरा-व्याधि तथा मरण से भयभीत हैं, हमें संसार से मुक्त होने के लिए कर्मस्थान (=योग के साधन) का उपदेश करे।” शास्ता ने उन्हें अड़तीस कर्मस्थानों^२ में से, उनके अनुकूल कर्मस्थान चुन कर बतला दिये।

उन्होंने शास्ता के पास से कर्मस्थान ले, उनकी बन्दना तथा प्रदक्षिणा कर, परिवेष में जा, आचार्य्य उपाध्याय से भेट की; फिर पात्र चीवर ले, योगाभ्यास करने निकल पड़े।

उनके बीच में कूटुम्बियपुत्त तिस्स स्थविर नाम का एक भिक्षु आलसी, निरुद्योगी तथा जिह्वालोलुप था। वह सोचने लगा—“न तो मैं जंगल में रह सकता हूँ, न मैं योगाभ्यास कर सकता हूँ, न भिक्षा माँग कर निर्वाह कर सकता हूँ, सो मैं जाकर क्या करूँगा? मैं यही रुक जाऊँ।” तब वह भिक्षु हिम्मत-हार, (कुछ दूर तक) अन्य भिक्षुओं के साथ जाकर, रुक रहा। अन्य भिक्षु, कोसल जनपद में विचरते हुए, एक सीमान्त ग्राम में पहुँचे; और उसके समीप के एक जगल में वर्षा-वास करने लगे। तीन महीने के भीतर प्रयत्न करके उन्होंने विदर्शना ज्ञान तथा पृथ्वी को उन्नादित करते हुए अर्हत् पद को प्राप्त किया। वर्षावास के बाद, पवारणा कर, (अपने) प्राप्त गुण को शास्ता से कहने की इच्छा से वह वहाँ से निकल, क्रमशः जेतवन पहुँचे, और पात्र-चीवर रख, आचार्य्य उपाध्यायों से भेट की; फिर तथागत के दर्शन के लिए, शास्ता के पास जा, प्रणाम कर एक ओर बैठे। शास्ता ने उनके साथ मधुर बातचीत की। बातचीत के अनन्तर, उन्होंने अपने प्राप्त-गुण को तथागत से निवेदन किया। शास्ता ने उन भिक्षुओं की प्रशंसा की।

^१ माङ्गलिक, अमाङ्गलिक तथा भिक्षा ग्रहण करने के अनन्तर उपदेश।

^२ सब कर्मस्थान चालीस हैं। अंतिम दो छोटे होने से गिनती नहीं की।

शास्ता को उन भिक्षुओं की प्रशंसा करते देख, कुटुम्बियपुत्र तिस्स स्थविर की भी योगाभ्यास करने की इच्छा हुई । उन भिक्षुओं ने शास्ता से आज्ञा माँगी—“भन्ते ! हम उसी जंगल में जाकर रहेंगे।” शास्ता ने ‘अच्छा’ कह, आज्ञा दी । वे प्रणाम करके परिवेण को चले गये । उस कुटुम्बियपुत्र तिस्स स्थविर ने, रात होने पर, अत्यन्त उत्साहित हो, बड़ी तेजी से योगाभ्यास करना शुरू किया । आधी रात बीतने पर, तस्ते के सहारे खड़े ही खड़े, ऊँघते उलट कर, गिर पडा; और उसने (अपने) जाँघ की हड्डी तुड़ा ली । बड़ी पीड़ा होने लगी । उसकी सेवा-सुश्रूषा में लग जाने से उन भिक्षुओं का जाना न हो सका ।

उनके सेवा में आने के समय शास्ता ने पूछा—“भिक्षुओ ! क्या तुमने कल जाने की आज्ञा नहीं ली थी ?”

“भन्ते ! हाँ ! लेकिन हमारे साथी कुटुम्बियपुत्र तिस्स स्थविर ने, असमय पर, बड़ी तेजी के साथ योगाभ्यास करना शुरू किया, और ऊँघते हुए उलट कर गिर पडा, जिससे उसने जाँघ की हड्डी तुड़ा ली, उसके कारण हमारा जाना न हो सका ।”

शास्ता ने ‘भिक्षुओ ! न केवल अभी इसने अपनी उत्साह-हीनता के कारण, असमय पर बड़ी तेजी के साथ योगाभ्यास (—वीर्य्य) करते हुए, तुम्हारे जाने में बाधा डाली है, पहले भी इसने तुम्हारे जाने में बाधा डाली थी’ कह, उनके प्रार्थना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में गान्धार देशस्थ तक्षशिला में, बोधिसत्त्व लोकप्रसिद्ध आचार्य हो कर, पाँच सौ माणवकों (—शिष्यों) को विद्या (—शिल्प) सिखाते थे । एक दिन वे माणवक लकड़ी लाने के लिए जंगल में जाकर, लकड़ियाँ चुगने लगे । उनके बीच में एक आलसी माणवक था । उसने एक बड़े भारी वरुण-वृक्ष को देख, सोचा—‘यह सूखा वृक्ष है, अभी थोड़ा सोकर, पीछे वृक्ष पर चढ़, लकड़ियाँ तोड़कर चर्लूंगा ।’ वह अपनी चादर बिछा, लेटकर गाढ़ी निद्रा में सो गया । बाकी माणवक लकड़ियों का बोझ बाँध, लेकर जाते समय, उसकी पीठ में पैर से ठोकर लगा, उसे जगा कर चले गये ।

आलसी माणवक आँखें मलते मलते उठा; और बिना नीद उतरे ही, वृक्ष पर चढ़, शाखा को अपनी ओर खींच कर तोड़ने लगा। उस समय टूटी शाखा के भटके से नोक उछल कर उसकी आँख में लगी। उसने एक हाथ से आँख को दबाया; और दूसरे हाथ से गीली लकड़ियाँ तोड़ीं। वृक्ष में उतर, लकड़ियों की गाँठ बाँध, जल्दी में जाकर (उसने उन्हें) औरों की गिराई लकड़ियों के ऊपर डाल दिया। उस दिन दीहात के एक ग्राम के किसी कुल से आचार्य्य को अगले दिन पाठ (=ब्राह्मण वाचनक) करने का निमन्त्रण आया था। आचार्य्य ने विद्यार्थियों को कहा—‘तात ! कल एक गाँव में जाना है। तुम खाली पेट न जा सकोगे। (इस लिए) प्रातः काल ही यवागु पकवा कर वहाँ जाना; तथा अपना और हमारा हिस्सा, सब लेकर चले आना।

उन्होंने प्रातः काल ही यवागु पकाने के लिए, दामी को उठा कर कहा—‘हमारे लिए जल्दी से यवागु बना।’ उसने लकड़ी लेने समय, ऊपर रक्खी हुई वरुण की गीली लकड़ी ले ली। बार बार फूँक मार कर भी आग न जल सकी। जिस के कारण, दिन चढ़ आया। विद्यार्थी, ‘बहुत दिन चढ़ आया, अब जाना नहीं हो सकेगा’ (सोच) आचार्य्य के पास गये। आचार्य्य ने पूछा—“तात ! क्या नहीं गये ?”

“हाँ आचार्य्य ! नहीं गये।”

“क्या कारण ?”

“अमुक नाम का आलसी विद्यार्थी हमारे साथ लकड़ी लेने के लिए जंगल गया था। वह वरुण-वृक्ष के नीचे सो गया। पीछे जल्दी से वृक्ष पर चढ़, आँख फुड़वा ली, और वरुण की गीली लकड़ियाँ लाकर, हमारी लाई हुई लकड़ियों के ऊपर डाल दी। यवागु पकाने वाली, उन्हे सूखी लकड़ियाँ समझ, (जलाने लगी, किन्तु) सूर्योदय तक आग न जला सकी। इस कारण से हमारे गमन में बाधा हुई।”

आचार्य्य ने, माणवक की करतूत सुन, ‘अन्धे-मूर्खों के काम से इसी प्रकार हानि होती है’ (कह) यह गाथा कही—

यो पुब्बे करणीयानि पच्छा सो कातुमिच्छति,
वरणकट्ठभञ्जोव स पच्छा मनुत्पपति ॥

[जो पहले करने योग्य है, उसे जो पीछे करना चाहता है; वह वरुण की लकड़ी तोड़ने वाले की तरह, पीछे पश्चात्ताप को प्राप्त होता है ।]

स पच्छा मनुत्पति, जो कोई आदमी ' यह पहले करना चाहिए, यह पीछे,' इसका बिना विचार किये पुञ्जे करणीयानि, पहले करने योग्य कार्यों को पच्छा (=पीछे) करता है, वह वरणकट्ठभञ्जो, हमारे माणवक की तरह, मूर्ख आदमी, पीछे पश्चात्ताप करता है, शोक करता है, रोता है ।

इस प्रकार बोधिसत्त्व अपने शिष्य को यह बात कह, दान आदि पुण्य-कर्म कर, जीवन की समाप्ति पर, (अपने) कर्मानुसार परलोक गया ।

शास्ता ने 'भिक्षुओ ! न केवल अभी यह तुम्हारा बाधक हुआ है, पहले भी हुआ था' (कह) यह धर्मदेशना ला, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया । (उस समय का) आँख खुभा लेने वाला विद्यार्थी, (अब का) जाँघ तोड़ लेने वाला भिक्षु था, गेप माणवक (अब की) बुद्ध परिषद्, और आचार्य्य ब्राह्मण तो मैं ही था ।

७२. सीलवनागराज जातक

“अकतञ्जुस्स पोसस्स...” यह (गाथा) शास्ता ने वेळुवन में विहार करते समय देवदत्त के सम्बन्ध में कही ।

क. वर्तमान कथा

धर्म सभा में बैठे भिक्षु कह रहे थे—“आवुसो ! देवदत्त अकृतज्ञ है, तथागत के गुणों को नहीं जानता ।” शास्ता ने आकर, 'भिक्षुओ ! अब

बैठे क्या बातचीत कर रहे हो !' पूछ, 'यह बात थी' कहने पर, 'भिक्षुओ ! न केवल अभी देवदत्त अकृतज्ञ है, पहले भी अकृतज्ञ ही रहा है। उसने कभी मेरे गुणों को नहीं जाना' कह उनके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्त्व हिमालय प्रदेश में; हाथी की योनि में पैदा हुआ था। वह माता की कोख से निकलते समय चाँदी की राशि सा सर्वश्वेत था, आँखें, मणि की गोलियों के सदृश प्रकाश फैलाने वाली तथा पाँच प्रसन्नताओं से युक्त; मुख, रक्त-वर्ण कम्बल के समान; सँड, लाल सोने की बूंदो जडी चाँदी की माला के सदृश; चारों पैर लाख से रगे हुए जैसे थे; इस प्रकार उसका शरीर दस पारमिताओं से अलंकृत तथा अति सुन्दर था। सो, उसके सयाने होने पर, सारे हिमालय के हाथी, इकट्ठे होकर, उसकी सेवा में रहने लगे। इस प्रकार हिमालय प्रदेश में अस्सी-हजार हाथियों के साथ रहते हुए, पीछे, जमात के साथ रहने में दोष देख, और जमात से पृथक्, अकेले रहने में शारीरिक-शान्ति (==विवेक) का लाभ देख, जगल में अकेल ही रहना शुरू किया। शीलवान्, सदाचारी होने के कारण, उसका नाम सीलव नागराज पड़ गया। (उस समय) बाराणसी-वासी एक वनचर, हिमालय प्रदेश में प्रवेश कर, अपनी आजीविका के लिए चीजे (==भाण्ड) खोज रहा था। दिशा भ्रम हो जाने से वह रास्ता भूल कर, मरने के भय से भयभीत हो बाँहों में सिर दे रोता-काँदता फिरता था।

बोधिसत्त्व उसका रोना पीटना सुन, 'इस आदमी को दुःख से छुड़ाना चाहिए'—इस कष्ट के भाव से प्रेरित हो, उसके पास गया। वह उसे देखते ही, डर के मारे भाग चला। बोधिसत्त्व उसे भागते देख, वहीं ठहर गया। वह आदमी बोधिसत्त्व को रुका देख, खड़ा हो गया। बोधिसत्त्व फिर (आगे) गया। वह (आदमी) फिर भागा। उसके ठहरने पर, खड़ा होकर सोचने लगा—“यह हाथी, मेरे भागने पर खड़ा हो जाता है, खड़े होने पर आता है, यह मुझे हानि नहीं पहुँचाना चाहता। यह मुझे, इस दुःख से ही

छड़ाना चाहता होगा।” (यह सोच) वह हिम्मत करके, खड़ा हो गया। बोधिसत्त्व ने उसके पास जाकर पूछा—“भो ! पुरुष ! तू किस लिए रोता फिर रहा है ?”

“स्वामी ! दिशा-भ्रम हो जाने से, मार्ग भूल, मरने के भय से।”

बोधिसत्त्व उसे अपने निवास-स्थान पर ले जा, कुछ दिन तक फल-मूल से सेवा कर ‘भो पुरुष ! डर मत। मैं तुझे बस्ती (= मनुष्य-पथ) में ले जाऊँगा’ (कह) उसे अपनी पीठ पर बिठा, बस्ती की ओर ले चला। वह मित्र-द्रीही आदमी ‘यदि कोई पूछने वाला होगा तो बताना होगा’ (सोच) बोधिसत्त्व की पीठ पर बैठा ही बैठा, वृक्षों की, पर्वतों की निशानी करता जाता था। बोधिसत्त्व ने उसे जंगल से निकाल, वाराणसी को जाने वाले महामार्ग पर छोड़ कर कहा “भो ! पुरुष इस रास्ते से चला जा। लेकिन मेरा निवास-स्थान, चाहे कोई पूछे, चाहे न पूछे, किसी को न कहना”। (यह कह) उसे विदा कर, वह अपने निवासस्थान पर चला आया।

वह आदमी वाराणसी पहुँचा। घूमते हुए, हाथी-दाँत-वाजार में शिल्पियों को हाथी-दाँत की चीजे बनाते देख कर उसने पूछा—“भो ! यदि जीवित हाथी का दाँत मिले, तो क्या उसे भी खरीदोगे ?”

“भो ! क्या कहते हो ? जीवित हाथी का दाँत, मृत हाथी के दाँत से अधिक मूल्यवान् होता है।”

“तो मैं जीवित हाथी का दाँत लाऊँगा” (कह) रास्ते के लिए आवश्यक (खाने का) सामान तथा तेज आरि लेकर, बोधिसत्त्व के निवास स्थान को गया। बोधिसत्त्व ने उसं देखकर पूछा—“किस लिए आया है ?”

“स्वामी ! मैं निर्धन हूँ, दरिद्र हूँ। जीने का उपाय नहीं। आप के पास इसलिए आया हूँ, कि यदि आप दें, तो आप मे दन्त-खण्ड माँग कर ले जाऊँ, और उन्हें बेचकर, उस धन से निर्वाह करूँ।”

“अच्छा ! भो ! मैं तुझे दन्त-खण्ड दूँगा, यदि (तेरे पास) दाँत काटने के लिए आरि हो।”

“स्वामी ! मैं आरि लेकर आया हूँ”

“तो दाँतों को आरि से काट कर ले जा।” बोधिसत्त्व पाँव को सुकेड़ कर, गौ की तरह बैठ गये। उसने, उस के दोनों अगले दाँत काट लिए। बोधिसत्त्व ने उन दाँतों को सोण्ड में ले, ‘भो ! पुरुष ! मैं यह दाँत इसलिए नहीं

दे रहा हूँ कि यह दाँत मुझे अप्रिय हैं, अच्छे नहीं लगते; बल्कि, मुझे इनसे हज़ार दर्जे, लाख दर्जे प्रिय-तर हैं, सब धर्मों का बोध कराने वाले बुद्धत्व ज्ञान रूपी दाँत। सो मेरा यह दाँतों का दान, बुद्धज्ञान के बोध का कारण हो।” इस प्रकार (उसने) बुद्ध-ज्ञान का ध्यान घर, वह दाँतों की जोड़ी दे दी।

वह उन्हें ले गया। उन्हें बेचकर, उस धन के खतम होने पर, फिर बोधिसत्त्व के पास आकर बोला—‘स्वामी! तुम्हारे उन दाँतों को बेच कर मैं केवल अपना कर्जा उतार सका। शेष दाँत भी दे दे।’ बोधिसत्त्व ने ‘अच्छा’ कह स्वीकार कर, पहली ही तरह से कटवा कर, शेष दाँत भी दे दिये। उसने उन्हें भी बेच कर फिर आकर कहा—‘स्वामी! गुज़ारा नहीं चलता। मुझे मूल दाढ़ें दे दे।’ बोधिसत्त्व ‘अच्छा’ कह, पूर्व प्रकार से ही बैठ गये। वह पापी पुरुष, महासत्त्व की चाँदी की माला सदृश सूण्ड को मरदन करते हुए, कैलाश कूट सदृश सिर (=कुम्भ) पर चढ़ कर, दोनों दाँतों की पक्तियों को एड़ी से प्रहार देते हुए, माँस को हटा कर, सिर पर चढ़, तेज आरी से मूल दाढ़ें काट कर ले गया।

उस पापी पुरुष के, बोधिसत्त्व की दृष्टि से ओभल होते ही होते, दो लाख चालीस हज़ार योजन घनी पृथ्वी जो सुमेरु, युगन्धर सदृश (पर्वतों) का महाभार, तथा मल-मूत्र आदि घृणित दुर्गन्धियाँ उठा सकती हैं उसने भी, उस (की) दुर्गुणराशि को उठाने में असमर्थता प्रकट की; और फटकर (उसे) विवर दे दिया। उसी समय अवीची महानरक में ज्वाला ने निकलकर, उस आदमी को, घर के कम्बल^१ में लपेटने की तरह, घेर कर (अपने में) ले लिया। इस प्रकार उस पापी पुरुष के पृथ्वी में प्रविष्ट होने के समय, उस जगल के अधिकांशी वृक्ष देवता ने, उस वन को उन्नादित करते हुए ‘अकृतज्ञ, मित्र द्रोही आदमी को चक्रवर्ती राज्य देकर भी सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता’—इस धर्म का उपदेश करके, यह गाथा कही—

अकृतञ्जुस्स पोसस्स निच्चं विवरवस्सिनो,

* सब्बं धे पठवि वज्जा नेव नं अभिरावये ॥

^१ ‘कुलसन्तकेन’ तथा ‘कुसलन्तकेन’ दोनों पाठ सन्तोषजनक नहीं।

[अकृतज्ञ, सदा दोष ढूँढ़ने वाले आदमी को सारी पृथ्वी देकर भी सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता ।]

अकृतञ्जुस्स, जो अपने पर किये उपकार को न जाने; पोसस्स, मनुष्य को; विवर वस्सिनो, जो छिद्र = खाली जगह ही देखता रहे; छिद्रान्वेषी को । सब्बं चे पठाँव दब्बजा, वैसे आदमी को यदि सारा चक्रवर्ती राज्य अथवा महापृथ्वी को पलट कर, इस पृथ्वी का सार भी दे दिया जाये; नेव नं अभि-राधये, ऐसा करने पर भी, इस प्रकार के अकृतज्ञ मनुष्य को कोई सन्तुष्ट वा प्रसन्न नहीं कर सकता ।

इस प्रकार उस देवता ने उस वन को उन्नादिन करते हुए धर्मोपदेश दिया । बोधिसत्त्व, जितनी आयु थी, उतने काल तक जीवित रह कर, कर्मानुसार परलोक गया ।

शास्ता ने 'भिक्षुओ ! न केवल अभी देवदत्त अकृतज्ञ है, पहले भी अकृतज्ञ रहा है' कह, इस धर्मदेयना को ला, जानक का साराश निकाल दिया । उस समय का मित्रद्रोही आदमी (अब का) देवदत्त हुआ । वृक्ष देवता (अब के) साविपुत्र । सीलबनागराजा तो मैं ही था ।

७३. सच्चंकिर जातक

"सच्चंकिरेवमाहंसु..." यह (गाथा) शास्ता ने वेळुवन में विहार करने के समय, बध करने के प्रयत्न के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

धर्म-सभा में बैठे भिक्षु(-सघ) 'आवुमो ! देवदत्त, शास्ता के गुणों को नहीं जानता, (और उनके) बध करने का ही प्रयत्न करता है' (कह) देवदत्त

के भ्रवगुण कह रहे थे। शास्ता ने आकर, 'भिक्षुओ! इस समय बंटे क्या बात-चीत कर रहे थे' पूछ, 'यह बातचीत' कहने पर, 'भिक्षुओ! न केवल अभी ब्रह्मदत्त, मेरे बध का प्रयत्न करता है, (उसने) पहले भी किया था' कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में, (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, उसका बुष्टकुमार नाम का (एक) पुत्र था—परुष, कठोर, तथा ताड़ित-विपैले सर्प सदृश। वह बिना गाली दिये, बिना मारे किसी से बात ही न करता था। वह डरका कारण था और अन्दर बाहर के आदमियों को वैसे ही अच्छा न लगता था, जैसे आँख में पड़ा हुआ रज-कण, अथवा खाने के लिए आया पिन्नाच। एक दिन जल-क्रीडा करने की इच्छा से, वह अनेक अनुयायियों के साथ नदी के तट पर गया। उम समय जोर के बादल आये। चारो ओर अन्धकार छा गया। उसने नौकरो-चाकरो को कहा—'भणो! आओ। मुझे नदी के बीच में ले जाकर नहला लाओ।' वे उसे वहाँ ले जाकर, 'राजा हमारा क्या कर लेगा? हम इसे यहाँ मार डालें' सलाह कर, 'चल रे मनहूस कहीं के' (करके) उसे पानी में डुबो, (अपने) ऊपर किनारे पर आ खडे हुए। (लोगों के) 'कुमार कहाँ है?' पूछने पर, उत्तर दिया—'हम कुमार को नहीं देखते; बादल आया देख, पानी में डुबकी लगा (निकल कर) आगे चला आया होगा।'

अमात्य-जन राजा के पास गये। राजा ने पूछा—'मेरा पुत्र कहाँ है?'

'देव! हमे मालूम नहीं, 'बादल आया देख, आगे आगे चला आया होगा' (सोच) हम चले आये।' राजा ने द्वार खुलवा, नदी के किनारे जा, 'खोज करो' कह, जहाँ तहाँ खोज करवाई। किसी ने कुमार को न देख पाया। उस काली बदली और वर्षा में, नदी में बहता एक लक्कड देख, वह उसपर बैठ, मरने से भयभीत हो रोता जा रहा था।

उस समय एक बाराणसी-निवासी सेठ, नदी के किनारे चालीस करोड़ धन गाड़ कर उस धन के लोभ से, (वही) उस धन के ऊपर, सर्प होकर

उत्पन्न हुआ था। एक और (सेठ) उसी प्रदेश में तीस करोड़ धन गाड़ कर, धन-तृष्णा के कारण, वही चूहा होकर उत्पन्न हुआ था। उनके निवास-स्थान में भी पानी आ घुमा था; और वे, जिस रस्ते से पानी आया था, उसी रस्ते से निकल, (पानी की) धार को काट कर जिस लक्कड़ पर वह राज-कुमार बैठा था, उसी लक्कड़ पर पहुँच गये, और उस लक्कड़ के एक सिरे पर एक, दूसरे सिरे पर दूसरा बैठ रहा। उसी नदी के किनारे एक सेमल वृक्ष था, जिसपर एक तोते का बच्चा रहता था। वह वृक्ष भी, पानी द्वारा जड़ उखड़ जाने से उसी नदी में गिर पड़ा। पानी के बरसते रहने के कारण, वह तोते का बच्चा भी न उड़ सकने से, उस लक्कड़ के ही एक ओर जाकर लग रहा। इस प्रकार, वह चारों जने इकट्ठे बहते जा रहे थे।

बोधिमत्त्व भी उस समय काशी राष्ट्र के (एक), उदीच्छ^१ ब्राह्मण-कुल में पैदा हो, बड़े होने पर ऋषि प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित हुए थे, और नदी के मोड़ पर पर्णशाला बनाकर रहने थे। उसने आधी रात को टहलते समय, उस राजकुमार का जोर का रोने का शब्द सुना और मोचा—'मेरे मद्दय मैत्री और दया से युक्त तपस्वी के देखते देखते इस पुरुष का मरना उचित नहीं। मैं पानी में कूद कर, इसे जीवन-दान दूँगा।' उसने 'डर मत। डर मत।' का आश्वासन दिया; और पानी के स्रोत को काटते हुए जा कर, उस लक्कड़ को एक सिरे से पकड़, खँचते हुए, हाथी सदृश बल से, एक ही भटके में किनारे पर पहुँचा दिया। फिर कुमार को उठाकर, किनारे पर बिठाया। पीछे सर्पादि को भी देख, उठाकर आश्रम में ले जा, उनके लिए आग जला दी। उसने 'यह सर्पादि दुर्बल हैं' (करके) पहले उनके शरीर को सुखाया, पीछे राजकुमार के शरीर को सुखा, उसे भी आरोग्य प्रदान किया। (फिर) आहार देते समय भी, पहले सर्प आदि को ही देकर, पीछे उसके लिए फल-मूल लाकर दिये।

'यह कूट तपस्वी, मेरे राजकुमार होने का ख्याल न कर, इन पशुओं का सम्मान करता है' (सोच) राजकुमार, बोधिमत्त्व का बैरी बन गया। उसके

^१ उदीच्छ = उत्तर के

कुछ दिन बाद, जब उन सब के शरीर में ताकत आ गई, और नदी की बाढ़ उतर गई, तो सर्प ने तपस्वी को प्रणाम करके कहा—“भन्ते ! आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं दरिद्र नहीं हूँ। अमुक स्थान पर मेरा चालीस करोड़ (का) सोना गड़ा हुआ है। यदि आपको धन की आवश्यकता हो तो, मैं वह सब धन आपको दे सकता हूँ। उस स्थान पर आकर ‘दीर्घ’ कह कर पुकारना।” (कह) चला गया। चूहा भी, उसी प्रकार तपस्वी को निमन्त्रित कर ‘अमुक स्थान पर खड़े हो कर ‘उन्दुर’ कह कर पुकारना’ कह चला गया। लेकिन तोते ने तपस्वी को प्रणाम कर कहा—“भन्ते ! मेरे पास धन नहीं है। लेकिन यदि आप को रक्त वर्ण शाली (=धान) की आवश्यकता हो, तो मैं अमुक जगह रहता हूँ, वहाँ आकर ‘मुवा’ कहकर पुकारना। मैं आने रिश्तेदारों को कह कर, अनेक गाड़ी रक्त-वर्ण शाली मंगा कर दे सकता हूँ।” यह कह कर, वह भी चला गया। लेकिन वह जो मित्र द्रोही बाकी रहा, उसने यथोचित कुछ भी न कह कर ‘इसे अपने पास आने पर मरवाऊँगा’ (सोच) कहा—“भन्ते ! मेरे राजा होने पर, आप आना, मैं आन का चारो प्रस्थयो से सत्कार करूँगा।” यह कह, (वह भी) चला गया।

वह जाकर, कुछ ही समय बाद, राजा हुआ। ‘अच्छा ! परीक्षा कर्हूँ’ (सोच) बोधिसत्त्व ने, पहले, साँप के पास जाकर, नजदीक खड़े हो पुकारा—‘दीर्घ !’ उसने एक आवाज़ पर ही निकल, बोधिसत्त्व को प्रणाम कर कहा—“भन्ते ! इस जगह पर चालीस करोड़ (का) सोना है, वह सारा का सारा, निकाल कर ले।”

“अच्छा ! ऐसे ही रहे। आवश्यकता पड़ने पर देखूँगा” (कह) उसे रोक, चूहे के पास जाकर आवाज़ दी। चूहे ने भी वैसे ही किया। बोधिसत्त्व ने, उसे भी रोक, तोते के पास जाकर ‘मुवा !’ करके आवाज़ दी। उसने एक ही आवाज़ में वृक्ष पर से उतर बोधिसत्त्व को प्रणाम करके पूछा—“भन्ते ! क्या मैं अपने रिश्तेदारों को कह कर, हिमवन्त प्रदेश में आपके लिए, स्वयं उत्पन्न हुई शाली मंगवाऊँ ?”

बोधिसत्त्व ने ‘आवश्यकता होने पर देखूँगा’ (कह) उसे भी रोक। फिर ‘अब राजा की परीक्षा करूँगा’ (सोच) जाकर, राजोद्यान में रह अगले दिन वस्त्र आदि ठीक-ठाक करके, भिक्षा माँगते हुए, नगर में प्रवेश किया।

उस समय, वह मित्र-द्रोही राजा, अलंकृत हाथी के कन्धे पर बैठ, अनेक अनुयायियों के साथ नगर की सैर कर रहा था। उसने दूर से ही बोधिसत्त्व को आते देख, 'यह कूट (=बनावटी) तपस्वी, मेरे पास, (मुफ्त में) खाते हुए, रहने के लिए आ रहा है। इसमें पहले कि यह परिषद् में, मुझ पर किये अपने उपकार को प्रगट करे, मुझे इसका सिर कटवा देना चाहिए' (सोच) अपने आदमियों की ओर देखा। "देव ! क्या करें ?"

वह बोला—“मालूम होता है, यह कूट तपस्वी मुझ से कुछ माँगने के लिए आ रहा है। इस कूट तपस्वी को मेरे सामने मत आने दो, और पकड़ कर, पीछे से बाँधे बाँध कर, चौरस्तो चौरस्तों पर प्रहार देते हुए, नगर से निकालो; तथा मारने के स्थान पर ले जा, इसका सिर काट, शरीर को शूल पर चढ़ा दो।” उन्होंने 'अच्छा' कह स्वीकार किया, और जाकर, निरपराध महात्मा को बाँध, चौरस्ते चौरस्ते पर मारते हुए, बध-स्थान की ओर ले जाना शुरू किया। बोधिसत्त्व, जब जब मार पड़ती 'माँ, बाप' कुछ न चिल्ला कर, निर्विकार रह यह गाथा कहते—

सच्चं किरेवमाहंसु नरा एकच्चिया इध,
कट्ठं विप्लावितं सेय्यो नत्वेवकच्चियो नरो ॥

[कुछ (बुद्धिमान्) आदमियो ने सत्य ही कहा कि किन्ही किन्ही आदमियो को पानी से निकालने की अपेक्षा, लकड़ी का निकालना अच्छा है।]

सच्चं किरेवमाहंसु, यथार्थ ही ऐसा कहते हैं। नरा एकच्चिया इध, कुछ बुद्धिमान् आदमी। कट्ठं विप्लावितं सेय्यो, नदी में बहनी जाती सूखी लकड़ी, उबारनी = निकाल कर स्थल पर ला खनी, श्रेय है, सुन्दर तर है; ऐसे कहने वाले वह आदमी सत्य ही कहते हैं। किस कारण से ? वह यवानु भात आदि पकाने के लिए, शीत से पीडित आदमियों के तापने के लिए तथा औरों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है।

नत्वेव एकच्चियो नरो, लेकिन किमी किमी मित्र-द्रोही, अकृतज्ञ, पापी आदमी को, बाढ़ में बहे जाते हुए, हाथ से पकड़ कर उबारना अच्छा नहीं; जैसे मैंने इस पापी आदमी को उबार कर, अपने ऊपर यह दुःख ले लिया।

इस प्रकार जब जब मार पड़ती तब तब यह गाथा कहता ।

यह सुन उनमें जो पण्डित आदमी थे, उन्होंने पूछा—“भो ! प्रब्रजित ! क्या तूने हमारे राजा का कोई उपकार किया है ?”

बोधिसत्त्व ने वह हाल सुना कर कहा—‘सो ! इसे बाढ़ से निकाल कर, मैंने स्वयं ही अपने लिए दुःख लिया । मैंने पुराने बुद्धिमान् आदमियों के कथनानुकूल अचरण नहीं किया’ याद कर यह (गाथा) कहता हूँ । उसे सुन क्षत्रिय ब्राह्मण आदि नगर निवासियों ने सोचा—“यह मित्र-द्वेषी राजा, इस प्रकार के गुणवान्, अपने को प्राणदान देने वाले व्यक्ति का, उपकार मात्र भी नहीं जानता; इसके कारण हमारी क्या उन्नति होगी ?’ (यह सोच) ‘उसे धरो’ कह, क्रोध में चारों ओर से उठ खड़े हुए और उन्होंने तीर, शक्ति, पत्थर, मुद्गर आदि के प्रहार से, हाथी के कन्धे पर बैठे उसे, मार पकड़, पैरों से घसीट, खाई के ऊपर डाल दिया । (फिर) बोधिसत्त्व का अभिषेक कर, उसे राजा बना लिया ।

उसने धर्मानुसार राज्य करते हुए, फिर एक दिन सर्प आदि की परीक्षा करने के विचार से, बहुत से अनुयायियों के साथ, सर्प के निवास स्थान पर जा कर आवाज दी—“दीर्घ !” सर्प ने आकर, प्रणाम कर कहा—“स्वामी यह तुम्हारा धन है, लो ।” राजा ने चालीस करोड़ (का) सोना अमात्यों को सौंप कर, चूहे के पास जा ‘उन्दुर !’ कह आवाज दी । उसने भी आकर, प्रणाम कर, तीस करोड़ धन लाकर दिया । राजा ने वह भी अमात्यों को सौंप, तोते के निवास स्थान पर जा, ‘सुवा’ कह आवाज दी । उसने भी आकर, चरणों में प्रणाम कर पूछा—“स्वामी ! क्या शाली मँगवाऊँ ?” राजा ‘शाली की आवश्यकता होने पर, मँगवाना, आओ चले’ कह, सत्तर करोड़ (के) सोने के साथ, उन तीनों जनों को लिवा कर, नगर में पहुँचा; और श्रेष्ठ प्रासाद के महातल पर चढ़, धन को सुरक्षित रखवा, सर्प के रहने के लिए एक सोने की नाली, चूहे के लिए स्फटिक की गुफा और तोते के लिए मोने का पौंजरा बनवाया । वह सर्प और तोते के भोजन के लिए प्रतिदिन, सोने की थाली में, मीठे खील, और चूहे के लिए मुगन्धित धान्य के तण्डुल दिल-वाता तथा दान आदि पुण्य करता था । इस प्रकार वह चारो जने, आयु रहते, मिल जुलकर प्रसन्नता पूर्वक रहे; आयु के अन्त में यथा कर्म (परलोक) गये ।

शास्ता ने 'भिक्षुओ ! न केवल अभी देवदत्त मेरे बंध करने के लिए प्रयत्न करता है, (उसने) पहले भी किया है' कह, यह धर्मदेशना ला, भेल मिला, जातक का साराश निकाला। उस समय का दुष्ट राजा (अब का) देवदत्त था। सर्प (अब का) सारिपुत्र था। चूहा (अब का) भौग्गल्यायन था। तोता (अब का) आनन्द था। राज्य-प्राप्त धर्म-राजा तो मैं ही था।

७४. रुक्खधम्म जातक

“साधु सम्बहुला जाति..” शास्ता जेनवन में विहार करते थे; उस समय जाति वालों (शाक्य और कोलियो) का पानी के लिए झगडा हो गया। भगवान् उनका महाविनाश समीप आया जान, आकाश-मार्ग से जाकर, रोहिणी नदी के ऊपर पालथी मार कर बैठे और (शरीर से) नीली रश्मियाँ फैलाते जाति वालों को चकित कर, आकाश से उतर आये। फिर नदी के किनारे बैठ कर उन्होंने उस झगडे के बारे में उक्त गाथा कही। यह, यहाँ पर सक्षेप है, विस्तार कुणाल जातक^१ में आयेगा।

क. वर्तमान कथा

उस समय शास्ता ने (अपने) जातियो को सम्बोधित कर, “महाराजाओ ! तुम परस्पर नातेदार हो। नातेदारों को आपस में मिल कर, प्रसन्नता-पूर्वक रहना चाहिए। जातियों की परस्पर एकता रहने में, शत्रुओ को मौका नहीं मिलता। मनुष्यों की बात रहने दो, अचनेन वृक्षों को भी परस्पर एकता से रहने की जरूरत है। पूर्व समय में हिमवन्त प्रदेश में शालवन पर महा-वायु

^१ जातक ५३६

(=भ्रांषी) ने आक्रमण किया। लेकिन उस शालवन के वृक्ष-गाछ-गुम्फ लता आदि के एक दूसरे से सम्बद्ध रहने के कारण, वह एक वृक्ष को भी न गिरा सका और, ऊपर ही ऊपर चला गया। लेकिन उसने मैदान में खड़े (एक) शाखा-टहनी आदि से युक्त महा-वृक्ष को, दूसरे वृक्षों से असम्बद्ध होने के कारण, समूल उखाड़ कर जमीन पर गिरा दिया। इस वजह से तुम्हें भी मिल जुल कर, प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहिए' कह, उनके याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मवत्स के राज्य करने के समय, पहले का कुबेर-राजा मर गया। शक्र (=इन्द्र) ने दूसरा कुबेर स्थापित कर दिया। इस (पहले के) कुबेर के स्थानापन्न होने पर, पीछे के कुबेर ने सब वृक्ष-गाछ-गुम्फ लता आदि को संदेश भेजा कि वह जहाँ जहाँ अच्छा लगे, वहाँ वहाँ अपना अपना निवासस्थान ग्रहण कर ले।

उस समय बोधिसत्त्व, हिमवन्त प्रदेश के एक शालवन में वृक्ष-देवता होकर, उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अपने बातियों को कहा—“तुम विमान (=वास-स्थान) ग्रहण करते हुए, मैदान में (अकेले) खड़े वृक्षों पर, विमान न ग्रहण करो। इस शालवन में, जहाँ मैं विमान ग्रहण करूँ, उसके इर्द-गिर्द ही (तुम) विमान ग्रहण करो।” सो, बोधिसत्त्व की बात मानने वाले पण्डित (=बुद्धिमान्) देवताओं ने, बोधिसत्त्व के विमान को घेर कर ही, विमान ग्रहण किये। लेकिन मूर्खों ने सोचा—“हमें जंगल में विमान ग्रहण करने से क्या लाभ? हम आबादी में, ग्राम-निगम-राजधानियों के द्वारों पर विमानों को ग्रहण करेंगे। ग्राम आदि के पास रहने वाले देवताओं को लाभ तथा यश की प्राप्ति होती है।” (यह सोच) उन्होंने आबादी में खुले स्थानों में उगे महावृक्षों पर विमान ग्रहण किये।

एक दिन बड़ा भ्रांषी-पानी आया। हवा के बड़ी तेज़ होने से, जमी हुई जड़ वाले, जंगल के पुराने वृक्ष भी टहनी टूट, समूल गिर पड़े। लेकिन, एक दूसरे के आश्रित खड़े शालवन को इधर उधर से प्रहार देकर भी (भ्रांषी) एक भी वृक्ष न गिरा सकी। जिनके विमान टूट गये, उन देवताओं ने, आश्रय-

रहित हो, बच्चों को हाथ में ले, हिमवन्त जा कर, शालवन के देवताओं को अपना हाल कहा। उन्होंने उनका आना, बोधिसत्त्व से कहा। बोधिसत्त्व ने 'पण्डितों की बात न मान, अविश्वस्त स्थान पर जाने वालों का यही हाल होता है' कह, धर्मोपदेश करते हुए, यह गाथा कही—

साधु सम्बहुला वाती अपि रुक्खा अरञ्जजा,
वातो वहति एकट्ठं ब्रह्न्तम्पि वनस्पाति ॥

[वातियों का सम्मिलित रहना श्रेयस्कर है, अरण्य में उत्पन्न होने वाले वृक्षों तक का भी। क्योंकि महा-वृक्ष तक को अकेले खड़े होने पर, हवा उड़ा ले जाती है।]

सम्बहुला वाती, चार से ऊपर ... एक लाख तक भी वाती (=नाते दार) सम्बहुला ही (कहलाते हैं)। इस प्रकार सम्बहुला का अर्थ है, एक दूसरे के आश्रित बसे हुए वातिगण। साधु =शोभायमान =प्रशंसित; मतलब, दूसरों से अनिन्दित। अपि रुक्खा अरञ्जजा, मनुष्यों की बात रहे, जंगल में उत्पन्न हुए वृक्ष भी, एक दूसरे के आश्रय से ही अच्छी तरह खड़े रहते हैं। वृक्षों के लिए भी विश्वस्तता आवश्यक है। वातो वहति एकट्ठं, पूर्वा आदि हवा चलने पर, मैदान में स्थित एकट्ठं, (=अकेले खड़े) ब्रह्न्तम्पि वनस्पाति, शाखा-टहनी से युक्त महावृक्ष को भी, उड़ा ले जाती है; उखाड़ कर गिरा देती है।

बोधिसत्त्व यह बात कह, आयु क्षय होने पर, कर्मानुसार, परलोक गये। शास्ता ने भी, 'महाराजाओं! इस प्रकार वातियों को मिलकर ही रहना चाहिए। सो, आप, मेल से, प्रसन्नचित्त, खुशी से रहे।'—यह धर्म-देशना जा, जातक का सारांश निकाल दिया।

उस समय के देवता (अब की) बुद्ध परिपद् हुईं। लेकिन पण्डित-देवता में ही था।

७५. मच्छ जातक

“अभित्यनय पञ्जन्न...” यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, अपनी बरसाई हुई वर्षा के बारे में कही।

क. वर्तमान कथा

एक समय कोसल देश में वर्षा न बरसी। खेतियाँ कुम्हला गईं। जहाँ तहाँ स्थित तालाब, पुष्करिणियाँ सूख गईं। जेतवन के फाटक (द्वार-कोट्ट) के पास की जेतवन-पुष्करिणी का पानी भी छीज गया। कौए नील आदि (पक्षी) गहरे कीचड़ में जाकर पड़े हुए, मछली, कछुओं को तीर की नोक जैसी अपनी तीखी चोंच से मार मार कर, ले जाकर, चिल्लाते हुए खाने लगे। मछली कछुओं के उस दुःख को देख, महाकरुणा से बुद्ध का हृदय द्रवीभूत हो गया, और वह सोचने लगे—“आज मुझे वर्षा बरसानी चाहिए।” (यह सोच) रात्रि के प्रभात होने पर, उन्होंने शारीरिक कृत्य समाप्त किया। भिक्षा-चार के समय का ख्याल कर, महान् भिक्षु-सघ को साथ ले, बुद्ध-लीला से उन्होंने आबस्ती में भिक्षाटनके लिए प्रवेग किया। भिक्षाटन कर भोजन से निवृत्त हो लौट, आबस्ती से बिहार को जाते हुए जेतवन-पुष्करिणी की सीढ़ी पर खड़े हो कर आनन्द स्थविर को आमन्त्रित किया—“आनन्द ! नहाने का वस्त्र ले आ। जेतवन-पुष्करिणी में नहाऊँगा।”

“भन्ते ! क्या जेतवन-पुष्करिणी में पानी खतम नहीं हो गया ? क्या केवल कीचड़ बाकी नहीं रह गया ?”

“आनन्द ! बुद्ध-वल महान् वल है। जा, तू नहाने का वस्त्र ले आ।”

स्थविर ने (कपड़ा) लाकर दिया। शास्ता (वस्त्र के) एक सिरें को (कंधे पर) रख, दूसरे सिरें को बदन पर पहन जेतवन-पुष्करिणी में नहाने की इच्छा से सीढ़ी पर खड़े हुए।

उसी समय शक्र का पाण्डु कम्बल शिलासन गर्भ हुआ। उसने 'क्या कारण है?' सोचते हुए उस कारण को जान प्रजुह^१ (= वर्षा के बादलों के देवता) देवपुत्र को बुलवा कर कहा—“तात! शास्ता जेतवन-पुष्करिणी में स्नान की इच्छा से सबसे ऊपर की सीढ़ी पर खड़े है। तू, जल्दी से वर्षा बरसा कर, सारे कोसल देश को जलमय कर दे।” वह 'अच्छा' कह स्वीकार कर, एक बादल को (कंधे पर) रख, एक बादल को पहन, मेघ-गीत गाते हुए, पूर्व दिशा में जा कूदा। पूर्व दिशा में उसने खलियान जितना (बड़ा) एक बादल का टुकड़ा उठाया; फिर उभे सैकड़ों गुणा, सहस्र गुणा कर, फँला, बिजली चमकाते हुए, नीचे मुँह करके रखे घड़े की तरह, बरसते हुए, सारे कोसल राष्ट्र को, समुद्र की तरह पानी से सराबोर कर दिया। देव ने मूसलाधार बरसते हुए, जरा ही देर में जेतवन की पुष्करिणी को भर दिया। पानी, ऊपर की सीढ़ी तक चला आया।

शास्ता पुष्करिणी में स्नान कर, रक्त-वर्ण वस्त्र धारण कर, कमर-पट्टी (= काय-बन्धन,) बाँध, सुगन का महाचीवर एक कंधे पर रख, भिक्षुसंघ सहित गन्धकुटी परिवेण में गय, और श्रेष्ठ, बिछे, बुद्धासन पर बैठ, भिक्षुसंघ के अपना अपना सम्मान प्रदर्शन करने पर, उठ, मणिमय सीढ़ी के फट्टे पर खड़े हो, भिक्षुसंघ को उपदेश दिया, उत्साहित किया, फिर सुगन्धित गन्धकुटी में चले गये। वहाँ, दक्षिण पासे पर, सिंह-शय्या में शयन करके, शाम को धर्म सभा में एकत्रित हुए भिक्षुओं के, 'आवुसो! दश-बल की क्षान्ति, मैत्री तथा दया (रूपी) सम्पत्ति को देखो। अनेक खेलों के कुम्हलाने पर, नाना जलाशयों के सूख जाने पर, मछलियों-कछुओं के अत्यन्त दुख पाने पर, वह करुणा से प्रेरित हो जन(-समूह) को दुख से मुक्त करने की इच्छा से स्नान-वस्त्र ले, जेतवन की पुष्करिणी की सब से ऊपर की सीढ़ी पर खड़े हुए और जरा सी देर में, सारे कोसल देश को महा समुद्र में डबाते हुए की तरह वर्षा बरसा कर, जन(-समूह) को शारीरिक तथा मानसिक दुख से मुक्त कर, बिहार में प्रवेश किया'—यह कथा, कहते समय, (भगवान

^१ पर्जन्य देवता

ने) गन्धकुटी से निकल, धर्म सभा में आकर पूछा—“भिक्षुओ ! इस समय, बैठे क्या बातचीत कर रहे थे ?”

“यह कथा,” कहने पर (शास्ता ने) “भिक्षुओ ! न केवल अभी तथागत ने जन-(समूह) को दुख पाते देख वर्षा बरसाई । पहले पशु योनि में उत्पन्न हो, मत्स्य-राजा रहने के समय भी वर्षा बरसाई थी” कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में इसी कोसल देश में, इसी श्रावस्ती में, इसी जंतवन पुष्करिणी की जगह, घनी लताओं से घिरी हुई एक कन्दरा थी । उस समय बोधिसत्व मछली की योनि में उत्पन्न हो, मछली गण में घिरे हुए वहीं रहते थे । जैसे अब, इसी प्रकार उस समय भी, देश में वर्षा नहीं हुई । मनुष्यों के खेत कुम्हला गये । वापी आदि में पानी सूख गया । मछली-कछुवे गाढ़े कीचड़ में घुस गये । इस कन्दरा की मछलियाँ भी, गहरे कीचड़ में घुस जहाँ तहाँ छिप गईं । कीचड़ आदि, चोंच से उन्हें मार मार कर, ले जा कर खाने लगे ।

बोधिसत्व ने जाति-संघ (—भाई बिरादर) का दुख देख, सोचा—“मुझे छोड़, और कोई इन्हें दुःख से मुक्त नहीं कर सकता । सो, मैं सच्च-किरिया कर, देव (—वर्षा) को बरसा, जानियो को मृत्यु-दुःख से मुक्त करूँगा ।” (यह सोच) काले काले कीचड़ को बीच में में फाड़, (बाहर) निकल, (उस) सुरमे के रंग के महामत्स्य ने स्वच्छ रक्तवर्ण मणि जैसी आँखों को खोल, आकाश की ओर देख, पर्जन्य देवपुत्र देवेन्द्र को आवाज दी, “भो । पर्जन्य ! मैं (अपने) भाई-बिरादरों के कारण दुखी हूँ । तू मेरे (सदृश) सदाचारी के दुख पाते हुए भी, किस लिए वर्षा नहीं बरसाता है । मैं ने आपस में एक दूसरे को खानेवाली योनि में उत्पन्न होकर भी, चावल भर माँस तक नहीं खाया, और भी मैं ने किसी प्राणी की हिंसा नहीं की । (मेरे इस) सत्य (बल) से, वर्षा बरसा कर, मेरे भाई-बिरादरी को दुख से मुक्त कर”

‘अपने सच्चाई की दापय खाकर किसी की हितकामना करना ।

कह, (अपने) सेवक को आज्ञा देने की तरह आज्ञा देते हुए पर्जन्य देवपुत्र को सम्बोधित कर यह गाथा कही—

अभित्यनय पञ्जुभ्र ! निधि काकस्स नासय,
काकं सोकाय रन्धेहि मञ्च सोका पमोचय ॥

[पर्जन्य ! गर्ज; कौश्रों की निधि का नाश कर; कौश्रों को शोक में लपेट और मुझे शोक से मुक्त कर ।]

अभित्यनय पञ्जुभ्र, 'पञ्जुभ्र' कहते हैं मेघ को। मेघ होने से, बरसने वाले बादलों के देवता को इम नाम से सम्बोधित किया गया है। यही इसका अभिप्राय है। बिना गरजे, बिना विजली चमकाये, केवल बरसने से 'देव' नाम शोभा नहीं देता, इस लिए तू गरजने हुए, विजली चमकाते हुए बरस। निधि काकस्स नासय, कौए, कीचड़ में पड़ी हुई मछलियों को मार मार ले जाकर खाते हैं, इस लिए कीचड़ में पड़ी मछलियों को उन (कौश्रों) की निधि (=खजाना) कहा गया है। उम कौश्रों की निधि को वर्षा बरसा कर, पानी से ढक कर, नाश कर। काकं सोकाय रन्धेहि, काक-समूह, इम कन्दरा के पानी से भर जाने पर, मछलियों के न मिलने में शोक को प्राप्त होगा। सो, तू इम कन्दरा को पानी से भर कर, काक-सघ को शोक में लपेट, शोक-प्राप्त कर। अर्थात् जैसे (वे) भीतर जला देने वाले शोक को प्राप्त हो, वैसा कर। मञ्च सोका पमोचय, यहाँ 'च' जोड़ने के लिए है, सो मुझे और मेरे भाई-विरादरी को इस मृत्यु-भय से मुक्त कर। इस प्रकार बोधिसत्व ने (अपने) सेवक को आज्ञा देने की भाँति, पर्जन्य को कह, सारे कोसल देश में भारी वर्षा बरसवा, जन-समूह को मृत्यु-भय से मुक्त किया, और आयु (=जीवन) की समाप्ति पर वह यथा-कर्म (परलोक को) गये।

शास्ता ने, 'भिक्षुओ ! न केवल अभी तथागत ने वर्षा बरसाई है, पूर्व समय में मत्स्य योनि में उत्पन्न होकर भी बरसाई थी' कह, इस धर्मदेशना को ला कर, मेल मिला, जानक का साराश निकाल दिया।

उस समय की मत्स्य-मण्डली (अब की) बुद्ध-गरियद् थी। पर्जन्य देवता (अब के) आनन्द स्थविर थे। मत्स्य-राज तो में ही था।

७६. असंकिय जातक

असंकियोन्ह गामन्हि” यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक श्रावस्ती वासी उपासक के बारे में कही।

क. वर्तमान कथा

वह (उपासक) स्रोतापन्न, आर्यश्रावक था। (एक बार) बैल गाड़ियों के बंजारो (शकट-साथवाह) के साथ वह यात्रा कर रहा था। उस समय, जंगल में बैलो को खोल, तम्बू लगाने पर, वह, कारवाँ से कुछ दूर, एक वृक्ष के नीचे टहलने लगा। अपना मौका देख, पाँच सौ चोरों ने पडाव को लूटने की इच्छा से, धनुष, मुद्गर आदि (शस्त्र) हाथ में ले, उस स्थान को घेर लिया। उपासक भी टहल रहा था। चोरों ने उसे देख, सोचा—“यह, अवश्य पडाव का पहरेदार होगा। इस के सोने पर लूटेगे।” (यह सोच) वह लूटने का मौका न पाते हुए जहाँ तहाँ खड़े रहे। वह उपासक, प्रथम याम (=पहर) में, मध्यम याम में, तथा आखिरी याम में भी टहलता ही रहा। प्रातः हो जाने से, चोर मौका न पा, हाथ में के पत्थर, मुद्गर आदि को छोड़ भाग गये। उपासक ने अपना काम समाप्त कर, फिर श्रावस्ती लौटकर, शास्ता को प्रणाम कर पूछा—“भन्ते! क्या अपनी रक्षा करने वाले दूसरों के (भी) रक्षक होते हैं?”

“उपासक! हाँ! अपनी रक्षा करने वाला, दूसरो की रक्षा करता है, दूसरों की रक्षा करने वाला, अपनी रक्षा करता है।”

उसने कहा—“भन्ते! आप का कथन ठीक है। मैं ने एक काफले के साथ रास्ता चलते, वृक्ष के नीचे टहलते हुए, अपनी रक्षा करने के विचार से सारे कारवाँ की रक्षा की।”

शास्ता ने, “उपासक ! पूर्व समय में भी, अपनी रक्षा करते हुए पण्डितों ने, दूसरों की रक्षा की है” कह, उसके प्रार्थना करने पर, पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में (राजा) ब्राह्मवस्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्व ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुए। जवान होने पर, काम-भोग (के जीवन) में दोष देख ऋषी-प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित हो वह हिमालय चले गये। वहाँ से खट्टा-नमकीन सेवन करने के लिए बस्ती में आये, और बस्ती में विचरते, एक कारवाँ के साथ साथ मार्ग चलने लगे। कारवाँ के, एक जगल में पड़ाव डालने पर, वह, कारवाँ के समीप, एक वृक्ष के नीचे ध्यान-सुख में समय बिताने हुए टहलने लगे। सो शाम का भोजन खा चुकने के समय, पाँच सौ चोरों ने उस कारवाँ को लूटने की इच्छा से आकर घेर लिया। उस तपस्वी को टहलते देख कर, उन्होंने सोचा—“यदि यह हमें देख लेगा, तो कारवाँ का कह देगा। सो इसके सोने के समय लूटेंगे।” (यह सोच) वह बड़ी खड़े रहे। तपस्वी सारी रात टहलता ही रहा। चोर मीक़ा न मिलने पर, हाथ में के मुद्गर, पाषाण आदि को छोड़, चले गये; और जाते जाते कह गये—“ओ ! काफ़ले वालो ! यदि आज यह वृक्ष के नीचे टहलने वाला तपस्वी न रहता, तो (तुम) सब लूट लिये जाते। कल, तपस्वी का महान् सत्कार करना।” उन्होंने रात के बाद प्रभात होने पर, चोरों के छोड़े हुए मुद्गर, पाषाण आदि देख, भयभीत हो, बोधिसत्व के पास जा, प्रणाम कर, पूछा—“भन्ते ! आपने चोरो को देखा ?”

“हाँ ! आवुसो ! देखा।”

“भन्ते ! इतने चोरो को देख कर, भय या डर नहीं लगा ?”

बोधिसत्व ने कहा—“आवुसो ! घनी (आदमी) को चोरों से भय होता है। मैं निर्धन हूँ। सो, मैं किस लिए डरूँगा ? मुझे, गाँव में रहते हुए, वा जंगल में रहते हुए न कोई भय है, न डर है।” यह कह, उन्हें धर्मोपदेश करते हुए, यह गाथा कही—

असङ्ख्योमिह गाममिह अरञ्जे नत्थि मे भवं ,
उज्जमगं समाख्ख्हो मेत्ताय करुणाय च ॥

[मैं ग्राम में भय रहित हूँ; जंगल में मुझे भय नहीं है। मैं मंत्री और करुणा से युक्त, सीधे मार्ग का पथिक हूँ।]

असङ्ख्योमिह गाममिह, शंका में नियुक्त, प्रतिष्ठित, =शंका-युक्त (=सङ्ख्यो); न सङ्ख्यो=आशङ्का-रहित (=असङ्ख्यो)'; मैं ग्राम में रहता हुआ भी शङ्का में अप्रतिष्ठित होने से, आशङ्का-रहित (असङ्ख्यो) निर्भय, निःशङ्का हूँ। अरञ्जे ग्रामोपचार से रहित स्थान में (=जंगल में)। उज्जमगं समाख्ख्हो मेत्ताय करुणाय च; मैं तृतीय, चतुर्थ ध्यान सम्बन्धी मंत्री, करुणा से युक्त, तथा शारीरिक कुकर्म से विरहित, ऋजु, सीधे, ब्रह्मलोक के मार्ग पर आरूढ़ हूँ। अथवा शील शुद्ध होने से, शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक टेढ़ेपन से रहित, ऋजु, देवलोक-गामी मार्ग पर आरूढ़ हूँ। और भी, मंत्री तथा करुणा में प्रतिष्ठित होने से ऋजु, ब्रह्मलोक गामी मार्ग पर आरूढ़ हूँ। ध्यान-प्राप्त (मनुष्य) के निश्चय-पूर्वक ब्रह्मलोक गामी होने के कारण, मंत्री करुणा आदि को ऋजु-मार्ग कहा गया है।

इस प्रकार बोधिसत्व ने इस गाथा में धर्मोपदेश कर, उन संतुष्ट-चित्त मनुष्यों से सत्कृत हो, पूजित हो, आयु रहते चारों ब्रह्म-विहारों की भावना कर, ब्रह्मलोक में जन्म लिया।

शास्ता ने इस धर्मदेशना को ला, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय के कारवाँ-वाले अब की बुद्ध-परिषद् थे। लेकिन तपस्वी मैं ही था।

७७. महासुपिन जातक

लक्ष्मिनी सीदन्ति..." यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, मोलह महास्वप्नों के बारे में कही।

क. वर्तमान कथा

एक दिन कोसल महाराजा ने सोते समय, (रात्रि के) आखिरी पहर में मोलह महास्वप्न देखे, जिनमें भय-भीत, चकित, हो जागकर, 'इन स्वप्नों को देखने के कारण मुझे क्या (भुगतना) होगा?' (सोच), मृत्यु-भय से डर कर शय्या पर बैठे ही बैठे (रात्रि) बिनाई। रात्रि का प्रभात होने पर, ब्राह्मण पुत्रोद्दितां ने उन के पाम आकर पूछा—“महाराज! सुख से तो सोये?”

“आचार्य्यो! मुझे, सुख कहाँ! आज प्रातःकाल, मैं ने सोलह महा-स्वप्न देखे। उनके देखने के समय से, मैं भय-भीत हूँ। आचार्य्यो! (कुछ) कहो।” उनके ‘(स्वप्नों को) सुनकर, बतलायेंगे’ कहने पर, राजा ने उन देखे स्वप्नों को कह, पूछा—‘इन स्वप्नों को देखने के कारण मुझे क्या (भुगतना) होगा?’

ब्राह्मणो ने हाथ मले।

“आप किसलिए हाथ मल रहे हैं?”

“महाराज! स्वप्न अच्छे नहीं।”

“तो इनका क्या फल होगा?”

“राज्य को खतरा, जीवन का खतरा तथा भोग-सम्पत्ति का खतरा—इन तीन खतरों में से कोई एक होगा।”

“यह स्वप्न स-उपाय (==सर्पाटकम्म) हैं, अथवा निरुपाय?”

“यद्यपि अपनी कठोरता के कारण, यह (स्वप्न) निरुपाय हैं, तो भी हम

इनका उपाय करेगे, यदि हम इनका कुछ उपाय न कर सकें, तो हमारी विद्या किस काम आयेगी ?”

“इनका उपाय कैसे करोगे ?”

“महाराज ! चारों (चीजों) से यज्ञ करेगे।”

राजा बोला—“अच्छा ! तो आचार्य्यों, मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है, शीघ्र ही मुझे निरुपद्रव (=स्वस्थ) करो।”

‘बहुत धन मिलेगा, बहुत खाद्य-भोज्य ले जायेगे’ सोच प्रसन्न चित्त हो ब्राह्मण, ‘महाराज ! चिन्ता न करे’ कह, राजा को आश्वासन दे, राज-भवन से निकले। उन्होंने नगर के बाहर यज्ञ-कुण्ड बनवा, बहुत से पशुओं को यज्ञ-यूप से बंधवाया; (तथा) पक्षी-गणों को मँगावा, ‘यह चाहिए, यह चाहिए, करके बार बार, आवा जाही करने लगे। मल्लिका देवी ने उस बात को जान, राजा के पास जाकर पूछा—“महाराज ! ब्राह्मण किस लिए आवा जाही कर रहे हैं ?”

“तू (अपने) सुख से है। हमारे कान के पास विपैला सर्प घूम रहा है, सो भी नहीं जानती।”

“महाराज ! यह क्या ?”

“मैंने ऐसा दुस्स्वप्न देखा है, ब्राह्मणों का कहना है कि तीन खतरो मे से एक खतरा दिखाई देता है, सो ‘उसे रोकने के लिए यज्ञ करेगे’ (करके) वह बारबार आवा जाही कर रहे हैं।”

“महाराज ! क्या आपने देवताओं सहित सारे लोक में अग्र-ब्राह्मण से स्वप्न का प्रतिकार पूछा ?”

“भद्रे ! देवताओं सहित सारे लोक में यह अग्र-ब्राह्मण कौन है ?”

“देवता सहित सारे लोक में, पुरुषोत्तम, सर्वज्ञ, विशुद्ध, क्लेश (= विकार)-रहित महा-ब्राह्मण को तुम नहीं जानते ? महाराज ! जाओ, वह भगवद्गुण स्वप्नों के भेद को जानते हैं, उन्हें पूछो।”

“देवी ! अच्छा” कह, राजा, बिहार जा, शास्ता को प्रणाम करके बैठे।

शास्ता ने मधुरवाणी से पूछा—“क्यों महाराज ! आज कैसे सवेरे ही आये ?”

“भन्ते ! मैंने आज ही तड़के ही, सोलह महास्वप्न देखकर, भय-भीत हो ब्राह्मणों से पूछा।” ‘महाराजा ! स्वप्न, अशुभ (=कक्खल) हैं, इनके प्रतिघात के लिए, चारो (चीजों) से यज्ञ करेगे’ (करके) वह यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से प्राणी मरने के भय से भयभीत हैं। आप देवताओं सहित सारे लोक में सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। अतीत-भविष्य-वर्तमान, कोई ऐसी बात नहीं है, जो आपके ज्ञान से अगोचर हो। भगवान् ! मुझे इन स्वप्नों का फल कहें।”

“महाराज ! ऐसा ही है, मुझे छोड़, देवताओं सहित सारे लोक में कोई भी, इन स्वप्नों का भेद या फल नहीं जान सकता। मैं तुम्हें बताऊँगा, लेकिन, (पहले) तू जैसे देखा है, वैसा ही, उन स्वप्नों को बयान कर।” ‘भन्ते ! अच्छा’ कह, राजा ने जैसे जैसे देखा था, वैसे ही कहते हुए, इस प्रकार कहा—

उसभा रुक्खा गाबियो गवा च
अस्तो कंसो सिगाली च कुम्भो
पोक्खरणी च अपाकचन्दनं
लापूनि सीदन्ति सिला प्लवन्ति
मण्डूकियो कण्हसप्ये गिलन्ति;
काकं सुवण्णा परिवारयन्ति
तसावका एळकानं भया हि ॥

[साँड़, वृक्ष, गीवें, बैल, घोड़ा, काँसा, स्यारी, घड़ा, पुष्करिणी, अपक्व चन्दन, तूँबे डूबते हैं, शिलाये तैरती हैं, मण्डूकियाँ काले सर्पों को निगलती हैं, राज-हंस कौओं के पीछे चलते हैं, भेड़िए वकरियो से डरते हैं ।]

“कैसे ? भन्ते । एक स्वप्न तो ऐसे देखा—सुरमे जैसे काले चार साँड़ (=लडने की इच्छा से चारों दिशाओं से राजाङ्गण में आये। बैलों की लड़ाई देखने की इच्छा से, जन-समूह) के एकत्रित होने पर, लडने का ढंग दिखा, नादकर, गर्जना कर, बिना लडे ही वह वापिस लौट गये। यह स्वप्न देखा। इसका क्या फल है ?”

“महाराज ! इस स्वप्न का फल न तरे समय में होगा, न भेरे समय में, किन्तु भविष्य में अर्धामिक, कजूस राजाओं तथा अर्धामिक मनुष्यों के समय में

(होगा) । लोक के बदलने पर, धर्म के घटने पर, अधर्म के बढ़ने पर, लोक की अवनति होने के समय, अच्छी तरह वर्षा नहीं बरसेगी, बादल फट जायेंगे, खेत कुम्हला जायेंगे, अकाल पड़ेगा । बादल, जैसे बरसने वाले हो, वैसे चारों दिशाओं से उठेंगे । स्त्रियाँ धूप में फैलाये हुए धान्य आदि भीगने के डर से अन्दर ले जाने लगेंगी । आदमी टोकरी-कुदाली हाथ में लेकर मेड़ बाँधने के लिए निकलेंगे । (फिर वह बादल) बरसने का ढंग दिखा गरज कर, बिजली चमका कर, उन बँलों की तरह बिना लड़े (अर्थात्) बिना बरसे ही भाग जायेंगे । यह इसका फल होगा । लेकिन इसके कारण, तुम्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं है । यह जो स्वप्न देखा है, सो यह भविष्य-सम्बन्धी है । ब्राह्मणों ने जो कहा है, सो अपनी जीविका-वृत्ति के लिए कहा है ।”

इस प्रकार शास्ता ने स्वप्न का फल बतला कर कहा—“महाराज ! दूसरा स्वप्न कहे ।”

“भन्ते ! दूसरा (स्वप्न) इस प्रकार देखा—‘पृथ्वी से निकलते ही गाछ वृक्ष, एक या दो बालिस्त के होने से भी पहले ही फलने फूलने लगे । यह दूसरा स्वप्न देखा, इसका क्या फल है ?”

“महाराज ! इसका भी फल, लोक की अवनति होने तथा मनुष्यों की आयु कम (=परिमित) होने पर होगा । भविष्य के प्राणी बड़े रागी होंगे । कुमारियाँ आयु-प्राप्त होने से पहले ही, आदमियों से समर्ग कर, ऋतुमती तथा गर्भिणी हो, बेटा-बेटी की वृद्धि करेगी । क्षुद्र वृक्षों के पुष्पित होने की तरह ही, उनका ऋतुमती होना है, और फलित होने की तरह बेटा-बेटी वाली होना है । इसके कारण भी, महाराज ! तुम्हें खतरा नहीं । तीसरा स्वप्न कहें ।”

“भन्ते ! उसी दिन उत्पन्न (अपनी) बछड़ियों का दूध गोवें पी रही थी । यह मेरा तीसरा स्वप्न है । इसका क्या फल है ?”

इसका भी फल भविष्य में जब मनुष्य बड़ों का आदर-सत्कार करना छोड़ देंगे, तभी होगा । भविष्य में लोग, मातापिता तथा सास ससुर के प्रति निर्लज्ज हो, अपने आप ही कुटुम्ब का पालन करेंगे । बड़े बूढ़ों को खाना कपड़ा देने की इच्छा रहेगी देगे, न देने की इच्छा रहेगी नहीं देगे । वृद्ध जन अनाथ हो, पराधीन हो, बच्चों को संतुष्ट करके जीवित रह सकेंगे, जैसे उसी

दिन उत्पन्न हुई बछड़ियों का दूध पीती गीबें। इसके कारण भी, तुम्हें खतरा-नहीं है, चौथा (स्वप्न) कहें।”

“भन्ते ! उठाने ढोने की सामर्थ्य रखने वाले, महाबैलों को युग-परम्परा में न जोत कर, तरुण बछड़ों के धुरि में जोते जाते देखा; वे धुर को न खींच सकने के कारण छोड़ कर खड़े हो गये, गाड़ियाँ न चली। यह मैंने चौथा स्वप्न देखा। इसका क्या अर्थ है ?”

“इसका भी फल, भविष्य में अधार्मिक राजाओं के ही समय में होगा। भविष्य में, अधार्मिक कृपण राजा, पंडितों को, परम्परागत दक्षों को, कार्य्य सम्पादन करने की सामर्थ्य रखने वालों को, महाबुद्धिमानों को यश न देगे और धर्मसभा तथा न्यायालयों में भी पंडित, व्यवहार कुशल, वृद्ध भ्रमात्य को नहीं रखेंगे, किन्तु इसके विरुद्ध तरुण तरुणों को यश देगे, और वैसे को ही न्यायालयों में रखेंगे। वे राज कार्य्य तथा योग्य अयोग्य के न जानने के कारण, न तो उस यश को रख सकेंगे, न ही राज-कार्य्य का बड़ा पार लगा सकेंगे। न कर सकने पर वह कार्य्य (—धुर) को छोड़ देंगे। वृद्ध-पंडित भ्रमात्य यश के न मिलने पर, कार्य्य सम्पादन कर सकने की सामर्थ्य रखने पर भी, सोचेंगे—“हमें इससे क्या ? हम बाहर के हो गये, अन्दर वाले तरुण लड़के जाने।” (यह सोच) वह, जो जो काम पड़ेंगे, उन्हें नहीं करेंगे। इस प्रकार सर्वत्र उन राजाओं की हानि ही होगी। सो यह धुरि खींचने में असमर्थ बछड़ों को धुरे में जोतने, और धुग खींचने में समर्थ महाबैलों को युग परम्परा से न जोतने के जैसा होगा। इसके कारण भी, तुम्हें कोई खतरा नहीं। पाँचवाँ (स्वप्न) कह।”

“भन्ते ! एक दोनो और मुँह वाले घोड़ों को देखा। उसे दोनो और से चारा दिया जाता था, और वह दोनो मुखों से खाता था। यह मेरा पाँचवाँ स्वप्न है। इसका क्या फल है ?”

“इसका भी फल, भविष्य में अधार्मिक राजाओं के ही समय में होगा। भविष्य में अधार्मिक मूर्ख राजा, अधार्मिक लोभी मनुष्यों को न्यायाधीश बनायेंगे। वे मूर्ख पाप-पुण्य का भेद न कर, सभा में बैठ न्याय करते हुए, दोनो प्रत्यर्थियों से रिश्वत लेकर स्थायेंगे, जैसे कि उस घोड़ों का दोनो मुँह से चारा खाना। इससे भी, तुम्हें खतरा नहीं है, छठा (स्वप्न) कह।”

“भन्ते ! बहुत से आदमी, लाख (मुद्रा) के मूल्य की एक सोने की थाली को मांज कर लाये, और उसमें पेशाब करने के लिए एक बूढ़े गीदड़ के सामने रक्खा। (मैंने) उसे उसमें पेशाब करते देखा। यह मेरा छठा स्वप्न है। इसका क्या फल है ?”

“इसका भी फल, भविष्य में ही होगा। भविष्य में अधार्मिक, विजातीय राजा, जाति-सम्पन्न कुलपुत्रों पर शंका करके, उन्हें यश (=दर्जा) न दंगे; अकुलीनों की ही उन्नति करेगा। इस प्रकार ऊँचे ऊँचे कुल दुर्गति को प्राप्त होगा और नीच-कुल ऐश्वर्य्य को। वे कुलीन पुरुष उपाय न देख जीविका प्राप्त करने की इच्छा से इन पर निर्भर होकर जीये, (सोव), अकुलीनों को (अपनी) लड़कियाँ देगे। सो यह उन कुलीन लड़कियों का अकुलीनों के साथ सहवास, वृद्ध शृगाल के सोने की थाली में पेशाब करने के सदृश होगा। इसके कारण भी, तुम्हें खतरा नहीं। सातवाँ (स्वप्न) कह।”

“भन्ते ! एक आदमी रस्सी बाँट बाँट कर पैरों में डालता था। वह, जिस पीढ़े पर बैठा था, उसके नीचे बैठी एक भूखी गीदड़ी, उस (आदमी) को बिना ही पता लगे, उस (रस्सी को) खा रही थी। मैंने ऐसा देखा। यह मेरा सातवाँ स्वप्न था। इसका क्या फल होगा ?”

“इसका भी फल, भविष्य में ही होगा। भविष्य में स्त्रियाँ, पुरुष-लोभी, शराब (=सुरा) लोभी, आभरण-लोभी, (रात को) बाजारों में घूमने की लोभी, लौकिक-चीजों की लोभी तथा दुश्शील दुराचारिणी होंगी। वे स्वामी के खेती गोरक्षा आदि कर्म से, बड़ी कठिनाई से कमाये धन को जारों के साथ शराब पीकर, माला-गन्ध-विलेपन लगाकर (नाश कर देगी)। वे घर के अन्दर के अत्यन्त आवश्यक कार्य्य का भी ध्यान न रखेंगी, और घर की चहर दीवारी के ऊपर से, छिद्रों तक में से (अपने) जार को देखेंगी। (वे) कल बोन के लिए रखे हुए बीज को भी कूट कर, उसका यवागु-भस्म-खाजा आदि बना, खाकर उड़ा देगी, जैसे कि वह पीढ़े के नीचे पड़ी भूखी गीदड़ी, बाँट बाँट कर पैरों में रक्खी जाती रस्सी को। इससे भी तुम्हें खतरा नहीं। आठवे (स्वप्न) को कह।”

“भन्ते ! राज द्वार पर, बहुत से खाली घड़ों के बीच में रखे हुए, एक बड़े से भरे हुए घड़े को देखा। चारों वर्णों के लोग चारों दिशाओं

से तथा चारों अनुदिशाओं से, घड़ों में जल ला ला कर, उस भरे हुए, घड़े को ही भरते थे। लबालब भरा पानी, किनारो पर से होकर गिरता जाता था, लेकिन फिर भी बार बार उसीमें पानी डाल रहे थे। खाली घड़ों की ओर, कोई देखता तक न था। यह मेरा आठवाँ स्वप्न है। इसका क्या फल होगा ?”

“इसका फल भी, भविष्य में ही होगा। भविष्य में लोक की भवनति होगी। राष्ट्र सार-रहित हो जायेगा। राजा, दुर्गत, कृपण हो जायेंगे। जो ऐश्वर्य शाली होगा, उसके खजाने में केवल एक लाख कार्षापण रहेंगे। इस प्रकार दुर्गत को प्राप्त हो, वह, सब जनपद-वासियों से अपना ही काम कर-वायेगे। पीड़ित मनुष्य अपने काम-काज छोड़ कर राजाओं के ही लिए पूर्व-अन्न, अपर-अन्न (आषाढी-श्रावणी) बोते, राखी करते, काटते, दलाई करते, ढुवाते, ऊख की खेती करने, यन्त्र बनाते, यन्त्र चलाते, गुड़ आदि पकाने पुष्पोद्यान तथा फलोद्यान लगाते, वहाँ वहाँ उत्पन्न पूर्व-अन्न आदि को लाकर, राजा के कोठो को ही भरेगे। अपने घरों के खाली कोठो की ओर देखेंगे तक नहीं। यह ऐसा ही होगा, जैसे खाली घड़ों की ओर न देख कर, भरे घड़ों को ही भरना। इस कारण से भी, तुम्हें खतरा नहीं। नवाँ (स्वप्न) कह !”

“भन्ते ! पाँचों पक्षों से आच्छन्न, गम्भीर सब ओर तीर्थ (पत्तन) वाली, एक पुष्करिणी देखी। चारों ओर में द्विपद-चतुष्पद उतर कर, उसमें पानी पीते थे। उसके बीच में गहराई में (तो) पानी गदला था, (लेकिन) किनारे पर, द्विपद-चतुष्पदों के आने-जाने की जगह में उसे शुद्ध, स्वच्छ तथा साफ ही देखा। यह मेरा नौवाँ स्वप्न है। इसका क्या फल है ?”

“इसका भी फल, भविष्य में ही होगा। भविष्य में राजा अधार्मिक होंगे। पक्षपात पूर्वक राज्य करेंगे। धर्मानुकूल न्याय न करेंगे। रिश्वत लेने वाले होंगे। (उन्हें) धन का लोभ (होगा)। प्रजा (=राष्ट्र वासियों) के प्रति, उनकी क्षान्ति, मैत्री, करुणा, कुछ न होगी। निर्दयी तथा कठोर होंगे; ऊख के यन्त्र में ऊख की गाँठ को पेलने की तरह, मनुष्यों को पेल पेल कर, नाना प्रकार के टैक्स (=बलि) लगा कर, धन ग्रहण करेंगे। मनुष्य टैक्सों से पीड़ित हो कर, कुछ भी दे सकने में असमर्थ होने पर, ग्राम निगम आदियों को छोड़, सीमान्त (=देश) में जाकर रहने लगेंगे। मध्यम-देश (युक्त प्रान्त बिहार) सूना हो जायेगा, प्रत्यन्त घना-वसा; जैसे पुष्करिणी के बीच में पानी

गँदला है, किनारों पर साफ। इस कारण से भी, तुझे खतरा नहीं है। दसवाँ (स्वप्न) कह।

“भन्ते ! एक ही देगची में पके हुए, भात को कच्चा देखा, मानो फाड़ कर, बाँट कर, तीन तरह पकाया गया हो; एक और बहुत कच्चा, एक और अध-कच्चा, एक और खूब पका हुआ। यह मेरा दसवाँ स्वप्न है। इसका क्या फल है ?

“इसका भी फल भविष्य में ही होगा। भविष्य में राजा अधार्मिक होंगे। उनके अधार्मिक होने से राजकर्मचारियों, ब्राह्मण-गृहपतियों, निगम तथा जनपद (==दीहात) के रहने वालों से लेकर, भ्रमण ब्राह्मणों तक सब मनुष्य अधार्मिक हो जायेंगे। उससे उनके आरक्षक-देवता, बलि ग्रहण करने वाले देवता, वृक्षों के देवता, (तथा) आकाश स्थित देवता, इस प्रकार देवता भी अधार्मिक हो जायेंगे। अधार्मिक राजाओं के राज्य में विषम, कठोर हवाये चलेंगी। उनसे आकाश स्थित विमान कम्पित होंगे। उनके कम्पित होने से, देवता क्रोधित हों, वर्षा न बरसने देंगे। बरसने पर भी वह सब जगह हल चलाई (==कृषिकर्म) या बुवाई के लिए उपकारी होकर न बरसेगा, जैसे राष्ट्र में, वैसे ही जनपद में भी, ग्राम में भी, तालाब तथा सरोवर में भी—हर जगह एक जोर से नहीं बरसेगा। तालाब के ऊपर के हिस्से में बरसने पर, निचले हिस्से में न बरसेगा, निचले हिस्से में बरसने पर, ऊपरले हिस्से में न बरसेगा। एक हिस्से में खेती अधिक वर्षा से नष्ट हो जायगी, एक हिस्से में वर्षा के अभाव में कुम्हला जायगी, एक हिस्से में खूब वर्षा होकर अच्छी खेती होगी। इस प्रकार एक ही राजा के राज्य में बोई खेती तीन प्रकार की होगी जैसे एक देगची का चावल; इस कारण से भी, तुझे खतरा नहीं। ग्यारहवाँ (स्वप्न) कह।

“भन्ते ! लाख (मुद्रा) की क्रामत का चन्दन-सार, सड़े हुए मट्टे के बदले में विक्रता देखा। यह मेरा ग्यारहवाँ स्वप्न है। इसका क्या फल होगा ?”

“इसका फल भी, भविष्य में, मेरे शासन (==धर्म) की अवनति होने के समय ही होगा ? भविष्य में वस्तु (==प्रत्यय) लोभी, बे-शर्म भिक्षु बहुत होंगे, वे उस धर्म का जिसे मैंने प्रत्यक्ष लोभ के नाश करने के लिए उपदेश किया है, चीवर आदि प्रत्ययो की आशा से, औरों को उपदेश करेंगे। (वे)

प्रत्यय (की आशा) से मुक्त हो, (संसार-सागर से) निस्तार के पक्ष में स्थित हो, निर्वाणाभिमुख धर्म का उपदेश न कर सकेंगे। 'हमारे शब्दों तथा मधुर स्वर को सुन कर (लोग) चीवर आदि देगे या देने की इच्छा करेंगे' (सोच) (वह) उपदेश करेंगे। अन्य (भिक्षु) बाजार, चौरस्तों (तथा) राजद्वार आदि में बैठ, कार्षापण', अर्ध-पाद', माषक' तथा रूपी' आदि तक के लिए उपदेश करेंगे। सो यह धर्म, जिसे मने निर्वाण की कीमत करके उपदेश किया है, जब वे चार प्रन्ययो तथा कार्षापण, अर्धकार्षापण, के लिए उपदेश देगे, तब यह ऐसा ही होगा, जैसे लाख के मूल्य के चन्दन-सार को सड़े, मट्टे के बदले में बेचना। इस कारण से भी तुम्हें खतरा नहीं है। बारहवाँ (स्वप्न) कह।"

"भन्ते ! खाली तुम्हों को पानी में डूबते देखा। इसका क्या फल है?"

"इसका फल भी भविष्य में, अधार्मिक राजाओं के समय, लोक में तब्दीली आने पर होगा। तब राजा कुलीन कुलपुत्रों को दर्जा (=यश) न दे, अकुलीनों को ही देगे। वे (=अकुलीन) ऐश्वर्यशाली होंगे तथा दूसरे दरिद्र। राजा के सन्मुख, राजद्वार में, अमात्यो के सन्मुख तथा न्यायालय में (उन) खाली तुम्हों के समान अकुलीनों का ही कथन, स्थल पर बैठ जाने की तरह, स्थिर, निश्चल तथा सुप्रतिष्ठित होगा। संघ सम्मेलनो में, साक्षिक कर्म वा गणकर्म करने की जगहों में तथा पात्र, चीवर, परिवेण आदि के सम्बन्ध में (तथा) न्याय करने के स्थान पर भी, दुश्शील, पापी लोगों का ही कथन कल्याणकारी माना जायेगा, लज्जा-वान् भिक्षुओं का कथन नहीं। इस प्रकार सब जगह खाली तुम्हें के डूबने के समान होगा। इस कारण से भी, तुम्हें खतरा नहीं। तेरहवाँ (स्वप्न) कह।"

"भन्ते ! बड़ी बड़ी, कूटागार (कोठे) सदृश, मोटी शिलाओं को, नौका की तरह पानी पर तैरते देखा। इसका क्या फल है?"

"इसका भी फल, वैसे ही समय में होगा। उस समय अधार्मिक राजा अकुलीनों को यश देंगे, (जिस से) वह ऐश्वर्य शाली होंगे तथा कुलीन (लोग) दरिद्र। उन (कुलीनों) के प्रति कोई गौरव प्रदर्शित न करेगा, दूसरों

' यह चारो उस समय के सिक्के थे ।

का ही गौरव होगा। राजा के सामने, अमात्यों के सामने तथा न्यायालय में, न्याय करने में समर्थ, धनी शिला सदृश कुलपुत्रों का कथन प्रमाण न माना जायेगा। उनके कुछ कहने पर 'यह क्या बोलते हैं' करके, दूसरे लोग मखौल ही उड़ायेगे। भिक्षुओं के सम्मेलन में भी उक्त स्थानों पर, सदाचारी भिक्षुओं का सम्मान न होगा और उनका कथन भी प्रमाण न माना जायेगा। सो, वह शिलाओं के तैरने सदृश होगा। उससे भी, तुम्हें खतरा नहीं। चौदहवाँ (स्वप्न) कह।"

"भन्ते ! छोटे मधुक पुष्प जितनी बड़ी मेडकियो को तेजी से बड़े बड़े काले साँपो का पीछा कर, उन्हें कौवल की नाल की भाँति तोड़ तोड़ कर, उनका मांस निगलते देखा। इसका क्या फल है ?"

"इसका फल भी, लोक की अवनति होने जाने के समय, भविष्य में ही होगा। उस समय लोग तीन्न-रागी हो, विकारो का अनुकरण कर, अपनी तरुण तरुण भार्याओं के वशीभूत होकर रहेंगे। घर के नौकर-चाकर, गौ-भैस, तथा हिरण्य-सोना आदि सब उन्हीं के अधीन रहेगा। "अमुक हिरण्य-सोना अथवा मोती आदि कहाँ है ?" पूछने पर "कहीं भी हो। तुम्हें इससे क्या मतलब ? मेरे घर में क्या है, और क्या नहीं है, यह तुम जानना चाहते हो ?" कह, नाना प्रकार से गाली दे, मूख रूपी शक्ति (= आयुध) चुभा चुभा कर, (उन्हें) नौकर-चाकरो की तरह अपने वश में कर, अपना ऐश्वर्य चलायेगी। सो यह मधुक पुष्प जितनी बड़ी मेडक की बच्चियो का, जहरीले, काले सर्पों को निगलने जैसा होगा। इससे भी तुम्हें खतरा नहीं। पन्द्रहवाँ (स्वप्न) कह।"

"भन्ते ! दस असद्वर्गों (=अवगुणों) से युक्त ग्रामचारी कौए को, कञ्चन-वर्ण होने से 'सुवर्ण' कहलाने वाले, सुवर्ण राज-हंसों से घिरा देखा। इसका क्या फल है ?"

"इसका भी फल, भविष्य में दुर्बल राजाओं के समय में होगा। भविष्य में राजा लोग हस्ती शिल्प आदि में अकुशल (तथा) युद्ध में अविशारद होंगे। वे अपने राज्य पर आपत्ति आने की आशंका से, (अपने) समान जातिक कुलपुत्रों को ऐश्वर्य न देकर, अपने चरणों में रहने वाले नाई, दरजी आदि को देगे। जाति गोत्र सम्पन्न कुल-पुत्र, राज-कुल में प्रतिष्ठा न पाकर, जीविका चलाने में

असमर्थ हो, ऐश्वर्य्य शाली (किन्तु) जाति-गोत्र हीन, अकुलीनों की सेवा में रहेंगे। सो यह, सुवर्ण-गजहंसों के, कौश्रों के अनुयायी बनने के सदृश होगा। इस कारण से भी, तुम्हें खतरा नहीं है। सोलहवें (स्वप्न) को कह।”

“भन्ते ! पहले (तो) शेर बकरियों को खाते थे, लेकिन मैंने बकरियों को शेर का पीछा कर, उसे मुरमुरे (करके) खाते देखा। और अन्य भेड़िये बकरियों को दूर से देख कर, अस्मित तथा भयभीत हो; बकरियों के भय से भागकर, गहन जंगलों में घुम कर छिप रहे। (‘हि’ यहाँ निपात मात्र है)। सो मैंने ऐसा देखा इसका क्या फल है ?”

“इसका फल भी, भविष्य में अधार्मिक राजाओं के ही समय में होगा। उस समय अकुलीन (मनुष्य) राज्य के स्वामी तथा ऐश्वर्य्य-शाली होंगे और कुलीन (मनुष्य) अप्रसिद्ध तथा दरिद्र होंगे। वे राज-स्वामी (लोग) राजाओं को अपना विश्वामी बना, न्यायालय आदि स्थानों में शक्ति-शाली हो, ‘कुलीनों के परम्परागत खेत वस्तु आदि हमारी सम्पत्ति हैं’ ऐसा अभियोग लगाकर, उन (कुलीनों) के ‘यह तुम्हारे नहीं, हमारे हैं’ करके, न्यायालयों में आकर विवाद करने पर, (उन्हें) बेतों से पिटवा, गरदन से पकड़ कर, धक्के दिलवा कर, “तुम अपनी हैमियत नहीं जानते ? हमारे साथ विवाद करते हो ? अभी, राजा से कह कर, हाथ पैर कटवा देंगे” कह, डगायेंगे। वह, उनसे डर कर, अपनी चीजों को ‘लो, यह तुम्हारी ही है’ करके (उन्हें) सौंप, अपने अपने घर पर डर के मारे पड़ रहेंगे। पापी भिक्षु भी शीलवान् भिक्षुओं को जैसा चाहेंगे, वैसा तग करेगा। वे सदाचारी भिक्षु, कोई आश्रय न मिलने से, जंगल में जाकर घनी जगहों पर छिप रहेंगे। इस प्रकार हीन-जाति के (लोगों) का पीड़ित, (ऊँची) जाति-वाले कुलपुत्रों को और पापी भिक्षुओं का सदाचारी भिक्षुओं को भगा देना, बकरियों के शेर भगा देने के समान होगा। इस कारण से भी तुम्हें खतरा नहीं है। यह स्वप्न भी, तूने भविष्य के ही सम्बन्ध में देखा है। हाँ, ब्राह्मणों ने जो कहा, सो तेरे प्रति स्नेह से, धर्मानुकूल नहीं कहा। उन्होंने ‘बहुत धन मिलेगा’ सोच, लौकिक वस्तुओं पर नज़र रख, जीविका के ही ब्याल में कहा।”

इस प्रकार बुद्ध ने सोलह महास्वप्नों का फल कह कर ‘महाराज ! न केवल तूने ही, अभी इन स्वप्नों को देखा है। पुराने राजाओं ने भी देखा है

(उस समय भी) ब्राह्मणों ने, इन स्वप्नों को इसी प्रकार लेकर यज्ञ के सिर मढ़ दिया था। तब पण्डितों की सलाह के अनुसार, बोधिसत्व से जाकर पूछा। पुराने (राजाओं) ने भी (उनको) यह स्वप्न कहते समय, इसी प्रकार कहा—‘यह कह, उनके याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्व उदीच्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। उमर होने पर, वह ऋषि प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित हो गया; अभिजा तथा समापत्तियों को प्राप्त कर, हिमवन्त प्रदेश में ध्यान-क्रीड़ा में रत रह कर विचरता था। उस समय बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त ने इसी प्रकार इन स्वप्नों को देख, ब्राह्मणों को पूछा। ब्राह्मणों ने भी इसी प्रकार यज्ञ करना आरंभ किया। उनमें जो पुरोहित था, उसके बुद्धिमान् स्पष्ट-वक्ता, माणव-शिष्य ने आचार्य्य से निवेदन किया—
“आपने मुझे तीनों वेद सिखाये। उनमें कहीं भी एक (जने) को मार कर, दूसरे को सुखी करने का उल्लेख नहीं है न?”

“तात ! इस ढंग से हमें बहुत धन मिलेगा। मालूम होता है, तू राजा के धन की रक्षा करना चाहता है।”

“आचार्य्य ! तो आप अपना काम करे; मैं आपके पास रह कर क्या करूँगा,” कह, माणवक, धूमता घामता राजा के उद्यान में आ पहुँचा।

उसी दिन बोधिसत्व भी उस वृत्तान्त को जान, ‘आज मेरे आबादी की ओर जाने से, जन (-समूह) की बन्धन से मुक्ति होगी’ (सोच) आकाश से जाकर, उद्यान में उतर, मगल-शिलातल पर स्वर्ण-प्रतिमा की भाँति बैठे। माणवक ने बोधिसत्व के पास पहुँच प्रणाम कर, एक ओर बैठ, कुशल-क्षेम पूछा।

बोधिसत्व ने भी, उसके साथ मधुर बात-चीत करके पूछा—“माणवक ! यह राजा धर्म से राज्य करता है?”

“भन्ते ! राजा तो धार्मिक है, लेकिन ब्राह्मण उसे डुबो रहे हैं। राजा ने सोलह स्वप्न देख, ब्राह्मणों से निवेदन किया। ब्राह्मणों ने ‘यज्ञ करेंगे’ कह,

यज्ञ करना आरम्भ किया। सो भन्ते ! क्या आपका कर्त्तव्य नहीं कि आप राजा को इन स्वप्नों का फल बताकर जनसमूह को भय से मुक्त करे ?”

“माणवक ! हम राजा को नहीं जानते, और राजा हमें नहीं जानता। हाँ, यदि वह यहाँ आकर पूछे तो हम उसे कहेंगे।”

माणवक ने ‘भन्ते ! मैं लाऊँगा आप मेरे आने की प्रतीक्षा करते हुए, थोड़ी देर बैठे’ (कह) बोधिसत्व को जतला, राजा के पास जाकर कहा—“महाराज एक आकाश-चारी तपस्वी आपके उद्यान में उतरे हैं, और आपको बुलाते हैं कि आपके देखे हुए स्वप्नों का फल बतलायेंगे।”

राजा उसकी वान मुन, उसी समय बहुत से अनुयाइयों को साथ ले उद्यान में आया और तपस्वी को प्रणाम कर, एक ओर बैठ पूछा—
“भन्ते ! क्या आप मेरे देखे स्वप्नों का फल जानते हैं ?”

“महाराज हौं।”

“तो कहें।”

“महाराज ! मैं कहूँगा। (पहले) मुझे स्वप्नों को जैसे जैसे देखा है, वैसे सुनाओ।”

“भन्ते ! अच्छा” कह, राजा ने, राजा प्रसेनजित के द्वारा कहे गये स्वप्नों की ही तरह स्वप्न कहे—

उसभा रुक्खा गावियो गवा च
अस्सो कंसो सिगाली च कुम्भो
पोक्खरणी च अपाकचन्दनं।
लापूनि सीदन्ति सिला प्लवन्ति
मण्डूकियो कण्हसप्ये गिलन्ति
काकं सुवण्णा परिवारयन्ति
तसावका एल्लकानं भया हि ॥

[अर्थ पहले कहा ही गया है।]

जैसे शास्ता ने इस समय, उन स्वप्नों का फल कहा, वैसे ही उस समय बोधिसत्व ने भी उन स्वप्नों का फल कह, अन्त में यह कहा—

विपरियासो वत्तति न इधमस्सि (= उलटा पड़ेगा, भ्रम नहीं है)

महाराज ! यह, इन स्वप्नों की उत्पत्ति है। यह जो, उनके प्रतिघात के लिए यज्ञ-कर्म है, सो वह (विपरियासो वृत्तति) विपरीत पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा। किस लिए ? उन (स्वप्नों) का फल लोक में तब्दीली होने के समय, अकारण (वात) को कारण मानने के समय, कारण को अकारण (समझकर) छोड़ने के समय, अभूत (=असत्य) को सत्य मानने के समय, सत्य को असत्य (समझकर) छोड़ने के समय; अलज्जी (=वेशर्मा) के उन्नति पर होने के समय, तथा लज्जियों (=शरम वालों) की अवनति होने के समय ही होगा। नयिध-मत्थि, इस समय, मेरे वा तेरे समय में, इस पुरुष-युग में, यह फलीभूत न होंगे। इसलिए, इनके प्रतिघात (=रोकने) के लिए किया जाने वाला यज्ञ-कर्म उलटा होगा। उसकी आवश्यकता नहीं। इन (स्वप्नों) के फल स्वरूप, तुझे कोई खतरा वा डर नहीं।

इस प्रकार महापुरुष, राजा को आश्वासन दे, जन-समूह, को बंधन से मुक्त कर (अपने) फिर आकाश में ठहर, राजा को उपदेश दे, (उसे) पाँच शीलो में प्रतिष्ठित कर, 'महाराज ! अब से ब्राह्मणों के साथ मिलकर पशु-घात (वाले) यज्ञ-कर्मों को न करें'—ऐसा धर्मोपदेश कर, आकाश मार्ग से ही अपने निवास स्थान को चले गये।

राजाभी उनके उपदेश के अनुकूल चल कर, दान आदि पुण्य-कर्म करके, (अपने) कर्मानुसार (परलोक) गया। शास्ता ने यह देशना ला, 'यज्ञ के कारण से तुझे खतरा नहीं, इस यज्ञ को हटा' कह, उस यज्ञ को हटवा, जन (—समूह) को जीवन दान दे, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय के राजा (अब के) आनन्द थे। माणवक (अब के) सारिपुत्र थे लेकिन तपस्वी मैं ही था।

भगवान् के परिनिर्वाण प्राप्त होने पर, सङ्गीति-कारकों ने उसभा, रुक-खादि . . . ग्यारह शब्दों की अट्ठकथा (=टीका) कर, 'लापूनी' आदि पाँच पदों की 'गाथा' बना 'एकक निपात' में संगृहीत की।

७८. इल्लोस जातक

“उभो खञ्जा . .” यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, (एक) मच्छरिय कोसिय श्रेष्ठी के बारे में कही।

क. वर्तमान कथा

राजगृह नगर के समीप सक्खर नामक (एक) निगम था ; उममें मच्छरिय कोसिय नाम का एक अस्सी करोड़ की सम्पत्ति वाला सेठ रहता था। वह दूसरों को तिनके की नोक पर तेल की बूंद तक नहीं देता (श्रीर) न अपने ही खाता था। सो उसका वह धन न तो उसके स्त्री-बच्चों के काम आता था, न श्रमण-ब्राह्मणों के। राक्षस अधिकृत पुष्करिणी की तरह व्यर्थ पडा था।

एक दिन प्रातःकाल ही बुद्ध ने महा करुणा समापत्ति में उठ, सकल लोक-धातु में, उस दिन, अवबोध प्राप्त कर सकने वाले बंधुओं को देखते हुए, पन्तालीस योजन की दूरी पर रहने वाले सेठ श्रीर उसकी भार्य्या के श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर सकने की सम्भावना को देखा। उमसे एक दिन पहले वह (श्रेष्ठी) राजा के उपस्थान के लिए राज-भवन को गया। राजा की सेवा में जा, वापिस लौटते हुए, भूख में पीड़ित एक नागरिक को, कलमास (कुलधी) भरे पूड़े खाते देखा श्रीर उनमें तृष्णा उत्पन्न कर घर जाकर सोचने लगा—“यदि मैं कहूँगा कि मैं पूड़े खाना चाहता हूँ, तो बहुत से (लोग) मेरे साथ खाने वाले हो जायेंगे। इस प्रकार मेरा बहुत सा चावल, धी, तथा गुड़ आदि खर्च हो जायगा। सो, मैं किसी को नहीं कहूँगा।”

वह तृष्णा को (मन ही मन) सहते हुए, रहने लगा, (जिससे) समय गुजरने पर (वह) पाण्डु-वर्ण हो गया, गात धमनियों को लग गया। तब

तृष्णा को (अधिक) न सह सकने के कारण, वह घर में घुस कर, चारपाई पर मुंह लपेट कर पड रहा। इतना होने पर भी घन हानि होने के डर से उसने, किसी को कुछ न कहा।

उसकी भार्य्या ने उसके पास जा पीठ मलते हुए पूछा—“स्वामी ! क्या रोग है ?”

“मुझे, कोई रोग नहीं।”

“क्या राजा क्रुद्ध हो गया है ?”

“राजा, मुझ से क्रुद्ध नहीं हुआ है।”

“तो क्या तेरे बेटी बेटा से अथवा नौकर चाकरो से कुछ अपराध हो गया है ?”

“ऐसा भी (कुछ) नहीं।”

“किसी (चीज) में, तेरी तृष्णा (=इच्छा) है ?” ऐसा पूछने पर, घन हानि के भय से निशब्द हो, पड़ा रहा। तब उसे भार्य्या ने पूछा—“स्वामी ! तेरी तृष्णा किस चीज में है।

उसने शब्दों को निगलते हुए की तरह कहा—“मेरी एक तृष्णा है”

“स्वामी क्या तृष्णा है ?”

“पूडे (पूए) खाने की इच्छा है।”

“तो कहते क्यो नहीं ? क्या तुम दरिद्र हो ? अब इतने पूडे पका दूंगी कि सारे सक्कर निगम-वासियो के लिए पर्याप्त हों।”

“तुम्हे उनसे क्या ? वह अपने कमा कर खायेगे।”

“अच्छा तो उतने ही पकाऊंगी, जो एक गली के लोगों के लिए पर्याप्त हों।”

“जानता हूँ, कि तू बड़ी घनवान् है।”

“अच्छा, तो उतने ही पकाऊंगी, जो इस घरवाले सब के लिए पर्याप्त हों।”

“जानता हूँ, कि तू बड़ी उदार है !”

“अच्छा, तो उतने ही पकाऊंगी, जो तेरे स्त्री-बच्चों भर के लिए पर्याप्त हों।”

“तुम्हे, इन से क्या ?”

“अच्छा, तो उतने ही बनाऊँगी, जो तेरे लिए और मेरे लिए पर्याप्त हों।”

“तू क्या करेगी ?”

“अच्छा, तो उतने ही बनाऊँगी, जो अकेले तेरे लिए पर्याप्त हों।”

“यहाँ पकाने से बहुत लोग आशा लगायेंगे। सो, तू और सब चावलों को छोड़ केवल कनिय्या (—टूटे चावल), चूल्हा, कड़ाही आदि और थोड़ा दूध, घी, मधु तथा गुड़ ले, सात-तल प्रासाद के ऊपर महातल्ले पर चढ़ कर पका। वहाँ में अकेला बैठ कर खाऊँगा।”

उसने ‘अच्छा’ कह, स्वीकार कर, जो लेना था, वह लिवा कर, प्रासाद के ऊपर चढ़, दासियों को हटा सेठ को बुनवाया। पहले (दरवाजे) से लेकर सब दरवाजों को बन्द करने हुए सब द्वारों में ताले-कुण्डे लगा, सातवे तले पर चढ़, वहाँ भी वह दरवाजा बन्द करके बैठा। उसकी आर्या ने भी, चूल्हे में आग जला, उसपर कड़ाही रख, पूड़े पकाने शुरू किये।

बुद्ध ने प्रातःकाल ही महामोगल्लान स्थविर को आमन्त्रित किया—
“मोगल्लान ! राजगृह के समीप के सक्खर निगम का मच्छरिय कोसिय नामक यह सेठ ‘कड़ाही के पूए खाऊँगा’ (करके) श्रीरो के देख लेने के भय से, सात तलों वाले प्रासाद के ऊपर पूए पकवाता है। तू वहाँ जाकर, उस सेठ का दमन कर, उसे निर्वपकर, पति-भत्नी दोनों जनो में पूए और दूध-घी-मधु-गुड़ आदि लिवा कर, अपने वन में, उन्हें जेतवन ले आ। आज में पाँच सौ भिक्षुओं सहित विहार में ही रहूँगा, और पूर्यों का ही भोजन करूँगा।”

स्थविर ‘भन्ने ! अच्छा’ कह, शास्ता का कथन स्वीकार कर, उसी समय ऋद्धिबल में, उस निगम में पहुँच, उस प्रासाद के छज्जे पर, (अपने ठीक) से पहने, ठीक में ढके हुए आकाश में स्थिर होकर, मणि की मूर्ति की भाँति ठहरे।

स्थविर को देख, सेठ का हृदय काँपा। उसने ‘में’ ऐसो के ही डर में, इस जगह आया, सो यह आकर खिड़की पर खड़ा हो गया है’ (मोच) हाथ में लेने योग्य कुछ न ले सकने पर, आग में डाली निमक की डली की तरह, गुस्से से चिट चिट करते हुए कहा—“श्रमण; आकाश में खड़े रहने में तुझे क्या मिलेगा ? आकाश में जहाँ पैरो का चिन्ह नहीं है, वहाँ पैरो को दिखाने हुए चङ्क्रमण करने से भी कुछ न मिलेगा।” स्थविर उमी जगह इधर-उधर चङ्क्रमण करने लगे।

सेठ ने कहा—“चङ्क्रमण करने पर तो क्या मिलेगा ? आकाश में पालथी मार कर बैठने पर भी न मिलेगा ।” स्थविर पालथी मारकर बैठ गये ।

तब उसने (कहा)—“बैठने पर तो क्या मिलेगा ? आकर देहली पर खड़े होने से भी न मिलेगा ।” स्थविर (आकर) देहली पर खड़े हो गये ।

तब उसने (कहा)—“खड़े होने से तो क्या मिलेगा । धुआँ निकालने से भी न मिलेगा ।”

स्थविर ने धुआँ निकाला । सारा प्रासाद एक-धूम्र हो गया । सेठ की आँख में जैसे सूइयाँ चुभने लगी, लेकिन घर के जलने के डर से उसने ‘जलने पर भी न मिलेगा’ न कह, सोचा—‘यह श्रमण, अच्छा पीछे पडा है, बिना लिए नहीं जायेगा । सो, इसे एक पूआ दिलवाऊँ ।’ (यह सोच) उसने भार्य्या को कहा—“भद्रे ! एक छोटा सा पूआ पका, श्रमण को दे, इसे विदा कर ।”

उसने कड़ाही में ज़रा सी पिट्ठी डाली । उसका एक बड़ा सारा, फूला हुआ पूआ बन कर, सारी कड़ाही में फैल गया । सेठ ने उसे देख, ‘तू ने बहुत पिट्ठी ले ली होगी’ (कह) अपने ही कड़छी के कोने पर ज़रा सी पिट्ठी लेकर, डाली । (यह) पूआ पहले पूए से भी बड़ा हो गया । इस प्रकार जैसे जैसे वह पकाता, वैसे वैसे वह पहले से भी बड़ा हो जाता ।

उसने दुःखी होकर कहा—“भद्रे ! दे इसे एक पूआ ।” उसके टोकरी से एक पूआ निकालने के समय, सारे पूए एक साथ लग गये । उसने सेठ को कहा—“स्वामी ! सब पूए एक साथ जुड़ गये । उन्हें पृथक् नहीं कर सक रही हूँ ।” “मे करूँगा” (करके) वह भी न कर सका ; दोनों जने, दोनों सिरे पकड़ कर खँचने पर भी पृथक् न कर सके । इस प्रकार व्यायाम करते हुए उसके शरीर से पसीना बहने लगा, और उसकी प्यास (=तृष्णा) बुझ गई ।

तब उसने भार्य्या को कहा—“भद्रे ! मुझे पूए नहीं चाहिए । उन्हें, टोकरी सहित, इस भिक्षु को दे दो ।” वह टोकरी लेकर स्थविर के पास गई । स्थविर ने दोनों को धर्मापदेश किया ; त्रिरत्न के गुण कहे । दिये हुए का, यज्ञ का, दान आदि का फल आकाश में (प्रकाशित) चन्द्रमा की भाँति दिखाया । उसे सुन प्रसन्न-चित्त सेठ ने कहा—“भन्ते ! आकर, इस पलंग पर बैठ कर, पूए खायें ।”

स्थविर ने कहा—“सेठ जी ! ‘पूए खायेगे’ (करके) पाँच सौ भिक्षुओं

सहित सम्यक् सम्बुद्ध बिहार में बैठे हैं। यदि तेरी इच्छा हो तो अपनी भार्या सहित पूए और दूध आदि को लिवा चल। हम बुद्ध के पास जायेंगे।”

“भन्ते ! इस समय शास्ता कहाँ हैं ?”

“सेठ ! यहाँ से पन्तालीस योजन की दूरी पर, जेतवन बिहार में।”

“भन्ते ! बिना, (भोजन के) समय ' का उल्लंघन किये, हम इतनी दूर कैसे जायेंगे ?”

“सेठ ! तुम्हारी इच्छा रहने पर, मैं अपने ऋद्धि-जल से ले जाऊँगा। तुम्हारे प्रासाद (= महल) की सीढ़ी का आरम्भ तो (उसके) अपने स्थान पर ही होगा, (लेकिन) अन्त जेतवन द्वार के कोठे पर जा कर होगा। ऊपर के गहन से, नीचे के महल पर उतरने भर की देरी में जेतवन ले जाऊँगा।”

उन्होंने 'भन्ते ! अच्छा कह, स्वीकार किया। स्थविर ने अधिष्ठान (= दृढ़ निश्चय) किया—“सीढ़ी का ऊपर का मिरा, वैसे ही होकर, नीचे का सिरा, जेतवन द्वार के कोठे में जा लगे।” वैसे ही हो गया।

इस प्रकार स्थविर ने सेठ और उनकी भार्या को प्रासाद के ऊपर से नीचे उतरने के समय से भी कम समय में जेतवन पहुँचा दिया। उन दोनों ने बुद्ध के पास जा, (भोजन का) समय निवेदन किया। भिक्षु-संघसहित बुद्ध, दान-शाला में प्रविष्ट हो, बिछे श्रेष्ठ बुद्धामन पर बैठे। सेठ ने बुद्ध प्रमुख भिक्षुसंघ को दक्षिणा का जल दिया। भार्या ने तथागत के पात्र में पूए रक्खे। बुद्ध ने उतने ही लिये, जितने (अपने लिए) काफी हों। पाँच सौ भिक्षुओं ने भी वैसे ही लिए। सेठ दूध, घृत, मधु तथा शक्कर देता गया।

पाँच सौ भिक्षुओं सहित बुद्ध ने भोजन समाप्त किया। सेठ ने भी भार्या सहित, आवश्यकता-भर खाये; लेकिन पूए खतम होते न दिखाई देते थे। सारे बिहार के भिक्षुओं तथा भिखमगो आदि को देने पर भी खतम होते न दिखाई देते थे। (उन्होंने) भगवान् से कहा—“भन्ते ! पूए खतम नहीं

' बौद्ध भिक्षुओं के लिये मध्याह्नान्तर भोजन करना निषिद्ध है।

होते !” “तो, उन्हें जेतवन द्वार के कोठे में फेंक दो।” सो, उहोने द्वार-कोठे के समीप एक गढ़े में डाल दिये। आज भी वह स्थान कपल्लपूव-पम्भार ही कहलाता है। भार्य्या सहित महासेट्ठि, भगवान् के पास जा, एक ओर खड़ा हुआ। भगवान् ने (दान) अनुमोदन^१ किया। अनुमोदन की समाप्ति पर, दोनों जने श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हो, बुद्ध को प्रणाम कर, द्वार कोट्ठे से सीढ़ी पर चढ़कर, अपने प्रासाद में जा पहुँचे (=प्रतिष्ठित हुए)।

उस समय से वह अस्सी करोड़ धन, बुद्धशासन के ही लिए खर्च करने लगा। एक दिन, सम्यक् सम्बुद्ध श्रावस्ती में भिक्षा माँग, जेतवन आ, भिक्षुओ को सुगतोपदेश दे, गन्धकुटी में प्रवेश कर, ध्यानावस्थित रह, शाम को धर्म-सभा में आये। उस समय धर्म-सभा में इकट्ठे बैठे हुए भिक्षु (भोगल्लान) स्थविर की प्रशंसा कर रहे थे—“आवुसो ! महाभोगल्लान स्थविर का प्रताप देखो। वह, मच्छरिय (=कजूस) सेठ को जरा सी देर में दमन कर निर्विषकर, पूए लिवा कर, जेतवन ले आया, और बुद्ध के सम्मुख (उपस्थित) कर, श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित कर दिया। अहो ! स्थविर महा प्रतापवान् है।” बुद्ध ने आकर पूछा—“भिक्षुओ ! इस समय बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो ?” “यह (बातचीत)” कहने पर, बुद्ध ने, ‘भिक्षुओ ! जिस भिक्षु को किसी कुल का दमन करना हो, वह बिना कुल को पीड़ा दिये, बिना तंग किये, जैसे भ्रमर फूल से रेणु ग्रहण करता है उसी तरह (कुल के) पास जा, बुद्ध-गुणो का परिचय दे’ कह स्थविर की प्रशंसा करते हुए, (यह गाथा कही)—

यथापि भमरो पुप्फं वण्णगन्धं अहेठयं,
पलेति रसमादाय एवं गामे मुनी चरे।^२

[जिस प्रकार फूल के वर्ण या गन्ध को बिना हानि पहुँचाये भ्रमर रस को लेकर चल देता है, उसी प्रकार मुनि गाँव में विचरण करे।]

^१ भोजनान्तर गृहस्थों को दिया जाने वाला उपदेश।

^२ धम्मपद (पुष्प वग्ग)।

इस धर्मपद में आई हुई गाथा को कह, स्थविर की और भी प्रशंसा करने के लिए “भिक्षुओ ! न केवल अभी भोगल्लान ने मच्छरिय सेठ का दमन किया, पहले भी उसका दमन कर, उसे कर्म-फल सम्बन्ध का ज्ञान (=परिचय) कराया है” कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मवत्त के राज्य करने के समय, बाराणसी में इल्लीस नाम का एक सेठ था। उसके पास अस्सी करोड़ धन था; (लेकिन) वह पुरुष के दुर्गुणों से युक्त लँगड़ा, लूला तथा बेंहगा; अश्रद्धावान्, अप्रसन्न-चित्त तथा कंजूस; न किसी को देता, न अपने खाता था। उस का घर ऐसा ही था, जैसे राक्षस-गृहीत पुष्करिणी ! हाँ, उसके माता-पिता सात पीढ़ी तक, दान-शील (=दाता) तथा दान-पति रहे थे। उसने कुल-मर्यादा का नाश कर, दान-शाला को जला, याचकों को पीट कर (बाहर) निकाल, केवल धन ही संग्रह किया।

एक दिन, राजा की सेवा में जाकर, अपने घर लौटते समय उसने रास्ते में एक थके हुए नागरिक को एक शराब की सुराही ले, पीढ़े पर बैठ, उस खट्टी शराब से कसोरे भर सड़ी हुई मछली खा खा कर, पीते देखा। यह देख, उसके मन में शराब (=सुरा) पीने की इच्छा हुई, और वह सोचने लगा— “यदि, मैं सुरा पीऊँगा, तो मेरे पीने पर (और) बहुत (लोग) पीने की इच्छा करेंगे। इस प्रकार मेरा धन खर्च होगा।” तृष्णा को मन में रखकर घूमने से, कुछ समय बीतने पर, (उसे) न सह सकने के कारण, उसका शरीर धुनी हुई रूई की तरह सफ़ेद हो गया, और उसका गात धमनी को जा लगा।

तो, एक दिन, वह घर में घुस कर, चारपाई पर सिमट कर पड़ रहा ?

उसकी भार्य्या ने आकर पीठ मलते हुए पूछा—“स्वामी ! क्या रोग (=कष्ट) है ?” (इसके आगे) सब उक्त प्रकार से जानना चाहिए।

‘अच्छा ! तो उतनी शराब बनाऊँगी, जितनी तेरे अकेले के लिए काफी हो’ कहने पर, ‘घर में शराब बनवाने पर, बहुत लोग आशा लगायेंगे; दूकान से मँगवा कर भी यहाँ बैठ कर नहीं पी सकता’ (सोच), उसने, केवल एक

मासक^१ दे, दूकान से शराब की सुराही मँगवाई; फिर नौकर से उठवा, नगर से निकल नदी के किनारे गया और महामार्ग के पास एक गुल्म (= घनी जगह) में घुस, सुराही को रखवाया, फिर 'तू जा' कह कर, नौकर को दूर बिठा, कसोरे भर भर कर, शराब पीनी शुरू की।

दानादि करने के कारण, इसका पिता देव-लोक में शक्र (= इन्द्र) होकर उत्पन्न हुआ था। उसने उस समय ध्यान लगा कर देखा, कि मेरा (चलाया हुआ) दान अभी भी दिया जा रहा है वा नहीं? उसका चालू न रहना, पुत्र का कुल-मर्यादा को नष्ट कर, दान-शाला को जला देना, याचकों को पीट कर निकाल देना तथा कंजूस बन, 'औरो को देने पड़ जायगी' के भय से घने स्थान में घुस, अकेले बैठ कर शराब पीना, जान उसने सोचा— मैं जाकर, उसे क्षुब्ध कर, (उसका) दमन कर, (उसे) कर्म-फल-सम्बन्ध का ज्ञान करा, (उसके हाथ से) दान दिलवा, (उसे) देव-लोक में उत्पन्न होने योग्य बनाऊँ। यह सोच, वह, (मनुष्यों की) आबादी में उतर, ठीक इल्लीस सेट्ठी जैसा, लंगड़ा-लूला-बेहंगा रूप बना राजगृह नगर में प्रविष्ट हो, राजा के निवासस्थान पर खड़ा हो, अपने आने की सूचना भिजवा, 'प्रवेश करो' कहने पर भीतर गया और राजा को प्रणाम कर, (एक ओर) खड़ा हुआ।

राजा ने पूछा—“सेठ जी! कहो अ-समय पर कैसे आये?”

“देव! मेरे घर में अस्सी करोड़ धन है, (मैं चाहता हूँ) कि आप उसे मँगवा कर, अपने खजाने भर लें।”

“रहने दो सेठ जी हमारे घर में तुम्हारे धन से कहीं अधिक धन है।”

“देव! यदि आप को आवश्यकता नहीं है, तो मैं उसे लेकर यथेच्छ दान देता हूँ?”

“सेठ जी दें।”

“देव! अच्छा” कह राजा को प्रणाम कर, निकल आया और इल्लीस सेट्ठी के घर गया। सब नौकर-चाकर घेर कर खड़े हो गये। कोई एक भी यह न जान सका कि यह इल्लीस नहीं है। उसने घर में प्रवेश कर, देहली के

^१कार्षापण का बीसवाँ हिस्सा।

भीतर खड़े हो, द्वार-पाल को बुलवा आज्ञा दी—“यदि कोई ठीक मेरे जैसी शकल वाला आकर, ‘यह मेरा घर है’ करके प्रवेश करना चाहे, तो उसकी पीठ पर प्रहार दे, उसे निकाल देना।” यह कह, प्रासाद के ऊपर चढ़, अत्यन्त मूल्यवान् आसन पर बैठ, श्रेष्ठ भाय्या को बुलवा, मुस्करा कर, कहा—“भद्रे ! दान दें।” यह सुन सेठानी, लड़के-लड़कियाँ तथा नौकर चाकर कहने लगे। “इतने समय तक कभी दान देने का विचार तक नहीं आया। आज शराब पीने के कारण मृदु-चित्त हो, दान देने की इच्छा उत्पन्न हो गई होगी।”

सो, सेठानी ने कहा—“स्वामी ! यथारुचि दे।” “तो मुनादी करने वाले को बुलवा कर, सारे नगर में मुनादी करवा दो कि जिस को चाँदी, सोना, मणि-मोती की आवश्यकता हो, वह इल्लीस सेठ के घर जावे।” उसने वैसा करवा दिया। लोग भोली, धैली लेकर द्वार पर आ इकट्ठे हुए। शक्र ने सात रत्नों से भरे हुए कमरों को खोल कर कहा—“यह सब तुम्हें देता हूँ। जितनी जितनी जरूरत हो, ले जाओ।” लोग धन को निकाल, महातल पर ढेर लगा, लाये हुए बरतनों को भर भर कर ले जाने लगे।

एक जनपदवासी, इल्लीस सेठ के बैल, इल्लीस सेठ के ही रथ में जोतकर, उसे सात रत्नों से भर, नगर से निकल, महा-मार्ग पर जाता हुआ, उस घने स्थान से कुछ ही दूर पर रथ को हाँकते हुआ सेट्ठी की प्रशंसा करता जाता था—“स्वामी ! इल्लीस सेठ ! तेरी सौ वर्ष की आयु हो। तेरे कारण, अब मैं जन्म भर, बिना काम किये भी जी सकता हूँ। तेरा ही रथ, तेरे ही बैल, तेरे ही घर के सात (प्रकार के) रत्न। न मा ने दिये न बाप ने दिये, स्वामी; तेरे ही कारण मिले।” इल्लीस ने वह शब्द सुन, भयभीत हो सोचा—“यह मेरा नाम लेकर, यह यह कहता है, क्या राजा ने मेरा धन लोगों में बाँट दिया है ?” (यह सोच) घने-स्थान से निकल, बैलों तथा रथ को पहचान, “अरे ! चेटक ! यह मेरे ही बैल और मेरा ही रथ” कह, जा कर बैलों की नकेल पकड़ ली। गृहपति रथ से उतर, ‘अरे ! दुष्ट चेटक ! इल्लीस महासेठ सारे नगर को दान देता है, तू क्या लगता (=होता) है ?’ कह, भटक कर, विजली गिराते हुए की तरह, कंधे पर प्रहार दे, रथ लेकर चल दिया।

उसने काँपते हुए उठ कर, धूलि (=रेत) को झाड़, तेजी से जाकर,

(फिर) रथ को पकड़ा। गृहपति (रथ से) उतर, बालों से पकड़, भुका, बाँस की चपटी की मार से मार, गले से पकड़, जिघर से आया था, उधर मुँह कर धक्का दे, (अपने) चल दिया।

इतने में उसका शराब का नशा उतर गया।

उसने काँपते काँपते जल्दी से घर जा, धन लेकर जाते हुए मनुष्यों को देख, 'भो ! यह क्या ? राजा मेरा धन लुटवा रहा है ?' कह, जिस किसी को पकड़ना शुरू किया। जिस किसी को पकड़ता, वही उसे पीट कर, पैरों में गिरा देता। वेदना से पीड़ित हो, उसने घर में घुसना चाहा। द्वारपालों ने—'अरे ! दुष्ट गृहपति ! कहाँ घुसता है ?' (कह) बाँस की चपटियों से पीट, गर्दन से पकड़ निकाल दिया।

'अब राजा को छोड़ कर, और मुझे, किसी की शरण नहीं' सोच, उसने राजा के पास जा कर पूछा—'देव ! आप मेरा घर लुटवा रहे हैं ?'

'सेठ जी ! मैं नहीं लुटवा रहा हूँ। क्या तुमने ही अभी आकर नहीं कहा था कि यदि आप नहीं लेते तो मैं अपने धन को दान दूँगा, और नगर में मुनादी करा कर दान दिया ?'

'देव ! मैं आपके पास नहीं आया। क्या आप मेरे कंजूस होने की बात नहीं जानते ? मैं किसी को तिनके के कोने से (एक) तेल की बूँद तक नहीं देता। देव ! जो यह दान दे रहा है, उसे बुला कर परीक्षा करें।'

राजा ने शक्र को बुलवा भेजा। न तो राजा को ही, न मन्त्रियों को ही, दोनों जनों में कुछ भेद दिखाई दिया। मच्छरिय सेठ ने पूछा—'देव ! यह सेठ है, कि मैं सेठ हूँ ?'

'हम नहीं पहचानते, तुम्हें, कोई पहचानने वाला है ?'

'देव ! मेरी भाय्या !'

भाय्या को बुलाकर पूछा गया कि तेरा स्वामी कौन है ?

वह 'यह' कह कर, शक्र के ही पास जा खड़ी हुई। लड़के लड़कियों नौकर-चाकरों को बुला कर पूछा गया। सब शक्र के ही पास जाकर खड़े हुए।

तब सेठ ने सोचा—'मेरे सिर में बालों से छिपी एक फुंसी है, उसे केवल नाई ही जानता है, सो उसे बुलवाऊँ।' (यह सोच) उसने कहा—'देव !

मुझे नाई पहचानता है, उसे बुलवावें।” उस समय बोधिसत्त्व (ही) उसके नाई (होकर उत्पन्न हुए) थे। राजा ने उसे बुलवा कर पूछा—“इल्लीस सेठ को पहचानते हो ?”

“देव ! सिर को देख कर पहचान सकूँगा।”

“अच्छा ! तो दोनों के सिर को देख।” शक्र ने उसी क्षण सिर में फुसी पैदा कर ली। बोधिसत्त्व ने दोनों के सिर में फुसी देख, “महाराज ! दोनों के सिर में फुसी है। इस लिए मैं इन दोनों में से किसी को नहीं कह सकता कि यह इल्लीस है” कह, यह गाथा कही—

उभो खञ्जा उभो कुणी उभो विसमचक्खुला,

उभिन्नं पिलका जाता, नाहं पस्सामि इल्लिसं ॥

[दोनों लंगड़े (हैं), दोनों लूले (हैं), दोनों बँहंगे (हैं), और दोनों के (सिर में) फुँसियाँ हैं। मैं इल्लीस को नहीं पहचानता (=देखता)।]

उभो, दोनों जने। खञ्जा, लंगड़े (=कुण्ठकपाद), कुणी, लूले (=कुण्ठ-हत्था) विसम चक्खुला, जिनकी आँख की पुतलियाँ विपम हैं। पिलका, दोनों के सिर में एक ही जगह, एक ही जैसी फुन्सियाँ हो गईं। नाहं पस्सामि, मैं इनमें यह इल्लीस है (करके) नहीं पहचानता, अर्थात् एक को भी ‘इल्लीस’ नहीं मानता।

बोधिसत्त्व की बात सुन, सेठ काँपने लगा, और घन-शोक के करण, अपने को न सँभाल सकने से वहीं गिर पड़ा। उस समय शक्र, “महाराज ! मैं इल्लीस नहीं हूँ, मैं शक्र हूँ” कह, शक्र-लीला से आकाश में जा खड़ा हुआ। इल्लीस का मुँह पोंछ कर, उस पर पानी छिड़का गया। वह उठकर, देवेन्द्र शक्र को प्रणाम कर, खड़ा हुआ। तब शक्र ने कहा—“इल्लीस ! यह घन मेरा है, न कि तेरा। मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र। मैं ने दानादि पुण्य कर्म करके शक्र की पदवी प्राप्त की, लेकिन तूने मेरे वंश (की मर्यादा) को तोड़, अदान-शीली हो, कंजूस बन, दानशाला को जला, याचकों को निकाल, (खाली) घन संग्रह किया। उसे, न तू आप खाता है, न दूसरे। वह ऐसे पड़ा है, जैसे राक्षस के अधिकार में हो। यदि, जैसे पहले थी, वैसे ही मेरी दानशाला

बनवा कर दान देगा, तो तेरा कुशल है, यदि नहीं देगा, तो तेरे सब धन को अन्तर्धान कर, इस इन्द्र-वज्र से तेरा सिर फोड़, तेरी जान निकाल दूँगा ?”

इल्लीस सेठ ने मरने के भय से संत्रसित हो, प्रतिज्ञा की कि अब से दान दूँगा। शक्र उसकी प्रतिज्ञा ग्रहण कर, आकाश में बैठे ही बैठे धर्मोपदेश दे, उसे (पञ्च) शीलों में प्रतिष्ठित कर, अपने स्थान को चला गया। इल्लीस भी दान आदि पुण्य-कर्म कर स्वर्ग-गामी हुआ।

बुद्ध ने ‘भिक्षुओ ! न केवल अभी मोगल्लान ने मच्छरिय सेठ का दमन किया है, पहले भी इसने इसे दमन किया है’ कह, इस धर्मदेशना को ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया।

उस समय इल्लीस, मच्छरिय सेठ हुआ। देवेन्द्र शक्र, मोगल्लान। राजा, आनन्द। लेकिन नाई में ही था।

७९. खरस्सर जातक

“यतो विलुप्ता च हता च गावो . .” यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहरते समय एक अमात्य के सम्बन्ध में कही।

क. वर्तमान कथा

कोशल-नरेश के एक अमात्य ने राजा को प्रसन्न कर प्रत्यन्त-ग्रामों की राज-बलि^१ ले, चोरों के साथ मिलकर ‘मैं मनुष्यों को ले कर जंगल में चला जाऊँगा, तुम गाँव को लूट कर, आधी (लूट) मुझे देना’ (कह), मनुष्यों को इकट्ठा किया। फिर जंगल ले जा, चोरों के आ, गौवों को मार,

^१ राजा को प्राप्य राज-कर।

मांस खा, गाँव लूट कर चले जाने पर, शाम को मनुष्यों को साथ लिये हुए आया। उसके कुछ ही देर बाद, उसका यह भेद खुल गया। मनुष्यों ने राजा से कहा। राजा ने उसे बुलवा अपराध का निश्चय कर, उसका अच्छी प्रकार निग्रह कर, (उसकी जगह) एक दूसरे ग्राम-भोजक (=मुखिया) को भेज, (अपने) जेतवन जाकर, भगवान् को वह समाचार कहा। भगवान् ने 'महाराज ! न केवल अभी यह ऐसा करने वाला है, पहले भी यह ऐसा ही करने वाला रहा है' कह, उसके याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मवत्त के राज्य करते समय, राजा ने एक अमात्य को एक प्रत्यन्त गाँव दिया। सब उक्त प्रकार से। उस समय बोधिसत्व, वाणिज्य के लिए घूमते हुए, उस गाँव में ठहरे हुए थे। उन्होंने, शाम के समय, बहुत से लोगों के साथ भेरी बजते बजते, ग्राम-भोजक को आते देख 'यह दुष्ट ग्राम-भोजक चोरों के साथ मिल, गाँव लूटवा कर, चोरो के भाग कर जंगल में घुस जाने पर, अब शान्त-स्वभाव की तरह, भेरी के बाजे के साथ आ रहा है' सोच यह गाथा कही—

यतो विलुत्ता च हता च गाबो
दड्ढानि गेहानि जनो च नीतो,
अथागमा पुत्तहताय पुत्तो
खरस्सरं देण्डिमं दावयन्तो ॥

[जब (चोर) गौवों को लूट तथा गौवों को मार कर, घरों को जलाकर, (और) आदमियों को बाँध कर ले गये, उस समय यह मृतपुत्र का पूत, इस कर्ण कठोर ढोल को बजवाते आया है।]

यतो =जब। विलुत्ता च हता च, लूट कर ले गये तथा मांस खाने के लिए मार डालीं। गाबो =गौवें। दड्ढानि, आग लगाकर जला दिये। जनो च नीतो, कसकर, बाँध कर ले गये। पुत्तहताय पुत्तो, अपुत्ती (=मृतपुत्र का पुत्र) अर्थात् निर्लज्ज। जिसको लज्जा-भय नहीं, उसकी माता नहीं, सो वह उस

(पुत्र) के जीवित रहते भी, अपुत्ती (=मृत-पुत्र) ही समझी जाती है।
 क्षरस्सरं, कठोर शब्द। बेण्डिमं, ढोल (=पटह भेरि)।

इस प्रकार बोधिसत्व ने इस गाथा से, उसका परिहास किया। शीघ्र ही, उसका भेद खुल गया। राजा ने उसके अपराध के अनुसार उसे दण्ड दिया।

शास्ता ने, 'महाराज ! न केवल अभी यह ऐसा करने वाला है, पहले भी यह ऐसा ही करने वाला रहा है' (कह), यह धर्म देशना ला मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया।

उस समय का अमात्य ही, अब का अमात्य है। गाथा से उदाहरण देने वाला पण्डित मनुष्य, तो मैं ही था।

८०. भीमसेन जातक

“यं ते पविकल्पितं पुरे” यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक आत्म-प्रशंसक भिक्षु के बारे में कही।

क. वर्तमान कथा

एक भिक्षु, 'आवसो ! हमारी जाति सदृश जाति, हमारे गोत्र सदृश गोत्र, (कोई) नहीं। हम ऐसे . . महाक्षत्रिय कुल में पैदा हुए। गोत्र की या कुल-प्रदेश की दृष्टि से, हमारे सदृश कोई नहीं। हमारे यहाँ सोने चाँदी का कोई हिसाब (=अन्त) नहीं। हमारे नौकर-चाकर (तक) शाली-मांसोदन खाते हैं, काशी का (बना) वस्त्र पहनते हैं; (और) काशी के चन्दन से विलेपन करते हैं। इस समय प्रब्रजित हो जाने से हम इस प्रकार के रूखे सूखे भोजन खाते हैं; रूखे सूखे चीवर पहनते हैं' कह बृद्ध-मध्यम-

तरुण (=नवीन) भिक्षुओं के बीच, अपनी बड़ाई करते, जाति आदि का अभिमान दिखाते, (औरों को) ठगते हुए घूमता था।

एक भिक्षु ने उसके कुल-प्रदेश की परीक्षा कर, उसके गप भारने की बात भिक्षुओं से कही। धर्म सभा में इकट्ठे हुए भिक्षु, उसकी निन्दा करने लगे—
“आयुष्मानो ! अमुक भिक्षु, इस प्रकार के कल्याणकारी शासन में प्रब्रजित होकर भी, गप्प मारता, आत्म-प्रशंसा करता, (और) ठगता फिरता है।”

बुद्ध ने आकर पूछा—“भिक्षुओ ! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रह हो ?” “यह ! बातचीत” कहने पर, “भिक्षुओ ! न केवल अभी वह भिक्षु, (इस प्रकार) गप्प मारता, आत्म-प्रशंसा करता, ठगता फिरता है, पहले भी वह (इसी प्रकार) गप मारता, आत्म-प्रशंसा करता, ठगता फिरता रहा है” कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मवत्त के राज्य करते समय, बोधि-सत्त्व एक निगम ग्राम में, (एक) प्रसिद्ध ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, आयु होने पर, तक्षशिला में जा, लोक प्रसिद्ध आचार्य के पास तीनों वेद तथा अठारह विद्याये सीख, सब शास्त्रों (=शिल्पों) में सम्पूर्णता प्राप्त कर, चुल्लधनुग्गह पण्डित नाम से (प्रसिद्ध) हुआ। तक्षशिला से निकल, वह सब (दूसरे) समयों (=आगम, शास्त्र) तथा शिल्पों की परीक्षा करता हुआ महिसक राष्ट्र^१ (=देश) को गया। इस जन्म में बोधिसत्त्व थोड़े छोटे (=ह्रस्व) कद के, तथा भुके हुए थे। उन्होंने सोचा—“यदि मैं किसी राजा के पास जाऊँगा, तो वह कहेगा ‘तू ऐसे छोटे कद वाला हमारा क्या (काम) कर सकेगा ?’ इसलिए मैं किसी डील-डौल वाले सुन्दर मनुष्य को आगे करके, (अपने) उसकी झोट में होकर जीविका कमाऊँ।”

सो, उसने, वैसे आदमी की खोज करते हुए, भीमसेन नामक एक जुलाहे के कपड़ा बुनने के स्थान पर जा उसके साथ कुशल-क्षेम की बातचीत कर

^१ नर्मदा के दक्षिण तट पर, इन्वौर से करीब चालीस मील महिष्मती।

पूछा—“सौम्य ! तेरा क्या नाम है ?”

“मेरा नाम भीमसेन है ।”

“तू इस प्रकार के सौन्दर्य से युक्त हो, यह तुच्छ काम करता है ?”

“जीविका (का और उपाय) न होने से ।”

उसने “सौम्य ! इस काम को मत कर । मेरे समान धनुषधारी, सारे जम्बूद्वीप में नहीं हैं, (लेकिन) यदि मैं किसी राजा के पास जाऊँ, तो शायद वह क्रोधित हो जाये कि यह इतने छोटे क्रद वाला हमारा क्या (काम) कर सकेगा । तू राजा के पास जाकर कह कि मैं धनुषधारी हूँ । राजा, तुझे खर्चा दे, तेरी बँधी-वृत्ति लगा देगा । जो जो वह तुझे करने को कहेगा मैं उसे करता हुआ, तेरी ओट में रहूँगा । इस प्रकार (हम) दोनों जने सुखी रहेंगे” (कह) पूछा—“मानता है मेरी बात ?” जुलाहे ने ‘अच्छा’ कह स्वीकार किया ।

उसने उसे बाराणसी ले जा, अपने आप चुल्ल-धनु-उपस्थायक (= सेवक) बन, उसे आगे कर, राज-द्वार पर जा, राजा को कहलवाया । “आजाये” कहने पर, दोनों जने जा, राजा को प्रणाम कर, खड़े हुए । “किस लिए आये ?” पूछने पर, भीमसेन बोला—“मैं धनुष-धारी हूँ । सारे जम्बूद्वीप में, मेरे सदृश धनुष-धारी नहीं ।”

“क्या मिलने पर हमारी सेवा में रहोगे ?”

“देव ! अर्ध-मास में हज़ार (मुद्रा) मिलने पर रह सकेंगे ।”

“यह पुरुष, तेरा कौन होता है ?”

“देव ! चुल्ल उपट्ठाक (=छोटा सेवक) ।”

“अच्छा ! तो सेवा में रहो ।”

उस समय से भीमसेन, राजा की सेवा में रहने लगा; जो जो काम पड़ता, उसे बोधिसत्त्व ही करता ।

उस समय काशी राष्ट्र के एक जंगल में बहुत से मनुष्यों के आने जाने का मार्ग (एक) व्याघ्र ने छुड़ा दिया था । वह मनुष्यों को पकड़ पकड़ कर खा जाता था । (लोगों ने) वह समाचार राजा को कहा । राजा ने भीमसेन को बुलाकर पूछा—“तात ! उस व्याघ्र को पकड़ सकेगा ?”

“देव ! तो मेरा नाम धनुषधारी ही क्या, यदि मैं उस व्याघ्र न को

पकड़ सकूँ।”

“राजा ने उसे खर्चा दे कर भेजा। उसने घर जा कर बोधिसत्त्व को कहा। बोधिसत्त्व ने कहा—“अच्छा! सौम्य! जा।”

“लेकिन तू नहीं जायेगा?”

“हाँ मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन तुझे उपाय बताऊँगा।”

“सौम्य! (उपाय) बता।”

“तू सहसा व्याघ्र के निवास स्थान पर अकेला न जाना। जनपद के मनुष्यों को इकट्ठा करवा, एक दो सहस्र धनुष (साथ) लिवा, वहाँ जाकर, ‘व्याघ्र उठा है,’ मालूम होते ही भाग कर किसी घने-भाड़ (=गुम्ब) में घुस कर, पेट के बल लेट रहना। जन-पद के लोग ही व्याघ्र को मार कर, पकड़ लेंगे। उनके व्याघ्र को मार चुकने पर, तू दाँतों से एक बेल (=लता) काट, (उसके) एक सिरों को (हाथ में) ले, मृत व्याघ्र के पास जा, कहना, “भो! इस व्याघ्र को किसने मार डाला? मैं इसे लता से बाँध कर, बेल की तरह राजा के पास ले जाने के लिए, लता लाने को घने-भाड़ में गया था। मेरे लता लाने से पहले किसने इसे मार डाला?” तब डर के मारे, जनपद के लोग ‘स्वामी! राजा से मत कहना’ (करके) बहुत धन देगे। व्याघ्र को तू ही ले जायेगा, सो राजा से भी तुझे बहुत धन मिलेगा।”

उसने ‘अच्छा’ कह, जाकर, बोधिसत्त्व के बताये उपाय से ही व्याघ्र को पकड़, जंगल को भय-रहित कर, बहुत से जनों के साथ बाराणसी को लौट, राजा को देख कर कहा—“देव! मैंने व्याघ्र पकड़ लिया। जंगल निर्भय कर दिया।” राजा ने प्रसन्न हो, बहुत धन दिया।

फिर एक दिन एक भैंसे ने एक मार्ग छुड़ा दिया। (लोगों ने) राजा को कहा। राजा ने वैसे ही, भीमसेन को भेजा। वह, बोधिसत्त्व के बताये उपाय से, उसे भी व्याघ्र की तरह ले आया। राजा ने फिर बहुत सा धन दिया। (इससे) बहुत सम्पत्ति हो गई। ऐश्वर्य के मद से मत्त (=मस्त) हो, वह बोधिसत्त्व की श्रवज्ञा करने लगा। उसके कहने को न मानता। ‘मैं कोई इस पर, निर्भर होकर जीता हूँ’ सोच ‘क्या तू ही आदमी है?’ आदि कठोर वाक्य कहता।

कुछ ही दिनों के बाद, एक शत्रु-राजा ने आकर बाराणसी को घेर, राजा के पास संदेश भेजा। “या तो राज्य दे, या युद्ध करें।”

राजा ने "जा, लड़" (करके), भीमसेन को भेजा। वह सब शस्त्र बाँध योधा का भेष धारण कर अच्छी प्रकार कसे हुए हाथी की पीठ पर बैठा। बोधिसत्त्व भी, उसके मरने के भय से, सब शस्त्र बाँध, भीमसेन के पीछे शासन पर बैठा। जन (-समूह) से घिरा हुआ हाथी, नगर-द्वार से निकल संग्राम-भूमि में आया। भीमसेन ने युद्ध-भेरी का शब्द सुनते ही काँपना आरम्भ किया। बोधिसत्त्व ने 'अब यह हाथी की पीठ से गिर कर मरेगा' सोच, भीमसेन को रस्ती से घेर कर बाँध रक्खा। भीमसेन ने लड़ाई की जगह देख, मरने से भयभीत हो, हाथी की पीठ को मल-मूत्र से खराब कर दिया। बोधिसत्त्व ने 'भीमसेन ! तेरा पहला (आचरण) और वर्तमान (आचरण) मेल नहीं खाता। तू पहले संग्राम-योधा की भाँति था, (लेकिन) अब हाथी की पीठ को खराब करता है' कह, यह गाथा कही—

यं ते पबिकत्थितं पुरे
अथ ते पूतिसरा सजन्ति पच्छा,
उभयं न समेति भीमसेन !
युद्धकथा च इवञ्च ते विहञ्जं ॥

[भीमसेन ! वह जो तेरी पहली बड़ाई थी, और यह जो अब पीछे मल-मूत्र बहा रहा है; वह युद्धकथा और यह कष्ट पाना, दोनों मेल नहीं खाते ।]

यं ते पबिकत्थितं पुरे, जो तू ने पहले अभिमान पूर्वक कहा था कि क्या तू ही आदमी है, मैं भी संग्राम-योधा नहीं हूँ, यह तेरा कथन। अथ ते पूति सरा सजन्ति पच्छा, सो यह गन्दी (=पूति) होने से तथा बहने वाली (=सरति) होने से 'पूति-सरा' कही जाने वाली मल-मूत्र धारायें, बहती हैं, ढलकती हैं, चूती हैं। पच्छा, पहले कथन के बाद, अब इस संग्राम-भूमि में। उभयं न समेति भीमसेन ! हे भीमसेन ! यह दोनों मेल नहीं खाते। कौन ? युद्ध कथा च इवञ्च ते विहञ्जं वह जो पहले कही थी, सो युद्ध-कथा; और यह जो अब तेरी पीड़ा = कष्ट पाना, हाथी की पीठ खराब करने जैसा विधात।

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने उसकी भर्त्सना कर, 'सौम्य ! डर मत । मेरे रहते तुझे डर किस बात का ?' कह भीमसेन को हाथी की पीठ से उतार, 'नहाकर, घर जा' कह, भेजा । फिर 'आज मुझे प्रगट होना चाहिए' (सोच) संग्राम में प्रवेश करके, उन्नाद किया, सेना का व्यूह तोड़ कर, शत्रु-राजाओं को जीवित ही पकड़ ले जाकर, बाराणसी-नरेश के पास गया । राजा ने सन्तुष्ट हो, बोधिसत्त्व को बहुत ऐश्वर्य दिया । उस समय से चुल्लधनुग्गह पण्डित, सारे जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध हो गया । वह, भीमसेन को खर्चा दे, उसे (उसके) निवास स्थान पर भेज, दान आदि पुण्य कर्म करके, यथा-कर्म (परलोक) गया ।

बुद्ध ने 'भिक्षुओ ! न केवल अभी यह भिक्षु अपनी बड़ाई करता है, (इसने) पहले भी की है' कह इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया । उस समय का भीमसेन (अब का) गप्पी (=आत्म प्रशंसक) भिक्षु था । लेकिन चुल्लधनुग्गह पण्डित में ही था ।

पहला परिच्छेद

६. अपायिम्ह वर्ग

८१. सुरापान जातक

“अपायिम्ह अनच्चिम्ह. .” यह गाथा बुद्ध ने कोशाम्बी के पास घोसिताराम में विहरते समय, सागत स्थविर के सम्बन्ध में कही।

क. वर्तमान कथा

भगवान् के श्रावस्ती में वर्षावास समाप्त कर, चारिका करते हुए भद्रवती नाम के निगम पर पहुँचने पर, ग्वालों, पशुपालों, कृषकों तथा राहियों ने शास्ता को देख, प्रणाम कर कहा—? “भन्ते ! भगवान् अम्बतीर्थ को मत जाये। अम्बतीर्थ में, जटिल के आश्रम में अम्बतीर्थक नामक (एक) नाग, विषैला सर्प, घोर विषैला सर्प (है)। वह कही भगवान् को कष्ट (न) पहुँचाये।”

भगवान्, जैसे उनकी बात सुनी ही न हो, वैसे, उनके तीन बार मना करने पर भी चले ही गये।

उस समय, भगवान् के भद्रवती से कुछ ही दूर एक बन-खंड में विहार करते समय, उस समय के बुद्ध उपस्थायक सागत नामक स्थविर, जो लौकिक ऋद्धि से युक्त थे, उस आश्रम में जा, उस नाग राज के निवास स्थान पर तिनकों का आसन बिछा, पालथी मार कर बैठे। नाग ने हंसद के मारे धुआँ निकालना आरम्भ किया। स्थविर ने भी धुआँ निकाला। नाग प्रज्वलित हुआ। स्थविर भी प्रज्वलित हुए। नाग के तेज से स्थविर को कष्ट नहीं होता था; लेकिन स्थविर का तेज नाग को कष्ट देता था। इस प्रकार वे (एक) क्षण में ही नाग-राजा का दमन कर, उसे त्रि-शरण तथा पञ्चशील में प्रतिष्ठित कर, शास्ता के पास चले आये।

बुद्ध भी भद्रवतिका में यथा रुचि विहार कर कोशाम्बी चले गये। सागत स्थविर द्वारा नाग के दमन किये जाने की बात सारे जनपद में फैल गई। कोशाम्बीवासी (लोग) बुद्ध की अगवानी कर, बुद्ध को प्रणाम कर, सागत स्थविर के पास जा, प्रणाम कर, एक ओर खड़े हो कहने लगे—“जो आपको दुर्लभ हो, वह कहें। हम वही तैयार कर देंगे।” स्थविर चुप रहे। लेकिन छः वर्गीय (भिक्षुओं) ने कहा—“आवुसो! प्रब्रजितों को कबूतरी शराब दुर्लभ होती है, और अच्छी लगती है। यदि तुम स्थविर पर प्रसन्न हो तो कबूतरी शराब तैयार करो।” उन्होंने ‘अच्छा’ कह स्वीकार कर बुद्ध को अगले दिन के लिए निमन्त्रण दे, नगर में प्रवेश कर ‘अपना अपना घर स्थविर को दिखायेंगे’ (सोच) कबूतरी शराब तैयार कर, स्थविर को निमन्त्रित कर, घर में शराब दी। स्थविर पीकर, शराब के नशे में मस्त हो, नगर से निकलते हुए, द्वार के बीच में ही गिर कर, (वहाँ) बकवास करते हुए पड़े रहे।

बुद्ध भोजन समाप्त कर, नगर से निकलते समय, स्थविर को उस प्रकार पड़े देख, ‘भिक्षुओ! सागत को उठा लो’, कह, उसे लिवा कर, आराम (=निवास स्थान) पर आये। भिक्षुओ न स्थविर का सिर तथागत के चरणों में करके, उसे लिटा दिया। वह पलट कर, तथागत की ओर पैर करके, लेट रहा। बुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा—“भिक्षुओ! सागत का जो पहले मेरे प्रति गौरव था, सो अब है?”

“भन्ते! नहीं।”

“भिक्षुओ! अम्बतीर्थ के नाग-राज का किसने दमन किया?”

“भन्ते! सागत ने।”

“भिक्षुओ! क्या सागत अब पानी के साँप का भी दमन कर सकता है?”

“भन्ते! नहीं।”

“तो क्या भिक्षुओ! ऐसी चीज का पीना उचित है, जिसे पीकर बेहोश हो जाय?”

“भन्ते! अनुचित।”

सो भगवान्, स्थविर की निन्दा कर, भिक्षुओं को आमन्त्रित कर “सुरा-

मेरय पान में पाचिति (=दोष) है” (करके) शिक्षापद (=नियम) बना, आसन से उठ कर, गन्धकुटी में चले गये। धर्मसभा में एकत्र हुए भिक्षु शराब के दोष कहने लगे—“आवुसो ! शराब कितनी खराब है ; जिसने प्रज्ञावान् ऋद्धिवान् सागत स्थविर को ऐसा कर दिया कि उसे तथागत के गुण तक की होश न रहे।”

शास्ता ने आकर पूछा—“भिक्षुओ ! इस समय बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो ?” उनके ‘यह बातचीत’ कहने पर, (शास्ता ने) ‘भिक्षुओ ! शराब पीकर न केवल अभी प्रब्रजित बेहोश होते हैं, पहले भी हुए हैं’ कह, पूर्व जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मवत् के राज्य करते समय, बोधि-सत्व, क्राशी राष्ट्र के एक उदीच्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, बड़े होने पर, ऋषि प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित हो, अभिञ्जा और समापत्तियों का लाभ कर, ध्यान क्रीड़ा में रत रहते, हिमवन्त में निवास करते थे। उनके साथ पाँच सौ शिष्य थे। सो, वर्षा का समय आने पर शिष्यों ने पूछा—आचार्य्य ! आबादी में जा कर निमक-खटाई का सेवन करके आवे।

“आवुसो ! मैं तो यहीं रहूँगा। तुम जाकर शरीर को संतुष्ट करो। वर्षा (ऋतु) के बीतने पर चले आओ।”

वे ‘अच्छा’ कह, आचार्य को प्रणाम कर बाराणसी जा, (वहाँ) राजा के उद्यान में ठहरे।

अगलेदिन, नगर के बाहर ही बाहर भिक्षा माँग, संतुष्ट हो, (उससे) अगले दिन नगर में प्रवेश किया। मनुष्यों ने प्रसन्नता-पूर्वक भिक्षा दी। कुछ दिन बीतने पर (लोगों ने) राजा को कहा—“देव ! हिमवन्त से पाँच सौ ऋषि आकर उद्यान में ठहरे हुए हैं। वे धीर तपस्वी हैं, संयतेंद्रिय हैं, तथा शीलवान् हैं।” राजा उनकी प्रशंसा सुन, उद्यान में गया। उन्हें प्रणाम कर, कुशल क्षेम पूछ वर्षा ऋतु के चारों महीने वही रहने का वचन ले, निमन्त्रण

‘प्रायश्चित्त करने योग्य दोष है (भिक्षु प्रातिभोक्ष)।’

दिया। उस दिन से वह राज-भवन में भोजन करते (और) उद्यान में रहते थे।

एक दिन नगर में शराब पीने का उत्सव था। 'प्रब्रजितों को शराब दुर्लभ होती है' सोच राजा ने उन्हें अत्युत्तम शराब दिलवाई। तपस्वी शराब पी, उद्यान में जाकर, शराब से बदमस्त हो, कोई कोई उठ कर नाचने लगे, कोई कोई गाने लगे। नाच कर, गाकर, खारी आदि फैला कर सो रहे। शराब के नशे के उतरने पर उठकर अपने उस विकार को देख, 'हम ने प्रब्रजित जीवन के अनुकूल नहीं किया' (सोच) रोने पीटने लगे। फिर 'हमने आचार्य्य-रहित होने के कारण ही, ऐसा पाप किया' (सोच), उसी क्षण उद्यान को छोड़ हिमवन्त को जा, परिष्कारों (=चीवर आदि) को ठीक से कर, आचार्य्य को प्रणाम कर, उनके 'तात ! आबादी में बिना भिक्षा के कष्ट के सुख से तो रहे ? आपस में मेल से तो रहे' पूछने पर 'आचार्य्य सुख से तो रहे। लेकिन हमने न पीने योग्य चीज पीकर, बेहोश हो स्मृति को न सँभाल सकने के कारण नाचा और गाया।' यह हाल कहते हुए इस गाथा को कहा—

अपायिम्ह अनच्चिम्ह अगायिम्ह रुदिम्ह च ,

विसञ्जकरणं पीत्वा दिट्ठा ना हुम्ह बानरा ॥

[शराब पी, नाचे, गायें और रोये। खुशी इतनी है कि इस बेहोश बना देनेवाली को पीकर हम बानर नहीं बन गये।]

अपायिम्ह, सुरा पी। अनच्चिम्ह, उसे पी, हाथ पैरों को मटका मटका कर नाचे। अगायिम्ह, मुँह को खोल कर लम्बे स्वर से गाया। रुदिम्ह, फिर पश्चात्ताप से, 'हमने ऐसा किया' (सोच) रोये। दिट्ठा ना हुम्ह बानरा, इस प्रकार बेहोश होने पर विसञ्जकरणं (=बेहोश करने वाली सुरा) को पीकर, यही अच्छा हुआ कि हम बानर नहीं बन गये।

इस प्रकार उन्होंने अपने दुर्गुण कहे। बोधिसत्व 'आचार्य्य से पृथक् होने पर ऐसा होता ही है' कह, उन तपस्वियों की निन्दा कर 'अब फिर ऐसा न करना' कह, उनको उपदेश दे, ध्यान-युक्त रह, ब्रह्मलोकगामी हुए।

बुद्ध ने इस धर्मदेशना को कह जातक का सारांश निकाल दिया। इससे आगे 'मेल मिलाकर'—यह भी नहीं कहेंगे।

उस समय के ऋषि गण (अब की) बुद्ध-परिषद् थी। गण का गुस तो में ही था।

८२. मित्तविन्द जातक

“अतिक्कम्म रमणकं . .” यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय एक बात न मानने वाले भिक्षु के सम्बन्ध में कही।

क. वर्तमान कथा

इस जातक की काश्यप सम्यक् सम्बुद्धकालीन कथा दसवे निपात (=परिच्छेद) में महामित्तविन्दक जातक^१ में आयेगी।

ख. अतीत कथा

उस समय बोधिसत्व ने यह गाथा कही—

अतिक्कम्म रमणकं सदामत्तं च दूभकं,
स्वासि पासाणमासीनो यस्मा जीवं न मोक्खसि ॥

[[“रमणकं”, “सदामत्तं” और “दूभकं”—इन तीनों प्रासादों को छोड़ कर, तू एक ऐसे पत्थर से चिमट गया, जिससे अपने को जीते जी न छुड़ा सकेगा।]

रमणकं उस समय स्फटिक को कहते थे, मतलब तू स्फटिक के प्रासाद को छोड़ आया। सदामत्तंच, “रजत” का नाम है, मतलब तू रजत के प्रासाद

^१ जातक (४३६)

को छोड़ आया। बूभकं, मणि का नाम है, मतलब तू मणिमय प्रासाद को छोड़ आया। स्वासि, वह (=सो) है तू। पासाणमासीनो, उरचक्र पत्थर का होता है, चाँदी का होता है अथवा मणि का होता है, लेकिन वह पत्थर का था, सो वह उस पत्थर के उरचक्र से धर लिया गया (=आसीनो, अभिनिविष्टो=अर्ज्जोत्थटो)। पाषाण से धर लिये जाने (=आसीनता) के कारण पासाणासीनो। व्यंजन सन्धि के कारण 'म' का आगम कर, पासाण-मासीनो' कहा। अथवा पासाण को आसीन हो. अर्थात् उस उरचक्र को पहुँच—प्राप्त हो, खड़ा हुआ। यस्मा जीवं न मोक्खसि—जिस उरचक्र' से जब तक तेरे पाप का नाश न होगा, तब तक जीते जी मुक्त न होगा, सो वैसे पत्थर से चिमटा है।

यह (गाथा) कह, बोधिसत्व, अपने देवस्थान को चले गये।

मित्रविन्दक भी उरचक्र को धारण कर, महादुःख सहता हुआ, पापकर्म के क्षीण होने पर, कर्मानुसार गया।

बुद्ध ने यह धर्म-देशना कह, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय का मित्रविन्दक (अब का) बात न मानने वाला भिक्षु था। लेकिन देव-सजा में ही था।

८३. कालकण्ठ जातक

“मित्तो हवे सत्तपवेन होति..” यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, अनाथपिण्डिक के एक मित्र के बारे में कही।

‘ देखो मित्रविन्दक जातक (१०४) ।

क. वर्तमान कथा

वह अनाथपिण्डक का लंगोटिया यार था। दोनों ने एक ही आचार्य के पास (इकट्ठे) शिल्प सीखा था। उसका नाम था कालकण्ठी (=मनहूस)। समय बीतते बीतते वह दुर्गति को प्राप्त हो, (आसानी से) न जी सकने के कारण सेठ के पास चला आया। सेठ ने उसे आशवासित कर, खर्चा दे, उसके परिवार का पालन किया। वह सेठ का उपकारी हो, उसके सब काम करने लगा। जब वह सेठ के पास आता, तो उसे कहा जाता—“कालकण्ठी ! खड़ा हो; कालकण्ठी ! बैठ; कालकण्ठी ! खा।” सो एक दिन सेठ के दोस्तों ने सेठ के पास आकर कहा—“सेठ ! इसे अपने पास मत रखें। ‘कालकण्ठी ! खड़ा हो; कालकण्ठी ! बैठ; कालकण्ठी ! खा।’ इस शब्द (को सुनने) से यक्ष भी भाग जाये। यह तेरे योग्य नहीं। यह दरिद्र है, कुरूप है—तुम्हें इस से क्या ?”

अनाथपिण्डक (ने उत्तर दिया)—“नाम व्यवहार-मात्र है। पिण्डित-जन उसका ख्याल नहीं करते। भुत-माङ्गलिक^१ नहीं होना चाहिए। केवल नाम के कारण, मैं अपने लंगोटिया-यार को नहीं छोड़ सकता।”

उनकी बात न मान, एक दिन वह अपने भोग-आम में जाते समय, उसे अपने घर का राखा बना कर गया।

“सेठ गाँव गया है। इसका घर लूटें” (सोच) चोरों ने, हाथ में नाना प्रकार के आयुध ले, रात को आकर, घर घेर लिया। वह (=राखा) भी, चोरों के आने की आशंका से, जागता बैठा था। उसने, चोरों को आया जान, मनुष्य को जगा, ‘तू शंख बजा’, ‘तू ढोल (=आलिङ्ग बजा’ कह महासमज्ज (=मेला) करवाते हुए की तरह, सारे घर को एक शब्द कर दिया। ‘घर खाली है, यह हमारी खबर गलत है। सेठ यहीं है’ (सोच) चोर पाषाण, मुद्गर आदि वही छोड़; भाग गये।

^१माङ्गलिक शब्दों का श्रवणमात्र श्रेयस्कर मानने वाले को भुत-माङ्गलिक कहते हैं।

अगले दिन लोगों ने जहाँ तहाँ पड़े, पाषाण मुद्गर आदि को देख, संविग्न-चित्त हो, “यदि आज इस प्रकार का बुद्धिमान् गृह-रक्षक न होता तो चोर घर में घुस, इसे यथारुचि लूट कर ले जाते। इस दृढ़-मित्र के कारण सेठ की हानि नहीं हुई उन्नति हुई” उसकी प्रशंसा कर, सेठ के गाँव से लौटने पर, उसे सब हाल कहा।

सेठ ने उन्हें उत्तर दिया—“तुम मेरे ऐसे गृह-रक्षक मित्र को निकलवाते थे। यदि, तुम्हारी बात मान, मैंने इसे निकाल दिया होता, तो आज मेरा कुछ भी (बाक़ी) न रहता। नाम नहीं चाहिए, हितैषी-चित्त ही चाहिए।” यह कह, उसे और भी खर्चा दे ‘अब मेरे पास यह कहने-योग्य बात है’ सोच बुद्ध के पास जा कर आरम्भ से लेकर सब हाल कह सुनाया।

बुद्ध ने ‘हे गृहपति ! न केवल अभी कालकण्णी-मित्र ने अपने मित्र के घर के माल-असबाब की रक्षा की, पहले भी रक्षा की है’ कह, उसके याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मवत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्व महान् ऐश्वर्यवान् सेठ था। उसका कालकण्णी नाम का मित्र था। शेष सब (कथा) प्रत्युत्पन्न (=वर्तमान)—कथा सदृश ही। बोधिसत्व ने भोग-ग्राम से लौट, वह समाचार सुन, ‘यदि मैंने तुम्हारी बात मान, ऐसे मित्र को निकाल दिया होता, तो आज मेरा कुछ भी न रहता’ कह, यह गाथा कही—

मित्तो ह्वं सत्तपदेन होति
सहायो पन द्वावसकेन होति,
मासद्धमासेन च ज्ञाति होति
तत्तुत्तरि अत्तसम्मोपि होति ॥
सोहं कथं अत्तसुखस्स हेतु
बिरसन्धुतं कालकण्णिं जहेय्यं ॥

[सात कदम साथ चलने से (आदमी) मित्र हो जाता है, बारह (दिन)

साथ रहने से 'सहायक' हो जाता है, महीना आधा महीना (साथ रहने) से, 'वाति' (=रिश्तेदार) हो जाता है, और उस से अधिक (साथ) रहने से अपने जैसा (=आत्म-समान) भी हो जाता है। सो मैं अपने आत्म-सुख के लिए, चिर काल तक साथ रहे, इस कालकण्णि (मित्र) को कैसे छोड़ दूँ ?]

हबे, निपात-मात्र है। मैत्री करने वाला मित्र है—अर्थात् (मित्र) मैत्री करता है, स्नेह करता है। सो यह (मित्र) सत्तपदेन होति, सात कदम इकट्ठे चलने से (भी) होता है, सहायो पन द्वादसकेन होति, सब कृत्यों को इकट्ठा करने से, सभी अवस्थाओं में साथ (=सह) जाने वाला, 'सहायक' सो यह, बारह दिन इकट्ठे रहने से होता है। मासद्धमासेन च महीना या आधा महीना (साथ रहने) से। वाति होति, वाति (=रिश्तेदार)—सदृश होता है। तत्तुलारं, उस से अधिक साथ रहने से अत्तसमोपि होति (= अपने जैसा भी होता है)। जहेय्यं, इस प्रकार के मित्र को कैसे छोड़ूँ ? मित्रता के रस की प्रशंसा करता है।

उसके बाद से फिर कोई भी, उनके बीच में कुछ बोलने वाला नहीं हुआ। शास्ता ने यह धर्म-देशना कह जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का कालकण्णी, (अब का) आनन्द था। बाराणसी सेट्ठी तो मैं ही था।

८४. अत्यस्सद्वार जातक

'आरोत्यमिच्छे परमं च लाभं...' यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, एक 'अर्थ-कुशल' पुत्र के बारे में कही।

क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती के एक अत्यन्त वैभवशाली श्रेष्ठी का एक पुत्र था, जिसकी आयु सात वर्ष की थी (और) जो अत्यन्त प्रज्ञावान् और 'अर्थ-कुशल' था। उसने एक दिन पिता के पास जाकर 'अर्थ का द्वार'—प्रश्न पूछा। वह उस प्रश्न (के उत्तर) को नहीं जानता था। उसने सोचा—“यह प्रश्न अत्यन्त सूक्ष्म है। सम्यक् सम्बुद्ध को छोड़ कर और कोई भी, ऊपर भवाग्र से लेकर, नीचे श्रवीची (नरक) तक के लोक में, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।” वह पुत्र को ले, बहुत सा माला-गन्ध-विलेपन साथ लिवा, जेतवन जाकर बुद्ध की पूजा-प्रणाम कर, एक ओर बैठ, भगवान् से कहने लगा—“भन्ते ! यह बालक बुद्धिमान् है। अर्थ-कुशल है। इस ने मुझे अर्थ के द्वार के विषय मे प्रश्न पूछा है। मैं इस प्रश्न को न जानने के कारण, आपके पास आया हूँ। अच्छा हो, यदि भगवान्, मुझे इसका उत्तर दे !” बुद्ध ने 'उपासक ! इस कुमार ने पहले भी मुझ से यह प्रश्न पूछा था, और भंने इसे कह दिया था। उस समय यह इस प्रश्न का उत्तर जानता था; लेकिन जन्मान्तर की बात होने से अब इसे वह याद नहीं' कह, उसके याचना करने पर, पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे बाराणसी में (राजा) ब्रह्मवत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्व महावैभवशाली श्रेष्ठी हुए। उनका एक पुत्र था, जिसकी आयु सात वर्ष की थी, और जो प्रज्ञावान् तथा 'अर्थ-कुशल' था। उसने एक दिन पिता के पास जाकर 'तात ! अर्थ का द्वार कौन सा है ?' करके, अर्थ-द्वार-प्रश्न पूछा। उसके पिता ने उस प्रश्न (के उत्तर) को कहते हुए, यह गाथा कही—

आरोग्यमिच्छे परमं च लाभं
सीलं च बुद्धानुमतं सुतं च,
धम्मानुवत्ती च अलीनता च
अथस्स द्वारा पमुखा छल्लेते ॥

[आरोग्यता, जो कि परम लाभ है, (सर्व प्रथम) उसकी इच्छा करे; शील (=सदाचार); ज्ञान-वृद्धों का उपदेश; (बहु) श्रुतता, धर्मानुकूल आचरण, अनासक्ति—यह छः अर्थ (=उन्नति) के प्रमुख द्वार हैं।]

आरोग्यमिच्छे परमं च लाभं, 'च' निपातमात्र है। तात ! सर्व प्रथम आरोग्य नामक परम लाभ की इच्छा करे ! इस अर्थ को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—'आरोग्य कहते हैं, शरीर तथा मन दोनों का आरोग्य होना, अनातुरता। शरीर के रोग से पीड़ित होने पर, न तो अप्राप्त लाभ प्राप्त किया जा सकता है, न प्राप्त (भोग) का उपभोग किया जा सकता है। लेकिन अनातुर (=स्वस्थ) होने पर यह दोनों कर सकता है। चित्त के क्लेश (=विकार) से पीड़ित होने पर, न तो अप्राप्त ध्यान आदि लाभ प्राप्त किया जा सकता है, न प्राप्त ध्यान फिर समापत्ति-रूप से भोग किया जा सकता है। इसके अस्वस्थ रहने पर, अप्राप्त लाभ प्राप्त नहीं होता, जो मिला है सो भी निष्प्रयोजन होता है। लेकिन इसके (आतुर) न होने पर, अप्राप्त लाभ होता है, प्राप्त लाभ सार्थक होता है। सो, आरोग्य परम लाभ है, सर्व प्रथम उसकी इच्छा करनी चाहिए। उन्नति का यह एक (मुख्य) द्वार है। सीलं च, आचारशील इससे मतलब है लौकिक बरताव। बुद्धानुमतं, गुणवृद्धों की, पण्डितों की मति, मतलब है गुणियों का, गुरुओं का उपदेश। सुतं च, उपयोगी श्रुत, इससे स्पष्ट किया है कि इस लोक में अर्थ-निश्चित (=उपयोगी) बहुसत्त्वं (=बहुश्रुतता, ज्ञेय) है। धम्मानुवृत्ति च, त्रिविध, सुचरित्र धर्म के अनुसार चलना, अलीनता च, चित्त की अलीनता, अनीचता, इससे चित्त का असंकुचित होना, श्रेष्ठ होना, उत्तम होना स्पष्ट किया है। अत्यस्स द्वारा पमुखा छल्लेते अर्थ—उन्नति, इस 'अर्थ' कहलाने वाली लौकिक, लोकोत्तर उन्नति के यह छः मुख्य द्वार हैं, उपाय हैं, प्रवेश-मार्ग हैं।

इस प्रकार बोधिसत्व ने पुत्र के अर्थ-द्वार प्रश्न का उत्तर दिया। उस समय से वह, उन छः धर्मों के अनुसार आचरण करने लगा।

बोधिसत्त्व भी दान आदि पुण्य-कर्म करके (अपने) कर्मानुसार (परलोक) गये ।

बुद्ध ने यह धर्म-देशना कह जातक का सारांश निकाल दिया । उस समय का पुत्र ही यह (अब का) पुत्र था । महासेठ तो मैं ही था ।

८५. किम्पक जातक

“आयतिबोसं नाञ्जाय . .” यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहरते हुए एक आसक्त-चित्त भिक्षु के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

एक कुल पुत्र बुद्ध शासन में अत्यन्त श्रद्धा से प्रब्रजित हो, एक दिन श्रावस्ती में भिक्षा मांगते हुए, एक अलंकृत स्त्री को देखकर आसक्त हो गया । उसके आचार्य्य उपाध्याय उसे बुद्ध के पास लाये ।

बुद्ध ने पूछा—“भिक्षु ! क्या तू सचमुच उत्कण्ठित है ?” उसके “सचमुच” कहने पर बुद्ध ने कहा ‘हे भिक्षु ! यह पाँच काम-गुण (=भोग) भोगने के समय सुन्दर लगते हैं । लेकिन, उनका भोगना निरय आदि में उत्पत्ति का कारण होने से, वह किम्पकफल सदृश है । किम्पकफल, वर्ण-गन्ध तथा रस से युक्त होता है, लेकिन खाने पर आँतो को टुकड़े टुकड़े कर, प्राणो का नाश कर देता है । पहले बहुत से आदमी उसके दोष को न जान (=देख), उसके वर्ण-गन्ध तथा रस में आसक्त हो उस फल को खाकर, प्राण गँवा बैठे ।’ यह कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्राह्मवत्स के राज्य करने के समय,

बोधिसत्त्व ने सार्थवाह हो, पाँच सौ गाड़ियों के साथ पूर्व से पश्चिम को जाते हुए, एक जंगल के द्वार पर पहुँच, मनुष्यों को एकत्र कर, उपदेश दिया— “इस जंगल में विष-वृक्ष है। मेरे बिना पूछे, कोई किसी ऐसे फल को न खाये, जिसे उसने पहले न खाया हो।”

मनुष्यों ने जंगल को पार कर, उसके द्वार पर फलों से लदा हुआ एक किम्पक्क वृक्ष देखा। उसके टहने, शाखाएँ, पत्ते तथा फल, आकार, वर्ण, रस और गन्ध की दृष्टि से आम के सदृश ही थे। उनमें से कुछ (आदमियों) ने वर्ण, गन्ध तथा रस की ओर खिंच, उन्हें आम के फल समझ कर खाया। कुछ जने ‘सार्थवाह को पूछ कर खायेगे,’ (करके) लिये खड़े रहे। बोधिसत्त्व ने वहाँ पहुँच, जो फल लिये खड़े थे, उन से वह फल फेंकवा, जिन्होंने खा लिये थे, उन्हें वमन करा दवाई दी। उन में से कुछ तो निरोग हो गये, लेकिन जो बहुत पहले खा चुके थे, वे मर गये। बोधिसत्त्व सकुशल इच्छित स्थान पर पहुँच, (वहाँ) मुनाफा कमा, फिर अपने स्थान पर आकर, दान आदि पुण्य करके, कर्मानुसार (परलोक) गया। शास्ता ने वह कथा कह, अभिसम्बुद्ध हो, यह गाथा कही—

आयतिदोसं नाञ्जाय यो कामे पतिसेवति,
विपाकन्ते हनन्ति नं किम्पक्कमिव भक्खित्तं ।।

[जो (आदमी) काम-भोगों के भविष्य के दुष्परिणाम को बिना ख्याल किये काम-भोगों का सेवन करता है, उस आदमी को, उसके काम-भोग, फल देने के समय वैसे ही मार डालते हैं, जैसे खाये हुए किम्पक्क-फल ने (मार डाला) ।]

आयतिदोसं नाञ्जाय, अनागत (= भविष्य) के दुष्परिणाम को न जान कर। यो कामे पतिसेवति, जो (आदमी) वस्तुकामों तथा क्लेश-कामों का सेवन करता है। विपाकन्ते हनन्ति नं, वे काम-भोग उस आदमी को अपने विपाक (= फल) देने के समय अर्थात् अन्त में, निरय आदि में उत्पत्ति (तथा) नाना प्रकार के दुःखों से युक्त कर मारते हैं। कैसे? किम्पक्कमिव भक्खित्तं जैसे खाने के समय वर्ण-रस-गन्ध सम्पत्ति के कारण

रुचिकर किम्पकफलं, यदि भविष्य का दुष्परिणाम न देख कर खा लिया जाये, तो अन्त में मार डालता है, प्राणो का नाश कर देता है; इसी प्रकार परिभोग के समय यद्यपि काम-भोग रुचिकर लगते हैं, तो भी विपाक देने के समय मार डालते हैं।

इस उपदेश को मेल मिलने तक पहुँचा, (आर्य) सत्त्यों को प्रकाशित किया। (आर्य—) सत्त्यों (के प्रकाशन) के अन्त में उत्कण्ठित भिक्षु श्रोतापत्ति फल का लाभो हुआ। शेष परिषद् में से भी कुछ श्रोतापन्न हुए, कुछ सकृदागामी, कुछ अनागामी, कुछ अर्हत् हुए। बुद्ध ने भी यह धर्म-देशना कह, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय की परिषद् (अब की) बुद्ध-परिषद् थी। सार्थवाह (=कारवाँ का सरदार) तो मैं ही था।

८६. शीलवीमंस जातक

“शीलं क्तिरेव कल्याणं..” यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहरते समय, एक शील (=सदाचार) विचारक ब्राह्मण के सम्बन्ध में कही।

क. वर्तमान कथा

उसकी जीविका कोशल राजा पर निर्भर थी। वह त्रिशरण-गत, अखंड पंचशीली तथा तीनों वेदों में पारंगत था। यह शीलवान् (=सदाचारी) है, (करके) राजा उसका विशेष सम्मान करता था। वह सोचने लगा— “यह राजा, अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा, मेरा विशेष सम्मान करता है, विशेष रूप से गौरव प्रदर्शित करता है। क्या यह मेरा सम्मान मेरी जाति, गोत्र, कुल, प्रदेश, तथा शिल्प सम्पत्ति (=ज्ञान) के कारण करता है, अथवा शील-सम्पत्ति (=सदाचार) के कारण ? अच्छा, इस की परीक्षा करूँगा।”

एक दिन उसने, राजा की सेवा में जा, वापिस घर लौटते समय, एक सराफ (की दुकान) के फट्टे पर से, बिना उसे पूछे, एक कार्षापण उठा लाया। सराफ, ब्राह्मण के प्रति गौरव का भाव होने से, बिना कुछ बोले (चुप) बैठा रहा। अगले दिन, दो कार्षापण उठा लाया। सराफ ने वैसे ही सहन कर लिया। तीसरे दिन कार्षापणों की मुट्ठी उठा ली। 'आज तुझे राजकीय-माल लूटते तीसरा दिन हो गया है' (करके) सराफ ने, 'मैं ने राजकीय-माल लूटने वाला चोर पकड़ा है'—तीन बार शोर मचाया। मन्ष्य, इधर उधर से आकर 'बहुत देर से तू सदाचारी बना फिरता था' (करके) दो तीन प्रहार दे, राजा के पास ले गये।

राजा ने अफसोस करते हुए, 'ब्राह्मण ! किस लिए ऐसा पाप-कर्म करता है' कह, आज्ञा दी, 'जाओ ! इसको राज-दण्ड दो !'

ब्राह्मण बोला—“महाराज ! मैं चोर नहीं हूँ।”

“तो फिर किस लिए राजकीय सामान के अधिकारी के फट्टे पर से कार्षापण उठाये ?”

“तुम्हारे, मेरा अत्यन्त सम्मान करने पर, मेरे मन में सन्देह था कि यह जो राजा मेरा सम्मान करता है, वह मेरी जाति आदि के कारण, अथवा शील (—सदाचार) के कारण ? सो, इसकी परीक्षा करने के लिए, मैंने ऐसा किया। अब मुझे सम्पूर्णतः विश्वास हो गया, कि तू ने जो मेरा सम्मान किया, वह (मेरे) शील के ही कारण किया, न कि जाति आदि के कारण। सो, इस कारण (—बात) से, मैं इस निश्चय पर पहुँचा कि लोक में शील (—सदाचार) ही उत्तम है, शील ही प्रमुख है। घर में रह कर काम-भोगो का उपभोग करते हुए मैं इस शील के (नियमों के) अनुसार नहीं रह सकता। इस लिए, मैं आज ही जैतवन जा कर बुद्ध के पास प्रब्रजित होऊँगा। देव ! मुझे प्रब्रज्या (की आज्ञा) दें।” यह कह, राजा की स्वीकृति ले, जैतवन की ओर चला गया।

उसके जाति-सुहृद-बन्धुओं ने उसे रोकने का प्रयत्न किया; लेकिन जब वह न रोक सके, तो लौट गये।

उसने बुद्ध के पास जा, प्रब्रज्या की याचना कर, प्रब्रज्या तथा उपसम्पदा पा, कर्मस्थान (—योगाभ्यास) में लगे रह, विदर्शना (—ज्ञान) की वृद्धि से,

अर्हत्व प्राप्त किया। तब बुद्ध के पास जा अञ्जा (= अर्हत्व) का व्याकरण (= प्रकाशन) किया—भन्ते ! मेरी प्रब्रज्या का उद्देश पूरा हो गया।

उसका वह 'अर्हत्व-प्रकाशन' भिक्षुसंघ में प्रगट हो गया। सो एक दिन धर्म-सभा में बैठे भिक्षु उसकी प्रशंसा कर रहे थे—“आवुसो ! राजा का अमुक उपस्थायक ब्राह्मण, अपने शील का विचार कर, राजा से पूछ, प्रब्रजित हो, अर्हत्व में प्रतिष्ठित हुआ।”

शास्ता ने आकर पूछा—“भिक्षुओ ! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ?” “यह (बातचीत)” कहने पर, (शास्ता ने) कहा—“भिक्षुओ ! न केवल अभी इस ब्राह्मण ने अपने शील का विचार कर, प्रब्रजित हो, अपनी प्रतिष्ठा (= अर्हत्व लाभ) की; पहले भी पण्डितो ने अपने शील का विचार कर, प्रब्रजित हो, अपनी प्रतिष्ठा की है।” यह कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व उसके पुरोहित थे। वे दानी थे, सदाचारी थे; तथा अखंड-पञ्च-शीली थे। राजा, अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा, उनका विशेष सम्मान करता था। सब पूर्व सदृश ही। लेकिन बोधिसत्त्व को बाँध कर, राजा के पास ले जाने के समय, रास्ते में सँपेरे साँप का खेल करते हुए, उसे पूँछ से पकड़ते, गरदन पर डालते तथा गले में लपेटते थे। उन्हें देख, बोधिसत्त्व ने कहा—“तात ! इसे पूँछ से मत पकड़ो; इसे गले में गरदन में मत लपेटो। श्ररे, यह डस कर, प्राणों का नाश कर देगा।” सँपेरे बोले—“ब्राह्मण यह सर्प, शीलवान् है; सदाचारी है; वैसा दुशील नहीं है। तू अपनी दुशीलता अनाचार के कारण 'राजकीय माल लूटने वाला चोर' (कहकर), बाँध कर ले जाया जा रहा है।” वह सोचने लगा—“डसना छोड़ने पर, कष्ट देना छोड़ने पर, जब साँप भी 'शीलवान्' कहलाते हैं; तो फिर आदमी का तो क्या कहना ? लोक में शील ही उत्तम है। उससे बढ़ कर और कुछ नहीं।”

(लोग) उसे राजा के पास ले गये।

राजा ने पूछा—“तात ! यह क्या ?”

“देव ! राजकीय धन लूटने वाला चोर।”

“तो इसे राज-दण्ड दो।”

ब्राह्मण बोला—“महाराज ! मैं चोर नहीं हूँ।”

“तो फिर किस लिए कार्पापण उठाये ?” पूछने पर, उक्त प्रकार से ही सब कहते हुए; कहा: “सो, मैं इस कारण से इस निश्चय पर पहुँचा, कि इस लोक में शील ही उत्तम है, शील ही प्रमुख है। और तो रहने दो, यह विषैला सर्प भी, न डसने पर, न कष्ट देने पर ‘शीलवान्’ कहलाता है। इस कारण से भी शील ही उत्तम है, शील ही श्रेष्ठ है।” इस प्रकार शील की प्रशंसा करते हुए, यह गाथा कही—

शीलं किरेव कल्याणं शीलं लोके अनुत्तरं,
पस्स घोरविसो नागो शीलवाति न हञ्जति ॥

[शील ही कल्याण-कर है; लोक में शील से बढ़कर कुछ नहीं। देखो ! यह घोर विषैला सर्प (भी) शीलवान् (है) करके, मारा नहीं जाता।]

“शीलं किरेव . .” शरीर-वाणी तथा मन से सदाचार (के नियमों) का उल्लंघन न करना, आचार-शील। किर, परम्परा से कहा जाता है। कल्याणं, सुन्दरतर। अनुत्तरं, ज्येष्ठ, सब गुणों का दाता। पस्स, अपनी देखी बात को सामने करके कहता है। शीलवाति न हञ्जति, घोर विषैला सर्प भी, केवल न डसने, न कष्ट देने भर से, ‘शीलवान्’ करके प्रशंसित होता है। न हञ्जति, मारा नहीं जाता। इस कारण से भी, शील ही उत्तम है।

इस प्रकार बोधिसत्त्व, इस गाथा से, राजा को धर्मोपदेश कर, काम-भोगों को छोड़, ऋषि प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित हो, हिमवन्त में प्रवेश कर, पाँच अभिज्ञा, तथा आठ समापत्तियाँ प्राप्त कर, ब्रह्मलोकगामी हुए।

बुद्ध ने यह धर्म-देशना कह जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय की राज परिषद् (अब की) बुद्ध परिषद् थी। पुरोहित तो मैं ही था।

८७. मंगल जातक

“यस्स मङ्गला समूहता” यह (गाथा) बुद्ध ने बेल्लुवन में विहार करते समय, एक ऐसे ब्राह्मण के बारे में कही, जो वस्त्र में (अच्छे-बुरे) लक्षण देखता था।

क. वर्तमान कथा

राजगृह-वासी एक ब्राह्मण शगुनों में विश्वास करता था। वह त्रिरत्न (=बुद्ध-धर्म-संघ) से अप्रसन्न तथा मिथ्या-विचार वाला था; (लेकिन) था धनी, अत्यन्त धनी, बहुत भोग-सम्पत्ति वाला। उसके सन्दुक में रखे हुए वस्त्रों के जोड़े को चूहे काट गये। (जब) नहाकर, ‘वस्त्र ले आओ’ कहा, तो बताया कि उन्हें चूहे काट गये।

उसने सोचा—“यदि यह चूहों का खाया कपड़ों का जोड़ा, इस घर में रहेगा, तो महाविनाश होगा। यह अमाङ्गलिक है, मनहूसीयत है; इसे लड़के-लड़की, नौकर चाकरो को भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो कोई इसे लेगा, उसका सब कुछ विनाश हो जायगा। इसे कच्चे श्मशान में फिकवाऊँगा। लेकिन इसे नौकर चाकरो के हाथ में नहीं दे सकता; कही वे लोभ के मारे इसे रख लें, और इस प्रकार विनाश को प्राप्त हों। इसे अपने पुत्र के हाथ भेजूँगा।” उसने अपने पुत्र को बुलवा, वह बात समझा कर भेजा—‘लेकिन तात ! तू भी इसे विना हाथ से छुए, डण्डे पर डाल कर ले जा, और कच्चे श्मशान में फेंक, सिर से नहा कर, लौट आ।’”

बुद्ध भी उस दिन प्रातःकाल ही ऐसे बन्धुओं को देखते हुए, जिनके (आर्य) मार्ग पर आने की सम्भावना हो, पिता-पुत्र के श्रोतापत्ति फल प्राप्त करने की सम्भावना देख, मृगों के शिकारी के मृगों की जगह जाने की तरह,

कच्चे श्मशान के द्वार पर जाकर छः वर्ग की रश्मियों को विसर्जित करते हुए बैठे। माणवक (अपने) पिता की बात मान, उस जोड़े-वस्त्र को, घर में आ घुसे साँप की तरह लकड़ी पर डालकर कच्चे श्मशान के द्वार पर लाया।

बुद्ध ने पूछा—“माणवक ! क्या करता है ?”

“भो गौतम ! यह चूहों का खाया हुआ जोड़ा-वस्त्र (है), (यह) मनहूसीयत है, (यह) हलाहल-विष के समान है। मेरे पिता ने इस डर से कि कहीं दूसरा (कोई) फेंकने जाकर लोभ के मारे ले न ले, मुझे (इसे फेंकने) भेजा है। मैं इसे फेंक कर, सिर से नहाने के लिए आया हूँ !”

“अच्छा ! तो फेंक दे।”

माणवक ने फेंक दिया। शास्ता ‘अब यह हमारे योग्य है’ (कह) उसके सामने ही, उसके ‘भो गौतम ! यह अमाङ्गलिक है, यह मनहूसीयत है; इसे मत लें, इसे मत लें’ मना करते रहने पर भी, उठा कर वेळुवन की ओर चले गये। माणवक ने जल्दी से जाकर पिता को कहा—“तात ! मैंने जिस जोड़े-वस्त्र को कच्चे श्मशान में फेंका, उसे मेरे मना करने पर भी श्रमण गौतम ‘हमारे योग्य है’ (कह) ले वेळुवन चला गया।

ब्राह्मण ने सोचा—“वह जोड़ा वस्त्र अमाङ्गलिक है, मनहूसीयत है। उसे पहनने से श्रमण गौतम भी नष्ट होगा, विहार भी नष्ट होगा। उस से हमारी निन्दा होगी। सो मैं श्रमण गौतम को और दूसरे बहुत से वस्त्र दे कर, वह वस्त्र फिकवाऊँ।”

वह बहुत से वस्त्र लिवा, पुत्र सहित वेळुवन जा, शास्ता को देख एक ओर खड़े होकर बोला—“भो गौतम ! क्या तू ने सचमुच, कच्चे श्मशान में से जोड़ा-वस्त्र लिया है ?”

“हाँ, ब्राह्मण ! सचमुच”

“भो गौतम ! वह वस्त्र जोड़ा अमाङ्गलिक है। उसे पहनने से तुम नष्ट होगे, सारा विहार नष्ट होगा। यदि ओढना, बिछौना पर्याप्त न हो, तो इन वस्त्रों को लेकर, उसे फेंकवा दो।”

बुद्ध ने ब्राह्मण ! हम प्रब्रजित हैं। कच्चे श्मशान में, गली में, कूड़े में, नहाने के घाट (—तीर्थ) पर तथा महामार्ग में—ऐसी ही जगहों पर फेंके हुए या गिरे हुए चीथड़े हमारे योग्य हैं। और तू तो, न केवल अभी, किन्तु

पहले भी इसी विचार का था' कह, उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में मगध देश (=राष्ट्र) के राजगृह नगर में धार्मिक मगध-नरेश राज्य करते थे । उस समय बोधिसत्त्व एक उदीच्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे । ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऋषि प्रब्रज्या के अनुसार प्रव्रजित हो गये । अभिञ्जा तथा समापत्तियाँ लाभ कर, हिमवन्त में रहते समय, एक बार हिमवन्त से निकल, राजगृह नगर में राजोद्यान में पहुँचे । वहाँ रह, दूसरे दिन भिक्षा माँगने के लिए नगर में प्रवेश किया । राजा ने उसे देख कर बुलवाया और प्रासाद में बिठा, भोजन खिला, (उससे) राजोद्यान में ही रहने का वचन लिया । बोधिसत्त्व राज-भवन में भोजन करते हुए उद्यान में रहने लगे ।

उस समय राजगृह नगर में एक ऐसा ब्राह्मण था, जो वस्त्रों में (अच्छे-बुरे) लक्षण देखता था । उसके बक्से में रक्खा हुआ जोड़ा वस्त्र . . . सब पूर्वोक्त सदृश ही । हाँ, माणवक के श्मशान को जाने के समय, बोधिसत्त्व पहले से ही जा कर, श्मशान द्वार पर बैठे रह, उसका फेका हुआ जोड़ा-वस्त्र लेकर उद्यान चले गये । माणवक ने जाकर पिता को कहा । पिता ने 'राजा का विश्वस्त तपस्वी नष्ट न हो जाये' सोच बोधिसत्त्व के पास जाकर कहा— तपस्वी ! जिन वस्त्रों को तू ने लिया है, (उन्हें) छोड़ नष्ट न हो ।

तपस्वी ने उत्तर दिया—श्मशान में छोड़े हुए चिथड़े, हमारे अनुकूल (=योग्य) है । हम शकुन मानने वाले (=कोतूहल मङ्गलिका) नहीं । फिर बुद्ध, प्रत्येक-बुद्ध, बोधिसत्त्व, किसी ने शकुन मानने की प्रसंसा नहीं की । इस लिए बुद्धिमान् को शकुन मानने वाला नहीं होना चाहिए । (यह) कह, ब्राह्मण को धर्मोपदेश दिया ।

ब्राह्मण ने धर्म सुन, पूर्व-विचार (=दृष्टि) त्याग बोधिसत्त्व की शरण ग्रहण की । बोधिसत्त्व भी अविनष्ट-ध्यान रह, ब्रह्मलोकगामी हुआ । बुद्ध ने भी पूर्व-जन्म की इस कथा को ला, अभिसम्बुद्ध हुए रहने की अवस्था में, ब्राह्मण को धर्मोपदेश देते हुए, यह गाथा कही—

यस्स मङ्गला समूहता
उत्पाता सुपिना च लक्खणा च,
स मङ्गलदोसवीतिवत्तो
युगयोगाधिगतो न जातुमेति ॥

[जिस (आदमी) के मंगल (माङ्गलिक, अमाङ्गलिक सम्बन्धी विश्वास) उत्पात (=सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण आदि उत्पात); स्वप्न (शुभ स्वप्न, अशुभ स्वप्न आदि); तथा लक्षण (चिन्ह, शुभ-अशुभ)—यह सब समूल नष्ट हो गये हैं; वह, इन मङ्गल-दोषों को लॉघ जाने वाले, इन द्वन्द्व धर्मों को जीत लेने वाला=, निश्चय पूर्वक (फिर) इस संसार में जन्म ग्रहण नहीं करता ।]

जिस अर्हत्=क्षीणाश्रव के दृष्ट-मङ्गल, श्रुत-मङ्गल, सुत-मङ्गल—यह तीनों प्रकार के मङ्गल समूल उच्छिन्न हो गये हैं । उत्पाता सुपिना च लक्खणा च, 'इस प्रकार का चन्द्रग्रहण होगा, इस प्रकार का सूर्यग्रहण होगा, इस प्रकार का नक्षत्र-ग्रहण होगा, इस प्रकार का तारा (=उल्का) गिरेगा, तथा इस प्रकार का दिशा-दाह (=दिशा में आग लगना) होगा' यह पाँच महा-उत्पात हैं; नाना प्रकार के स्वप्न; शुभ-लक्षण, अशुभ-लक्षण, स्त्री-लक्षण, पुरुष-लक्षण, दास-लक्षण, दासी-लक्षण, असि-लक्षण, वृषभ-लक्षण, आयुध-लक्षण, वस्त्र-लक्षण, इस प्रकार के लक्षण जिसके यह मिथ्या विश्वास (=दृष्टि-स्थान) समूल नष्ट हो गये हैं, वह (आदमी) इन उत्पात आदि से अपना मङ्गल (=कल्याण) होना वा अमङ्गल होना नहीं विश्वास करता । स मङ्गल दोस-वीतिवत्तो, वह क्षीणाश्रव, सब मङ्गलों के दोषों का अतिक्रमण कर गया, लॉघ गया । युगयोगाधिगतो न जातुमेति इति, क्रोध तथा उपनाह (=बढ़-वैर), 'अक्ष', पलास^१ आदि करके दो-दो एक साथ आये हुए क्लेश (=चित्त विकार) 'युग' कहलाते हैं । काम-योग, भव-योग, दृष्टियोग अविद्या-योग, यह चारों, संसार में जोतने वाले (=योजन भावतो) होने से

^१ अक्ष—दूसरे के गुणों को नष्ट करना ।

^२ प्लास—अपनी दूसरे गुणी के साथ तुलना करना ।

‘योग’ कहलाते हैं। वे युग तथा योग, युगयोग, उन्हें अधिगत करने वाला, जीतने वाला, लौंघ जाने वाला, सम्यक् अतिक्रान्त कर जाने वाला, क्षीणाश्रव भिक्षु, न जातुमेति फिर जन्म-ग्रहण करके, निश्चय से इस लोक में नहीं आता।

इस प्रकार बुद्ध ने इस गाथा से ब्राह्मण को धर्मोपदेश कर फिर, (आर्य) सत्यों को प्रकाशित किया। (आर्य—) सत्यो (के प्रकाशन) के अन्त में, वह सपुत्र ब्राह्मण श्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ।

बुद्ध ने जातक का साराश निकाला। उस समय (भी) यही (दोनों जने) पिता पुत्र थे। तपस्वी तो मैं ही था।

८८. सारम्भ जातक

“कल्याणमेव मुञ्चयेय . . .” यह (गाथा) बुद्ध ने श्रावस्ती में विहार करते समय गाली सम्बन्धी शिक्षा-पद (=नियम) के बारे में कही।

क. वर्तमान कथा

दोनों कथायें, पूर्वोक्त नन्दि विशाल^१ जातक के समान ही हैं। लेकिन इस जातक में बोधिसत्त्व, गन्धार देश (=राष्ट्र) के तक्षशिला (नगर) में एक ब्राह्मण का सारम्भ नामक बाल हुआ।

ख. अतीत कथा

बुद्ध ने पूर्व-जन्म की यह कथा कह, अभिसम्बुद्ध हुए रहने की अवस्था में

^१ नन्दिविशाल जातक (२८)

यह गाथा कही—

कल्याणमेव मुञ्चेय्य नहि मुञ्चेय्य पापिकं,
मोक्खो कल्याणिया साधु मत्वा तपति पापिकं ॥

[कल्याणकर वाणी को (मुँह से) छोड़े। पापी वाणी को (मुँह से) न छोड़े। कल्याण कर वाणी का छोड़ना श्रेयस्कर (=साधु) है, पापी वाणी को (मुँह से) छोड़ने वाला (पीछे) तपता है।]

कल्याणमेव मुञ्चेय्य . . .” असत्य, कठोर, व्यर्थ, चुगली (की बात) —इन चार दोषों से मुक्त, कल्याणकर, सुन्दर, दोष रहित वाणी ही (मुँह से) निकाले, छोड़े, बोलें। नहि मुञ्चेय्य पापिकं, पापी, बुरी, दूसरों को अप्रिय, अरुचिकर, (वाणी) न निकाले, न बोलें। मोक्खो कल्याणिया साधु, कल्याणकारी वाणी का बोलना ही, इस लोक में अच्छा है, सुन्दर है, भद्र है। मत्वा तपति पापिकं, पापी, कठोर वाणी को छोड़कर, निकाल कर, कह कर, वह आदमी संताप को प्राप्त होता है, सोचता है, दुःख पाता है।

इस प्रकार बुद्ध ने यह धर्म-देशना ला, जातक का सारांश निकाला। उस समय का ब्राह्मण (अब का) आनन्व था, ब्राह्मणी (अब की) उत्पलवर्णा (भिक्षुणी) थी, (लेकिन) सारम्भ तो मैं ही था।

८६. कुहक जातक

“वाचाव फिर ते आसि”, यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहरते समय, एक ढोंगी = पाखण्डी के बारे में कही।

क. वर्तमान कथा

कुहक-कथा उद्दाल जातक^१ मे आयेगी।

ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे बाराणसी मे (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, एक ग्राम के आश्रय में एक कुटिल-हृदय, ढोंगी जटिल तपस्वी रहता था। एक गृहस्थ (कुटुम्बी) उसके लिए, जंगल में एक पर्णशाला बनवा उसे वहाँ बसा, अपने घर में, उसकी प्रणीत-भोजन से सेवा करता था। उस (गृहस्थ) ने, उस कुटिल जटिल (=तपस्वी) को, 'यह सदाचारी है' विश्वास कर, चोरों के डर से, सोने के सौ सिक्के उसकी पर्णशाला में ले जाकर, वहाँ ज़मीन मे गाड़ कर, कहा—“भन्ते ! इसे देखते हे ?” तपस्वी बोला—“आवुस ! प्रब्रजितों को इस प्रकार कहना अनुचित है। हमे पराई चीज मे लोभ का नाम नही।” “भन्ते ! अच्छा” कह उसकी बात पर विश्वास कर वह चला गया।

दुष्ट तपस्वी ने 'इतने से गुज़ारा चल सकता है' (सोच), कुछ दिन बिता कर, उस सोने को ले, रास्ते के बीच में एक जगह रख, आकर पर्णशाला ही में रह, फिर एक दिन उस (गृहस्थ) के घर मे भोजन कर चुकने पर कहा— आवुसो ! हमने चिर-काल तक तुम्हारा आश्रय ग्रहण किया। चिरकाल तक एक ही स्थान पर रहने से मनुष्यों से संसर्ग (=लगाव) हो जाता है। प्रब्रजितों के लिए संसर्ग (=मोह) चित्त का मूल है। इस लिए, (अब) हम जाते हैं।

बार बार आग्रह करने पर भी, उसने (अधिक) ठहरना स्वीकार न किया। 'ऐसा है, तो पधारो भन्ते !' कह, वह उसे ग्राम के द्वार तक छोड़ कर लौट आया। तपस्वी थोड़ी दूर जाकर 'इस गृहस्थ को, मुझे धोखा देना चाहिए' (सोच) अपनी जटाओं के अन्दर एक तिनका रख कर लौट आया।

गृहस्थ ने पूछा—“भन्ते ! क्यों लौट आये ?”

“आवुसो ! तुम्हारे घर की छत में से मेरी जटाओं में एक तिनका

^१ उद्दाल जातक (४८७)

गिर पड़ा। बिना दी हुई चीज़ लेना, प्रब्रजित के लिए मुनासिब नहीं। उस (तिनके) को लेकर आया हूँ।”

गृहस्थ ने ‘भन्ते ! छोड़ कर जायें’ कह ‘अहो ! आर्य्य कितने सन्देहशील हैं; पराया तिनका तक नहीं लेते’ (सोच) प्रसन्न हो, प्रणाम कर विदा किया।

उस समय बोधिसत्त्व ने, सामान के लिए प्रत्यन्त (=देश) को जाते हुए, उसी गृहस्थ के घर में निवास किया था। तपस्वी की बात सुन ‘इस दुष्ट तपस्वी ने, अवश्य इस गृहस्थ का कुछ न कुछ उड़ाया होगा’ सोच, पूछा—
सौम्य ! क्या तू ने इस तपस्वी के पास कुछ रक्खा है ?

“सौम्य ! है, सोने के सौ सिक्के।”

“तो जा, उस की खबर ले।”

उसने पर्णशाला जाकर, उसे वहाँ न देख, जल्दी से आकर कहा—
“सौम्य ! नहीं है।”

“तेरे सोने को और किसी ने नहीं लिया, उस कूट-तपस्वी ने ही लिया है, आ उसका पीछा करें, उसे पकड़े।”

(दोनों ने) वेग से जाकर, कुटिल तपस्वी को पकड़, हाथों और पैरों से पीट कर, उससे सोना मँगवा कर, लिया।

बोधिसत्त्व ने सोने को देख ‘सौ सिक्के ले जाते लज्जा नहीं आई, तिनके में शक हुआ’ कह, उसकी निन्दा कर, यह गाथा कही—

वाचाव किर ते आसि सण्हा सखिलभाणिनो,
तिणमत्ते असज्जित्थो नो च निक्खसतं हरं ॥

[प्रियभाषी ! तेरी वाणी भर ही मधुर थी। तृण-भर ले जाते तो तुझे शक हुआ, लेकिन सौ सिक्के (सोना) ले जाते नहीं।]

वाचाव किर ते आसि सण्हा सखिलभाणिनो, ‘प्रब्रजितों को बिना दिया तिनका भी लेना नामुनासिब है’ इस प्रकार मृदु वचन बोलते हुए की, तेरी केवल बात चिकनी थी। तिणमत्ते असज्जित्थो, कुटिल तपस्वी ! एक तिनके में सन्देह (=कौकृत्य) करता हुआ, तू उसमें आसक्त (=लग्न) हुआ जाता

था, नो च निक्खसतं हरं, लेकिन इन सौ सिक्कों को ले जाते हुए तू, अनासक्त निर्लंगन ही रहा !

इस प्रकार बोधिसत्त्व उसकी निन्दा कर, 'हे कुटिल जटिल (= तपस्वी) ! अब ऐसा मत करना' कह, उपदेश दे, स्वकर्मानुसार (परलोक) गया ।

बुद्ध ने यह धर्म देशना ला 'भिक्षुओ ! न केवल अभी यह भिक्षु पाखंडी है, पहले भी पाखंडी ही रहा है', कह, जातक का सारांश निकाला । उस समय का कुटिल तपस्वी (अब का) पाखण्डी-भिक्षु था । पण्डित पुरुष तो मैं ही था ।

६०. अकतञ्जु जातक

“यो पुब्बे कतकल्याणो . . .” यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, अनाथपिण्डक के सम्बन्ध में कही ।

क. वर्तमान कथा

प्रत्यन्त (-देश) वासी एक सेठ उसका अदृष्ट मित्र था । उसने प्रयन्त देश की पैदावार से पाँच सौ गाड़ियाँ भरकर, अपने आदमियों को कहा—“भो ! जाओ ! इस सामान को श्रावस्ती ले जाकर, हमारे मित्र बड़े सेठ अनाथ-पिण्डक की उपस्थिति में बेच कर, इसके बदले में सामान ले आओ ।”

उन्होंने 'अच्छा' कह, उसकी बात स्वीकार कर, श्रावस्ती जा, बड़े सेठ से मिल, उसे भेट दे, वह बात कही ।

बड़े सेठ ने 'स्वागत है' कह, उनको निवास स्थान और खर्चा (= सीधा) दिलवा, मित्र का कुशल समाचार पूछ (उस) सामान को बेच उसके बदले में

सामान दिलवाया। उन्होंने प्रत्यन्त देश वापिस लौट, वह हाल अपने सेठ को कहा।

आगे चलकर, अनाथपिण्डक ने भी, उसी तरह पाँच सौ गाड़ियाँ वहाँ भेजीं। मनुष्य वहाँ जाकर, भेंट दे प्रत्यन्त (-देश) के सेठ से मिले। उसने 'कहाँ से आये?' पूछा।

“आवस्ती से, तुम्हारे मित्र अनाथपिण्डक के पास से”।

होगा किसी आदमी का नाम अनाथपिण्डक—कह, उनकी हैंसी की। फिर भेंट लेकर, 'तुम जाओ' कहा और चलता किया। न निवास-स्थान ही दिया, न खर्चा। उन्होंने अपने आप सामान बेच उसके बदले में सामान ले, आवस्ती आकर, सेठ को सब हाल कह सुनाया।

उस प्रत्यन्त-वासी (सेठ) ने फिर एक बार उसी तरह पाँच सौ गाड़ियाँ आवस्ती भेजीं। मनुष्यों ने भेंट लेकर बड़े सेठ से भेंट की। उन्हें देख, अनाथपिण्डक के घर के आदमी 'स्वामी! इनके निवास, भोजन तथा खर्च का हम ख्याल रखेंगे' कह, उनकी गाड़ियों को नगर के बाहर, ऐसे वैसे ही स्थान पर खुलवा कर 'तुम यही रहो। तुम्हारा यागु-भात और खर्चा यहीं होगा' कह, जाकर नौकर चाकरों को इकट्ठा कर, आधीरात के समय, पाँच सौ की पाँच सौ गाड़ियाँ लुटवा, उनके ओढ़ने बिछावने भी फाड़, बैलों को भगा, गाड़ियों को बिना पहिये की कर, जमीन पर डाल, पहियों तक को लेकर चले गये। प्रत्यन्तवासी, अपने वस्त्रों तक से हाथ धो, डर के मारे जल्दी से भाग कर प्रत्यन्त-देश पहुँचे। सेठ के आदमियों ने, बड़े सेठ को वह हाल कहा। उसने 'यह कहने योग्य बात है' सोच, बुद्ध के पास जाकर, वह सब हाल, आरम्भ से सुनाया।

बुद्ध ने 'हे गृहपति! न केवल अभी वह प्रत्यन्त-वासी ऐसा है, वह पहले भी ऐसा ही था' कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मवत् के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व बाराणसी में महावंभवशाली सेठ हुआ। एक प्रत्यन्त-वासी सेठ

उसका अदृष्ट मित्र था । सारी अतीत-कथा, वर्तमान कथा के सदृश ही । अपने आदमियों द्वारा 'आज हमने ऐसा किया' कहने पर बोधिसत्त्व ने 'जो अपने पर पहले किये उपकार को नहीं याद रखते, उनको पीछे ऐसा ही (फल) मिलता है' कह, सम्प्राप्त मनुष्यों को धर्मोपदेश देते हुए, यह गाथा कही—

यो पुब्बे कतकल्याणो कतत्थो नावबुञ्जति,
पच्छा किञ्चे समुपसे कत्तारं नाधिगच्छति ॥

[जो कोई उपकृत, पहले किये उपकार को याद नहीं रखता; उसको (फिर) पीछे काम पड़ने पर, (कोई) उपकार करने वाला नहीं मिलता ।]

क्षत्रियादि (वर्णों) में यो (—जो) कोई आदमी पुब्बे (—पहले) प्रथमतर दूसरे से कतकल्याणो किये उपकार वाला (—उपकृत) कतत्थो, काम समाप्त होने पर, दूसरे का अपने पर किया उपकार और अर्थ न जानता है, वह पच्छा अपने किञ्चे समुपसे (—काम पड़ने पर) उस काम का कत्तारं (—करनेवाला) नाधिगच्छति नहीं पाता है ।

इस प्रकार बोधिसत्त्व, इस गाथा से धर्मोपदेश दे, दानादि पुण्यकर्म करके, कर्मानुसार (परलोक) गये । बुद्ध ने यह धर्म-देशना ला, जातक का सारांश निकाला । उस समय के प्रत्यन्त वासी ही अब के भी प्रत्यन्त-वासी हैं । लेकिन बाराणसी सेठ में ही था ।

पहला परिच्छेद

१०. लित्त वर्ग

६१. लित्त जातक

“लित्तं परमेन तेजसा” यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय बिना सोचे विचारे उपयोग करने के सम्बन्ध में कही।

क. वर्तमान कथा

उस समय भिक्षुओं को, जो चीवर आदि मिलते थे, वे उन्हें प्रायः बिना सोचे विचारे ही उपयोग में लाते थे। (चीवर आदि) चारों प्रत्ययों^१ को बिना सोचे समझे उपयोग में लाने के कारण, वे निरय (—नरक) तिरिश्चीन योनियों से मुक्त न होते थे। बुद्ध ने इस बात को जान, भिक्षुओं को अनेक प्रकार से धर्म-कथा कह, बिना सोचे विचारे (किसी चीज) के उपयोग में लाने के दुष्परिणाम दिखा कर कहा—“भिक्षुओ ! एक भिक्षु के लिए, चारों प्रत्ययों के मिलने पर, उन्हें बिना सोचे समझे उपयोग में लाना अनुचित है। इस लिए अब से, सोच विचार कर, उपयोग में लाया करो।” (यह कह) प्रत्यवेक्षणा (—सोच विचार) की विधि (—क्रम) स्पष्ट करते हुए—

“भिक्षुओ ! यहाँ भिक्षु सोच विचार कर चीवर का सेवन (—उपयोग) करता है, शीत के प्रतिघात के लिए . . .”^२ को पाँति (तंति) करके ‘भिक्षुओ ! चारों प्रत्ययों का सोच विचार कर सेवन करना उचित है। बिना सोचे

^१ चीवर (—वस्त्र), ^२ पिण्डपात (भोजन), ^३ शयनासन (श्रोतून-विद्युत्तवन), ^४ गिलान प्रत्यय (—भैषज्य आदि)।

^२ इध भिक्खवे भिक्खु पटिसंखा योनिस्सो . . . (खुद्दक पाठ)।

विचारे उपयोग में लाना हलाहल-विष को उपयोग में लाने के सदृश है। पुराने (समय में) भ्रादमियों ने बिना सोचे विचारे उपयोग (=परिभोग) करने के दुष्परिणाम को न जान कर विष खा लिया, और उस से बिपाक (=फल) मिलने के समय, महान् दुःख भोगा” कह, पूर्व जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी, में (राजा) ब्रह्मवत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व, एक महान् धनवान् कुल में उत्पन्न होकर, आयु बड़ी होने पर जुआरी हो गये। एक दूसरा कुटिल जुआरी बोधिसत्त्व के साथ खेलते समय, जब उसकी अपनी जीत होने लगती, तब तो धाँधली न करता लेकिन जब हार होती दीखती, तो गोटी को मुँह में डाल कर, गोटी खो गई (करके) खेल में धाँधली मचा चल देता।

बोधिसत्त्व ने उसका कारण जान ‘अच्छा ! इसका उपाय करूँगा’ सोच, गोटियाँ ले, उन्हें अपने घर ले जाकर हलाहल विष से रंग, बार बार सुखा कर, उन्हें ले, उसके पास जाकर कहा—“सौम्य ! आ जुआ खेलें।”

उसने ‘सौम्य ! अच्छा’ कह, क्रीड़ा-मण्डल तैयार कर, उसके साथ खेलते हुए, अपनी हार होती देख एक गोटी मुँह में डाल ली। बोधिसत्त्व ने उसे ऐसा करते देख “निगल, पीछे पता लगेगा कि यह क्या है ?” कह, उसे दोष देने के लिए यह गाथा कही—

लित्तं परमेन तेजसा
गिलमक्खं पुरिसो न बुञ्जति,
गिल रे ! गिल पापघुत्तक !
पच्छा ते कट्टकं भविस्सति ॥

[बड़े तेज (विष) से लिपटी हुई गोटी को निगलने वाला, उसे उस समय नहीं जानता। अरे ! पापी घूर्त ! निगल, निगल ! पीछे तू इसका कडवा फल भोगेगा ।]

लित्तं, माखी हुई, रंगी हुई। परमेन तेजसा, उत्तम तेज हलाहल विष से। गिलं, निगलते हुए। अक्खं, गोली (=गोटी)। न बुञ्जति, नहीं जानता कि

यह निगलने से, मेरा क्या करेगी। गिल रे, अरे निगल। गिल, फिर कहता है, जोर डालने के लिए। पच्छ्या ते कटुकं भविस्सति, तेरे इस गोटी को निगलने के बाद, यह विष तीक्ष्ण होगा।

बोधिसत्त्व के कहते ही कहते, वह विष के जोर से मूर्च्छित हो, आँखें बदल, शरीर को झुका गिर पड़ा।

बोधिसत्त्व 'अब इसे जीवनदान देना चाहिए' (सोच) दवाई मिलाकर, उल्टी की औषधि दे, वमन करा, घी, गुड़, मधु, शक्कर आदि खिला, अरोगी कर, 'फिर ऐसा न करना'—यह उपदेश दे, दान आदि पुण्य कर्म कर, अपने (कर्मानुसार) परलोक गये।

बुद्ध ने इस धर्म-देशना को ला "भिक्षुओ! बिना सोचे समझे, (प्रत्ययो का) परिभोग, वैसा ही होता है, जैसे बिना सोचे समझे हलाहल (विष) का परिभोग" कह जातक का साराश निकाला।

उस समय पण्डित धूर्त में ही था। कुटिल धूर्त यहाँ नहीं कहा गया। जैसे यहाँ, वैसे ही हर जगह। जो इस समय (=बुद्ध के समय) नहीं है, वह नहीं कहा गया है।

६२. महासार जातक

"उष्कट्ठे सूरमिच्छन्ति . . ." यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन, में विहार करतरे समय, आयुष्मान् आनन्द के बारे में कही।

क. वर्तमान कथा

एक समय कोशल-नरेश की स्त्रियों ने सोचा—“(लोक में) बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है। वैसे ही मनुष्य-जन्म का लाभ दुर्लभ है, और फिर सम्पूर्णे-

न्द्रियों वाला होना और भी दुर्लभ है। हम ऐसा दुर्लभ अवसर पाकर भी, अपनी रुचि के अनुसार न विहार जाने पाती हैं न धर्म सुनने, न पूजा करने और न दान देने। ऐसे रहती हैं, जैसे सन्दूक में बन्द करके रक्खी गई हों। सो, हम राजा को कहकर, एक ऐसे भिक्षु को बुलवाकर जो हमें धर्मोपदेश देने के योग्य हो, उस से धर्म सुने। उस से जो (ग्रहण) कर सकेगी, करेगी, दान आदि पुण्य-कर्म करेंगी। इस प्रकार हमारा यह सुअवसर सफल होगा।”

उन सब ने राजा के पास जा, अपना विचार कहा। राजा ने ‘अच्छा’ कह स्वीकार किया।

एक दिन राजा ने उद्यान क्रीडा खेलने की इच्छा से माली को बुलाकर कहा—“उद्यान साफ करो।” माली ने उद्यान साफ करते हुए एक वृक्ष के नीचे बुद्ध को बैठे देख, राजा के पास जाकर कहा—“देव! उद्यान साफ है। और एक वृक्ष के नीचे भगवान् बैठे हैं।”

राजा, ‘सौम्य! अच्छा, बुद्ध के पास धर्म भी सुनेगे’ (कह) सजे रथ पर चढ़, उद्यान पहुँच बुद्ध के पास गया।

उस समय छत्रपाणी नामक एक अनागामी उपासक बुद्ध के पास बैठा धर्म सुन रहा था। राजा, उसे देख, कुछ देर संदिग्ध खड़े रह, फिर ‘यह बुरा आदमी न होगा, यदि बुरा होता, तो बुद्ध के पास बैठ कर धर्म न सुनता। सो यह अच्छा ही आदमी होगा’ सोच, बुद्ध के पास जा, प्रणाम कर, एक ओर बैठ गया। उपासक ने, बुद्ध का अगौरव होने के डर से, राजा के आने पर खड़ा होना, वा प्रणाम करना, आदि कुछ नहीं किया। इससे राजा उसके प्रति असन्तुष्ट हुआ।

बुद्ध ने ‘राजा असन्तुष्ट हुआ’ जान, उपासक की प्रशंसा की—“महा-राज! यह उपासक बहुश्रुत है, आगम (=धर्म) का ज्ञाता है, और काम-भोगों में वीतरागी है।”

राजा ने ‘यह कोई ऐसा ही नहीं होगा, जिसकी बुद्ध प्रशंसा कर रहे हैं’ सोच कर कहा—“उपासक! जिस किसी चीज की जरूरत हो, कहना।” उपासक ने ‘अच्छा’ कह, स्वीकार किया। राजा, बुद्ध के पास धर्मोपदेश सुन, बुद्ध की प्रदक्षिणा कर चला गया।

एक दिन प्रासाद के ऊपर खिड़की खोले हुए, खड़े उसने देखा

कि प्रातःकाल का भोजन करके, छतरी हाथ में लिये वह उपासक, जेतवन जा रहा है। उसने उसे बुलवा कर कहा—“उपासक ! तू बहु-श्रुत है। हमारी स्त्रियाँ धर्म सुनना और सीखना चाहती है। अच्छा हो, यदि तू उन को धर्म सुनावे।”

“देव ! राजा के अन्तःपुर में, गृहस्थों का धर्मोपदेश देना या बाँचना, मुनासिब नहीं; आर्याँ (=भिक्षुओं) का ही मुनासिब है।”

राजा ने ‘यह सत्य ही कहता है’ (सोच), उसे भोज, स्त्रियों को बुलवाकर पूछा—“भद्रे ! मैं तुम्हें धर्मोपदेश करने के लिए तथा बाँचने के लिए, बुद्ध के पास जा कर, एक भिक्षु माँगता हूँ। अस्ती महास्थविरों में से किस भिक्षु को माँगूँ ?” उन सब ने सलाह करके धर्म भाण्डागारिक आनन्द स्थविर को ही पसन्द किया।

राजा ने बुद्ध के पास जा, प्रणाम कर, एक ओर बैठ कर, कहा—“भन्ते ! हमारे घर की स्त्रियाँ आनन्द स्थविर से धर्म सुनना और सीखना चाहती है। अच्छा हो, यदि स्थविर हमारे घर में उपदेश दे और बाँचे।”

बुद्ध ने ‘अच्छा’ कह, स्वीकार कर स्थविर को आज्ञा दी।

उस समय से लेकर राजा की स्त्रियाँ, स्थविर के पास धर्म सुनती और सीखती। एक दिन राजा की चूड़ामणि खो गई। राजा ने उसको खोया जान सुन, अमात्यों को बुला कर आज्ञा दी कि अन्तःपुर के सब आदमियों को पकड़ कर, उनसे चूड़ामणि निकलवाओ। अमात्य स्त्रियों से आरम्भ करके, चूड़ामणि खोजते हुए, उसके न मिलने पर, लोगों को तंग करने लगे। उस दिन आनन्द स्थविर राजभवन में गये। जैसे पहले स्त्रियाँ स्थविर को देखते ही हृष्ट-नुष्ट हो धर्म सुनती और सीखती थी, उस दिन वैसा न कर वे सब दुःखित-चित्त ही रही।

स्थविर के ‘आज तुम, ऐसी कैसे हो गई ?’ पूछने पर, वे बोलीं—“भन्ते ! राजा की चूड़ामणि खो गई (करके) अमात्य स्त्रियों से लेकर राज-भवन के अन्दर के सभी आदमियों को तंग करते हैं। नहीं जानतीं कि उसका क्या होगा ? सो उसी से हम दुःखी हैं।”

स्थविर ने ‘चिन्ता न करो’ कह, उन्हें आशवासन दे, राजा के पास जा, बिछे आसन पर बैठ कर पूछा—“महाराज ! क्या तुम्हारी मणि खो गई ?”

“भन्ते ! हाँ ।”

“महाराज ! क्या उसे खोजवा सके ?”

“भन्ते ! अन्दर के सभी लोगों को पकड़, कष्ट देकर भी, नहीं खोजवा सका ।”

“महाराज बिना लोगों को कष्ट दिये ही, ढूँढ़ निकालने का एक उपाय है ।”

“भन्ते ! कौन सा उपाय ?”

“महाराज ! पिण्ड-दान ।”

“भन्ते ! कैसा पिण्ड-दान ?”

“महाराज ! जिन जिन पर सन्देह हो, उन सब को गिन कर, एक एक के हाथ में एक एक पराल (=फूस) का गोला वा मिट्टी का गोला देकर, उन्हें कहा जाना चाहिए कि प्रातःकाल ही इन (गोलों) को लाकर अमुक स्थान पर डाले । जिसने (चूड़ामणि) लिया होगा, वह उस में डाल कर ले आयेगा । यदि पहले ही दिन लाकर डाल दे, तो अच्छा और यदि न डालें तो दूसरे दिन, तीसरे दिन भी वैसा ही किया जाना चाहिए । इस प्रकार लोगो को कष्ट भी न होगा, और मणि भी मिल जायगी ।” ऐसा कह कर स्थविर चले गये ।

राजा ने (स्थविर के) कथनानुसार तीन दिन डलवाये । (लोग) मणि नहीं लाये । स्थविर ने तीसरे दिन आकर पूछा—“महाराज ! क्या मणि डाल दी ?”

“भन्ते ! नहीं डालते ।”

“तो महाराज ! (प्रासाद के) महान तल्ले पर ही, किसी छिपे हुए स्थान में पानी की भरी हुई मटकी रखवा कर, उसके गिर्द क्रनात तनवा कर, राजभवन के स्त्री-पुरुषों को कहें कि, वह सब चादर ओढ़ ओढ़ कर एक एक करके, क्रनात के अन्दर घुस, हाथ धोकर आये ।” यह उपाय बता कर, स्थविर चले गये । राजा ने वैसा ही करवाया ।

मणि चुराने वाले ने सोचा—“यह असम्भव है कि धर्म-भाण्डागारिक इस मुकदमे को अपने हाथ में ले कर, बिना मणि निकलवाये रुक रहे । अब मणि डाल देनी चाहिए ।” (यह सोच) वह मणि को छिपा कर ले जा

कनात के अन्दर घुस, चाटी में डाल कर निकल आया। सब के (बाहर) निकल आने पर, पानी फेकने पर, मणि मिल गई।

राजा सन्तुष्ट हुआ कि स्थविर के कारण, बिना लोगों को कष्ट दिये ही मणि मिल गई। (महल) के अन्दर के आदमी भी प्रसन्न हुए कि स्थविर के कारण हम महादुःख से मुक्त हो गये। 'स्थविर के प्रताप से राजा की मणि मिल गई' (करके) स्थविर का प्रताप सारे नगर और भिक्षु-संघ में प्रसिद्ध हो गया। धर्म-सभा में बैठे भिक्षु (आनन्द) स्थविर की प्रशंसा करने लगे—“आवुसो ! आनन्द स्थविर ने अपने बहु-श्रुतपन से, पाण्डित्य से, उपाय-कुशलता से, बिना लोगों को कष्ट होने दिये, ढंग से ही राजा की मणि खोजवा दी।”

बुद्ध ने आकर पूछा—“भिक्षुओ ! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे हो ?” “यह बात-चीत” कहने पर, (बुद्ध ने) “भिक्षुओ ! न केवल अब आनन्द ही ने दूसरों के हाथ पड़ी हुई चीज, निकलवाई, पूर्व समय में भी पण्डितों ने बिना लोगों को कष्ट दिये, ढंग (=उपाय) से ही तिरश्चीनों के हाथ में पड़ी हुई चीज निकलवाई थी” कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व सब शिल्पों (=शास्त्रों) में सम्पूर्णता प्राप्त कर, उसी (राजा) के अमात्य हुए। एक दिन राजा ने, अनेक अनुयाइयों के साथ, उद्यान में जा (वहाँ) जंगल में धूम, जलक्रीडा करने की इच्छा से, मङ्गल-मुष्करिणी में उतर, अन्तःपुर की स्त्रियों को भी पुकारा। स्त्रियाँ, अपने अपने सिर के, तथा गले के गहनों को उतार (अपने अपने) ओढ़नों में डाल, (उन्हे) पेटियों पर रख, दासियों को सौप, पुष्करिणी में उतरी।

उस बाग में रहने वाली, शाखा पर बैठी हुई एक बन्दरी देवी को, जेवरों को उतार, चादर में डाल पेटि पर रखते देख, उसके मुक्ताहार को पहनने की इच्छा से बैठकर देखने लगी कि दासी कब गहनों की ओर से लापरवाह होती है। उनकी रखवाली करती हुई दासी इधर उधर देखती हुई, बैठी ही बैठी ऊँघने लगी। बन्दरी उसे लापरवाह देख हवा के वेग से उतर, महा

मुक्ताहार को (अपनी) गरदन में डाल, हवा की तेजी से उछल, एक शाखा पर जा, दूसरी बन्दरियों के देख लेने के डर से, उस (हार) को एक वृक्ष की खोल में छिपा, खुशी खुशी बैठ कर, उसकी रखवाली करने लगी।

उस दासी ने भी जाग कर, मुक्ताहार को न देख, काँपते हुए और कोई उपाय न देख जोर से चिल्लाना शुरू किया—“आदमी, देवी का मुक्ताहार ले कर भाग गया।”

पहरेदारों ने जहाँ तहाँ से इकट्ठे हो, उसकी बात सुन, राजा से निवेदन किया। राजा ने कहा—“चोर को पकड़ो।” आदमी बाघ से निकल ‘चोर को पकड़ो’, ‘चोर को पकड़ो’ करके, इधर उधर देखने लगे।

एक उगाही करने वाले दिहाती आदमी ने, उस शब्द को सुना, तो वह काँपता हुआ भागा। उसे देख, राजकीय आदमियों ने ‘यही चोर होगा’ सोच, उसका पीछा कर, पकड़, (उसे) पीटा—“अरे! दुष्ट चोर! इस प्रकार का महा-मूल्यवान् गहना (=कण्ठा) लिये जाता है।”

उसने सोचा—“यदि मैंने कहा कि मेरे पास नहीं है, तो आज मेरी जान न बचेगी। (यह लोग) मुझे पीट पीट कर ही मार देगे। इसे स्वीकार कर लूँ।” उसने कहा—“स्वामी! हाँ, मैंने लिया है।” उसे बाँध कर राजा के पास ले गये। राजा ने भी पूछा—“लिया है तू ने महा-मूल्यवान् कण्ठा?”

“देव! हाँ।”

“अब, वह कहाँ है?”

“देव! मैंने कभी पहले, कोई क्रीमती मिजा (=पलंग) भी नहीं देखा। सेठ ने मुझे (कह कर) मुझ से, महामूल्यवान् कण्ठे की चोरी कराई है। सो, मैंने वह लेकर, उसे दे दिया। (अब) वह जानता है।”

राजा ने सेठ को बुलवा कर पूछा—“तूने इसके हाथ से महामूल्यवान् कण्ठा लिया है?”

“देव! हाँ।”

“वह कहाँ है?”

“मैं ने पुरोहित को दे दिया।”

पुरोहित को भी बुलवा कर, वैसे ही पूछा। उसने भी स्वीकार कर कहा—“मैंने गन्धर्व को दिया।” उसे भी बुलवा कर पूछा—“तू ने पुरोहित के हाथ

से महा-मूल्यवान् कण्ठा लिया ?”

“देव ! हाँ।”

“वह कहाँ है ?”

“मैंने चित्त-विकृति के कारण वर्ण-दासी (=वेश्या) को दे दिया।” उसे भी बुलवा कर पूछा—उसने कहा—“नहीं लिया।” उन पाँच जनों को पूछते ही पूछते सूर्यास्त हो गया।

‘अब विकाल हो गया, कल देखेंगे’ (सोच) उन पाँचों जनों को अमात्यों को दे, राजा नगर को चला गया। बोधिसत्त्व ने सोचा—“यह कण्ठा अन्दर के आदमियों में खोया गया है, और यह गृहपति बाहर का आदमी है। द्वार पर कड़ा पहरा है, इस लिए अन्दर का आदमी भी उसे लेकर भाग नहीं सकता। इस लिए न तो बाहर के आदमी ने लिया है, न अन्दर (घर) के। मालूम होता है उद्यान में ही घूमने वाले किसी ने उड़ाया है। इस दरिद्र आदमी ने ‘मैंने सेठ को दिया’ अपने को बचाने के लिए कह दिया होगा, और सेठ ने भी ‘मैंने पुरोहित को दिया,’ इकट्ठे होकर मुक्त होंगे सोच, कह दिया होगा, और पुरोहित ने भी ‘मैंने गवैय्ये (=गन्धर्व) को दिया’ कारागार में गवैय्ये के कारण सुख से रहेंगे, सोच, कह दिया होगा, और गवैय्ये ने भी ‘मैंने वेश्या को दिया’ (कारागार में) अनुत्कण्ठित रहेंगे, सोच, कह दिया होगा। यह पाँचों के पाँचों चोर नहीं होंगे। उद्यान में बन्दर बहुत हैं। कण्ठा, एक न एक बन्दरी के हाथ लगा होगा।”

उसने राजा के पास जा कर कहा—“महाराज ! चोरों को मेरे जिम्मे करें। मैं चोरी का पता लगाऊँगा” राजा ने ‘अच्छा ! पण्डित ! पता लगा’ (कह) उसको चोर सौंपे।

बोधिसत्त्व ने अपने नौकरों (=दासों) को बुलवा कर आज्ञा दी कि उन पाँचों आदमियों को एक जगह रख, उनके चारों ओर पहरा लगा, जो वह एक दूसरे को कहे, (उसे) कान देकर, (सुन) मेरे पास आकर कहें। यह कह बोधिसत्त्व चले गये। उन आदमियों ने वैसा ही किया।

तब, उन मनुष्यों के इकट्ठे होकर बैठने के समय, सेठ ने उस गृहपति से पूछा—“अरे दुष्ट गृहपति ! तू ने मुझे, या मैंने तुझे इस से पहले कहाँ देखा ? तू ने मुझे कण्ठा कब दिया ?” “स्वामी ! मैं महा-मूल्यवान् वृक्ष के पाँवों के

मिजे (=पलंग) तक को नहीं जानता। आप के कारण मैं छूट जाऊँगा। (सोच) मैंने ऐसा कहा। स्वामी ! क्रोध न करें।" पुरोहित ने भी सेठ से पूछा—सेठ जो तुम्हें इसने नहीं दिया, वह तूने मुझे कैसे दिया ?

"हम दोनों बड़े आदमी हैं; हम दोनों के इकट्ठे होने से काम जल्दी होगा, सोच कहा।" गवैय्ये ने भी पुरोहित से पूछा—ब्राह्मण ! तूने मुझे कण्ठा कब दिया ?

"मैं, तेरे कारण, रहने की जगह सुख से रहूँगा, सोच, कह दिया।"

वर्ण-दासी (=वेश्या) ने भी गन्धर्व (=गवैय्ये) से पूछा—"अरे ! दुष्ट गन्धर्व ! मैं कब तेरे पास गई, या कब तू मेरे पास आया ? तूने मुझे कण्ठा कब दिया ?" "भगिनि ! क्रुद्ध क्यों होती है ? 'हमारे पाँचों के इकट्ठे रहने से गृहस्थी हो जायगी, अनुत्कण्ठित हो, सुख से रहेंगे' सोच, कह दिया।"

बोधिसत्त्व ने अपने नियोजित आदमियों से यह बात चीत सुन, वह आदमी चोर नहीं है, यह निश्चय पूर्वक जान 'बन्दरी का लिया हुआ कण्ठा उम से ढंग से गिरवाऊँगा' सोच, लाल रंग की ऊन की बहुत सी कण्ठियाँ बनवा, उद्यान की बन्दरियों को पकड़वा, वे कण्ठियाँ, उनके हाथ, पैर गरदन आदि में पहनवा, उन्हें छोड़ दिया। वह बन्दरी कण्ठे की रखवाली करती हुई, उद्यान में ही बैठी रही।

बोधिसत्त्व ने आदमियों को आज्ञा दी—"तुम बाग में जाकर, सब बन्दरियों की परीक्षा करो। जिस के पास वह कण्ठा देखो, उसे त्रास दिखा कर, उस से वह कण्ठा ले लो।" उन बन्दरियों ने भी, 'हमें कण्ठियाँ मिली' सोच प्रसन्न हो, उद्यान में घूमते घूमते उस बन्दरी के पास जाकर कहा—"देखो ! हमारे जेवर।" वह ईर्ष्या को सहन न कर सकने के कारण 'इस लाल रंग के घागे के जेवरों से क्या ?' कह, (अपना) मुक्ताहार पहन कर निकली।

उन आदमियों ने उसे देख, उस से कण्ठा छुड़वा, बोधिसत्त्व को लाकर दिया। उसने राजा के पास ले जाकर, दिखा कर कहा—"देव ! यह है तुम्हारा कण्ठा। वह पाँचों आदमी निर्दोष है। इसे, उद्यान की बन्दरी ने लिया था।"

"लेकिन, हे पण्डित ! तूने कैसे जाना कि यह बन्दरी के हाथ लग गया, (और फिर) कैसे तू ने लिया ?"

उसने सब कह सुनाया ।

राजा ने सन्तुष्ट चित्त हो, 'संग्राम-भूमि आदि में शूर वीरों आदि की आवश्यकता पड़ती है' कहते हुए, बोधिसत्त्व की प्रशंसा स्वरूप यह गाथा कही—

उपकट्ठे सूरमिच्छन्ति मन्तीसु अकुतूहलं,
पियञ्च अन्नपानमिह अत्ये जाते च पण्डितं ॥

[संग्राम में शूर (आदमी) मिले, ऐसी इच्छा होती है, सलाह करने में अकुतूहल (=जो बात प्रगट न करे, ऐसा) आदमी मिले, ऐसी इच्छा होती है, खाने पीने की सामग्री रहने पर, प्रिय (=सम्बन्धी) आदमी मिले, ऐसी इच्छा होती है, और कोई समस्या आ पड़ने पर, पण्डित (=बुद्धिमान्) आदमी मिले, ऐसी इच्छा होती है ।]

उपकट्ठे, काम आ पड़ने पर (=उपकट्ठे) दोनों ओर से कट्ट होने पर, संग्राम में, सम्प्रहार होते रहने पर । सूरमिच्छन्ति, माथे पर बिजली गिर पड़ने पर भी न भागने वाले शूर की इच्छा करते हैं, उस समय इस प्रकार के संग्राम योधा की आवश्यकता पड़ती है । मन्तीसु अकुतूहलं, कर्तव्याकर्तव्य के आ पड़ने पर, मन्त्रियों में जो अकुतूहल=मुंह न खोलने वाला=वात न प्रगट कर देने वाला हो, उसकी इच्छा करते हैं, वैसे की उस समय पर आवश्यकता पड़ती है । पियञ्च अन्नपानमिह, मधुर खाने पीने की चीज पास होने पर, साथ खाने के लिए प्रिय आदमी की इच्छा करते हैं, वैसे की उस समय आवश्यकता पड़ती है । अत्ये जाते च पण्डितं, गम्भीर अर्थ गम्भीर धर्म (=समस्या) किसी भी बात वा प्रश्न के उत्पन्न होने पर पण्डित, विचक्षण (=बुद्धिमान्) आदमी की इच्छा करते हैं, वैसे समय पर उसी की आवश्यकता पड़ती है ।

इस प्रकार राजा, बोधिसत्त्व की प्रशंसा कर, स्तुति कर, जोर की वर्षा बरसाने वाले बादल की तरह, सात (प्रकार के) रत्नों से पूजा कर, उसके उपदेशानुसार आचरण कर, दान आदि पुण्य कर्म करके, कर्मानुसार (परलोक) गया ।

बोधिसत्त्व भी कर्मानुसार गये । शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, स्थविर की प्रशंसा कर, जातक का सारांश निकाला । उस समय, राजा (अब का) आनन्द था । बुद्धिमान् अमात्य तो मैं ही था ।

६३. विस्सासभोजन जातक

“न विस्ससे अविस्सत्थे” यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार करत समय, विश्वस्त-भोजन के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

उस समय भिक्षु प्रायः ‘यह हमे माता ने दिया है, यह पिता ने दिया है, यह भाई ने दिया है, यह बहन ने, चाची ने, चाचा ने, मामा ने (तथा) मामी ने दिया है’ (करके) रिश्तेदारों के दिये हुए चारों प्रत्ययों में विश्वस्त होने के कारण, उन्हें बिना सोचे विचारे ही उपयोग में लाते थे । शास्ता ने, ‘मुझे भिक्षुओं को उपदेश करना उचित है’ सोच, भिक्षुओं को एकत्र करवा कहा— ‘भिक्षुओ ! भिक्षु को चाहिए कि वह चारों प्रत्ययों को—चाहे वह रिश्तेदार के दिये हों, चाहे बे-रिश्तेदार के—सोच विचार कर ही उपयोग में लावे । बिना सोचे विचारे उपयोग करने वाला भिक्षु मरने पर यक्षयोनि वा प्रेत-योनि से नहीं छूटता । बिना सोचे विचारे करना, वैसा ही है, जैसा विष परिभोग करना । विष; चाहे वह विश्वासी (=रिश्तेदार) ने दिया हो, चाहे अविश्वासी ने, वह मार ही डालता है । पूर्वं समय में भी, विश्वस्त का दिया विष खा कर प्राण गँवाया ।’ यह कह, उनके याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी, में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व (एक) महाघनवान् सेठ हुए। उनका एक ग्वाला (=गोपालक) घनी खेती के दिनों में गौओं को ले, आरण्य में जा, वहाँ मचान (=गोपल्लिक) बनाकर, गौओं की रखवाली करता हुआ रहने लगा। समय समय पर, वह सेठ के लिए गोरस (=दूध-घी) लाया करता था। उसके मचान से थोड़ी ही दूर पर एक सिंह आकर रहा करता था। सिंह के त्रास से कुम्हलाने (=डरने) के कारण, गौओं का दूध कम हो गया। उसके एक दिन घी लेकर आने पर, सेठ ने पूछा—“क्यों सौम्य ! गोपालक ! घी कम (क्यों) है ? उसने कारण कहा। “सौम्य ! क्या कोई ऐसा है, जिसपर वह सिंह आसक्त हो ?”

“स्वामी ! हाँ ! उसका एक हरिणी (=मृगमाता) के साथ संसर्ग है।”

“क्या उसे पकड़ा जा सकता है ?”

“हाँ ! स्वामी ! (पकड़ा) जा सकता है।” “तो उसे पकड़ कर उसके सिर से पैरों तक के बालों को ज़हर से माख (=रंग) कर, उन्हें सुखा कर, दो तीन दिन गुज़ार कर, उस हरिणी को छोड़ देना। वह (सिंह) स्नेह के मारे उसके शरीर को चाटने से मर जायगा। तब उसका चमड़ा नाखून, दाढ़ें और चर्बी, यहाँ लेकर आना।” यह कह, उसे हलाहल विष देकर भेजा। उस ग्वाले ने जाल फेक कर, ढंग से उस हरिणी को पकड़ कर, वैसा ही किया। सिंह, उसे देखते ही अत्यन्त स्नेह से उसके शरीर को चाट कर मर गया। ग्वाला भी चर्म आदि ले कर, बोधिसत्त्व के पास पहुँचा। बोधिसत्त्व ने उस वृत्तान्त को जान (कहा) दूसरों से स्नेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का बलवान् सिंह मृगराज भी विकार-युक्त चित्त से संसर्ग करने के लिए मृगमाता का शरीर चाटते हुए विष चाट कर मर गया। यह कह, उपस्थित परिषद को धर्मोपदेश देते हुए यह गाथा कही—

न विस्ससे अविस्सत्थे विस्सत्थेपि न विस्ससे,

विस्सासा भयमन्वेति सीहंव भिगमातुका ॥

[अविश्वास करने योग्य में विश्वास न करे। विश्वास करने योग्य में

भी विश्वास न करे। विश्वास करने से भय उत्पन्न होता है जैसे मृगमाता से सिंह को हुआ।]

जो पहले मित्र रहा हो लेकिन अब अविश्वसनीय हो उस अविस्त्ये (—अविश्वसनीय में); और जिस से पहले भी भय नहीं रहा तथा जो अब भी विश्वसनीय है उसका भी विश्वास न करे। किस कारण से? विस्तासा भयमन्वेति; मित्र तथा अमित्र किसी में भी विश्वास किया जाए, उस से भय ही पैदा होता है। कैसे? सीहंब मिगमालुका जैसे मित्रता के कारण मृग-माता का विश्वास करने से सिंह को भय ही उत्पन्न हुआ; अथवा विश्वास के कारण मृग-माता सिंह के पास गई।

इस प्रकार बोधिसत्त्व उपस्थित परिषद को धर्मोपदेश दे दानादि पुण्य कर कर्मानुसार परलोक सिधारे।

शास्ता ने यह धर्मदेशना सुना जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय महासेठ मैं ही था।

६४. लोमहंस जातक

सो तत्तो सो सीनो' . . ." यह (गाथा)शास्ता ने बंगाली के समीप पाटि-काराम में विहार करते हुए सुनक्षत्र के बारे में कही।

'मूल में सीतो है, जो कि सिंहल अक्षरों में 'त' और 'न' की समानता के कारण प्रमाद ब्रह्म आया प्रतीत होता है। वेल्ले मञ्जुसूत्र, १२ सूत्र।

क. वर्तमान कथा

एक समय सुनक्षत्र (नामक) भिक्षु शास्ता का उपस्थायक बन पात्र चीवर ले (शास्ता के साथ साथ) धूमता हुआ कौर क्षत्रिय के धर्म को पसन्द कर बुद्ध का पात्र चीवर (उन्हे) सौंप कौर क्षत्रिय के पास रहने लगा। फिर उसके कालकञ्जक असुर-योनि में पैदा होने के समय सुनक्षत्र गृहस्थ होकर वैशाली की तीनों प्राकारों के अन्दर धूमता हुआ शास्ता की यह कह कर निन्दा करता था कि श्रमण गौतम के पास मनुष्योत्तर कोई बात नहीं, विशेष आर्य-ज्ञान नहीं; श्रमण गौतम तर्क सिद्ध धर्मोपदेश करता है, विचार-सिद्ध तथा आत्मानुभव के आधार पर किन्तु जिन दुक्खों के क्षय करने के उद्देश्य से धर्मोपदेश दिया जाता है, धर्मानुसार चलने वाले को वह उन दुक्खों के एकान्त क्षय के उद्देश्य तक ले जाता है।

आयुष्मान् सारिपुत्र ने भिक्षा के लिए धूमते समय उसे उस प्रकार निन्दा करते हुए सुन भिक्षाटन से लौट कर भगवान् से निवेदन किया। भगवान् ने कहा—“सारिपुत्र ! क्रोधी मूर्ख सुनक्षत्र ने क्रोध के मारे ऐसा कहा है। क्रोध के वशीभूत हो कर वह ‘धर्मानुसार चलने वाले को दुक्ख क्षय तक ले जाता है’ कहते हुए भी वह अनजाने में मेरी प्रशंसा ही करता है। वह मूर्ख मेरे गुणों को नहीं जानता। सारिपुत्र ! मुझे छः अभिज्ञा प्राप्त हैं। यह भी मनुष्योत्तर धर्म है—दस बल है। चार वैशारद्य-ज्ञान हैं। चार प्रकार का योनि-परिच्छेदक ज्ञान है। पाँच प्रकार का गति-परिच्छेदक ज्ञान है। यह भी मेरा मनुष्योत्तर धर्म है। इस प्रकार मनुष्योत्तर-धर्मों से युक्त मुझे यदि कोई यू कहे कि श्रमण गौतम मनुष्योत्तर-धर्म प्राप्त नहीं हैं, तो वह यदि उस कथन को न छोड़ दे, उस विचार को न छोड़ दे, उस मत को न छोड़ दे, तो वह ऐसा ही होगा जैसे नरक में उठा लाकर डाल दिया हो। इस प्रकार अपने में विद्यमान मनुष्योत्तर-धर्म की प्रशंसा करते हुए कहा—“सारिपुत्र ! सुनक्षत्र कौर क्षत्रिय की दुष्कर क्रिया तथा मिथ्या-तप से प्रसन्न हो उसकी ओर आकृष्ट हुआ है। मिथ्या-तप से प्रसन्न होने वाले को, मिथ्या तप से आकृष्ट होने वाले को भी मेरी ही ओर आकृष्ट होना चाहिए। क्योंकि अब से इकानवे कल्प पहले ‘इसमें कुछ सार है वा नहीं?’ देखने की इच्छा से मैंने बाहरी

मिथ्यातपों की परीक्षा करते हुए चारों अङ्गों से युक्त ब्रह्मचर्य्य-वास किया । उस समय मैं तपस्वियों में परम तपस्वी, रक्ष जीवन व्यतीत करने वालों में परम् रूखा जीवन व्यतीत करने वाला, जिगृप्सा करने वालों में परम् घृणावान् तथा एकान्त-वासियों में परम् एकान्त-सेवी था ।^१ सारिपुत्र स्थविर के प्रार्थना करने पर बुद्ध ने पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

“डकानवे कल्प पूर्व वोधिसत्त्व ‘बाहरी तप की परीक्षा कल्लंगा’ सोच आजीविकों की प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित होकर निर्वस्त्र रहा, धूल लपेटे रहा । एकान्त प्रिय रहा, एकान्त-वासी—आदमियों को देख कर मृग की तरह भाग जाता । महाविकट भोजन खाने वाला हुआ ! बछड़े का गोबर आदि खाया । अप्रमाद-युक्त विहार करने के लिए जंगल में, एक भयानक बन-खंड में रहा । वहाँ रहते हुए, हिम गिरने के समय बीच के आठ दिनों में रात को बन-खंड से निकल खुले आकाश के नीचे विचर सूर्य के उदय होने पर बन-खंड में प्रवेश करता था । जिस प्रकार रात को खुले आकाश के नीचे ओस से भीगता था, उसी प्रकार दिन में बन-खंड से पिघल कर गिरती हुई बून्दों से भीगता था । इस प्रकार रात दिन सर्दी का दुःख सहता । लेकिन गर्मी के अन्तिम महीने में दिन में खुले में घूमकर रात को बन-खंड में दाखिल होता । जिस प्रकार दिन में खुले में धूप में जलता, उसी तरह रात को वायु रहित बन-खंड में जलता । शरीर से पसीने की धार बहती । तब यह अश्रुत-पूर्व गाथा सूची—

सोतत्तो सोसीनो एको भिसनके वने ।

नग्गो न चग्गीमासीनो एसनापसुतो मुनि ॥

[वह तप्ता था । वह अत्यन्त भीगा था । वह भयानक बन में रहता था । वह नग्न रहता था (और) वह आग के पास नहीं बैठता था । इस प्रकार मुनि (सत्य की) खोज में लगा हुआ था]

^१ महासिंहनाह सुत्त (मज्झिम निकाय)

सोतत्तो, सूर्य ताप से सुतप्त । सोसीनो, ओस के पानी से भीगा, अच्छी प्रकार भीगा हुआ । एको भिसनके बने, जहाँ प्रवेश करने पर प्रायः लोगों के रोम खड़े हो जाते हैं, इस प्रकार के भयानक बन में अकेला अद्वितीय ही प्रविष्ट हुआ । नग्गो नच्चग्गिमासीनो, उस प्रकार शीत से पीड़ित होते हुए भी न ओढ़ने बिछाने का वस्त्र लिया और न आग के ही पास बैठा । एसनापसुतो, उस अब्रह्मचर्य्य को भी ब्रह्मचर्य्य मान यही श्रेष्ठ-जीवन है, यही खोज है, यही गवेषणा है, यही ब्रह्मलोक का मार्ग है—इस प्रकार ब्रह्मचर्य्य की खोज में लगा था । मुनि, यह मुनि मौन का प्रयत्न कर रहा है, इस लिए लोगों द्वारा आदृत हुआ ।

इस प्रकार चार अंगों से युक्त ब्रह्मचर्य्य का आचरण करके बोधिसत्त्व मरने के समय नरक का दृश्य दिखाई देने पर 'यह ब्रत धारण निरर्थक है' जान उसी क्षण उस मत को छोड़ सम्यक् दृष्टि ग्रहण कर देव-लोक में उत्पन्न हुआ ।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का सारांश निकाल दिया । में ही उस समय मे वह आजीवक था ।

६५. महासुदस्सन जातक

“अनिच्चा वत सङ्खारा . . .” यह (गाथा) शास्ता ने परिनिर्वाण शय्या पर लेटे समय आनन्द स्थविर के “भन्ते ! भगवान् इस छोटे से नगर मे परिनिर्वाण को प्राप्त न हों” इत्यादि वचनों के सम्बन्ध में कही ।

क. वर्तमान कथा

तथागत के जेतवन में विहार करने के समय सारिपुत्र स्थविर कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन नालक ग्राम में उत्पन्न होने के कोठे में ही परिनिर्वाण

को प्राप्त हुए। महामौद्गल्यायन भी कार्तिक महीने में ही कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। इस प्रकार दोनों प्रधान शिष्यों के परिनिर्वाण प्राप्त होने पर 'मैं भी कुसीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त होऊँगा' (सोच) भगवान् क्रम से चारिका करते हुए वहाँ (कुसीनगर) पहुँच जोड़े शाल वृक्षों के बीच उत्तर दिशा की ओर बिछी शय्या पर फिर न उठने का संकल्प करके लेटे।

आयुष्मान् आनन्द स्थविर ने कहा—“भन्ते ! भगवान् इस क्षुद्र नगर में, इस विश्रम नगर में, इस जंगली नगर में, इस शाखा नगर में निर्वाण को प्राप्त न होंगे। भगवान् दूसरे चम्पा राजगृह^१ आदि बड़े नगरों में से किसी एक नगर में परिनिर्वाण प्राप्त करें।”

भगवान् बोले—“आनन्द ! इसे क्षुद्र नगर, जंगली नगर, शाखा नगर मत कहो। मैं पहले सुदर्शन चक्रवर्ती राजा होने के समय इसी नगर में रहा हूँ। उस समय यह बारह योजन की रत्नों से सुसज्जित चार दीवारी से घिरा हुआ महानगर था।” यह कह स्थविर के याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कहते हुए महामुददर्शन^२ सूक्त कहा।

ख. अतीत कथा

उस समय महामुदस्सन नाम का राजा सुधर्म प्रासाद से उतर कर नजदीक ही सात रत्नों से युक्त ताड़वन में विछी योग्य शय्या पर दाहिनी करवट से लेटा था। उसे फिर न उठने के संकल्प से लेटा देख सुभद्रा देवी ने कहा—“देव ! यह तेरे चौरासी हजार नगर है, जिन में कुशावती राजधानी प्रमुख है। इन को प्रेम करो।” महामुददर्शन ने उत्तर दिया—“देवि ! यह मत कहो ! मुझे ऐसा उपदेश दो कि इन में प्रेम मत करो, इनकी अपेक्षा मत करो।” देवी ने पूछा “क्यों ?” “आज मेरा मृत्यु-दिवस है।”

वह देवी रोती हुई, आँखें पोंछती हुई बड़ी कठिनाई से वैसे कह कर

^१ चम्पा, राजगृह, आवस्ती, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी। (महा परिनिर्वाण सुत्त, दीर्घनिकाय)।

^२ महामुदस्सन सुत्त (दीर्घ निकाय १७)

रोने पीटने लगी। बाकी चौरासी हजार स्त्रियाँ भी रोटने पीटने लगीं। अमात्य आदि में कोई एक भी न सहन कर सका। सभी रोने लगे।

बोधिसत्व ने रोका—“भणे ! शब्द मत करो।” फिर देवी को सम्बोधन कर कहा—“देवी ! तू मत रो। देवी ! तू मत पीट। तिल के फल जितना भी संस्कार नित्य नहीं है। सभी संस्कार अनित्य हैं। सभी संस्कार नाश होने वाले हैं।” इस प्रकार देवी को उपदेश देते हुए यह गाथा कही—

अनिच्चा वत सङ्खारा उप्पादवयधम्मिनो,
उप्पज्जित्वा निरुज्झन्ति तेसं बूपसमो सुखो ॥

[संस्कार अनित्य हैं। उत्पन्न होना, निरोध होना उनका धर्म है। वे उत्पन्न हो कर निरोध को प्राप्त होते हैं। उनका उपशमन सुख है।]

अनिच्चा वत सङ्खारा, भद्रे ! सुभद्रा देवी ! जितने भी किन्ही भी प्रत्ययों से बने हुए स्कन्ध आयातन आदि संस्कार हैं, वे सब अनित्य ही हैं। इन में रूप अनित्य है, (चक्षु-) विज्ञान अनित्य है, चक्षु अनित्य है, सब (धर्म = अस्तित्व) अनित्य है। जितने भी सविज्ञान, अविज्ञान रत्न हैं, वह सब अनित्य है। इस लिए ‘सभी संस्कार अनित्य हैं’, यही ग्रहण कर। क्यों उप्पाद वय धम्मिनो, सभी उत्पन्न होने वाले हैं, सभी वय (खर्च) होने वाले हैं, सभी बनने वाले हैं, सभी बिगड़ने वाले हैं, इस लिए (वे) अनित्य है, यही जानना चाहिए। क्योंकि अनित्य है इसलिए ‘उप्पज्जित्वा निरुज्झन्ति’ उत्पन्न होकर, स्थिति को प्राप्त होकर भी निरोध को प्राप्त होते हैं। यह सभी बनने पर उत्पन्न हुए कहलाते हैं, टूटने पर निरुद्ध हुए कहलाते हैं। उनके उत्पन्न होने पर ‘स्थिति’ होती है, ‘स्थिति’ होने पर ‘भङ्ग’ होता है; जो उत्पन्न न हो उसकी ‘स्थिति’ नहीं, जिसकी ‘स्थिति’ है उसका भंग न हो ऐसा नहीं। इस प्रकार सभी संस्कार तीन लक्षणों वाले (उत्पत्ति, स्थिति, भङ्ग) होकर निरोध को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सभी अनित्य है, क्षणिक है, परिवर्तनशील हैं, अध्रुव हैं, भङ्ग होने वाले हैं, अस्थिर हैं, कंपनशील हैं . . . कुछ देर के लिए हैं, निस्सार हैं, ‘कुछ ही देर के लिए’ इस अर्थ में माया के समान हैं, मरीचि के समान हैं, फेण के समान हैं। भद्रे ! सुभद्रा देवी। इनको तू क्यों ‘सुख’ समझती है। इस

प्रकार सीख कि तैलं रूपसमो सुखो, सब संसार चक्र का उपशमन होने से सब के उपशमन का अर्थ है निर्वाण। वही असल में केवल एक सुख है। और सुख नहीं।

सो महासुदर्शन अमृत-महा-निर्वाण सम्बन्धी उत्कृष्ट देशना कर बाकी जन-समूह को भी 'दान दो सदाचारी बनो, उपोसथ (=व्रत) करो' उपदेश दे देवलोक को गया।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का सारांश निकाल दिया।

उस समय की सुभद्रादेवी अब राहुलमाता हुई। प्रधान अनात्य राहुल था। शेष परिषद बुद्ध-परिषद। लेकिन महासुदस्सन में ही था।

६६. तेलपत्त जातक

“समत्तिकं अनवसेसकं . . .” यह (गाथा) शास्ता ने सुम्भ राष्ट्र में सेतक नामक निगम के पास एक बन-खण्ड में विचरते हुए जनपदकल्याणी सूत्र के बारे में कही।

क. वर्तमान कथा

उस सूत्र में भगवान् ने “भिक्षुओ! जैसे जनपद-कल्याणि, जनपद-कल्याणि नाम सुनकर जन-समूह इकट्ठा हो। वह जन-पदकल्याणि नाचने गाने में बहुत दक्ष हो। 'जन-पद कल्याणि नाचती है, जनपदकल्याणि गाती है' सुनकर और भी प्रसन्न होकर जन-समूह उमड़ आये। तब एक पुरुष आए, जो जीना चाहता हो, मरना न चाहता हो, सुख चाहता हो, दुःख न चाहता हो। उस आदमी को ऐसे कहे—'हे पुरुष! यह तेल का लबालब भरा हुआ पात्र है। इसे जनसमूह और जनपदकल्याणि के बीच से होकर ले चलो। तुम्हारे पीछे पीछे एक आदमी तलवार उठाए चलेगा। जहाँ जरा

सा भी तेल गिरेगा, वही तेरा सिर काट डालेगे।' 'तो भिक्षुओ ! क्या समझते हो, वह आदमी उस तेल के पात्र को, लापरवाही से, प्रमाद-पूर्वक ले चलेगा ?'

'नहीं भन्ते !'

'भिक्षुओ ! यह मैंने अर्थ समझाने के लिए उपमा दी है। भावार्थ यह है। तेल से लबालब भरा हुआ पात्र, भिक्षुओ, कायानुस्मृति का दूसरा नाम है। इस लिए भिक्षुओ ! यही सीखना चाहिए कि हमारी कायानुस्मृति की भावना अच्छी प्रकार बढ़ेगी।' इस प्रकार शास्ता ने जनपदकल्याणि सूत्र^१ की उसके शब्दो तथा अर्थों के साथ व्याख्या की।

जनपदकल्याणि का मतलब है जनपद भर में कल्याणि—उत्तम—छः शरीर-दोषों से मुक्त और पाँच उत्तम-बातों से युक्त। वह न अधिक लम्बी, न अधिक छोटी, न अधिक पतली न अधिक मोटी, न अधिक काली, न अत्यधिक सफेद—मानुषी वर्णों से बढ़ कर लेकिन दैवी वर्ण तक नहीं पहुँची हुई। इस लिए छः शरीर दोषो से मुक्त। उत्तम-चमड़ी, उत्तम-मांस, उत्तम नसें, उत्तम हड्डियाँ तथा उत्तम-आयु (तरुण) इन पाँच उत्तम बातों से युक्त होने के कारण पाँच उत्तम बातों से युक्त कही गई। उसे बाहरी चमक की जरूरत न थी। अपने शरीर की चमक से ही बारह हाथ की जगह को प्रकाशित करती थी। वह पियंगु-रंग की वा सोने के रंग की थी। यह उसकी चमड़ी की उत्तमता रही। उसके हाथ-पैर तथा मुँह लाख से चित्रित की तरह वा लाल मूंगे या लाल कम्बल की तरह थे। यह उसके मांस की उत्तमता रही। बीसों नाखूनो तक पहुँची हुई, मांस के साथ जहाँ जहाँ लगी हुई वहाँ वहाँ लाख के रस से भरी हुई सी, जहाँ जहाँ मांस से मुक्त वहाँ वहाँ दूध की धार के समान उसकी नसें थी : यह उस की नसों की उत्तमता रही। बत्तीस दाँत चिकनी सफेद वज्र पंक्ति की तरह चमकते थे। यह उसकी हड्डियों की उत्तमता रही। बीस वर्ष की होने पर भी सोलह वर्ष की सी ही प्रतीत होती थी। यह उसकी आयु की उत्तमता रही। परमपासाविनि—पसवनं—पसव—ढंग। जिसका परम (=उत्तम) ढंग है सो परमपासाविनि। नृत्य,

^१ सतिपट्ठान संयुक्त (संयुक्त निकाय)

गीत में उत्तम ढंग अर्थात् उसका नाच, उसका गाना श्रेष्ठ ही था। अथ पुरिसो आगच्छेद्य—अपनी मरजी से नहीं आए। इस का मतलब है कि जनता के बीच में जनपदकल्याणि के नाचते हुए लोगों के 'साधु, साधु' कह कर चिल्लाने, अंगुलियाँ चटखाने, चोलियाँ उछालने का समाचार सुनकर राजा ने जेलखाने से एक आदमी को मँगवाया। उसकी बेड़ियाँ कटवा, तेल से लबालब भरा पात्र उसके हाथ में दे, एक आदमी को जिसके हाथ में तलवार थी आज्ञा दी 'इसे जहाँ जनपदकल्याणि का नाच हो रहा है वहाँ ले जाओ। यदि ला परवाही के कारण यह एक बूँद तेल भी गिरा दे, तो वही इसका सिर काट दो।' वह आदमी तलवार उठाकर उसको धमकाता हुआ वहाँ ले गया। उसने मरने के भय से भयभीत हो जीवित रहने की इच्छा के कारण, असावधानी से उसे भूल, एक बार भी आँख खोल कर जनपदकल्याणि को नहीं देखा। इस प्रकार यह भूतपूर्व कथा है। सूत्र में तो यह संक्षेप में आई है। उपमा खो म्यायं, यहाँ तेलपात्र की कायानुस्मृति से उपमा दी ही गई है। इसमें राजा को कर्म की तरह समझना चाहिए। तलवार की तरह बित्त की कलुषता। तलवार उठाए आदमी की तरह मार। तेल पात्र हाथ में लिए हुए आदमी की तरह कायानुस्मृति की भावना करने वाला विदशना-भावना में रत योगाभ्यासी।

सो इस प्रकार यह सूत्र लाकर भगवान् ने कायानुस्मृति, की भावना करने वाले मनुष्य के लिए हाथ में तेलपात्र लिए रहने वाले आदमी की तरह सावधान रह कर कायानुस्मृति, की भावना करने की आवश्यकता बताई। भिक्षुओं ने इस सूत्र और उसके अर्थ को सुनकर यू कहा—“भन्ते! उस आदमी ने बहुत बड़ी बात की जो बिना उस तरह की जनपदकल्याणि, को देखे तेलपात्र को लेकर चला गया।”

“भिक्षुओ, उस आदमी ने बहुत कठिन काम नहीं किया, यह तो आसान ही था। क्यों? क्योंकि उसे तलवार उठाए एक आदमी धमकाता हुआ ले

‘वाह, वाह या हुर्रा हुर्रा की तरह प्रसन्नता सूचक घोष।’

जा रहा था। लेकिन पूर्व समय में पण्डित लोगों ने अप्रमाद से स्मृति को न भूल कर, बनाए हुए दिव्यरूप को भी इन्द्रियो को चंचल करके बिना देखे जाकर राज्य प्राप्त किए। यह कठिन कार्य था” कह पूर्व समय की बात कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्त्व उस राजा के सौ पुत्रों में सब से छोटे होकर पैदा हुए। क्रम से बढ़ते बढ़ते बालिग हो गए। उस समय राजा के घर में प्रत्येक-बुद्ध भोजन किया करते थे। बोधिसत्त्व उनकी सेवा में रहते। एक दिन बोधिसत्त्व ने सोचा—“मिरे भाई बहुत हैं। मुझे इस नगर में अपने कुल का राज्य मिलेगा वा नहीं?” फिर उसे विचार हुआ कि यह बात प्रत्येक बुद्धों से पूछ कर जानूंगा।

दूसरे दिन प्रत्येक बुद्धों के आने पर उसने धर्मकरक¹ ले, पानी छान, पाँव धो, तेल लगा, उनके भोजन कर चुकने पर, प्रणाम कर एक ओर बैठ वह बात पूछी। उन्होंने कहा—“कुमार! तुझे इस नगर में राज्य नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ से एक सौ बीस योजन की दूरी पर गन्धार, राष्ट्र में तक्कसिला (=तक्षशिला) नाम का नगर है। वहाँ जा सकने पर आज से सातवें दिन राज्य प्राप्त करेगा। लेकिन रास्ते में बड़े भारी जंगल में से जाने में खतरा है। उस जगल को छोड़ कर जाने से सौ योजन चलना होगा, सीधे (जंगल में से) जाने से पचास योजन। वह जंगल अमनुष्य-कान्तार है। उसमें रास्ते में यक्षिणियाँ ग्राम और शालायें बनाकर, ऊपर सुनहरे तारों से सजे हुए भँडुवे, उनके नीचे कीमती पलंग बिछवा, नाना प्रकार की रेशमी कनाते लगवा, अपने आप को दिव्य अलंकारों से सजाकर रहती हैं। जाते हुए आदमी को देखकर वह उसे मधुर वाणी से आमन्त्रित करती हैं “आप थके हुए मालूम देते हैं। यहाँ आकर, थोड़ा विश्राम करके, पानी पीकर जाएँ।” आदमी के आने पर, उसे आसन दे, अपने हास-विलास से मुग्धकर, अपने साथ रमण करने पर

¹ पानी छानने का बर्तन ।

वहीं उसे खून निचुड़ते हुए खाकर मार डालती हैं। जिसका रूप के प्रति आकर्षण होता है, उसे रूप के द्वारा ग्रहण करती है। जिसका शब्द के प्रति आकर्षण होता है, उसे मधुर गाने बजाने के शब्द से, जिसका गन्ध के प्रति उसे दिव्य गन्धों से, जिसका रस के प्रति उसे नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों द्वारा और जिसका स्पर्श के प्रति आकर्षण होता है उसे दोनों ओर लाल रंग के तकियो वाले दिव्य-शयनासनों से ग्रहण करती है। यदि इन्द्रियो को बिना चचल किए, उनकी ओर बिना ध्यान दिए, स्मृति को सावधान रख जाएगा, तो सातवे दिन राज्य लाभ करेगा।”

बोधिसत्त्व ने कहा—“भन्ते ! वे रहे ! अब मे आपका उपदेश ग्रहण करके क्या उनकी ओर देखूंगा ?” फिर प्रत्येक-बुद्धो से परित्राण-धर्मवेशना^१, कहलवा परित्त की बालू, परित्त का पानी, तथा परित्त-सूत्र लेकर प्रत्येक-बुद्धों, तथा माता पिता को प्रणाम कर घर में जाकर अपने आदमियों को कहा—“मैं तक्षशिला में राज्य पाने जा रहा हूँ। तुम यही रहो।”

उसके आदमियों में से पाँच ने कहा—“हम भी जाएंगे।”

“तुम नहीं चल सकोगे। रास्ते में यक्षिणियाँ रूप आदि से आकर्षित होने वाले आदमियों को इस इस प्रकार रूपादि का लोभ दिखा फँसा लेती है। बड़ा खतरा है। मैं तो अपने बल को देख कर जा रहा हूँ।”

“देव ! क्या तुम्हारे साथ जाते हुए हमें जो रूप अच्छे लगेंगे हम उधर देखेंगे। हम भी आप की तरह ही चलेंगे।”

“तो अप्रमादी होकर रहना” कह बोधिसत्त्व उन पाँच आदमियों को ले रास्ते पर चल पड़े।

यक्षिणियाँ ग्राम आदि बनाकर बैठी थी। उनमें जो रूप के प्रति आकर्षित होने वाला आदमी था, वह उन यक्षिणियों को देख उनके रूप पर मुग्ध हो थोड़ा रुका।

बोधिसत्त्व ने पूछा—“भो ! क्यों ? थोड़ा रुक क्यों गए हो ?”

“देव ! मेरे पाँव दरद करते हैं। थोड़ी देर शाला में बैठ कर आता हूँ।”

^१ कुछ विशेष सूत्रों का पाठ, जो आपत्ति में रक्षक होता है।

“भो ! यह यक्षिणियाँ हैं। इनकी इच्छा मत करो।”

“जो होना है सो हो, देव ! मैं तो अब चल नहीं सकता हूँ।”

“अच्छा तो पता लगेगा” कह बोधिसत्त्व बाकी चारों को लेकर चल दिए।

रूप पर आकर्षित हुआ वह आदमी उनके पास गया। यक्षिणियों ने उसे अपने साथ रमण करने पर उसी तरह मार कर आगे जाकर दूसरी शाला बनाई।

उस शाला में वह नाना प्रकार के बाजों को लेकर गाती हुई बैठीं। वहाँ शब्द के प्रति आकर्षित होने वाला रुका। उसे भी खाकर आगे जाकर नाना प्रकार के सुगन्धि से पूर्ण भाजनों की दूकान लगा कर बैठीं। वहाँ सुगन्धि के प्रति आकर्षित होने वाला रुका। उसे भी खाकर आगे जा नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों से बर्तनों को भर भोजन की दूकान लगाकर बैठीं। वहाँ रस के प्रति आकर्षित होने वाला रुका। उसे भी खाकर आगे जा दिव्य पलंग बिछा कर बैठी। वहाँ स्पर्श के प्रति आकर्षित होने वाला रुका। उसे भी खा गईं। बोधिसत्त्व अकेले रह गये।

तब एक यक्षिणी ने सोचा—“यह बड़ा करारा आदमी है। मैं इसे खाकर ही लौटूंगी।” वह बोधिसत्त्व के पीछे पीछे चली।

जंगल के अगले हिस्से में, जंगल में काम करने वाले आदमियों ने यक्षिणी को देख कर पूछा “यह तेरे आगे आगे जाने वाला तेरा क्या लगता है ?”

“आर्य ! यह मेरे प्रिय हैं।”

लोगों ने बोधिसत्त्व से कहा—“भो ! यह सुकुमार, फूलों की माला सदृश, सुन्दर बालिका अपने घर को छोड़कर तुम्हारा ही आश्रय देख निकली। इसे बिना थकाये साथ साथ लेकर क्यों नहीं जाते ?”

“आर्यों ! यह मेरी भार्या नहीं है। यह यक्षिणी है। यह मेरे पाँच आदमियों को खा गई।”

“आर्यों ! जब पुरुष क्रुद्ध होते हैं, तो अपनी भार्या को यक्षिणी भी बनाते हैं, प्रेतिनी भी बनाते हैं।”

उसने चलते चलते गर्भिणी की शकल बना और फिर पुत्र की माँ होने का सा रंग-रङ्ग कर गोद में पुत्र को लिए लिए बोधिसत्त्व का अनुगमन किया।

जो देखता वही पहले की तरह से पूछता। बोधिसत्त्व भी उसी तरह उत्तर देते हुए तक्षशिला पहुँचे।

वह यक्षिणी पुत्र को अन्तर्धान कर अकेली ही पीछे पीछे चली।

बोधिसत्त्व नगर-द्वार में प्रवेश कर एक शाला में बैठे। वह बोधिसत्त्व के तेज के कारण प्रविष्ट न हो सकी और दिव्य रूप बना शाला के द्वार पर ठहरी।

उस समय तक्षशिला से निकलकर उद्यान जाते हुए राजा ने उसे देख, उस पर अनुरक्त हो एक आदमी को भेजा कि देखे कि उसका कोई स्वामी है वा नहीं? उसने पास जाकर पूछा—“तेरा कोई स्वामी है?”

“हाँ, आर्य! यह शाला में बैठे हुए मेरे स्वामी है।”

बोधिसत्त्व ने कहा, “यह मेरी भार्या नहीं है। यह यक्षिणी है। यह मेरे पाँच आदमियों को खा गई।” उसने कहा—“पुरुष जब क्रुद्ध हो जाते हैं, तब जो चाहते हैं बोलते हैं।”

राज-पुरुष ने दोनों की बात राजा से निवेदन की। राजा ने ‘जिसका कोई स्वामी नहीं, वह वस्तु राजा की होती है’ कह यक्षिणी को बुलवा उसे एक हाथी की पीठ पर चढ़वा, नगर की प्रदक्षिणा कर, महल में जा पट-रानी बनाया।

शाम को स्नान और सुगन्धित लेपों के अनन्तर भोजन कर राजा सुन्दर पलंग पर लेटा। वह यक्षिणी भी अपने अनुकूल आहार खा, सज कर राजा के साथ पलंग पर लेटी। लेकिन जब राजा रति-सुख अनुभव करने लगा, तो वह एक तरफ पलट कर रोने लगी।

राजा ने पूछा—“भद्रे रोती क्यों है?”

“देव! तुम मुझे रास्ते में देखकर ले आए। तुम्हारे घर में बहुत स्त्रियाँ हैं। वे सपत्नीक स्त्रियाँ जब बात चलने पर मुझे कहेंगी ‘तेरे माता, तेरे पिता, तेरे गोत्र, वा तेरी जाति को कौन जानता है? तू रास्ते में देखकर ले आई गई है’ तो मैं सीस पकड़ कर दबा दी गई की तरह शर्मिदा हो जाऊँगी। यदि तुम मुझे सारे राष्ट्र का ऐश्वर्य और हुकूमत दे दो, तो कोई मेरे चित्त को दुखी करके ऐसी बात न कह सकेगा।”

“भद्रे! सारे राष्ट्र के निवासियों पर मेरा कुछ अधिकार नहीं। मैं

उनका स्वामी नहीं। हाँ, जो राजाज्ञा के विरुद्ध नहीं करना चाहिए ऐसा कोई काम करते हैं, उन्हीं का मैं स्वामी हूँ। इसलिए मैं तुम्हें सारे राष्ट्र का ऐश्वर्य और हुकूमत नहीं दे सकता।”

“अच्छा देव ! यदि राष्ट्र वा नगर का शासन मुझे नहीं सौंप सकते, तो जो घर के अन्दर के लोग हैं, घर के अन्दर रहने वाले हैं वे लोग मेरी हुकूमत में रहें, ऐसी आज्ञा दें।”

उसके दिव्य स्पर्श-सुख में बैठे हुए राजा की सामर्थ्य नहीं हुई कि अस्वीकार कर सके। उसने कहा—“भद्रे ! अच्छा ! मैं घर के अन्दर रहने वालों को तेरे अधीन करता हूँ। तू उनपर हुकूमत कर।”

वह “अच्छा” कह राजा के सो जाने पर यक्ष-नगर गई। वहाँ से यक्षों को बुला लाई। अपने राजा को मार कर हड्डी मात्र बाकी छोड़ सब नसें, चमड़ा, मांस तथा रक्त खा गई। बाकी यक्षों ने प्रधान द्वार के अन्दर जितने भी थे—मूर्गे और कुत्ते तक—सब को खाकर हड्डियाँ ही हड्डियाँ बाकी छोड़ीं।

अगले दिन लोगों ने दरवाजों को बन्द देख कुल्हाड़ियों से दरवाजों को तोड़, अन्दर घुस कर सारे घर को हड्डियों से भरा हुआ पाकर कहा—“वह आदमी ठीक ही कहता था कि यह मेरी भार्य्या नहीं है। यह यक्षिणी है। राजा ने बिना कुछ जाने ही उसे घर में रख अपनी भार्य्या बना लिया। वह यक्षों को बुलाकर सबको खाकर चली गई होगी।”

बोधिसत्त्व ने उस दिन उस शाला में **परित्त-बालुका** सिर पर रख **परित्त-सूत्र** से अपने आपको घेर खड्ग लिए खड़े ही खड़े सूर्य्य उगा दिया।

आदमियों ने सारे राज-महल को शुद्ध कर, गोबर से लीप और उसके ऊपर सुगन्धित लेप कर फूल बिखेर, पुष्पमालाएँ टाँग, धूप दे, नई मालाएँ बाँध सलाह की—“भो ! जिस आदमी ने दिव्य रूप धारण करके पीछे पीछे आती हुई यक्षिणी को इन्द्रियों को चंचल कर देखा तक नहीं, वह बहुत ही महान् धृतिमान् तथा ज्ञानवान् प्राणी है। उस तरह के आदमी के राजा बनने पर सारा राष्ट्र सुखी होगा। उसे राजा बनाएँ।”

तब सब अमात्यों तथा नगर-निवासियों ने एक राय हो बोधिसत्त्व के पास जा कहा—“देव ! आप इस राज्य को सँभालें।” फिर उन्हें नगर में ले जा रत्नों के ढेर में बिठा, अभिषेक कर **तक्षशिला** का राजा बनाया। वह

चार अग्रति-गामी कर्मों को छोड़, दस राज-धर्मों के विरुद्ध आचरण न कर धर्मानुसार राज्य करता हुआ दानादि पुण्य-कर्म कर कर्मानुसार परलोक सिधारा ।

शास्ता ने यह पूर्व-जन्म की कथा कह बुद्ध होने पर यह गाथा कही—

समतिक्तिकं अनवसेसकं
तेलपत्तं यथा परिहरेय्य ,
एवं सचित्तमनुरक्खे
पत्थयानो विसं अगतपुब्बं ॥

[जिस प्रकार किनारे तक लबालब भरे हुए तेल के पात्र को ले चले, उसी प्रकार निर्वाण की इच्छा करने वाले को चाहिए कि अपने चित्त की रक्षा करे ।]

समतिक्तिकं—किनारे तक भरा हुआ । अनवसेसकं, लबालब भरा हुआ । छानने के लिए कुछ बाकी न रख । तेलपत्तं—तिल का तेल डाला हुआ पात्र परिहरेय्य, हरण करे, लेकर जाए । एवं सचित्तमनुरक्खे, उस तेल भरे पात्र की तरह अपने चित्त को कायानुस्मृति तथा सम्प्रयुक्तानुस्मृति के बीच में रख मुहूर्त भर के लिए भी बाहर (किमी दूसरे विषय की ओर) न जाने दे । उस तरह योगाभ्यासी पण्डित को चाहिए कि वह (अपने चित्त की) रक्षा करे, सँभाल कर रखे । क्यों ? इसीलिए कि—

दुभिग्गहस्स लहुनो यत्थकामनिपातिनो ,
चित्तस्स दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावहं ॥

[कठिनाई से निग्रह किये जा सकने वाले, शीघ्रगामी, जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले चित्त का दमन करना अच्छा है । दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है ।]

इसलिए—

सुबुद्दसं सुनिपुणं यत्थकामनिपातिनं ,
चित्तं रक्खेथ मेधावी, चित्तं गुत्तं सुखावहं ॥

[बुद्धिमान् मनुष्य दुष्करता से दिखाई देने वाले, अत्यन्त चालाक, जहाँ

चाहे वहाँ जाने वाले चित्त की रक्षा करे। सँभाल कर रक्खा गया चित्त सुख देने वाला होता है।]

यही—

दूरङ्गमं एकचरं असरीरं गुहासयं,
ये चित्तं सञ्जमेस्सन्ति मोक्खन्ति मारब्बन्धना ॥

[जो दूरगामी, अकेले विचरने वाले, निराकार, गुह्याशय चित्त का संयम करेंगे, वे ही मार के बन्धन से मुक्त होंगे।]

लेकिन दूसरे—

अनवट्ठितचित्तस्स सद्धम्मं अविजानतो,
परिप्लवपसादस्स पञ्जा न परिपूरति ॥

[जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सद्धर्म को जानता नहीं, जिसका चित्त प्रसन्न नहीं वह कभी प्रज्ञावान् नहीं हो सकता।]

लेकिन जिसका कर्मस्थान स्थिर है—

अनवस्सुतचित्तस्स अनन्वाहतच्चेतसो,
पुञ्जपापपहीनस्स नत्थि जागरतो भयं ॥

[जिसका चित्त आसक्ति-रहित है, जिसका चित्त स्थिर है, जो पाप-पुण्य से परे है, उस जागरूक पुरुष के लिए भय नहीं।]

इसलिए—

फन्दनं चपलं चित्तं दुरक्खं दुग्घिवारयं,
उज्जं करोति मेघावी उसुकारो व तेजनं ॥

[चित्त चंचल है, चपल है, दुर्-रक्ष्य है, दुर्-निवार्य है। मेघावी-पुरुष इसे उसी प्रकार सीधा करता है, जैसे बाण बनानेवाला बाण को।]

इस प्रकार सीधा करते हुए अपने चित्त की रक्षा करे। पत्थयानो विसं अगतपुब्बं, इस कायानुस्मृति कर्मस्थान को आरम्भ करके बिना सिरों के संसार में अगतपूर्व दिशा की प्रार्थना करते हुए, उसे चाहते हुए अपने चित्त की रक्षा करे। लेकिन यह अगतपूर्व (—जहाँ पहले नहीं गये) दिशा कौन सी दिशा है—

मातापिता विसापुब्बा आचरिया वक्खिणा विसा
पुत्तदारा विसा पच्छा मित्ता मच्चा च उत्तरा
वासकम्मकरा हेट्ठा उद्धं समणब्राह्मणा,
एता विसा नमस्सेय्य अलमत्थो कुले गिही ॥

[माता पिता पूर्व-दिशा हैं, आचार्य दक्षिण दिशा। पुत्र-स्त्री पश्चिम दिशा है, मित्र-अमात्य उत्तर दिशा। दास-कर्मकर नीचे की दिशा हैं, श्रमण-ब्राह्मण ऊपर की दिशा। हैसियत वाला गृहस्थ अपने कुल में इन दिशाओं को नमस्कार करे।]

यहाँ तो पुत्र स्त्री आदि दिशाएँ कहीं गईं।

विसा चतस्सो विद्विसा चतस्सो,
उद्धं अधो वसविसा इमायो ॥
कतमं विसं तिट्ठति नागराजा,
यमद्दसा सुपिने छब्बिसाणं ॥

[चार दिशाएँ, चार अनु-दिशाएँ, ऊपर और नीचे इस प्रकार यह दस दिशाएँ हैं। वह छः दाँतों वाला नागराजा किस दिशा में रहता है ?]

यहाँ पूर्व आदि दिशाओं को दिशा कहा गया है।

अगरिनो अन्नवपाणवत्थदा
अव्हायिका नम्पि विसं वदन्ति,
एसा विसा परमा सेतकेतु !
यं पत्त्वा दुक्खी सुखिनो भवन्ति ॥

[भोजन और वस्त्र देने वाले निमन्त्रण देने वाले गृहस्थों को भी 'दिशा' कहते हैं। लेकिन हे सेतकेतु ! वही दिशा परम दिशा है जिसे प्राप्त कर दुखी सुखी हो जाते हैं।]

यहाँ 'निर्वाण' को दिशा कहा गया है। यहाँ भी निर्वाण से ही मतलब है। वह क्षय तथा विराग में दिखाई देती है (विस्सति) इसीलिए दिशा कहा है। इस बिना सिर के संसार में कोई मूर्ख पृथक-जन स्वप्न में भी कभी उधर नहीं गया, इसलिए अगत-पूर्व दिशा कहा। उसकी इच्छा करने वाले को कायानुस्मृति का अभ्यास करना चाहिए।

इस प्रकार शास्ता ने अपने उपदेश को निर्वाण पर समाप्त कर जातक का सारांश निकाला ।

उस समय की राज परिषद अब की बुद्ध परिषद थी । राज्य-प्राप्त कुमार तो मैं ही था ।

६७. नामसिद्धि जातक

जीवकञ्च मलं दिस्वा, यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते हुए एक नाम-सिद्धि भिक्षु के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

एक तरुण का नाम ही था पापक । वह श्रद्धा से बुद्ध-शासन में प्रव्रजित हो गया । भिक्षु उसे बुलाते—“आयुष्मान् पापक आओ, आयुष्मान् पापक ठहरो ।” वह सोचने लगा—“दुनिया में ‘पापक’ नाम बहुत खराब है, मनहूस है । मैं दूसरा अच्छा रखवाऊँगा ।”

उसने आचार्य्य उपाध्यायों के पास जाकर कहा—“भन्ते ! मेरा नाम अमाङ्गलिक है । मुझे दूसरा नाम दें ।”

उन्होंने कहा—आयुष्मान् ! नाम प्रज्ञप्ति-मात्र है । बुलाने भर को है । नाम से कोई अर्थ-सिद्धि नहीं होती । जो नाम है उसी से संतुष्ट रह ।

उसने बार बार आग्रह किया । भिक्षु संघ में सभी जान गए कि इसे अच्छे नाम का आग्रह है ।

तब एक दिन धर्मसभा में बैठे भिक्षुओं ने बात-चीत चलाई ‘आयुष्मानो ! अमुक भिक्षु नाम में सिद्धि समझता है और अच्छा नाम ढूँढ़ता है ।’

तब शास्ता ने धर्म-सभा में आकर पूछा—“भिक्षुओ, बैठे क्या बात-चीत कर रहे थे ?”

“यह बातचीत ।”

“भिक्षुओ, वह केवल अभी नाम सिद्धिक नहीं हैं, वह पहले भी नाम में ही सिद्धि समझता रहा है।”—यह कह पूर्व-जन्म की कथा कही ।

स्व. अतीत कथा

पूर्व समय में तक्षशिला में बोधिसत्त्व अत्यन्त विख्यात आचार्य हुए । ये पाँच सौ शिष्यों को मन्त्र (—वेद) पढाते थे । उनके एक शिष्य का नाम था ‘पापक’ । उसे लोग बुलाते, “पापक ! आ । पापक ! जा ।”

उसने सोचा—मेरा नाम अमाङ्गलिक है । मैं दूसरा नाम रखवाऊँगा ।

वह आचार्य के पास जाकर बोला, “आचार्य ! मेरा नाम अमाङ्गलिक है । मुझे दूसरा नाम दें ।”

आचार्य ने कहा, “तात ! जा, देश में घूम कर जो तुझे अच्छा लगे, ऐसा एक माङ्गलिक नाम ढूँढ़ कर ला । आने पर तेरा नाम बदल दूँगा ।”

वह ‘अच्छा’ कह, रास्ते के लिए खुराकी ले निकल, एक गाँव से दूसरे गाँव घूमता हुआ, एक नगर में पहुँचा ।

वहाँ, ‘जीवक’ नाम का एक आदमी मर गया था । उसे उसके रिश्तेदार जलाने के लिए ले जा रहे थे । उसने देख कर पूछा ‘इसका क्या नाम रहा ?

“इसका नाम ‘जीवक’ था ।”

“क्या ‘जीवक’ भी मरता है ?”

“जीवक’ भी मरता है, और ‘अजीवक’ भी । नाम तो पुकारने भर को होता है । मालूम होता है कि तू मूर्ख है ।”

यह बात सुन, वह नाम के प्रति कुछ उदासीन हो नगर में गया । वहाँ एक दासी को उसके मालिक काम करके मजदूरी न ला देने के कारण दरवाजे पर बिठा कर रस्सी से पीट रहे थे । उस दासी का नाम था ‘धनपाली’ ।

‘पूर्व समय में दासियों को रखकर उनसे “मजदूरी” करवाते थे । भूति शब्द का यहाँ यही अर्थ है ।

उसने गली में से गुजरते हुए उसे पिटते देख कर पूछा । “इसे क्यों पीट रहे हैं ?”

“यह मजदूरी नहीं ला कर दे सक रही है ।”

“इसका नाम क्या है ?”

“इसका नाम है धनपाली ?”

“नाम से धनपाली है, तो भी मजदूरी मात्र भी (कमाकर) नहीं (ला) दे सकती है ?”

“धनपाली भी दरिद्र होती है अधनपाली भी । नाम बुलाने भर को होता है । मालूम होता है तू मूर्ख है ।”

वह नाम के प्रति कुछ श्रीर उदासीन हो नगर से निकला । रास्ते में उसने एक आदमी को देखा जो रास्ता भटक गया था । उसने पूछा “तुम क्या करते घूम रहे हो ?”

“स्वामी ! मैं रास्ता भूल गया हूँ ।”

“तुम्हारा नाम क्या है ?”

“पन्थक” ।

“पन्थक भी रास्ता भूलते हैं ?”

“पन्थक भी भूलते हैं, अपन्थक भी भूलते हैं । नाम पुकारने भर के लिए है । मालूम होता है तू मूर्ख है ।”

वह नाम के प्रति बिलकुल उदासीन हो बोधिसत्त्व के पास गया । बोधिसत्त्व ने पूछा—“क्यों तात ! अपनी रुचि का नाम ढूँढ़ लाये ?”

“आचार्य ! जीवक भी मरते हैं अजीवक भी । धनपाली भी दरिद्र होती है अधनपाली भी । पन्थक भी रास्ता भूलते हैं, अपन्थक भी । नाम बुलाने भर को होता है । नाम से सिद्धि नहीं है । कर्म से ही सिद्धि होती है, मुझे दूसरे नाम की जरूरत नहीं है । मेरा जो नाम है, वही रहे ।”

बोधिसत्त्व ने उसके देखे श्रीर किए को मिलाकर यह गाथा कही—

जीवकञ्च मतं दिस्वा धनपालिञ्च बुगगतं,

पन्थकञ्च वने मूळ्हं पापको पुनरागतो ॥

[जीवक को मरा देख, धनपाली को दरिद्र देख, पन्थक को जंगल में भटकता देख, ‘पापक’ फिर लौट आया ।]

पुनरागतो—इन तीन बातों को देख कर पुनः लौट आया । 'र' सन्धि के कारण है ।

शास्ता ने यह पूर्व जन्म की कथा सुना 'भिक्षुग्रो, यह केवल इसी जन्म में नामसिद्धिक नहीं है, पहले भी नामसिद्धिक ही रहा है' कह जातक को मिलाया ।

उस समय का नामसिद्धिक अब का नामसिद्धिक ही है । आचार्य की परिषद अब की बुद्ध-परिषद । आचार्य तो मैं ही था ।

६८. कूटवाणिज जातक

साधु खो पण्डितो नाम, यह (गाथा) शास्ता ने जेदवन मे विहार करते समय एक ठग बनिये के वारे मे कही ।

क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती मे दो जने साभे मे व्यापार करते थे । वे गाड़ियो मे सामान लेकर दीहात गए और वहाँ से नफा कमाकर लौटे । उनमे से ठग बनिए ने सोचा—“यह (बनिया) बहुत दिन तक भोजन और शय्या के ठीक ठीक न मिलने से कष्ट पाता रहा है । अब घर में नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन पेट भर खा अजीर्ण से मरेगा । इसलिए मैं सब सामान के तीन हिस्से कर एक उसके बच्चों को दूंगा । दो हिस्से स्वयं लूंगा ।”

वह 'आज बाँटता हूँ, कल बाँटता हूँ' करता हुआ सामान का बटवारा नहीं करना चाहता था । पंडित बनिये ने उस अनिच्छुक बनिए पर जोर डाल उससे बटवारा कराया । तब वह बिहार गया । वहाँ शास्ता को प्रणाम कर

कुशल क्षेम पूछे जाने पर शास्ता ने कहा—“तूने देर की । चिरकाल से आकर भी बुद्ध की सेवा मे इतनी देर से उपस्थित हुआ ।”

उसने वह सब बात बुद्ध से निवेदन की ।

शास्ता बोले—“उपासक ! यह बनिया केवल अभी ठग बनिया नहीं है । यह पहले भी ठग बनिया ही था । अब इसने तुझे ठगने की इच्छा की । पूर्व समय मे भी पंडितों को ठगने का प्रयत्न किया ।” यह कह पूर्व जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी मे राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्त्व बाराणसी मे बनिए के कुल मे पैदा हुए । नाम रखने के दिन उसका नाम ‘पण्डित’ रक्खा गया । आयु बढ़ने पर वह एक दूसरे बनिए के साथ साभे मे व्यापार करने लगा । उस (दूसरे बनिए) का नाम अतिपण्डित था । वे बाराणसी से पाँच सौ गाड़ियों पर सामान लाद दीहात मे जा, व्यापार कर नफा कमाकर बाराणसी लौटे ।

उनके सामान का बटवारा करते समय अतिपण्डित ने कहा—“मुझे दो हिस्से मिलने चाहिए । क्यों ? तू पंडित है । मैं अतिपण्डित । पंडित को एक हिस्सा मिलना चाहिए । अतिपंडित को दो ।”

“क्या हम दोनों की पूंजी (भण्ड-मूल) और बैल आदि बराबर बराबर नहीं रहे है; फिर तुझे दो हिस्से क्यों मिलने चाहिए ?”

“अतिपण्डित होने के कारण ।” इस प्रकार उन दोनों ने बात बढ़ाकर भगड़ा (शुरू) किया । तब अतिपण्डित, ने ‘एक उपाय है’ सोच कर अपने पिता को एक खोखले वृक्ष में रख कर कहा—“हमारे दोनों के आने पर, तू कहना कि अतिपंडित को दो हिस्से मिलने चाहिए ।”

यह कह बोधिसत्त्व के पास जा कर कहा—“सौम्य ! मुझे दो हिस्सा मिलना उचित है, वा अनुचित, इस बात को यह वृक्ष-देवता जानता है । आ, उससे पूछे ।” (फिर) उसे वहाँ ले जाकर कहा—‘आर्य ! वृक्ष-देवता ! हमारे भगड़े का निर्णय आप करें ।’

उसके पिता ने स्वर बदल कर कहा—“तो (भगड़ा) कहो ।”

“आर्य ! यह पंडित है, मे ‘अतिपंडित’ हूँ । हमने साभा व्यापार किया है । सो किसे क्या मिलना चाहिए ?”

“पंडित को एक हिस्सा, अतिपंडित को दो हिस्से ।”

बोधिसत्त्व ने भगड़े का यह फैसला सुन कर, “यहाँ देवता है कि अदेवता, जानना चाहिए” (सोच) पुआल (घास) ला, वृक्ष के खोखले में भर आग लगा दी । अति-पंडित के पिता ने आग लगनी शुरू होने पर अध-जले शरीर से (वृक्ष) के ऊपर चढ़ शाखा पकड़, लटकते हुए, पृथ्वी पर गिर कर यह गाथा कही—

साधु खो पण्डितो नाम नत्वेव अतिपण्डितो,
अतिपण्डितेन पुत्तेन मनस्हि उपकूलितो

[‘पंडित’ अच्छा है, ‘अति-पंडित’ अच्छा नहीं । (इस) ‘अति-पंडित’ पुत्र ने मुझे, क्षण भर में जला ही दिया था ।]

साधु खो पण्डितो नाम, इस लोक में पाण्डित्य से युक्त, कारण अकारण का ज्ञाता आदमी अच्छा है, शोभा देता है । अतिपण्डितो, नाम मात्र से अति-पंडित, कुटिल आदमी अच्छा नहीं । मनस्हि उपकूलितो, (मतलब) थोड़े में और जल गया होता, अधजला ही छटा हूँ ।

उन दोनों ने बीच में से बाँट कर, बराबर बराबर का हिस्सा लिया । (फिर) यथा-कर्म (परलोक) गये ।

शास्ता ने ‘पहले भी यह कुटिल-व्यापारी ही था’ कह इस पूर्वजन्म की कथा को ला, जातक का सारांश निकाल दिया ।

उस समय का कुटिल-व्यापारी, अबका कुटिल-व्यापारी था । बुद्धिमान व्यापारी तो मैं ही था ।

६६. परोसहस्स जातक

“परोसहस्सम्पि समागतानं” यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक अज्ञ (पृथक्-जन) द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में कही ।

क. वर्तमान कथा

(इसकी) कथा (=वस्तु) सरभङ्ग जातक^१ में आयेगी ।

एक बार धर्मसभा में एकत्र बैठे हुए भिक्षु ‘आवुसों! बुद्ध के संक्षिप्त उपदेश को धर्म सेनापति सारिपुत्र ने विस्तार से कहा’ करके (सारिपुत्र) स्थविर की प्रशंसा कर रहे थे । शास्ता ने आकर पूछा—“भिक्षुओ! इस वक्त बैठे क्या बात कर रहे थे ?” उनके “यह (बान)” कहने पर, शास्ता ने, ‘भिक्षुओ! न केवल अभी सारिपुत्र, मेरे संक्षिप्त कथन की विस्तार से व्याख्या करता है, उसने पहले भी की थी’, कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व (एक) उदीच्य ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुआ था । उसने तक्षशिला में सभी शिल्पों (विद्याओं) को सीखा; फिर विषय-भोगों को छोड़, ऋषि प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित हो, पाँच अभिज्ञा और आठ समापत्तियों को प्राप्त कर, हिमालय में रहने लगा । पाँच सौ तपस्वी, इसके अनुयायी थे; उसका प्रधान-शिष्य, वर्षाकाल में, आधे (ढाई सौ) ऋषि-गण को लेकर, लोणम्बिल (निमक-खटाई) खाने के लिए बस्ती (मनुष्य पथ) में चला आया ।

^१ सरभङ्ग जातक (५२२)

उस समय बोधिसत्त्व का अन्तिम-समय समीप आ गया था। उसके (बाकी) शिष्यों ने 'अधिगम'^१ पूछा—“आपने कौनसा गुण प्राप्त किया ?” ‘कुछ नहीं’ कह आभास्वर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। (अरूप-)ध्यान लाभी होने पर भी, बोधिसत्त्व, (अरूप-लोक) उनके अनुकूल न होने से अरूप-लोक में उत्पन्न नहीं होते।

शिष्यों ने ‘आचार्य को ‘अधिगम’ नहीं है, सोच दाह करने के समय (विशेष) सत्कार नहीं किया। प्रधान शिष्य ने लौटकर पूछा—“आचार्य कहाँ हैं ?” “काल कर गये।”

यह सुन उसने कहा—“क्या आचार्य से ‘अधिगम’ पूछा ?”

“हाँ ! पूछा।”

“(आचार्य ने) क्या कहा ?”

“उन्होंने कहा ‘कुछ नहीं,’ सो हमने उनका (विशेष) सत्कार नहीं किया।” प्रधान शिष्य ने कहा—“तुमने आचार्य के अर्थ को नहीं समझा, आचार्य आ-किञ्चञ्जायतन ध्यान के लाभी थे।” उन्होंने उसके वार बार कहने पर भी विश्वास न किया। बोधिसत्त्व ने, यह बात मालूम होने पर ‘यह अन्धे-मूर्ख, मेरे प्रधान शिष्य के कहने का विश्वास नहीं करते, इन्हें यह बात प्रगट करूँगा’ (सोच) ब्रह्मलोक से आकर, आश्रम के ऊपर बड़ी शान से, आकाश में खड़े ही, (अपने) शिष्य की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए यह गाथा कही—

परोसहस्सम्पि समागतानं
कन्देय्युं ते वस्ससतं अपञ्जा,
एकोव सेदयो पुरिसो सपञ्जो,
यो भासितस्स विजानाति अत्थं ॥

[सहस्राधिक भी अप्रज्ञावान (आदमी) आकर संकड़ों वर्ष चिल्लाते रहे, उन सबसे (वह) एक ही प्रज्ञावान् अच्छा है, जो भाषित (=कहे) के अर्थ को समझता है।]

^१ ध्यान-विशेष की प्राप्ति-अप्राप्ति विषयक प्रश्न।

परोसहस्रस्य, सहस्राधिक, समागतानं, इकट्टे हुए हुआ का, कही बात के अर्थ को न समझ सकने वाले मूर्खों का । कन्देय्यं ते वस्ससतं अपञ्जा, वे, इस प्रकार आये हुए, इन मूर्ख तपस्वियों की तरह, सौ वर्ष तक भी, हजार वर्ष तक भी चिल्लाते रहें, पीटते रहे, वे चिल्लाते हुए भी इस अर्थ (=मतलब) को नहीं जान सकेंगे । एकोव सेय्यो पुरिसो सपञ्जो, इस प्रकार के सहस्राधिक मूर्खों की अपेक्षा पंडित आदमी अकेला ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ-तर है । कैसा प्रज्ञावान् ? यो भासितस्स विजानाति अत्थं, जो भाषित का अर्थ जानता है, जैसे यह प्रधान शिष्य ।

इस प्रकार महासत्त्व (=बोधिसत्त्व), आकाश में खड़े ही खड़े, धर्मोपदेश दे, तपस्वी के गुण का बोध (=जानकारी) करवा, ब्रह्मलोक को चले गये । वे तपस्वी भी जीवन के अन्त में ब्रह्मलोकगामी ही हुए ।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला, जातक का सारांश निकाला । उस समय का प्रधान शिष्य (अब का) सारिपुत्र ही था । लेकिन महा-ब्रह्मा मैं ही था ।

१००. असातरूप जातक

“असातं सातरूपेन” यह (गाथा) शास्ता ने (शाक्य देश के) कुण्डिय नगर के पास, कुण्डधान वन में विहार करते समय, कोलिय राज-कुमारी उपासिका सुप्पवासा के बारे में कही ।

क. वर्तमान कथा

उस समय वह सात-वर्ष तक अपनी कोख में गर्भ-धारण कर, एक सप्ताह से गर्भ बिगड़ जाने के कारण (दुखी थी) । उसको अत्यंत वेदना हो रही थी ।

लेकिन वैसी पीड़ा होने पर भी 'वह भगवान् सम्यक् सम्बुद्ध है, वे इस प्रकार के दुःख के नाशार्थ धर्मोपदेश देते हैं; उन भगवान् का श्रावक संघ सुप्रतिपन्न है, जो इस प्रकार के दुःख के नाश के लिए प्रयत्नशील है, निर्वाण (ही) सुख है जहाँ इस प्रकार का दुःख नहीं है'—इन तीन विचारों पर विचार कर, दुःख को सहती रही। फिर उसने अपने स्वामी को बुला, शास्ता के पास भेजा ताकि वह (शास्ता से) उसका प्रणाम और हाल कहे।

शास्ता ने उसका प्रणाम करना सुनते ही कहा—“कोलिय-कुमारी सुप्प-वासा, सुखी हो। (स्वयं) सुखी हो, वह अरोगी पुत्र को जन्म दे।”

भगवान् के (मुँह से) वचन (निकलने) के साथ ही, कोलिय-कुमारी सुप्पवासा सुखी हो गई और उसने स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उसके स्वामी ने घर जाकर उसे प्रसूता देख, कहा 'भो ! आश्चर्य है ! अत्यन्त आश्चर्य है। तथागत के प्रताप से अत्यन्त आश्चर्य कर, अद्भुत तथा विचित्र बात हुई।'।

सुप्पवासा ने पुत्र को जन्म दे (अपने स्वामी को) फिर शास्ता के पास भेजा ताकि वह बुद्ध-प्रमुख भिक्षुसंघ को एक सप्ताह के दान का निमन्त्रण दे आये।

उस समय महाभौद्गल्यायन के उपस्थायक (==सेवक) ने बुद्ध-प्रमुख संघ को निमन्त्रित किया हुआ था। शास्ता ने सुप्पवासा के लिए दान देने की जगह निकालने को, स्थविर को उस (उपस्थायक) के पास भेज, उसे सूचना दिलवा, सुप्पवासा का दान अपने और संघ के लिए स्वीकार किया। सुप्पवासा ने सातवें दिन सीवली-कुमार पुत्र को सजाकर उससे शास्ता और भिक्षु-संघ को प्रणाम कराया। उसे क्रम से सारिपुत्र स्थविर के पास ले जाने पर सारिपुत्र स्थविर ने उससे कुशल-समाचार पूछा—“क्यों सीवली ! अच्छी तरह से तो हो ?” उसने 'भन्ते ! मुझे सुख कहाँ ? मैं सात वर्ष तक लोह-कुम्भ (नरक) में रहा' कह स्थविर के साथ इस प्रकार बातचीत की।

उसकी बातचीत सुन भैरा सात दिन का जाया (==पुत्र) अनुबुद्ध, धर्म-सेनापति के साथ मन्त्रणा (==बातचीत) करता है' सोच (सुप्पवासा) अत्यंत प्रसन्न हुई। शास्ता ने पूछा—“सुप्पवासे ! और भी इस प्रकार के पुत्रों की इच्छा है ?”

“भन्ते ! यदि इस प्रकार के और सात पुत्र मिलें, तो सातों को चाहूँगी !” शास्ता उदान कह, (दान का) अनुमोदन कर चले गये । सीवली-कुमार सात ही वर्ष की आयु में शासन में अत्यंत श्रद्धा-पूर्वक प्रव्रजित हुआ, (बीस) वर्ष पूरे होने पर, उपसम्पदा प्राप्तकर, पुण्यवान् (चीवर आदि) पाने वालों में अग्र हुआ और पृथ्वी को उन्नादित कर, अर्हत्पद प्राप्त कर, पुण्यवानों में प्रथम स्थान प्राप्त किया ।

एक दिन धर्म-सभा में बैठे हुए भिक्षुओं ने बातचीत चलाई—“आवुसो ! सीवली स्थविर इस प्रकार के महापुण्यवान् है । उनकी इच्छा सम्पूर्ण हुई है । वह अन्तिम देह-धारी है ! (लेकिन फिर भी) वह सात वर्ष तक लोह-कुम्भ नरक में रहे, सप्ताह तक गर्भ के बिगाड़ में रहे, जिससे, अहो ! माता-पुत्र ने अत्यंत दुःख पाया । ऐसा उन्होंने क्या (पाप-) कर्म किया था ?”

शास्ता ने वहाँ जाकर पूछा—“भिक्षुओ ! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे थे ?”

“यह (बात)” कहने पर शास्ता ने “भिक्षुओ ! सीवली, का महापुण्यवान् होना, सात वर्ष तक लोह-कुम्भ नरक में रहना, सप्ताह भर तक गर्भ का बिगाड़ रहना, यह उसके अपने किये कर्म का ही फल है; और सुप्पवासो, का भी सात वर्ष तक गर्भ ढोये फिरने का दुःख, तथा सात दिन तक गर्भ के बिगड़े रहने का दुःख, उसके अपने किये कर्म का ही फल है” कह, उनके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी, में (राजा) ब्रह्मदत्त, के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व ने उसकी पटरानी की कोख में जन्म ग्रहण किया । सयाने हो तक्षशिला, में सब शिल्पों को सीखा; और पिता के मरने पर राज्य प्राप्त कर वह धर्मानुकूल राज्य करने लगा । उस समय कोसल-नरेश ने बड़ी भारी सेना के साथ आ, बाराणसी को जीत, राजा को मार डाला और उसकी ही पटरानी को अपनी पट-रानी बनाया । बाराणसी राजा के पुत्र ने, पिता के मरने के समय, चोर-दरवाजे से भाग, सेना एकत्र कर, बाराणसी,

पहुँच, (उससे) थोड़ी दूर पर बैठ, राजा के पास सन्देश भेजा कि चाहे युद्ध दो अथवा राज्य ? उसने प्रत्युत्तर भेजा—युद्ध दूँगा । राजा की माता ने उस खबर को सुन सन्देश भेजा—“युद्ध करने की आवश्यकता नहीं । सब रास्तों को रोक कर, चारों ओर से बाराणसी नगर को घेर लो । उससे लकड़ी, पानी, अनाज (=भात) की कमी होने से मनुष्य तंग आ जायेंगे । (फिर) तू बिना युद्ध के भी नगर को ले सकेगा ।”

उसने माता का सन्देश पा, रास्तों को रोक कर, सात दिन तक नगर को घेरे रक्खा । नगर-निवासियों ने रास्ता न पाने पर, सातवें दिन, उस राजा का सिर ले जाकर कुमार को दिया । कुमार ने नगर में प्रवेश कर, राज्य ग्रहण किया । आयु समाप्ति होने पर वह कर्मानुसार (परलोक) सिधारा । उस समय के सात दिन तक (लोगों का) रास्ता बंद कर, नगर को घेर कर जीतने के कर्म-फल स्वरूप, वह इस समय, सात वर्षों तक लोह-कुम्भि नरक में रह कर, सात दिन तक गर्भ के बिगाड़ में रहा । लेकिन जो पदुमुत्तर (पयोत्तर बुद्ध) के समय, महादान देकर 'में' (प्रत्यय) लाभियों में अबल नम्बर होऊँ करके, उनके चरणों में प्रार्थना (=वलवती इच्छा) की, और जो, विपस्सी, बुद्ध के समय, नगर निवासियों महित सहल के मूल्य का गुड़-दहि दे कर, प्रार्थना की, उसके प्रताप से, वह (वस्तु) लाभियों में प्रथम हुआ । शास्ता ने यह पूर्व-जन्म की कथा ला, बुद्ध हुए रहने पर यह गाथा कही—

असातं सातरूपेन पियरूपेन अप्रियं,
दुःखं सुखस्स रूपेण पमत्तमतिवत्तति ॥

[असात (=अमधुर) मधुर स्वरूप; अप्रिय प्रिय स्वरूप; दुःख सुख स्वरूप होकर, प्रमादी आदमी को जीत लेता है ।]

असातं सातरूपेण, अमधुर ही, मधुर से जो कि उल्टा है । पमत्तमतिवत्तति, अमधुर, अप्रिय, दुःख—इन तीनों को इस मधुर-स्वरूप आदि आकार से, स्मृति की अस्थिरता के कारण, प्रमादी (=आलसी) आदमी को लाँघ जाते हैं, जीत लेते हैं, नीचा दिखा देते हैं ।

यह जो भगवान् ने कहा, सो यह, “माता-पुत्र के इस गर्भ-व्यकरण या गर्भ-निवास नामक प्रतिकूल वेदना से पहले नगर को रोकने आदि की अनुकूल (वेदना) के दब जाने के सम्बन्ध में, और यह जो उपासिका ने उस असात (=प्रतिकूल), अप्रिय, दुःख, (स्वरूप) प्रेम-वस्तु-भूत पुत्र (के पाने की वेदना) के, अनुकूल-वेदना से दब जाने पर कहा, सो उसके सम्बन्ध में—इस प्रकार—इन सब के सम्बन्ध में कहा; ऐसा जानना चाहिए।

शास्ता ने इस धर्म देशना को ला, जातक का सारांश निकाल दिया।

उस समय नगर को रोक कर राज्य प्राप्त करने वाला कुमार (अब का) **सीयली** था। माता, सुप्पवासा थी। लेकिन पिता बाराणसी-राजा तो मैं ही था।

सहायक ग्रन्थों की सूची

१. जातक पालि (सिंहल लिपि)—सात खंड; प्रकाशक, त्रिपिटक पब्लिकेशन प्रेस, कोलम्बु ।
२. जातक (रोमन लिपि) बी० फोसबोल द्वारा सम्पादित—सात खंड, प्रकाशक, टूबनेर एण्ड कम्पनी, लन्दन ।
३. जातक (बङ्गला)—छः खंड, अनुवादक श्री ईशान् चन्द्र घोष ।
४. जातक (अंग्रेजी)—छः खंड, सम्पादक ई० बी० कौवेल ।
५. जातक (स्यामी लिपि)—दो खंड ।
६. पन् सिय पणस जातक पोत् (सिंहल)—पाँच सौ पचास जातक ग्रन्थ ।
७. जातक गाथा सन्नय (सिंहल)—जातक गाथाओं पर टीका । आचार्य्य बद्देगम धर्मरत्न कृत ।
८. महावंस (हिन्दी)अमुद्रित—अनुवादक, आनन्द कौसल्यायन ।
९. दीघनिकाय (हिन्दी)—अनुवादक, रा० सांकृत्यायन तथा ज० काश्यप ।
१०. मज्झिम निकाय (हिन्दी)—अनुवादक, राहुल सांकृत्यायन ।
११. विनय पिटक (हिन्दी)—अनुवादक, राहुल सांकृत्यायन ।
१२. विसुद्धिमग्गो—सम्पादक, धर्मानन्द कोसम्बी; प्रकाशक, भारतीय विद्या भवन, बम्बई ।
१३. अभिधर्मकोश (वसुवन्धु प्रणीतः)—राहुल सांकृत्यायन विरचितया टीकया सहितः; प्रकाशक, काशी विद्यापीठ, बनारस ।
१४. मिलिन्द-प्रश्न (हिन्दी)—अनुवादक, जगदीश काश्यप; प्रकाशक भिक्षु ऊ० कित्तिम स्थविर, सारनाथ ।
१५. भगवान् बुद्ध (मराठी) लेखक, धर्मानन्द कोसम्बी; सुविचार प्रकाशन मंडल, पूणे ।

१६. जातक माला (अंग्रेजी)—संस्कृत से जे० एस० स्पेन्सर द्वारा अनूदित ।
१७. भरहुत शिलालेख (अंग्रेजी)—बरुआ एण्ड सिंह, कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रेस ।
१८. ए गाइड टु साँची (अंग्रेजी)—जान मार्शल, गवर्नमेंट प्रिंटिंग इण्डिया ।
१९. ए गाइड टु टैंकिसला (अंग्रेजी)—जान मार्शल, गवर्नमेंट प्रिंटिंग इण्डिया ।
२०. बुद्धिस्ट बर्थ स्टोरीज़ (अंग्रेजी)—रीज़ डेविड्स, ब्राडवे ट्रान्सलेशन सीरीज़ ।
२१. प्रि-बुद्धिस्ट इण्डिया (अंग्रेजी)—रति लाल मेहता, वाम्बे एक्झामिनेर प्रेस ।
२२. भारतीय इतिहास की रूपरेखा (२ खण्ड)—जयचन्द्र विद्यालङ्कार, हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग ।
२३. भारतभूमि और उसके निवासी—जयचन्द्र विद्यालङ्कार, रत्नाश्रम, आगरा ।
२४. जातक टेल्स (अंग्रेजी)—एच० टी० फ्रैंसिस, ई० जे० थामस, केंम्बेज यूनिवर्सिटी प्रेस ।
२५. माडर्न रिच्यू (अंग्रेजी)—अक्टूबर, नवम्बर (१९१०) ।
२६. भारतीय मूर्तिकला—रायकृष्ण दास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ।
२७. भारतीय चित्रकला—रायकृष्ण दास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ।
२८. इण्डियाज पास्ट (अंग्रेजी)—डी० भैकडानल ।
२९. डिक्शनरी ऑफ पालि ओपर नेम्स (अंग्रेजी)—मलल सेकर ।
३०. बुद्धिस्ट आर्ट—ए० फुशेर, लंदन १९१७.
३१. अन्य कई ग्रन्थ जिनका यथास्थान उल्लेख हो गया है ।

वीर सेवा मन्दिर
पुस्तकालय